

पता-शास्त्रप्रकाश कार्यालय विद्वापुर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद

जोइम

सूर्यसिद्धान्त

अर्थात्

खगोलविद्या का अतिप्राचीन सर्वमान्य आर्यग्रन्थ
जिस को घने २१६५००० सौर वर्ष हुवे

जिस द्वे

श्रीयत वा० शिवरामसिंह जी के कनिष्ठ पुत्र श्री
उदयनारायण सिंह “सर्वदर्शन संग्रह, सिद्धान्त
शिरीमणि और आर्यभट्टीय ज्योतिष
शास्त्र के अनवादक” ने अपने
देशीय भाइयों के उप-
कारार्थ लोकभाषामें
प्रकाशित
किया

आर्य संघत १५२८८००४ विक्रम संघत १८६०

SURYA SIDDHANTA.

AN ANCIENT ASTRONOMY OF INDIA.

COMPILED ABOUT 2165000 YEARS AGO
AND TRANSLATED INTO HINDI AND PUBLISHED
BY

Udaya Narain Singh, Author of Sanskrit Praveshika,
Sarva Darshan Sangrah, Siddhant Shiromany and
Arya Bhattiya.

PRINTED AT THE SWAMI PRESS (WITH MACHINE) MEERUT

AND

Published at the Shastra Prakash Office
P. O. BIDDOOPUR DIST. MOZUFFERPORE.

First Edition 1,000 Copies.

ओ३म्

प्रस्तावना

भारतभूमि सर्वविध रक्षा की प्रसवित्री है। भारतवर्ष जगत् का प्रदर्शनागार कहकर भूमरहड़ पर सुप्रसिद्ध है। भारतवर्ष प्रकृति का प्रियतम निकेतन है, प्रकृति देवी की विभिन्न भीम काल भूत्ति का एकत्र तानावेश भारत में पूर्णरूप से विकाशित दृष्टि होता है। भारतवर्ष में किसी दृश्य का अभाव नहीं। भारत विभिन्नभाषाभाषी, विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न जातीय लोगों की आवास सूचि है। भारतवर्षभिन्न भूमरहड़ के कहीं* जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, स्वभाव और जातारंगत सम्पूर्ण वैसा दृश्य का इस प्रकार संविवेश परिलक्षित नहीं। संक्षेप से भारतवर्ष को ज्ञानायतन घृणिती कहने से भी अत्युक्ति दीप से दूषित नहीं होना पड़ेगा ॥

भारतवर्ष जिस प्रकार भनोमुरधकर जैसर्निंक दृश्यादि में जगत् से सर्वश्रेष्ठ, एक समय धन एव ज्ञान रत्न में भी भारत उसीप्रकार श्रेष्ठ आसन पर अधिष्ठित था। महामूर्ख धन रत्न की प्रसवित्री कहकर जिसरीय, फिनिमीया, युहूदी, यीक, रीमन, आरब और चैतिकप्रभृति नाना प्राचीन वैदेशिक जाति वाणिज्य व्यपदेश से भारत में आगमनकर भारत के धनों से अपना इधराना गार परिपूर्ण करते थे। भारत के अतुल ऐश्वर्य पाने की दुराशा में विसोहित होकर नानाजातीय, नाना देशीय दिग्विजयी गण भारत को अपने करताल गत करने में विभिन्न समय में प्रयासी हुए हैं, एव निदारण रटपीढ़म से गिरीह भारतवासी को उत्तर्त्य, उत्पीड़ित और भयसन्त्रस्त कर रखी चते थे। विषमीं एव विजातीय वैदेशिक दस्युदल के वारवार आक्रमण गे भारतवर्ष विच्छस्त, विपर्यस्त और परपदानत होना आया एव भारत की अतुलनीय धनराशि वारवार यिलुष्टित होती रही है ॥

प्राचीन भारत जिस प्रकार धन रत्न में जगत् में सर्वश्रेष्ठ था, ज्ञान रथ में भी उसीप्रकार अतुलनीय था। जिस समय घृणिती का अधिकाश देश असभ्य आममास्तीजी, अरण्यधारी मनुष्यों द्वारा परिपूर्ण था। उस समय भारत भूत्ता के उघतम गिराव देश में अधिष्ठित रहकर स्त्रीय सीमाग्र प्रभा में जगत् को मुग्ध और पुलकित रखता था। जिस समय समस्त जगत् चौरतग

अज्ञानात्यतार में समाच्छल था, जिस समय ज्ञान एवं सभ्यता का शीणालोक भी यूर्पे आदि महादेश में शनैः २ पादविक्षेप द्वारा प्रसुत नहीं हुवा था । उस समय भारत विद्या, दुष्टि, ज्ञान और सभ्यता के पूर्ण आलोक से जगत् को जालोकित कर अविनश्वर गौरव गहिमा में सविशेष गौरवान्वित हुवा था । क्या धर्म, क्या ज्ञान, क्या दर्शनशास्त्र, क्या गणित, क्या ज्योतिष, क्या भैषज्य तत्त्व, क्या काठ्य, क्या इतिहास, क्या शिल्प, क्या वाणिज्य, क्या भाषा, क्या साहित्य सर्वविद्य यिष्य ही में भारत जगत् के शीर्षस्थानीय था । जो आर्यजाति अतुल ज्ञाहस, विक्रम, सेजस्थिता और सनस्थिता प्रभाव से भूमण्डल में अक्षयकीर्ति लाभ कर गई है, जो आर्य जाति एक समय पृथिवी में सब विषयों में सर्वश्रेष्ठ जाति कहकर परिगणित हुई थी, जो आर्यजाति ज्ञान और सभ्यता के विमल ज्ञालोक में जगत् को उद्भासित कर जगत् का शिक्षा गुप्त यहुसम्भानाहं वरणीय पद पर अधिरूढ़ थी, जिस आर्य जाति के गौरव के प्रभाव से भारतवर्ष जगत् के इतिहास के शीर्षस्थान में विराजमान होरहा है, जिस आर्य जाति के वंशधर कहकर हम परपददलित होकर भी अब तक सभ्यसमाज में सम्मान से परिव्रहीत होते हैं । उसी जगद्गुरु आर्यजाति की अपूर्व विद्या ज्योतिषशास्त्र आज अदृष्ट चक्र के आवर्तन से कीर्तिविलोपकारी क्षराल काल की विस्मृति कवल में निहित है ॥

इस समय आर्यप्रतिभा पर कुछ कहुंगा । अधिकांश सम्बन्धजन पद में जो संख्या लिखने की प्रणाली थल रही है, भारतवर्ष ही उस की उत्पत्ति का स्थान है । एक से ८ संख्या एवं शून्य, एवं संख्या आदि आर्य ही लोगों ने पहिले सूष्टि की थी ॥

पाटीगणित की दशगुलोच्चर संख्या लिखने की प्रणाली आर्यों की सृष्टि है । अरबवासीगण ने भारतीय आर्यों के निकट से यह सीख कर पुरोप में प्रचार किया । अरबवासियों ने स्पष्टतः इस विषय में अपने को आर्य शिष्य कहकर स्वीकार किया है । यूरोपीय लोग इस ज्ञान का अनुसोदन करते हैं । जो निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध है ॥

(a.) "The Hindoos are distinguished in Arithmetic by the acknowledgement of invention of the decimal notation.".....P. 142, Elphinstone's History of India.

(b.) "The Hindoos invented the decimal notation. Arabians took hints from them, whence the Europeans came to know the figures."

(c.) "Habauddin, an Arabian, ascribes the invention of the numeral figures in the decimal scale to the Indians. As the proof commonly given of the Indians being the inventors of these is only an extract from the preface of a book of Arabic poems, it may be as well as to mention that all the Arabic and Persian books of Arithmetic ascribe the invention to the Indians.

P. 184. Vol. XII Asiatic researches.

बीजगणित भी भारतवासी की सुष्ठि । पूरोपीय लोगों ने बीजगणित को मुसलमानों से पाया था । बीजगणित का Algebra नाम 'आलजिवर' , शब्द से समृप्त । लोटीय ग्रन्थोदश ग्रन्थाच्ची के आरम्भ में लिखनाहै ने मुसलमानों के निकट बीजगणित सीखकर, इस का यूहप में प्रधार किया । मुसलमानों ने आलजिवरा ग्रीष्म देश में दिवफारहड़प को सिखलाया, किन्तु मुसलमान लोगों ने इस विषय में आर्यमह घराहमिहिर व्रस्तमुप्त प्रस्तुति ग्रन्थों से पिछा की ११३ लोटाच्च में लड़ीका आलमनमूर के राजत्वकाल में पहिले अरथी भाषा में भारतवर्षीय गणितशास्त्र अनुयादित हुया । यहुत से लोगों की सम्मति यह है कि " ग्रीकदेशीय गणितवित दिवफारहड़म ४६० लोटाच्च में प्रादुर्भूत हुया । यह आर्यमह से पहिले हुये" किन्तु फरहड़म परिषद के पहिले प्रारथ, गर्ग प्रस्तुति भारतीय गणितविद्युग्म ने इन्हम प्रारथ किया था । १५८९ लोटाच्च में घनवेणु ने बीजगणित प्रकाशित किया यही दिवफारहड़म का अनुयाद । घनवेणु ने स्पष्ट स्वीकार किया है जो आरथ आदि के पहिले भारतवर्षीय लाग बीजगणित जानते थे । फलतः आरथ लोगों के निकट पूरोपीय लोग अनेक विषयों में श्रणी एवं ये आरथ लोग हम आपों के निकट पद २ में क्षम्पी हैं । इस विषय में पूरोपीय परिषद का जो लेख है उसे प्रकाशित करता हूँ ॥

"Liouards of Pisa introduced Algebra into Europe; he learned it at Bagdad, in Bagbarry, where his father ascribe in the Custom House by appointment from Pisa; his is dated A. D.-1202." Currell's note to Elphinstone's History of India P. 115.

"Mohammed Ben Musa is recognized among the Arabians as the first who made Algebra known to them. He is the same who abridged, for the gratification of Almansur, an astronomical work taken from India's system in the preceding age, under Almansur. He framed tables like-wise, ground on those of the Hindoos, which he professed to correct. And he struck and communicated to his countrymen the India's computationibus method of computation."

Cole-brook's dissertation prefaced to his translation from Sanscrit Algebra.

"Peculiar seems their desire in favor of Greeks and Hindoos again;

any pretensions on the part of the Arabians who, in fact, however, preset none inventors of Algebra. They were avowed borrowers in science and by their own unvarried acknowledgement from the Hindoos, they learnt the science of numbers. That they also received the Hindoo Algebra, is much more probable than that the same Mathematician who studied the Indian Arithmetic and taught it to his Arabian brethren, should have hit upon Algebra unaided by any hint or suggestion of the India analysis."

Cole-brook's dissertions.

"The first Arabian Mathematician translated a Hindoo book in the reign of the Khalif Almansur, A. D. 773."

Cowell's note to Elphinstone's History of India P. I45.

"The Arabs became acquainted with the Indian Astronomy and numeral science, before they had any knowledge of the writings of Grecian astronomers and Mathematicians, and it was not until after more than more century, and nearly two, that they had the benefit of an interpretation of Diophantus, whether version or paraphrase, executed by Mahammed Abul Waphs Al Buggana."

Cole-brook's Dissertation P. XXI.

"We know of no Greek writer on Algebra, but Diophantus; neither he nor any known another of any age or of any country, has spoken directly or indirectly of any other Greek writer on Algebra has with a term to designate the science."

P 163, Vol. XII Asiatic researches

"In 1579 Bombulli published a treatise of Algebra, in which he says that he and a lecturer at Rome whom he names, had translated part of Diophantus adding that they had found that in the said work the Indian authors are often cited, by which they learnt that science was known among the Indians before the Arabians had it" P. 161, Vol. XII.

Asiatic researches.

वेकनसाहब कहते हैं कि ख्रीष्ट के ५००० वर्ष पूर्व भारतधर्म में गणित ज्यो-
तिष की अत्युक्ति थी। येलीमामक जनक फरासी परिषद ने लिखा है कि
हिन्दुसत्तान में ५००० वर्ष पहिले ज्योतिषशास्त्र उत्तम अवस्था में पायर जाता था॥

ऐसे भारतीय प्राचीन ज्योतिषशास्त्रकृपी असूल्य रसन के अन्वेषण में
निश्चेष्ट, निप्तिकथ, परपदानत भारतवासी आर्यसत्तान की प्रवृत्ति और उ-
त्तराह नहीं उल्पन्न होते॥

जिस प्रकृत ज्योतिषशास्त्र के न जानने से भारतवासी वेद आदि सूचालों
के गूढार्थ अर्थ समझने में असमर्प होकर वेद, ब्राह्मण, पुराण आदि प्रतिपा-
दत ज्योतिष मूलक आलक्षारिक ऐसों का उलटा निन्दित आशय समझकर

हमारे क्रयियों को गुहतल्पगामी, किसी को छोर, किसी को इन्द्रिय पर-
बश होकर मन्दन बन में रसादि अद्वित लेकर कीड़ा की, कोई अभिभावी,
कोई स्वार्थपर, किसी को लीझी, सब ही भाषापापी, सब ही दुष्टल, ब्रह्मा
ने अपनी छड़की के साथ भोग किया । श्री रामने अजाह्ननाओं के साथ
शाखविहृदुमैयुनादि कर्म किया, यमयमी संवाद, गौतम अहस्या करा इत्यादि ।
चन्द्रमा ने अपनी ३३ खियों में से विशेषतः रोहिणीके साथ ग्रीति की । पृथिवी
का पुत्र भङ्गल, चन्द्रमा का पुत्र बुध, देवताओं का गुरु एहस्पति आदि ॥

आज हम उसी वेद के उ. अह्नों में से सर्वप्रधान सिद्धान्तज्योतिष के अनुवाद
करने को प्रवृत्त हुए हैं । आशा है कि हमारे भारतवासी इस अमूल्य भारतरत्न
प्राचीन वेदाह्न ज्योतिषशास्त्र (सूर्यसिद्धान्त) के भाषानुवाद को पढ़कर वेद एवं
अन्यान्य वैदिक एवं लौकिक घन्यों का प्रकृत अर्थ समझ कर लाभ उठावेंगे ॥

हम प्रथम ज्योतिष विषयक शङ्का समाधान प्रमाण एवं युक्ति पूरित
'एहदूभूमिका' लिखेंगे तदनन्तर सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद आरम्भ करेंगे ।
इस समय धनाभाय से इस के साथ चित्र (नक्षत्र) भर्हों छपवा सके । कारण
यह है कि अनुमानतः चित्रों के छपने में ३००) रुपये लगेंगे, परन्तु यदि हमारे
क्रयि सन्तान ने इस आधृति के सूर्यसिद्धान्त को हाथों हाथ लेकर हमारे
परिश्रम को सफल किया तो आशा है कि अगली आवृत्ति में अवैष्य मसित्र
सोदाहरण सू० सि० छपवायेंगे ॥

स्थान भधुरापुर
हाक-घिदूपुर }
जिला मुजफ्फरपुर }
१८। ९। ९६ .

आप का शुभविन्दक-
उद्यनारायणसिंह (जार्य)

सूर्यसिद्धान्त-भूमिकास्थ विषयानुक्रमणिका सूचीपत्रम्

विषय

पृष्ठ संख्या

विषय

पृष्ठ संख्या

ज्योतिषशास्त्र का लक्षण	१	सूर्य एक ही है	२४
ज्योतिषशास्त्र को वेदाङ्गत्व	१	सूर्य में कलद्वृ	२५
सिद्धान्तज्योतिष के २२ घन्यों के नाम ३		शुक्र ग्रह की सत्या	२५
सूर्यसिद्धान्त की रचना आदि	४	शुक्र का वित्तस (Venus) जगत क्षेत्र	२६
ज्योतिषके सहिता स्कन्ध काव्यधार	८	शुक्र को काणा क्यो कहते है ?	२६
ज्योतिष के मुहूर्त घन्यों का पिचार	८	वेदोंका अस्तिनौ	२७
मुहूर्त के घन्यों के रचना कालादि	९	बुधग्रह की सत्या	२७
ज्योतिष के होरा (आतक ताजक)	१०	बुध चन्द्रमा का पुत्र क्यों ?	२८
शुक्रुन केरल घन्यों का विचार	१०	चन्द्रमा उपग्रह है	२८
“ घन्य तालिका	११	चन्द्रमा का भग्नकाल	२८
घनारस के सुमसिद्ध महासहोपाध्याय		चन्द्रमा की सत्या	२८
प० द्वापूदेव शास्त्री रूत फलित उपो-		चन्द्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है	२९
तिष विचार	१२	चन्द्रमा जलमय है	३०
मक्षत्र, यह, उपग्रह के लक्षण	१८	गङ्गालप्रहकीसत्या एव भग्न काल	३०
पह	१९	मङ्गल भूमि का पुत्र क्यो ?	३१
सामयिक नक्षत्र	१९	मङ्गल का लोहिताङ्ग क्यो नाम पड़ा ?	३१
गृहविकारी नक्षत्र	१९	शृहस्पति यह की सत्या	३१
यमल मक्षत्र	२०	शृहस्पति के देवपुरोहित देवगुरु	
आकाश गङ्गा	२१	क्यो माम ?	३१
गगनमध्यल विभाग	२०	आङ्गिरस क्यो ?	३२
ग्रहों के विभाग करने के नियम एव		शृहस्पति यह का रङ्ग	३३
येदिक ग्रसाण	२१	शृनेश्वर ग्रह का भग्न संस्कारादि	
मक्षत्र गण एक २ लोक विशेष है	२२	शृनेश्वर, सीरि आदि नाम क्यो ?	
सूर्य यह भाही है किन्तु यहपति है	२३	रोहिणी का शकटभ्रेद और पद्म-	
सूर्य के सात चोहे आदि	२३	पुराण की कथा	३५
धायु का कारण सूर्य	२४	प्रजापति (युरेतस) यह की सत्या	
कालु का कारण सूर्य	२४	आदि	३५

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
बहुण(नेपचुन) यह की सख्ता आदि	३५	नक्षत्रों की देवता	५५
उत्तर संग्रह के नक्षत्रों का वर्णन	३८	देवता धारपक चक्र	५८
दिव्यशासन, नीकापुङ्ग, यम, अगस्त्य, त्रिशङ्कु	३९	गति के लक्षण	५८
सप्तर्षि तारे और वास्त्रीकोय रामायण की त्रिशङ्कु की कथा	४०	चक्रावत्तंया यूक्ताभास	५८
देवयान	४२	केन्द्राज्ञिकपर्णी शक्ति	५८
पितृयान	४२	केन्द्रापसारणी शक्ति	५८
शर्मिष्ठा, देवयानी आदि	४३	पृथिवी का गोलत्व, सूर्य का उदयास्त	६०
नक्षत्र पुङ्ग	४३	पृथिवी का आधार वाकार	६२
सभ्य खण्ड के नक्षत्रों का वर्णन	४३	पृथिवी के भ्रमण में पुक्षियां	६४
राशिधक अचल है	४३	पृथिवी आदि लोकों के भ्रमण में भारतवर्षीय ग्रन्थों का प्रमाण	६५
सूर्योदय से सूर्यमंडल राशि में अस्ति क्यों होता है ?	४४	पृथिवी भ्रमण में भाषुनिक ग्रन्थकारों की विरह उपस्थिति	६१
राशिधक का वेद में वर्णित अपर्याप्त वेद से दृष्ट नक्षत्रों का वर्णन	४५	वनारस राजकीय संस्कृत का ऐज सुप्रसिद्ध ज्योतिष के आधार्य भवामहोपाध्य	६५
कालीदास फृत ज्योतिर्विदा- भरण से प्रत्येक २७ नक्षत्रों की जाकृति जादि	४८	५० यापूदेवशाली कृत	६८
राशिधक का विष्णु अन्द्रमा की खीरों देहिणी क्यों	४८	पृथिवी भ्रमण मीमांसा	६८
३३ कन्याओं की अपेक्षा देहिणी में अधिक स्नेह क्यों ?	५४	काल	६६
कार्तिक स्थानी की कथा	५५	कलि, द्वापर, त्रिता, कृतयुग	६७
		५४ भन्वात्तर	६८
		प्रलय	६९
		क्षतु	७०
		दिनरात्रि	७१
			७२

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दिनमान	६६	ऋग्वेद में सूर्यग्रहण का उल्लेख ११०	
यारपति, होरापति, भासा		सूर्यग्रहण कहीं न कहीं प्रतिदिन ११०	
षिष्य जादि	६७	होता है ११०	
यारपत्ति	६७	शतपथब्राह्मण आदिक वैदिकप्रम्णों	
भास	६८	का प्रमाण १११	
अधिमास	६९	ग्रहणसमय देशदेशान्तरों की	
१५ तिथिया	१००	पीछालीला ११६	
चन्द्रकला इत्यादि	१०१	पञ्चाङ्गविचार ११७	
तिथि	१०१	सवत् यक आदि २३ प्रकार के	
सिद्धिभेंग	१०२	सवत्का सविष्ट इतिहास ११८	
अमावास्या	१०२	भूमकेतु ११९	
पौर्णमासी	१०३	चलकापिण्ड १२४	
शुक्रवक्ष	१०३	उदार ऐवं भाटा १२५	
कृष्णवक्ष	१०३	वेष या पर्यवेक्षणिका १२६	
क्षयतिथि	१०४	भारतवर्ष में कहीं द्विष्टयाला थी १३१	
साधन	१०४	सूर्योल घर्णन १३१	
निरपत्ति	१०५	विदादि से भुदन संस्था का प्रमाण १४८	
सर्व धारासम्मत सामन पक्ष ठीक है	१०६	सूर्योल एव खगोल रेखा विषयक १४८	
ग्रहण	१०६	आर्थ घन्यों का प्रमाण १४८	
चन्द्रग्रहण के नियम	१०७	उपरोक्त शास्त्रोक्तकठिन शब्दोक्ता १४८	
सूर्यग्रहण के नियम	१०८	भावार्थ १४९	



अथ सूर्यसिद्धान्तस्थ विषयानुक्रमणिका सूचीपत्रम्

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
महालाघरण	१	यहस्पष्टाधिकार	१
ज्योतिष ज्ञान के लिये } मध्याह्न वा तप वर्णन } और धर पाना } सूर्यांश पुरुष की उत्पत्ति पूर्वक मय के गाय संघाद वर्णन } फाल सेद निष्ठपण	२	यहों का ज्यासंस्कार यहों का मन्दकोन्द्र संस्कार यहों का शीघ्र केन्द्र संस्कार यहों का नविष्ठाधन दिनमान रात्रिमान ज्ञात यहों का नक्षत्रानयन	१५ ३४ ४० ४५ ४८ ६४
युगमान सभ्य और सूर्यांशमान	१५	योगों का लाभ	६५
मन्यवत्तर मान	१८	तिथियों का लाभ	६६
कल्पमान	१९	करण का लाभ	६७
यराही कालमान	२१	इति स्पष्टाधिकार २	६८
यहादि स्पष्ट करने के } लिये वर्षगणानयन } यहों की गतिनिष्ठपण	२३	— — —	— — —
भग्न स्वरूप	२५	श्रिवश्राधिकार	१
आहरणसाधन	२७	दिग्ज्ञान	१
भग्नादि अहानयन	२८	खायाज्ञान	५
संवर्त्तन का लाभ	२९	अवज्ञान	१५
मध्य यह का लाभ	३०	जल से पलता का लाभ	१६
रेणु देश	३२	भुजमाधन	२२
पार मध्यति कालज्ञान	३५	स्वदेशीद्यादि ज्ञान	२३
यहों का तात्कालिक करना	३७	काल साधन	४८
इति सध्यमाधिकारः । ।	३९	इति श्रिवश्राधिकारः ३	५०
— — —	— — —	चन्द्र यहण	१
	— — —	पूर्ण चन्द्र विम्बस्फुटीकरण	१

विषय	पृष्ठ-स्रोक विषय	पृष्ठ-स्रोक
दोनों ग्रहण की संभूतिज्ञान पात साधन	६ उदयास्ताधिकार	१
विष्य प्रयोजन	८ पांच ताराओं का पञ्चमास	२
ग्रास का लाना	९ और पूर्वोदय	३
मध्यग्रहण स्पर्शस्रोक कालज्ञान	१० चन्द्रमा, बुध, शुक्र का	४
निमीलनोलमीलन कालज्ञान	१६ पूर्वोस्त और पञ्चमोदय	५
मूर्यग्रहण में विशेषता	१७ इट कालांश का लाना	६
ग्रास लाने के अनेक भेद	१९ ब्रह्मस्पति आदि का कालांश	७
विश्वधों की अहुली यनाना	२० कालांशमान द्वारा अस्तोदय	८
इति चन्द्रग्रहणाधिकारः ४	२४ का गतैष्यत्व ज्ञान	९
चन्द्रग्रहण से मूर्यग्रहण साधने में विशेषता	२८ नक्षत्रों का अस्तोदय ज्ञान	१०
नति साधन	इति नवमाधिकारः ८	११
इति पञ्चमोद्यायः ५ ।	— * —	१२
मूर्य और चन्द्रग्रहण का परि- लेखाधिकार	१ चन्द्रमा का अस्तोदय शक्तो- क्षति नियंत्र	१३
इतिच्छेदकाधिकारः ६	१० चन्द्र शक्तोक्षति परिलेख	१४
— * —	इति पाताद्यायः १० ।	१५
युति भेद निरूपण	१ कान्ति की समतर लाना	१६
दृक्षमं निरूपण	२ स्पष्ट पातकाल ज्ञान	१७
विष्य काल का लाना	३ पञ्चाहस्य ध्यतिपात ज्ञान	१८
युद्ध समागम निरूपण	५ गणहान्त स्वरूपादिक	१९
इति ग्रहयुत्पथिकारः ९	१३ अकांश पुष्प वाक्योपसंहार	२०
— * —	१८ इति पाताधिकारः ११ ।	२१
नक्षत्र ध्रुव और शरहान योग तारा ज्ञान	२४ मूर्गोल ज्ञानार्थं नयाहुर लत् पञ्च	२२
इति नक्षत्र ग्रहयुत्पथिकारः ८	१ मूर्यांशु पुष्पोऽस्ति	२३
— * —	१६ जगदुत्पत्तिकम्	२४
	२१ मूर्य ही सर्वात्मा	२५
	२३ महाभूतोत्पत्ति	२६

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
पश्चातारोत्पत्ति	२४	व्योत्तिषेपनिषिद्धपत्र	१
शशि नक्षत्रोत्पत्ति	२५	गोलवर्षमन विधि	३
रघुत प्रदायने की संख्या	२७	अनेक प्रकार के मन्त्रों के साधन	१८
ब्रह्माण्ड गोल	२८	उपनिषद् फल श्रुति	२५
यह भूगोलादिक का } आकाश में वरिस्तमण } <td>३०</td> <td>इति ब्रयोदशोध्यायः १३ भागाध्याय १</td> <td></td>	३०	इति ब्रयोदशोध्यायः १३ भागाध्याय १	
सात पासाल	३३	— ◊ — ◊ —	
मेह स्थिति	३४	वाहंसपत्यमान १	२
भूगोल में समुद्र का अवस्थान	३५	सौर मान ३	३
भूगोल में यमालय } कोटि लक्ष्मा से एक } <td>३६</td> <td>चान्द्रमान ३</td> <td>१२</td>	३६	चान्द्रमान ३	१२
कुरुदेश का वर्णन	३८	पितृमान ४	१४
देवासुर के दिन रात का निष्पय	४५	नारकप्रमान ५	१५
गोलस्थिति का वर्णन	४६	साधनमान ६	१८
कक्षान्तिरुपण	४८	दिव्यमान ७	२०
आकाश कक्षा ब्रह्माण्डा-	४९	प्राजापत्यमान ८	२१
न्तर्गत ब्रह्माण्ड कक्षा का	५०	ब्राह्ममान ९	२१
नामान्तर दहश्तमुमि मान } <td></td> <td>यन्त्र की समाप्ति कर }<td></td></td>		यन्त्र की समाप्ति कर } <td></td>	
सूचक		फलश्रुति कहना } <td></td>	
इति भूगोलाध्यायः १२		इति चतुर्दशोध्यायः १४	२२

— ◊ — ◊ —

— ◊ — ◊ —

सूर्यसिद्धान्तस्य भूमिकायाः शुद्धिपत्रम्

भगुह	यद	पष्ठ-पङ्कि
उपवेद	उपवेद,	३ ८
शास्त्रादस्मात्	शास्त्रादस्मात्	३ १०
वेदध्याः	वेदध्युः	३ १२
ज्यतिष	ज्योतिष	३ १३
क्लेदज्योतिष	क्लेदज्योतिष	३ १५
दत्ता	दत्ता	५ ४
चिद्गान्त	चिद्गान्त	६ ८
ज्ञातक	ज्ञातक या	१० ८
यद्वन्	यद्वन्	१२ १२
भूट	भूठ	१४ २५
विद्वानों से	विद्वानों ने	१५ १
वृद्वानी	वृद्वानीन्तम्	२० ४
कारणम्	कारण	२२ ३
नक्षत्रे	नक्षत्रे	२२ ३
चित्रविचित्र	चित्रविचित्र के	२२ १०
कृति	कृतिका	२२ २५
शुक्र	शुक्र	२५ २२
सस्या	सस्या	२६ ११
गाढ	गङ्ग	२८ २४
चलने वाला	चलने वाला)	२९ २४
ठाह	ठोड़	३२ ८
पुह	पुङ्ग	३२ १०
परिष्यक्ति	परिष्यक्ति	४० ११

सानुवाद सूर्यसिद्धान्तस्य शुद्धाऽशुद्ध पत्रम्

संख्या

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पठ्क्रि
समय	मास	४ १५
को उत्तर निवासी के	के उत्तर निवासी	५ ११
४३०००	४३२०००	६ ८८
Circumference	Circumference	८ २४
धारे	धारे	८ २६
Signa	Sign	८ २४
विकला	कुटिला	९ १
भृक्ता	भृक्त्या	९ ११
इस प्रकार इस प्रकार	इस प्रकार	१४ १४
वर्तमान वर्तमान	वर्तमान	१४ ८५
केन्द्रकारक	केन्द्र करके	१४ १४
शबर्ग	शब्दवर्ग	१५ १५
मर्य	सूर्य	१५ २२
संख्या	संख्या	१५ २५
विषद्ध	विषदांहु	१५ २५
यहया	यह	१५ ८
गागा	होगा	१८ २०
पूर्वत्	पूर्ववत्	१८ ११
शलकों	शलाका	१९ २२
स्फुटाः	स्फुटाः	२६ २७
तदमन्तर	तदमन्तर	२४ ११
राश्यादि	राश्यादि	२६ १३
शुस्त्रकं	शुस्त्रं	२८ { १० २२ २४ ११ } ११

ओऽम्

ज्योतिष शास्त्र

ज्योतिष शब्द का सामान्य अर्थ तारा भादिक प्रकाशमान वस्तु और शास्त्र का अर्थ बतलाने वाला “ज्योतिषशास्त्र” अर्थात् जिस के द्वारा सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्यान्य नक्षत्रादिकों की गति विधि प्रभृति का ज्ञान हो—जिसका लक्षण श्री भास्कराचार्य ने अपनी सिद्धान्तशिरोमणि में यों लिखा है:-

त्रुट्यादिप्रिलयान्तकालकलनामानप्रभेदः क्रमाज्ञारश्च
द्युसदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः । भूधि-
रण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धा-
न्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रवन्धे वुधैः ॥ ६ ॥

भावार्थः—काल के सब से छोटे भाग को “त्रुटि” कहते हैं। त्रुटि से कल्प पर्यन्त काल की गणना, सौर, सावन, नक्षत्रादि कालमान, एवं प्रत्यनु-कला से भगण पर्यन्त स्त्रेष्ठपरिमाण, ग्रह एवं नक्षत्रादिकों की गति, व्यक्त तथा अठ्यक गणित (Mathematics). प्रश्नोत्तर सहित ऐसे पृष्ठी आदि यहों की संस्थिति और यन्त्रादिकों का वर्णन इत्यादि जिसमें हों तो उस को परिषित लोग “सिद्धान्त ज्योतिष” कहते हैं ॥ ६ ॥

फतिष्य परिषित लोग ज्योतिषशास्त्र के दो भाग मानते हैं एक पूर्वोक्त सिद्धान्त ज्योतिष एवं दूसरा फलित ज्योतिष । फलित का लक्षण “फलित विचार” में लिखा गया है, वही देखें ॥

ज्योतिष शास्त्र को वेदाङ्गत्व

प्राचीन इतिहासों से यह बात सर्वथा मिहु है कि हुनियां भर में वेद से प्राप्तीन धर्मपुस्तक दूसरा कोई नहीं है। इस अपीर्हयेय वेद को (किन्तु ठपकि ने इसकी रचना नहीं की) अनादिकाल से हम ननुवों के हितार्थ ईश्वर ऋषियों द्वारा प्रत्येक स्ट्रि की आदि में प्रकाशित करता है। वेद सभ विद्याओं का भग्नार है। इस वेद के चार भाग हैं:- १. क्षग्वेद, २. यजुर्वेद, ३. मामवेद, ४. अथर्ववेद, एवं इनकी १२३ शाखायें हैं ॥

इन वेदों को समझने व पढ़ने पड़ाने के लिये हमारे नहर्विद्यों ने ४

उपवेद, ६ अङ्ग, और ६ उपाङ्ग वनाये हैं। उपवेद-१ आयुर्वेद (धैद्यकशास) २ धनुर्वेद (मुहुर्शास्र) ३ गाम्यवेद गामविद्या और ४ अर्थवेद (शिल्पशास्र) हैं। अङ्ग-१ शिक्षा, २ कल्प, ३ ध्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष और ६ छन्दः शास्र है। और उपाङ्ग-१ धैर्यपिकशास्र, २ न्यायशास्र, २ योगशास्र, ४ सांख्यशास्र, ५ पूर्वमीमांसा, ६ उत्तरमीमांसा वा वेदान्त हैं। जब तक इन उपवेद अङ्ग और उपाङ्गों को प्रथम नहीं पढ़ ले तब तक वेदों का यथार्थ तत्त्व मनुष्य नहीं जान सकता। हमें इन छः अङ्गों में से यहां ज्योतिष शास्र के विषय में ध्यावप्य है। प्रास्कराचार्य ने लिखा है कि—

वेदास्तावद्यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण।
शास्त्राद्यस्मात् कालघोधोयतः स्याद्वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्यो-
क्तमस्मात् ॥ ६ ॥ सिद्धान्तशिरोमणी ॥

भावार्थः—जिस कारण वेदों में व्युधा यज्ञ का विधान है और यज्ञ करने में समय निर्दिष्ट किया जाता है कि अमुक समय यज्ञ करन। चाहिये, यज्ञ वेदी इतनी उम्मी घौड़ी होनी चाहिये, यज्ञकुरु अटकोण, पतुष्कोण आदि आकार का होना चाहिये, और यज्ञशाला इस २ प्रकार होनी चाहिये इत्यादि शान विना ज्योतिष शास्र के नहीं हो... सकता—इस लिये ज्योतिषशास्र को “वेदाङ्गत्वं” है। अब रूपकालद्वारा से वेद को अङ्गी एवं निरुक्तादि छः शास्रों को इसके अङ्ग वर्णन करते हैं :—

“शद्दशशास्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषो, प्रोक्तमुक्तं निरुक्तञ्च
कर्त्तव्यं करौ। या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, पाद-
पद्मद्वयं छन्द आदौर्वुद्धैः ॥१०॥

“वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं, मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य
तेनोच्यते । संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिभिंश्चक्षुपाङ्गेन
हीनो न किञ्चित्करः ॥११॥ सिद्धान्तशिरोमणी ॥

भायार्थः—वेद (शरीर) के ध्याकरण तो मुख, ज्योतिषशास्र नेत्र, शिक्षा नासिका, और छन्दः शास्र पैर हैं। वेद के नेत्रहमी ज्योतिषशास्र हीने से उ अङ्गों में सब में अंगुष्ठ ज्य तिष शास्र है—एवं कि नेत्रहीन व्यक्ति अन्यान्य सभ्य अङ्ग रहने पर

भी अन्यान्य आहूर्मों से नेत्र का काम नहीं ले सकता। इस लिये किसी कार्य के करने में असमर्थ होता है। इसी प्रकार विना ज्योतिष शास्त्र पढ़े वेद के यज्ञादिक कार्य तथा यज्ञनिर्णयादि कार्य नहीं हो सकते॥

यहां ज्योतिषशास्त्र से “सिद्धान्त ज्योतिष” समझना चाहिये, फलित नहीं। फलित वस्तुतः ज्योतिषशास्त्र नहीं है और न उस का वेदोक्त यज्ञादिक कार्य से सम्बन्ध है, क्योंकि वेद या उस की शास्त्र में विधिवाक्य हैं कि “पुत्रेष्टि” आदि यज्ञ अमुक वर्ष, गारा, ऋतु, पक्ष, तिथि, नक्षत्र में करना चाहिये और यज्ञ कुण्ड समचतुर्दशी भादि होना चाहिये, तथा यज्ञशर्तां आदि इतनी लम्बी बौद्धी होनी चाहिये। अब उस के अनुसार ज्योतिष शास्त्र से वर्ष, भास आदि यज्ञोचित निर्धारित होता है, फलित ज्योतिष से नहीं॥

इस में सन्देह नहीं कि फलित ज्योतिष से स्वाध्येयिन्यु लोगों को टका करना जा और भारत को गारत कर आरत यनाने का अचला सुविधा मिलता है। छोंकना, मैथुन करना, धोती पहनना, पढ़ना, लिखना, वेघना, झूटीदना, विवाह करना, चैत्री करना, परदेश जाना आदि जितने सांसारिक कार्य वा अकार्य हैं सब ही के लिये जीसी कीम दासिल करें, वैसा मुहूर्त लीजिये॥

सिद्धान्त ज्योतिष (Astronomy)

काल के सब से छोटे भाग को “त्रुटि” कहते हैं, त्रुटि से लेकर कल्प पर्यन्त काल की गणना, सीरमास, नक्षत्रादि कालमान, एवं विकला से भग्न पर्यन्त सेवपरिमाण तथा नक्षत्रादिकों की गति, व्यक्त एवं अव्यक्त गणित (Mathematics) प्रश्नोत्तर सहित एवं पृथिवी आदि यहां की सत्यिति और यन्त्रादिकों का वर्णन इत्यादि विषय जिस में ही उस को परिवर्त गण “सिद्धान्त ज्योतिष” कहते हैं॥

इस के निम्नलिखित प्रामाणिक ग्रन्थ हैं

१ शृङ्ख सिद्धान्त	८ शर्व	१५ उन्द्र	सिद्धान्त
२ सूर्य सिद्धान्त	९ उपास	१६ तत्त्वविवेक	“
३ चोम सिद्धान्त	१० पराशर	१७ सार्व भीम	“
४ रोमक	११ भोज	१८ उषु आर्घ्य	“
५ वसिष्ठ	१२ वराह	१९ यहू आर्घ्य	“
६ पीठस्त्य	१३ ग्रहसुप्त	२० ऋषेद ज्योतिष	“
७ दहस्पति	१४ सिद्धान्तशिरोमणि	२१ यजुर्वेद ज्योतिष	“
		२२ अष्टर्य ज्योतिष	“

सूर्यसिद्धान्ते रचना काल

आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में १४ अधिकार और ५०० अनुष्टुप्पद्मन दि के स्रोक हैं। इस के आरम्भ के स्रोक में लिखा है कि सत्ययुग के अन्त में सूर्य की आज्ञा से सूर्याश पुरुष ने मय नामक अमुर को ज्योतिष का उपदेश किया जिस को बने आज शाके १८८५ तक २१६५३४ सौर वर्ष हुए।

परन्तु आधुनिक सूर्यसिद्धान्त रूप युगान्तकालिक नहीं है, इस विषय में महामहोपाध्याय श्री परिहत मुधाकर द्विवेदी प्रोफ़ेसर संस्कृत कालिज बनारस ने पृथ्वीसिद्धान्तिका की भूमिका में-लिए है, जिस का भैंने उपर्योगी समक कर पहां उल्लेख किया है:-

“सूर्यसिद्धान्तरचनाकालस्तु नित्यानन्देन सिद्धान्तराज-
कृता कले: पट्टिंशच्छतमितेऽवदगणी व्यतीते निगद्यते।
स कालस्तु आर्यभट्टसिद्धान्तस्य समकालिकएव सि-
ध्यति विभासि च तथ्यनित्यानन्देन प्रतिपादितमार्य भ-
टीयसिद्धान्ते न कुत्रापि सूर्यसिद्धान्तमतप्रतिपादनात्।
साम्प्रतं प्रचलितसूर्यसिद्धान्तः कृतयुगान्तकालिकस्तु
केनचिदन्येन प्रकलिपतो नवोन इति रसुटमेव सूक्ष्मवि-
चारप्रवृत्तानां गणकानाम्। भारतवर्षे ऋषिप्रणीतानां
सिद्धान्तानामेव प्रमाणनान्येषांतेन भारतवर्षीयादिचर-
तना आचार्याः कमपि मुनिप्रणीतसिद्धान्तं स्वीकृत्य
तत्र वीजादिकं दत्ता स्वंस्वं सिद्धान्तं चक्रुर्थथा ब्रह्मगु-
प्तिन ब्रह्मसिद्धान्तं स्वीकृत्यात्मसिद्धान्तो विरचितः ॥

यस्तोक्तं यहयितं महता कालेन यस्तिष्ठीमूर्तम् ।

अभिधीयते स्फुटं तज्जगणुकुत्रब्रह्मगुप्तेन ॥

भास्कराचार्यणापि स एव ब्रह्मसिद्धान्तः स्वीकृतएव
नन्येऽपि सूर्यसिद्धान्तादीन् स्वीकृतितेन तत्तदाचार्य
इचितसिद्धान्तान् तत्तस्वीकृतमुनिसिद्धान्तनाम्ना व्य-

वहरन्ति तत्तदुत्तरकालीना विद्वांसोऽतएव वदति वराह-
मिहिराचार्यः “ पञ्चभ्यो द्वावादौ व्याख्यातौ लाटदेवेन ”
अर्थात् लाटाचार्येण द्वौ पौलिशरोमकसिद्धान्तौ व्याख्या-
तौ तयोर्भगणादिपु वीजं दत्वा विस्तारितौ स्वकृतसिद्धान्ते
अत्रेदमुक्तं भवति - लाटाचार्येण पौलिश रोमक सि-
द्धान्तौ स्वीकृत्य तत्र वीजादिविशेषं विधाय रचितोऽन्यः
सिद्धान्तः । अत एव यथा मदीयं करणं सर्वजनस्वीकृतं भवेत्
दिति बुद्ध्या पञ्चानां सिद्धान्तानां मतानि स्वीकृत्य रचिता
चाचार्येणीयं पञ्चसिद्धधान्तिका । एवमेव विष्णुचन्द्रादयो
वसिष्ठसिद्धधान्तादीन् स्वीकृत्य स्वान् सिद्धधान्तान् रचया-
मासुः न ते साक्षाद्वासिष्ठादिसिद्धधान्तकर्त्तरं इति मन्मतम् ॥

भावार्थः—सिद्धान्तराज ग्रन्थकार नित्यानन्द कहते हैं कि सूर्य सिद्धान्त कलिपुग के ३६०० वर्षं वीतने पर बना । यह समय आर्य भृत आर्य सि-
द्धान्त के समकाल प्रसिद्ध ही है और सत्य ही प्रतीत होता है । क्योंकि आर्य सिद्धान्त में सूर्य सिद्धान्त का कहीं भी उल्लेख नहीं है । आपुनिक सूर्य सिद्धान्त को सत्यग्रान्तकालिक मानना केवल लोगों की कल्पनामात्र है ॥

भारतवर्ष में ऋषिकृत सिद्धान्त ग्रन्थों ही का प्रमाण माना जाता-
औरों का नहीं, इस लिये भारतवर्षार्थ चिरन्तन आचार्यों ने किसी मुनि प्र-
णीत सिद्धान्त को मान कर उसमें वीजादिक दे अपने २ सिद्धान्त को बनाया-
जिसे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त मान कर अपना सिद्धान्त रचा ।

“ ब्रह्मोक्त ग्रहगणित बहुत काल होने से जो नष्टपाय हो गया उसी
को विष्णुपुत्र ब्रह्मगुप्त स्पष्ट करते हैं ”

भास्कराचार्य ने भी उसी ब्रह्मसिद्धान्त को माना इसी प्रकार और लोग
भी सूर्यसिद्धान्तादिक को मानते हैं । इस कारण उन २ आचार्यरचित
सिद्धान्तों को उन २ के माने हुए मुनिकृतसिद्धान्तों के नाम से तदुपार-
कालीन विद्वान् लोग व्यवहार करते हैं । इस लिये वराह मिहिराचार्य कहते
कि पांच सिद्धान्तों में से प्रथम दो की व्याख्या लाट देव ने की है अर्थात्
लाटाचार्य ने पौलिश और रोमक सिद्धान्त की व्याख्या की है । इन के

भगवान्नदि मे घीज मिलाय विस्तारित कर अपना सिद्धान्त बनाया । यहाँ यह कहा जाता है कि लाटाचार्य ने पीलिश और रोमक सिद्धान्त को मान कर उन में घीजादि विशेष देकर अन्य सिद्धान्त रखा । अत एव मेरा धनायर करण (प्रन्थ) गथ लोगों से माना जावे इस दुहि से पांचों सिद्धान्तों के मत को मानकर आचार्य ने इस पञ्चसिद्धान्ति का नामक प्रन्थ को रखा । इसी प्रकार विद्युचन्द्रादि ने वसिष्ठसिद्धान्तादि को मानकर अपने सिद्धान्त के बनाया । वसिष्ठ आदि मुनियों ने स्वयं नहीं बनाया — यह मेरा मत है ॥

और आप्यं भह ने शाके ३८८ में अन्म लेकर २३ वर्ष की अवस्था में जार्य हिद्धान्त बनाया जिस का प्रमाण उसी प्रन्थ से मिलता है—

“कालः पष्टघट्दानां परिषदा व्यतीताख्यश्चयुगपादः ।

ऋधिका विंशतिरव्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ॥

(आर्यसिद्धधान्ते कालक्रियापादे)

अपर्वत शाके ४२१ में यह प्रन्थ बना—इस में सूर्यसिद्धान्त का कहीं भी उल्लेख नहीं है । एव वराहमिहिराचार्यने जिस का देहान्त शाके ५७८ में हुआ अपनी पञ्चसिद्धान्तिका प्रन्थ में जिस सूर्यसिद्धान्त का उल्लेख किया है उस से और आधुनिक सूर्यसिद्धान्त से अन्तर पहता है—इस से अनुमान होता है कि जो ३० सिं० वराहमिहिर के समय में था वह प्रचरित ३० सिं० से भिन्न दूसरा था । पाठकों के अवलोकनार्थ योड़ा सा दोनों ३० सिं० का वियय नीचे लिखते हैं—

महायुगीय भगवन संख्या—

वराहमिहिर उल्लिखित सूर्यसिद्धान्त	आधुनिक भूर्यसिद्धान्त
भगवन	भगवन
३०४३७०००	३०४३७०६०
३०२२३८८	३०२२३७६
२२६६८३४	२२६६८३४
३६४२२०	३६४२२०
१४६५६४	१४६५६४

वराहमिहिर के देहान्त होने का (शाके ५७८ में) प्रमाण—

नवाधिक पञ्चशतसंख्यशाके

वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः ॥

फलित ज्योतिष का विचार

A Lecture on astrology by Pandit Bapu Deva Shastri, Professor of Astronomy, Benares Sanskrit College, Honorary Member of the Royal Association Society London &c, the Asiatic Society Bengal, Fellow of the Calcutta University

फलित उस को कहते हैं जिस में इष्ट काल के ग्रहों की स्थिति पर से भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों काल के शुभ और अशुभ फल जानने के प्रकार रहते हैं। यह दो प्रकार का है, एक सहिता और एक होरा ॥

सहिता उसे कहते हैं जिस में उस २ काल के ग्रहों की स्थिति पर से सु-भित्त, दुभित्त, सुषष्टि, अतिष्ठिति, अग्नि भय, वा राजकीय उपद्रव इत्यादि सर्वसाधारण शुभ वा अशुभ फल जानने के प्रकार हैं और जिस में किसी फाम का आरम्भ करने के लिये ऐसा काल ठहराने के प्रकार रहते हैं, कि जिस काल में उस कार्य का आरम्भ करने से वह काम सफल होजाये। ऐसे (ठहराये हुये) काल को संस्कृत (फलित ग्रन्थ) में "मुहूर्त" और भाषा में "साम्रात्" कहते हैं ॥

होरा अथवा जातक उसे कहते हैं जिस में हर एक ग्राणी के जन्म काल के ग्रहों की स्थिति पर से उस के समय जीवन का वृत्तान्त समझने की विधि रहती है। इस होरा शास्त्र का और भी एक भेद है जिस को ताजिक कहते हैं। इस में ग्राणी के जन्म काल से हर एक वर्ष मास आदि के आरम्भ काल के ग्रहों की स्थिति पर से उस २ वर्ष, मास आदि का वृत्तान्त समझने के प्रकार रहते हैं ॥

यह फलित शास्त्र का इस देश में जिस समय सस्कृत विद्या का सूर्य अस्तमाय होता था जिस को लग भग "वर्षहुये कि प्रचार होने लगा। इस में जातक के ग्रन्थों में तो कितने एक शब्द केवल यन्म अर्थात् घीक भाषा के। इस से स्पष्ट जान पड़ता है कि जातक शास्त्र के कुछ विषय यहाँ के घ्यो-५ के ग्रन्थकारों ने घीक लोगों से लिये हैं और "ताजिक" के तो सभ विषय ५. लों से लिये हैं क्योंकि उस के सब सांकेतिक शब्द अरबी भाषा के हैं। अधिकांश जायं लोग इस फलितज्योतिष को समझते हैं और ग्रायः इस में जो लिखा है उस के अनुमार आधरण करते हैं। मुहूर्त के विषय में तो किसी फाम का आरम्भ अच्छी साइत देखे विना नहीं करते। जो किसी को कुछ

द्वाह्यजों को दान देता है और उन से जप होम इत्यादि करवाता है। यही धार दिनदूर लंगो में है॥

फल जानने के लिये गणित का ज्ञान अवश्य चाहिये, यही गणित वा "सिद्धान्त ज्योतिष शास्त्र" का मुहूर उपयोग अधिकाश आयं (हिन्दू) लोग समझते हैं। सिद्धान्त में भी यो लिखा है कि:-

**ज्योतिःशास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते,
नूनं लग्नबलाश्रितः पुनरयं तद् स्पष्टखेटाश्रयम् ।**

ते गोलाश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोलोपि न ज्ञायते,
तस्माद्वोगणितं न वेत्ति स कथं गोलादिकं ज्ञास्यति ॥

अर्थात्-पुराने ज्योतिषी लोग कहते हैं कि "आदेश" अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान इन तीनों काल के शुभवा अशुभ का जो कहना है, यो ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है। किर आदेश लग्न के यलं के आशय से है और यह लग्न स्पष्ट यह रे और स्पष्ट यह "गोल" से ज्ञात होता है और विद्या गणित के गोल समझ में नहीं आता, इस लिये जो गणित नहीं जानता यो गोल आदि कैसे जानेगा ॥

इस लिये वराहमिहिर ने अपनी सहिता में लिखा है कि-

तन्त्रे सुपरिज्ञाते धायाम्बुद्यन्त्रसंविदिते ।

होरार्थं च सुरुढे नादेष्टुभर्ती वन्ध्या ॥

अर्थात् जो गणित और सिद्धान्त को उत्तम प्रकार से जानता हो और शहू की उपाया और यही पन्त्र से लान जानता हो और जातक शास्त्र का सब अर्थ ठीक किया हुआ हो उस का कहा हुआ फल कभी वर्यं नहीं होगा ॥

इसी लिये यहां के घटुन लोग योग मनमाते हैं कि ये अद्येत् लोग जो गणित और सिद्धान्त में घटुन प्रबीण होते हैं और जो वे २ यन्त्रों से सूहन वेष करके यहीं की स्थिति उत्तम प्रकार से जानते हैं, वे फलित में अवश्य घटुत अच्छे होंगे और इस लिये वे अच्छी साइत पर मुहुर करते होंगे तभी उन का सर्वत्र जप होता है ॥

और जो कोई उन से कहे कि अद्येत् लोग फलित नहीं भासते तो वे यह कहता भूंत समझते हैं और जो किसी को इस कहने पर विवाद ही जाये तो उस को बड़ा ही आदर्श होता है, जो अंदेत् लंग फलित नहीं भासते

सो ये गणित में यहाँ की स्थिति जानने में दक्षता उपर्युक्तम् क्षयों करते हैं। परन्तु पहिले विद्यायत में भी सिद्धान्त विद्या का फलित ही के लिये था। अनुमान १७५ यद्यं पहिले जन्मनी देश में केवल नामक एक वड़ा ज्योतिषी हुआ। उसे ने एक ग्रन्थ में यों लिखा है कि “सिद्धान्त विद्यारूप विदुषी भाता की फलित विद्यारूप एक मूर्ख बेटी है और भाता का जीवन केवल उसी मूर्ख से है। परन्तु आश्वर्ये का विषय है कि हिन्दुस्तान में फलित विद्या का प्रचार बहुत है और सिद्धान्त विद्या जो फलित को बहुत आवश्यक है सो बहुत कीरण हुई है, उस का यों वड़ा सा अंश प्रसिद्ध है। यहाँ जिस को ज्योतिषी होने की इच्छा होती है वह केवल “पत्रा” (पत्राङ्ग+जन्मनी) बनाने की एक सारणी (Table) ग्रन्थ पढ़के और दो चार फलित के ग्रन्थ पढ़ देता है। इतना पढ़ के ज्योतिषी वन के लोगों की जन्मपत्री और वर्षं फल लिख के अपना नियोग करता है और जो जन्मपत्री वा वर्षफल में फल लिखा रहता है, कही मिलता और कही नहीं मिलता। वह फल न मिलने का दोष अपने ऊपर न आवेद्य है। किये ज्योतिषी लोग जन्मपत्री की आदि में प्रायः यह शब्दों का लिखते हैं:-

जनुपः समये धृतं न यन्त्रं
न मया च निवेशिता च नाडी ।
अपरैरुपदिष्टजन्मकाला-
जनिपत्रीह विलिख्यते भयैपा ।

अर्थात्-(जन्मपत्री लिखने वाला ज्योतिषी कहता है कि) मैंने जन्म-काल ठीक जानने के लिये उस समय कोई तुरीय आदि यन्त्र लगाया नहीं था, न कोई पड़ी भी वहाँ स्थापित की थी। दूसरे ने को जन्मकाल कहा उस पर से मैं यह जन्मपत्री लिखता हूँ। इस लिये विश्वगुणादर्शं नामक सु-स्वरक में ज्योतिषी का दृष्ट लिखा है कि:-

विलिखति सदसद्वा जन्मपत्रं जनानां
फलति यदि तदानीं दर्शयत्यात्मदात्यम् ।
न फलति यदि लग्नं द्रष्टुरेवाह मोहं
हरति धनमिहैवं हन्त दैवज्ञपाशः ॥
अर्थात् ज्योतिषी अच्छा वा बुरा किसी प्रकार का एक जन्मपत्र लोगों

को लिख देता है। जो उस में लिखा हुआ फल मिल जावे तो सभीं को अपना सामर्थ्य दियलाता है और जो न लिखे तो कहता है कि जन्मकाल देखने हारा चूका है। येद की बात है कि इस प्रकार से कुतिसग ज्योतिषी लोगों से द्रव्यहरण करता है॥

यो हिन्दुओं में फलित की ओर ज्योतिषी की अवस्था है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि फलित विद्या सब्दी है। उन में श्रीआ लोग तो हिन्दुओं की नाई उस को भागते हैं। उसनी में कितने कितने एक ग्राहणों ने फलित विद्या पर मुमलमानों से लाखों रुपये पाये हैं। सुखी लोग विद्या को सज्जी समझते हैं परन्तु प्रायः अपनी जन्मपत्री और धर्येकल यनवाके शुभा-शुभ फल नहीं देखते॥

अब पहिले लिखा है कि फल कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता तिसपर फलित के आचार्य कहते हैं कि जो फल नहीं मिलता सो फलित शास्त्र का दोष नहीं है, परन्तु वह फल लियने हारे ज्योतिषी का अस्तान है। उस ने जो यहो कर गणित किया होगा सो चूका होगा वा फलित के विचार में कहीं भूला होगा इस में कुछ संशय नहीं है। यों ज्योतिषी की जूल से फलित शास्त्र भूट नहीं हो सकता। क्योंकि इस शास्त्र के बनाने हारे जो आचार्य होगये हैं उन लोगों ने उस २ काल के यहों की स्थिति पर से वह २ फल निश्चय से होता है, यों धारम्याः परीक्षा करके फलित के सिद्धान्त लिखे हैं सो भूठ क्योंकर होगे? जैसे अमुक रोग पर अमुक औपचार्य देने से वह रोग दूर होता है, यों वैद्यक के घन्थकारों ने धार २ परीक्षा से ठहरा के वह औपचार्य उस रोग का नाशक है, यों घन्थ में लिख दिया है, किर वैद्य लोग रोगियों को औपचार्य देते हैं उस में कितने एक रोगियों का रोग दूर होता है और कितने एक का नहीं होता। उस में वैद्यकशास्त्र का दोष नहीं वह वैद्य का दोष है। उस रोग के दूर न होने में फारण यही है कि उस वैद्य को उस रोग की परीक्षा अच्छी भांति न हुई होगी वा औपचार्य की वृत्ति अच्छी न थी होगी परन्तु इस से वैद्यकशास्त्र भूठ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से फलित भी भूठ नहीं है। जो कोई यों कहे कि आकाश में यह और नक्षत्र यथिवी पर से उस २ स्थान में दृष्ट हो तो वह २ फल होता है। यह जो सभीं फलित में लिखा है इस में परस्पर दूरस्थित जो यह और नक्षत्र हैं, उन में क्या सम्बन्ध हैं? और उन से वह फल क्योंकर होगा, इस में कोई मुक्ति ही देख नहीं पड़ती। इस लिये यह फलित शास्त्र युक्तिशूल्य है, यह सत्य नहीं हो सकता। इस पर फलित जामने हारे मह उत्तर देते हैं कि यद्यपि

आकाश में परस्पर दूर स्थित पह और नक्षत्रों के उस स्थान पर आने में और एथिकी पर उस २ फल के होने में क्या सुन्दर्भ है? और फल होने में क्या कारण है, यह हमारे ध्यान में नहीं आता। तथापि उस २ पह स्थिति के अनुसार वह २ फल स्पष्ट देख पड़ता है, तथ उस को भूंठ नहीं कह सकते। जैसे अमावास्या, पूर्णिमा और अष्टमी इन चार तिथियों में सूर्य और चन्द्र आकाश में कुछ नियत अन्तर पर रहते हैं और जो बहुत रोगी होते हैं उन का रोग इन तिथियों में यढ़ता है और जो रोग भरणासङ्ग ही ती मायः उन के लगभग काल में मर जाता है और जो कदाचित् ये तिथि थीत जावें सो रोग शान्त होता है। यह यार २ परीक्षा करके देखा है। यों सूर्य और चन्द्र के दृष्ट अन्तर से भूमि पर रोग की घट्टि और हास होता है। इस का कारण यद्यपि व्यान में नहीं आता, तथापि फल स्पष्ट देख पड़ता है, वह भूंठ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से और भी यह आकाश में उस उस स्थान में देख पड़ने से यह २ फल होता है, यह परीक्षा करके फलग्रन्थ यमाये हैं। इन में जो फल को उपलब्धि होती है तो ही युक्ति है, दूसरी नहीं है। यों ज्योतिषी लोग स्पष्ट कहते हैं और भी कहते हैं कि कौसे हल्दी पीली होती और चूना शुभ्र होता है पर जो पे दोनों पानी में इकट्ठे किये जावें तो उस मिश्र द्रव्य का रङ्ग लाल होता है। यह रङ्ग होने में क्या कारण है? यद्यपि उन में नहीं आता तो भी लाल रङ्ग को भूंठ नहीं कह सकते। इसी प्रकार से यहोंकी स्थिति के अनुसार जो फल होता है उसे भूंठ नहीं कहसकते॥

इस पर फलित को न भाँगने वाले कहते हैं कि फलिती लोग ऐसी २ चाहे उतनी फलित की उपपत्ति दिसलायें परन्तु फलितशास्त्र किसी प्रकार से फाल में लाने के योग्य नहीं है। यह शास्त्र उब परस्परविरुद्ध उक्तियों से भरा है। जैसा कि भावसाधन अनेक प्रकार का छिला है उस से ज्ञाती उटना जिक्क २ प्रकार को ज्ञात होगी, उस में कौनसी रूप कहनी चाहिये। इनी प्रकार से आयुर्दर्पका गणित अनेक प्रकार का है उब कौन गणित पर से उनुष्य के आयुष्य का निवाप होगा। यो ही दन्तों में यहीं की दया बहुत इकार की लिंगी है तथ यह यह की दशा का फल किसी प्रकार से नहीं उहराया जासकता, ऐसी २ अनेक विरुद्ध उक्तियों में हैं हो फल का निर्देश्य क्योंकर होगा। और भी एथिकी पर एक ही उन्नप में लगेह उनुष्य उन्नते हैं पर उन गधों की यत्ति एकसी कभी नहीं होती। जौर दृक् इन का रघट उदाहरण यह है कि जो दो युग्म उन्नते हैं उन के इन्न उन्न उन में तो न्वर पर न्वरश

में भी प्रायः भेद नहीं होता। इसलिये उन की जन्मपत्री एकही सी ब्रह्मवृहि है पर जो उन की जीवन की वृत्ति देखो तो देखों की भिन्न २ प्रकार होती है सो उस जन्मकुण्डली से किसी प्रकार से ज्ञात नहीं हो सकती। तथा फलितशास्त्र किस काम का होगा?

और भी फलित को न मानने वाले कहते हैं कि यह भावी फल/पहिले द्वी कहदेना केवल ठियं है, इतना ही नहीं है, यह प्रायः बाधक भी होता है। जैसा कोई मनुष्य किसी ज्योतिषी से पूछे कि जो मैं ठापापार करता हूँ उस में लाभ होगा वा हानि होगी। तथा जो ज्योतिषी कहदेये कि इस में तुम को हानि होगी तो यह सुनते ही वह मनुष्य खिल होके उस ठापापार के काम में दीला हो जावेगा और जो उस को उस ठापापार में लाभ भी होने वाला हो तो भी उस की दीलाई से हानि ही होगी। इसलिये यह भावी फल का क्यन उद्घोगी मनुष्य को दीला कर देता है। इस लिये फल के न मानने वाले स्पष्ट कहते हैं कि फलितशास्त्र का भरोसा न करके क्रेबल ईश्वर के भरोसे पर सब काम प्रथम से करो, इसी में सब सिद्धि और शुद्धि है॥

इस फलित विचार को श्रीयुत प० वापुदेव शास्त्री ने जो ज्योतिष शास्त्र के आधारं ये, सन् १८८२ ई० में सस्कृत कालिङ्ग यनारस में भारतेन्दु श्रीयुत वा० हरिद्यन्द्र जी आदि महाशयों के अनुदोष से बकूतराहृषि से कहा था, जो श्रीयुत वा० हरिद्यन्द्र जी की आज्ञा से सर्वसाधारण के सामाजिक अन्तर्गत भेदिकलहालप्रेस में छाप कर प्रकाशित किया गया ॥

नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह

अन्यकार रात्रिसमय गगनमण्डल में जो असरूप नक्षत्र दीखते हैं ये देखने में यद्यपि छोटे २ जान पड़ते हैं, परन्तु वस्तुत ये छोटे नहीं हैं। ये नक्षत्र पृथिवी से अत्यन्त दूर पर अवस्थित हैं। इस कांरण पृथिवी से कई गुणों वहे होने पर भी छोटे २ दीखते हैं। इन नक्षत्रों की दिनरात्र एकही दशा रहती है, परन्तु दिन में सूर्य की किरणों की प्रवरता से हम लोग उन को नहीं देख सकते और रात्रि में देखते हैं। ये नक्षत्र सब एक प्रकार के नहीं हैं, जिन सब नक्षत्रों की दूरी परस्पर एक ही सी रहती है एवं नित्य अपने ही स्थान में दीख पड़ते हैं अर्थात् किन्हीं लोकलोकान्तर की परिक्रमा नहीं करते, केवल अपनी ही खुरी पर चूमते हैं, उन्हीं को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र दो प्रकार के हैं। एक अचल नक्षत्र, दूसरा चल, नक्षत्र। अचल नक्षत्रों की संख्या

अद्यावधि आधुनिक विद्वानों से ५००००,९०००० के लगभग देखते हैं। अचल नक्षत्र का वर्णन कपर ही चुका है ॥

चल नक्षत्र वा ग्रह

यहुत से नक्षत्र कभी गगनसशङ्क के एक स्थान में कभी अन्य स्थान में रवस्थिति करते हैं। एवं कभी अचल अवस्था में रहते हैं, इन्हीं सब नक्षत्रों से पिक प्रकाश होता है। इस लिये इन को ग्रह कहते हैं। ये ग्रह सब सूर्य च प्रकाशित होते हैं अर्थात् इन में स्वकीय तेज नहीं। परन्तु पूर्वोक्त अचल नक्षत्र स्वयं प्रकाशमान हैं। उन में सूर्य का प्रकाश नहीं है ॥

आकाश में जो सब नक्षत्र दीखते हैं उनमें से जो हम लोगों को दिन में सबसे अतिप्रायुक्त दीखता है वही सूर्य है। पूर्वोक्त नियमानुसार सूर्य ग्रह नहीं है, क्योंकि यह किसी की परिक्रमा न करके अपनी ही खुरी पर घूमता है और स्वयं प्रकाशित होता है। भारतवर्षीय यहुत से नवीन ग्रन्थों में सूर्य को यह माना है, परन्तु वेदादि सच्छालों में इस को ग्रहपति माना है अर्थात् ग्रहों के केन्द्र स्वरूप। वेद का प्रमाण आगे ग्रहपत्रण में दिया जायगा। अमरकोष वाले ने सूर्य के नामों में एक नाम “विभावसु” “ग्रहपतिः” लिखा है। इदानीं विद्वानों ने दूरवीक्षण पन्न द्वारा अनेक दूरस्थित नक्षत्रों को देख कर निश्चय किया है कि वे एक २ सूर्य हैं अर्थात् हमारे सूर्य की नार्ह पृथु, उपग्रह आदि के मध्य स्थित हो सब को प्रकाशित करते हुवे अपनी खुरी पर घूमते हैं। इनके तीन भेद हैं। एक सामयिक नक्षत्र, दूसरा अन्तर्हित एवं तीसरा यज्ञल वा मिथुनमाला नक्षत्र हैं ॥

सामयिक नक्षत्र

जो सब नक्षत्र किसी २ समय अतिरज्ज्वल, किसी समय अत्यन्त निधम एवं कभी २ अदृश्य होते हैं उन को सामयिक वा नष्टपतारा कहते हैं ॥

अन्तर्हित वा रूपविकारी नक्षत्र

यहुत से नक्षत्र पहिले अत्यन्त दीमिजान् होकर प्रकाशित होते हैं और कुछ दिन पीछे आकाश में अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे नक्षत्रों को अन्तर्हित नक्षत्र कहते हैं। यहुत दिनों के पीछे जो दृश्य होते हैं इस से अनुमान होता है कि वे अपनी गति से अपनी कक्षा में यहुत दूर तक भ्रमण करते हैं इसी कारण कुछ काल सक अदृश्य हो जाते हैं ॥

याले हैं, परन्तु उनके प्रकाश का क्षत्र (इन्द्र) = (मूर्य) ने और लेलिया अर्थात् उम नक्षत्रों की दूरता प्रयुक्त और सूर्य के प्रखर किरणों से हम लोग उन्हें एक २ तारे की नाइं (छोटे २) देखते हैं। इस कारण न इन्हें "नक्षत्र" (न=नहीं, क्षत्र=मूर्य की नाइं प्रकाश) कहते हैं। आशय यह है कि प्राचीन सभ्य में जिन नक्षत्रों का प्रकाश हम लोगों के निकट दूरता के कारण अत्यन्त न्यून पहुंचता एवं अहुत धोड़ी गति वाले हैं उन्हें नक्षत्र कहते थे और नक्षत्रों में जो देखने में कुछ बड़े जानपड़ते हैं उन्हें कहीं २ "नक्ष" कहते थे॥

सलिलं वा इदमन्तरासीत् ॥ यदतरन् ॥ तत्त्वकाणां तारकत्वम् ॥ योवा इह यजते ॥ अमुंसलोकं नक्षत्रे ॥ तत्त्वक्षत्राणां नक्षत्रत्वम् ॥ देवगृहा वै नक्षत्राणि ॥ यएवं वेदा ॥ गृह्येव भवति यानि वाइमानि पृथिव्याश्चित्राणि ॥ तानि नक्षत्राणि ॥ तस्मादश्लोलनामंश्चित्रे ॥ नावस्येन्न यजेत् ॥ तै० ब्रा० १ । ५ । २ ॥

अर्थात्-वर्तमान सुष्टि की आदि में जल था। उस से जो सुष्टि होती हुई-उस्य पदार्थों में सब से निकट, एवं अधिक गति वाले हैं, वे ही तारे हैं, एवं जिस प्रकार यह करने वाले ज्ञाती गति को पाते हैं। इसी प्रकार जो अपेक्षाकृत ऊपर के "नक्षत्र" हैं उन्हें "नक्षत्र" कहते हैं। सीर जगत् में एक २ नक्षत्र मानो यहादिक अन्यान्य विशेष गतिमान् उस्य पदार्थों के घर हैं। जिस प्रकार इस पृथिवी पर चित्रविचित्र घर हैं, इसी प्रकार आकाश में भी नक्षत्र पुङ्ग की जाकर्ति भिन्न २ प्रकार की है॥

प्रत्येक नक्षत्रादि एक २ लोक विशेष है। इस का प्रमाण वेदों में है:-
एतस्माद्वाओदनात् त्रयस्तिं शतं लोकान्निरमिमीत प्रजापतिः॥
(अथर्व ११ । २ । ४ । ५२)

तेषां प्रजानाय यज्ञमसृजत ॥ ५३ ॥

अर्थात्-ब्रह्मा ने ३३ लोक । २७ अश्विनी से रेवती यर्यन्त और ६ कृति नक्षत्र की योगतारा नक्षत्र ये ३३ नक्षत्र) रखे हैं। जिन के जानने के लिये यह का विधान है अर्थात् यह करने से सात्त्विक युद्ध होने पर शीघ्र विद्याद्वारा इन लोकों का ज्ञान हो जावे। यह उपलक्षण मात्र कहा गया। इसी प्रकार जिसने आकाशस्य नक्षत्रादिक हैं वे सब एक २ लोकविशेष हैं॥

सूर्य

सौर जगत् में सूर्य ही सब ज्योतिष्क पदार्थों में व्यहत् एवं उत्तम और आलोक का आकर है। सूर्य २५ दिन = होरा ३३। फल में अपनी कक्षा पर पश्चिम से पूर्व को एक बार धूम आता है। सूर्य सौर जगत् में केन्द्र स्वरूप होने से यहाँ में इस की गणना नहीं, वेदादि सच्छास्त्रों में भी इस को यह नहीं जाना है। एवं सूर्य की बीच में और उस की धारों ओर अन्यान्य प्रहों की संरूपा लिखी है। अब हम उन प्रभाणों का उल्लेख करते हैं, जिन से पूरा २ निष्ठय हो जायगा कि भारतवर्षीय लोग अनादि काल से सूर्यादि ज्योतिष्क पदार्थों की वास्तविक गति विधि आदि जानते थे॥

उद्घवघमित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम् ।

हृद्रोगं मम् सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥ ऋग्वेद१।५०।१।

अर्थात्- हे ईश्वर ! जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से अन्यकार दूर होता है, इसी प्रकार मेरे हृदय के अज्ञानात्यकाररूपी रोग का नाश करो ॥

सप्तयुज्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वोवहति सप्तनामा ॥ त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः ॥ ऋ०१।१६।४।२॥
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ।

शोचिप्केशं विचक्षण ॥ सामवेद प्र०८ । अ०प्र०३।द०१।४।१४

अर्थात् हे सूर्य ! तुम्हारे मण्डल में सात प्रकार की किरणें हैं ॥

सप्तयुज्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वोवहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमाभुवनाधितस्थुः ॥ अ०८।४।१।२

अवदिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रथमयः ॥ अ०१।७।१०।१७।१॥

अर्थात्- सूर्य की सातों किरणें दिन में प्रकाशित होती हैं। पुराणों में सूर्य के ३ घोड़े अरुष नामक सारथी और रथ आदि की जो कथा लिखी है, यह वस्तुतः कुछ नहीं है। सूर्य के न फोड़े रथ, न घोड़े, न सारथी आदि हैं। यह आलङ्कारिक वर्णन से कहा गया है कि एक ही किरण (रश्मि) सात नामों (सात प्रकार के रथ) से-सूर्यमण्डल (चक्र) में प्राप्त होता है। इस

अशय और प्रतिवर्ष चक्र में सीन जाभि हैं (उत्तरायण, दक्षिणायण और विषुवत्) इसी सूर्यनग्नहल (सौरजगत्) में सब लोक ठहर रहे हैं और (अमर्बे) उस सूर्य के रथ में चोड़ा नहीं है । हमारे पौराणिक परिषद लोग सूर्य को यहाँ में गिनते हैं, परन्तु यह उन की भूल है क्योंकि मात्रीन प्रमाणों के अस्तित्विक अन्तर्कोय में भी सूर्य को "ग्रहपति" लिखा है, यह नहीं है ॥

विभावसुर्ग्रहपतिस्त्वपांपतिरहर्षतिः ॥ ३० ॥

(अमरकोष काशह १ कालवर्गे)

वायु के कारण सूर्य

सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुत्तरतः प-
श्चादयं भूयिष्टं पवमानः पवते सवितृप्रसूतो ह्येप एत-
त्पवते । ऐ० ब्रा० २ । ७ ॥

वह वायु सूर्य की सेवा करता है, जिस लिये सूर्य की सेवा करता है, इस कारण सूर्य की उत्तर पद्धिम आदि नाम से वारंवार वायु चलता है ॥
आशय यह है कि सूर्य से उत्पन्न होकर वायु घहता है ॥

ऋतु के कारण सूर्य

पूर्वानुप्रदिशं पार्थिवानामृतून् प्रशाद्विदधावनुप्तु ॥

(अ० स० १ । ५४ । ३)

हे सूर्य ! तुम्हारे द्वारा पृथिवी पर पूर्वादि दिश की व्यवस्था होती है और ऋतुओं को उत्पन्न करते हो ॥

सौरजगत् में एक ही सूर्य है

एक एवाग्निर्वहुधा समिद्ध एकः सूर्याविश्वमनुप्रभूतः ।

एकैवोपा सूर्यमिदं विभाति । ऋ० ८ । ५८ । २ ॥

एक ही अग्नि व्युत्त प्रकाश से लालाया जाता है और एक ही सूर्य सब लोकों को प्रकाश करने में समर्थ है और एक ही उपा (सूर्योदय से पूर्व लालिगा से भी पूर्वकाल) सम्पूर्ण जगत् को सुशोभित करती है ॥

अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिकदत्पतयदूर्धर्वसानुः ।

(अ० स० १ । १५२ । ५)

चोड़ारहित ही सूर्य उत्तर क्षेत्र में चलता है * ॥

अंग्रेजों ने जो दूरवीक्षण यन्त्रद्वारा सूर्यमण्डल में कलहूँ देखा है और उत्तर दक्षिण किसीसे दिया हुया निश्चय किया है यह विषय एवं सहस्र वर्ष पूर्व ही से हमारे शास्त्रों में लिखा है:-

हस्त्वोरूप्लोऽप्रशस्तश्च परिवेपस्तु लोहितः ।

आदित्ये विमले नीलं लक्ष्मण लक्ष्मण दृश्यते ॥

(वाल्मीकीय राठ युठ सर्ग ८४)

श्रीरामधन्द्र जी कहते हैं कि है लक्ष्मण ! सूर्यमण्डल सन्ध्या के कारण लाल है, एवं इस का अङ्गु छुछ रुथ (दिवा) है और नील रङ्ग का कलहूँ (चिन्ह) दीखता है ॥

शुक्र

शुक्र के अनन्तर शुक्र की संस्था है । यह यह अन्यान्य ग्रहों की अपेक्षा अतिशय सुन्दर और यहाँ है । सूर्य के उदय और अस्तमन से पहिले अर्धांश सन्ध्याकाल में एवं अहोदय के पहिले प्रातःकाल में यह यह दृश्य होता है, इसी कारण सर्वसाधारण इस की प्रभाततारा या सन्ध्यातारा कहते हैं ॥

शुक्र और शुक्र को जो हम लोग सम्पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, इस का कारण यह है कि ये दोनों यह पृथिवी के गमनीय पथ और सूर्य के भव्यस्थान हो कर गमन करते हैं । चन्द्रमा की नाहूँ शुक्र की फला की भी खुदि और ह्रास होते हैं । इसी कारण कभी २ यह इतना सूक्ष्म हो जाता है, लो हम लोगों को ठीक २ दृष्टिगोचर नहीं होता । इसी कारण भारतवर्ष में शक को “काणा” या देत्याचार्य शुक्र एकाक्षर है, ऐसा कहते हैं । यह सो इदानीतक जिद्वानों ने अनुष्ठव किया है । वेद में भी इसी प्रकार एवं इस ने विशेष लिखा है । अंग्रेजी में शुक्र का माम वीनस (Venus) है । इस से अनुमान होता है कि हमारे घेदों में जो “वेनस” शुक्र का माम है, उसी को लेटीन, योक भादि भाषा में भी लिखा है । घेदों के प्रमाण दिये जाते हैं:-

* किन्हीं लोगों की जो यह धारणा है कि गूर्ध्व पृथिवी की परिक्रमा करता है यह एकभाव अमूलक है क्योंकि येदादि सत्यशास्त्रों में इस का प्रमाण नहीं पाया जाता है । देवों पृथिवीभूमण विचार ॥

अयं वेनश्चोदयति पृथिवीर्भा ज्योतिर्जरायूरजसो विमाने ।
इममपां सहमे सूर्यस्य शिशुं न त्रिप्रा मतिभीरिहन्ति ॥

(ऋ० सं० १० । १२३ । १)

अर्थ—यह वेनस् (शुक्र) और मति (शुध) सूर्य के पास गिरु (ब्राह्मण) की नाई प्रतिदिन घटते हैं, अर्थात् चन्द्रमा की कला की हानि शृङ्खि की सी इन की कला भी घटती घटती हैं, परन्तु यिष (दृहस्पति) पर के लिये यह निषम नहीं है ॥

कुम्भं रूपं दृष्टप्रभस्य रोचते दृहच्छुक्रः शुक्रस्य

पुरोगाः । सोमः सोमस्य पुरोगाः ॥ यजु० अ० ८ । ४६ ॥

अर्थ—इस पूर्ण कलायुक्त शुक्र का सुन्दर रूप देखने में उदाहरण है जीर इस की सह्या चन्द्रमा के पहिले एव इस के आगे (सामने) चन्द्रमा है ॥

अयं वेनः । चित्रं देवानाम् । यजु० अ० ३३ । ३३

अर्थ—यह वेनस् (शुक्र) यस्य दिव्य यहो में सब से सुन्दर है ॥

चक्षुपी ह वा अस्य शुक्रामन्थनौ । तद्वा एष एव शुक्रो
य एष तपति तद्यदेप एतत्पति तेनैष शुक्रचन्द्रमा, एव
मन्थो ॥१॥ इमामुहैके शुक्रस्य पुरोरुचं कुर्वन्ति । अयं
वेनश्चोदयत्पृथिवीर्भा ज्योतिर्जरायूरजसो विमान
इति तदेतस्य रूपं कुर्मो य एष तपतीति यदाह ज्योति-
र्जरायरिति ॥ ८ ॥ शत० ब्रा० ४ । २ । १ ॥

आश्रय—सूर्य के दी नेत्रस्वरूप शुध और शुक्र हैं, या यह जो शुक्र प्रका-
शित होता है, यह जो शुक्र सप्तता है, चन्द्रमा है (चन्द्र सुल्य है) इसको
कोई चन्द्रमा का पुरोरुची कहते हैं । (चन्द्रमा के पहिले शुक्र की सत्या है)
इस लिये शुक्र को प्रकाश का गभ (जारायु) कहते हैं ॥

वस्त्वसि रुद्रास्यादितिरस्यादित्यासि शुक्रासि

दृहस्पतिस्त्वा सुम्ने ररावतु । तै० सं० १ । २ । ५ ॥

आश्रय—तू यस्ती है, रुद्रा है, अदिति है, शुक्रा है, चन्द्रा है, और दृह-
स्पति यह के सुल्य तुम्हारे सुखमद मदेश हैं (श्रेत हैं) ॥

इस मन्त्र में जो शुक के विशेषण स्थीलिङ्ग शब्दों में हैं। इस का कारण यह है कि शुक की सुन्दरता के वर्णन में है। इस लिये पुस्तिंग्राम वाचकशब्द नहीं हैं एवं शुधरेह के वर्णन में शुकका एकाक्ष होना अति लिखा गया है वहीं देखना चाहिये। प्रायः चारों वेदों में शहस्रति और शुक को “अशिवती” नामत्वा, दस्ता, स्वर्येद्य के बहुत से मन्त्र हैं उस का कारण यह है कि मातृ-फाल अर्थात् आपीरात के पीछे और सूर्य के अहोदय से पूर्व एवं सम्भाकाल में सूर्य के पीछे ईश्वरोपासना का समय है जिस का नाम “उपकाल” और ब्राह्मसुहूत्त है। इस समय हमारे नियमित्वा ग्रायः सांसारिक कार्यों को छोड़कर नियमपूर्वक स्नानादि नित्यक्रिया कर ईश्वरोपासना, होन, वेदपाठ आदि ईश्वरोपासनासम्बन्धिकार्य में व्यस्त रहते थे। जो ये दोनों यह शुक और शहस्रति जिन को हमारे देश के आद्यात बहु खी पुरुष जासते हैं “शुकतारा” एवं “शहस्रतितारा” प्रायः प्रत्येक वर्ष के आखे नहीं नें उदित होते हैं। इसी कारण उपकाल एवं सन्ध्याकाल के वर्णन में मन्त्रों को ईश्वरोपासना विशेषतः करनी चाहिये। शुक और शहस्रति सारा देखने से नियमित्वा काल का निरूप होता है॥

बुध

यह चह अन्यास्य पहों की अपेक्षा अत्यन्त छोटा एवं सूर्य के अत्यन्त निकटवर्ती है। इस का वर्ण शुभ(धेत) सूर्य के उदय अस्त के किञ्चित् पहिले दृष्टिगोचर होता है। शुध यह २३ दिन २३ होरा १५ मिनिट ४६ सेकेंड में सूर्य की एक ओर प्रदक्षिणा कर लेता है और अपनी कक्षा पर २४ होरा ५ मिनट में एक ओर अस्त करता है। इस यह की संस्था सूर्य के वद्यात् है (पाद्यात्मनामानुसार)। इसी प्रकार येदि में भी इस की संस्था लिखी है प्रायः चारों वेदों में उपकाल (सूर्योदय के लालिमा से पूर्व का काल) के ईश्वरोपासना विषयक मन्त्रों में आलङ्घारिक वर्णन द्वारा सूर्य के दो नेत्र स्वदृप्य और शुक को जाना है। प्रायः देखने में ये दोनों यह इसी प्रकार जान पड़ते हैं। दोनों और शुध और शुक और थीय में सूर्य रहता है॥

सूर्यस्य चक्षुरजसैत्यावृतं तस्मिन्नातस्युर्भुवनानि
विश्वा॥१४॥स्त्रियः सती ताँ उमे पुंसआहुः पश्यदक्ष-
रवान्न वि चेदन्धः। कविर्यः पुन्नः ईमा चिकेत
यस्ता विज्ञानात् सपितुः पितासत् अर्थर्वसं०९॥१५॥

आद्ययः- शुक्र ग्रह का नाम अंदेजी में घीनत (Venus) है जिस का अर्थ अत्यन्त सुन्दर है (Goddess of beauty) जिसे संस्कृत में "श्री" कहते हैं। एवं शुक्र ग्रह को काणा वा एकाह भी संस्कृत के ग्रन्थों में लिखा है ग्रह इस कारण से कि दूरबीन यन्त्र द्वारा देखने से कभी २ शुक्र ग्रह इतना मूल्य प्रतीत होता है जो उस का वास्तविक रूप नहीं दीखता (चन्द्रमा की नार्ह इस की कला बढ़ती घटती है) इस से इस को "काणा" भी कहते हैं। इस का मूल ऊपर के मन्त्र में पाया जाता है ॥

मन्त्रार्थः— सूर्य के दो नेत्र स्वरूप बुध और शुक्र ग्रह हैं (अत्यन्त मिकट हैं) जिन में अनेक खोक घसते हैं। इन दो में एक तो पुरुष (बुध) और एक स्त्री (शुक्र) एवं नेत्र बाला (बुध) और एक नेत्रहीन (शुक्र) है। इन को जो विद्वान् जाने वह विद्वानों में श्रेष्ठ है ॥

इसी प्रकार बुध के नाम सौम्य, एवं रौहिणी रथों हैं इस का कारण जीवे द्वयक किया जाता है। कभी २ बुध और शुक्र को चन्द्रमा पिधान (दक्ष छेता है) करलेता है और प्रायः तारा और ग्रहों का भी पिधान होता है। अनेक दिन हुए कि रोहिणी और चन्द्रमा के पिधान में बुध ग्रह आगया -या पुनः बुध चन्द्रविन्दु से बाहर निकल गया या इसी कारण रोहिणी को दो नाम कर और चन्द्रमा को पुरुष एवं रूपकालकूर से इन दोनों के समागम से बुध उत्पन्न होकर रौहिणी और सौम्य कहलाया। इसको लेकर पुराणों में एक और कथा है कि चन्द्रमा ने गुरुपत्री तारा को हरलिया या उसी से बुध का जन्म हुआ इत्यादि परन्तु वह भी कल्पनामात्र है। वास्तविक पिधान ही हाता और ग्रहों का भी इसी प्रकार पिधान होता है परन्तु औरें की कथा इस प्रकार प्रसिद्ध नहीं हुई। भूल और शुक्र का ऋग से आया-दामू और भूषा नाम पिधान ही के कारण प्रसिद्ध हैं ॥

चन्द्रमा

यद्यपि चन्द्रमा ग्रहों में परिगणित नहीं परन्तु वेदोंमें इस की संख्या का क्रम जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार शुक्र की संख्या के अनन्तर पृथिवी के उपग्रह रूप से इष की संख्या है। एवियो जिस प्रकार सूर्य का परिक्षमण करती है उसी प्रकार चन्द्रमा भी एवियो की प्रदक्षिणा करता है २३ दिन ७ होरा ४३ मिनट ११.५ सेकंड में चन्द्रमा पृथिवी का एक धार परिक्षमण कर लेता है। चन्द्रमा का रूप रुद्ध, छाल, गौर और इवेत है। चन्द्रमा स्वयं

तेजस्वी नहीं, परन्तु पाश्चात्य पण्डितों ने यह भी निश्चय किया है कि चन्द्रमा सुकमात्र निष्प्रभ नहीं है किन्तु उस में सन्दर्भमा है जो सूर्य की किरणों से विशेष रूप से प्रकाशित होता है। लाहौंनर भाष्म कहते हैं कि यहुत परीक्षा द्वारा जाना गया है कि चन्द्रमा की किरणों में ताप नहीं और हम्बोलट साहध इसके विहृद कहते हैं कि चन्द्रमा की किरणों में ताप है। चन्द्रमा में पर्यंत, समुद्र, भूमि आदि हैं एवं कोई भाग ऊंचा कोई नीचा है। अब हम कम से वेदादि सूचाओं द्वारा उपरोक्त विषय की सिद्ध करते हैं:-

ककुमं रूपं वृपभस्य रोचते वृहच्छुक्रः शुक्रस्य

पुरोगाः। सोमः सोमस्य पुरोगाः॥ यजु० अ० ८ मं० ४६

इस का अर्थ शुक्र के वर्णन में किया गया है। परन्तु यहां चन्द्रमा की संस्था दिखलाने को लिखा गया है। शुक्र यह के सामने (आगे) चन्द्रमा और चन्द्रमा के आगे शुक्र। अब चन्द्रमा में जो श्याम रङ्ग एवं ऊंचा नीचा आदि है, उस का प्रमाण:-

यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सुभूमौ यानि

नगेप दिक्षु। प्रकल्पयन्त्रचन्द्रमा यान्येति॥ अथर्व० १० दा० ११

अर्थ-जो नक्षत्र द्युलोक में (जहां सूर्य की संस्था है) और जो अन्तरिक्ष में (जहां चन्द्रलोक है) जहां के चन्द्रमोधिष्ठित पहाड़, जल, परिषी और वृक्षादि हैं उम २ प्रदेश में जो नक्षत्र हैं। हे ईश्वर! सब से हम को सुर पहुंचे। इस से सिद्ध हुआ कि चन्द्रमा में पहाड़ भूमिआदि सघ हैं और इसी कारण चन्द्रमा में जो भाग नीचा है वहां सूर्य का प्रकाश ठीक नहीं पहुंचता जिस से श्याम रङ्ग प्रतीत होता है।

चन्द्रमा अप्स्वञ्चतरा सुपर्णो धावते दिवि ॥

सामवेद प्र० ५। अर्ध प्र० १। द० ४। मं० ६।

लक्षात्मक चन्द्रमा (सूर्यपक्ष और शुक्रपक्ष होने से पक्षी) पक्षिस्वरूप आकाश में घल रहा है। चन्द्रमा में अपना भी प्रकाश है, जो लिखा है उस का भी प्रमाण हमारे वेदों में है:-

उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो श्रिंशुमान् ॥

अथर्व० ८। १। २

आयंस्त ह ने अपने जार्यसिद्धान्त के गोलपाद में लिखा है कि-

चन्द्रो जलं मकोऽग्निः मृद्भूमिश्चायापि तमस्तद्वि ॥
आर्या ३७ ।

अर्थात्-चन्द्रमा जल स्वप्नप, मूर्य अग्निमय, एवं पृथिवी मृदमय जिस की ठाया चन्द्रमा को ढक लेती है तो ग्रहण होता है ॥

कालीदास जो श्री महाराजे विक्रम के नवरत्नों में से थे, उपर्युक्त न्तत्वां यन्थ में लिखते हैं कि:-

मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।

किमिव हिमधुराणां भग्ननं नाकृतीनाम् ॥

शाकुन्तला १-१ । १८ ॥

हमारे शास्त्रों में जो चन्द्रमा के असूत की प्रसिद्धि है वह धार्मिक सूर्य है फ्लोंकि चन्द्रमा में ईश्वर ने कुछ ऐसा विलक्षण गुण दिया है जिस की किरणों से हमारे वैद्यक शास्त्रोंको ओपथिया सब वटपत्र होकर नाना प्रकार के गुण देती हैं । नाना प्रकार बूँटियां पहाड़ों में होती हैं जिन का वर्णन चरकमुश्तुत एवं अन्यान्य वैद्यक शास्त्रोंमें है । इन्हीं ओपथियों के मूल कारण चन्द्रमा के होते से इस का नाम "ओपथीश" है और ओपथियों के विलक्षण गुणों के कारण उस के किरण का नाम असूत हुआ है ॥

सूर्यरश्मश्चन्द्रमा गन्धर्वः । तै० सं० ३ । ४ । ७ । ९

अर्थात्-चन्द्रमा सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है ॥

चन्द्रग्रा एव आधा ज्ञाग हम लोग सदैय देखते हैं परमु इस का श्रेष्ठ दूसरा आधा नहीं दूश्य होता । इस को हमारे पूर्वज ग्राधियोंने यहिले से लिख रखा है ।-

यथा हिमवतः पार्श्वपृष्ठं चन्द्रमसो यथा ।

न हृष्टपूर्वं मनुजैः ॥ महा० शान्ति पर्व अ० १०० ।

मङ्गल

युध के अनन्तर पृथिवी की सत्पा तदमन्तर मङ्गल की संस्था है । यह गाड़ अल्पस्तगाड़ यायु में अन्यरत अवस्थित है इसी कारण अन्यान्य यहों की अचेता दृम का रङ्ग अतिशय रङ्ग है । मङ्गल का गमनीय पथ पृथिवी की कक्षा के अविदेश में है । इस यह की दूरी मूर्य से १४५०००००० माइल है एवं १ वर्ष ३५९ दिन १३ होरा ५० मिनट ४५ सेकेंड में मूर्य की परिक्रमा एकवार कर लेता है ॥

हमारे भारतवर्षीय संस्कृत ग्रन्थों में भङ्गल ग्रह के नाम 'लोहिताङ्ग' 'अङ्गारक' लाल होने के कारण रखकर गये हैं। जिस लालवर्ण को जानकर पहचित ज्योतिषियों ने इस ग्रह की कूर घटों में गणना की है। कभी २ पृथिवी के एक और सूर्य, दूसरी ओर भङ्गल आजाता है। एवं इस की कक्षा पृथिवीकक्षा के अनन्तर है। भङ्गल और पृथिवी के अनेक अंशों में सादृश्य है। इन कारणों से हमारे प्राचीन ग्रन्थों में इस के नाम 'महीषुत', 'फुज', 'भौम' हैं।

वेद में इस ग्रह का नाम और रङ्ग भी लिखा है:-

असौ यस्ताम्नो अरुण उत वसुः सुमङ्गलः । वे चैनं रुद्रा
अभितो दिक्षु श्रिताः सहशोऽवैपां हेड ईमहे ॥ य०उ०१६मं०६

आशयः—ग्रह जो तामे के रङ्ग की भावै अथवा पिङ्गलवर्ण सुमङ्गल वा अतिमुद्र है, जिस के चारों ओर सुन्दर प्रकाश है ॥

यहस्पति

यहों में यहस्पति सब से धड़ा है। इस का व्यासपरिमाण ८८०३ मैल और सूर्य से ८८५८६००० मैल दूरवस्थित है। एवं इस की कक्षा भङ्गल के पश्चात् है। सूर्यगणना द्वारा जामा गया है कि यह यह ११ वर्ष ३१४ दिन २० होरा २ मिनट ७ सेकेण्ड में एक बार सूर्य के पारों ओर परिभ्रमण कर आता है। जो स्थूल गणना से हमारे ज्योतिष्यग्रन्थों में १२ वर्ष लिखे हैं और इस ग्रह के चार उपग्रह हैं, इस ग्रह का नाम संस्कृत में गुरु, यहस्पति, देवपुरोहित आङ्गूरस आदि हैं। अन्यान्य घटों से इस में गुरुत्व अधिक होने से गुरु और वहिर्यर्ती घटों में शुक्र की भावै प्रभायुक्त होने से "पुरोहित" (पुरोहित=आगे+हित=रप्ता है) एवं तिष्य नक्षत्र से पिपास होने से "अङ्गूरस" "तिष्य सम्भव" नाम हैं। यहस्पति की उत्पत्ति तिष्यनामक नक्षत्र से मानी जाती है उस का कारण यह है कि इस ग्रह का परमशर १ अंश ३० कला होता है, इस से २७ नक्षत्रों में से जिस के साप निकटयुति होनी सम्भव है वह केवल पुष्य, मधा, विश्वामी, अनुराधा, शतभिषा और रेतती नक्षत्र हैं। इस कारण गुरु और तिष्य नक्षत्र की पुति होने पर, निकटता प्रयुक्त दोनों नक्षत्र और एकसा प्रतीत होने से युतिकाल के पीछे जब गुरु बाहर होगया हो तो तिष्य नक्षत्र से इस की उत्पत्ति मानी गई (रुपकालङ्कार से) ममाणः—

वृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिथ्यं नक्षत्रमभिसंवभूव ॥ १ ॥
 (वै० श्रा० ३ । १ । १)

वृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिपः परमे व्योमन् ॥ २ ॥
 (श्रा० ४ । ५० । ४)

वृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिपः परमे व्योमन् ॥ ३ ॥
 (अथव० २० । ८८ । ४)

ईर्मान्यद्वपुषेवपुश्चक्रं...पर्यन्या नाहुपा युगा मन्हा रजांसि
 दीयथः ॥ ४ ॥ (श्रा० स० ५ । ७३ । ३)

वृहस्पति एकवार सूर्य के परिभ्रमण में सूर्य के १२ सीरवर्षे होते हैं अर्थात् १२ वर्ष में अपना चक्र पूरा करता है ॥ ४ ॥

वृहस्पति की सम्पादित दिव्य अन्यान्य शुक्रादि ग्रहों से ऊपर को है—
 वृहस्पतिर्मा विश्वैर्दैरैरुर्ध्वायादिशः पातु ॥ अथ० २।१७।१०

जिस समय आधीरात का जाकाश में वृहस्पतिरुदित होता है या सूर्यों द्वय समय जब यह यह असलनित होता है एव सूर्यास्तकाल में जब इस का उदय होता है । उस समय यह शुक्र की नाईं एविषी के अत्यन्त निकटवर्ती होकर हम लोगों को शुक्र घह की नाईं अति उज्ज्युल भास होता है । इसी कारण वेदों में “अश्विनी” नाम से प्रात कालीन एव सन्ध्याकालीन कर्त्तव्य विधायक मन्त्रों में इन का वर्णन बहुत स्थलों से आया है ॥

और भी इस घह के विषय में वेदों के प्रमाण —

आवेद्यसं नीलपृष्ठं वृहन्तं वृहस्पतिं सदने सा-
 द्यध्वम् । सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिरण्य
 वर्णमरुपं सपेम ॥ ऋग्वेद सं० ५ । ४३ । १२ ॥

इस मन्त्र से वृहस्पति का बहा होमा, नीला, लाल, रमणीय, इवेतवर्णं अर्थात् नाना रङ्ग का होमा एव देवीप्यमान होमा सिंह होता है ॥

वृहद्वयो वृहते तुभ्यमग्ने धिया जुरोमिथुनासः
 सच्चन्त ॥ ऋग्वेद सं० ५ । ४३ । १५ ॥

जिस प्रकार यज्ञवेदी के दो और दो २ खो पुरुष अर्थात् ४ मनुष्य मिल के यज्ञ करते हैं, इस प्रकार हे वृहस्पते । चार पारिपाश्विक ग्रहों से सुधो-भित हो रहे हो ॥

वृहस्पति का नाम आङ्गिरस क्षेत्र है सो इस मन्त्र से सिद्ध होता है-
यजिष्ठुत्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विग्र मन्मभि-
र्विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः ॥ ऋग्वेद सं० १। १२७ । २ ॥

इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने निहश और ए० ब्रा० का प्रमाण दिया है-
अङ्गाराणां मध्ये ज्येष्ठं ज्वालायुक्तत्वात् ।

आङ्गिरा अङ्गारा इति यास्कः ॥ नि० ३ । १७ ॥

ये अङ्गारा आसंस्तेङ्गिरसोभवन् । ए० ब्रा ३ । ३४ ।

अर्थात्-वृहस्पति यह सब ग्रहों से बड़ा होने और प्रकाशयुक्त होने वे आङ्गिरस नामक है ॥

शनैश्चर

इस ग्रह की स्थिता-वृहस्पति के अनन्तर है, यह मूर्य में अत्यन्त दूर एवं दूर है । प्राय. १५७२३००० नार्देल दूरी पर अवस्थित है । यह २९ वर्षसर १६६ दिन २३ होरा १६ मिनट ३२ बिकेपद में मूर्य की एक वार परिक्रमा कर लेता है । अत्यन्त दूर होने के कारण इस की किरणें एथियी पर अतिशाय भाव से प्रकाशित होती हैं । इसी से इस की आरुति स्थूलदृष्टि से जाताश्रोंपी नार्दे छोटी जान पहती है परन्तु वास्तविक दूरवीनद्वारा जाना गया है कि इस में इतनी उष्णता है जो ग्रहों में इस की उष्णता की उपग्रामी हो गकरी प्रत्युत द्वितीय मूर्य ही है अर्थात् मूर्य ही से इस की उपग्रामी गकरी है । मूर्यसदृश उष्ण होने से इस का नाम “मूर्य का पुत्र” संस्कृत ग्रन्थों में लिखा है एवं अत्यन्त मन्द गति होने से “शमीषर” (शनी=पीरे १ । चर=चलने वाला इस की आरुति विलक्षण भाव से मृष्टियोग्य तुष्टि है अर्थात् तीन घक वा अहुरीय के बीच में रियत है । इस घक में दो उच्चश्वर जीर एक दीसिहीन । एवं घकश्वर शनि से अद्युत अवस्थित शीर परस्पर चलन नहीं हैं । इन तीन अहुरीय के बाहर आठ उपग्रामी हैं जो इस को गिय परिभ्रमण करते हैं । जैसे हमारी एथियी को रात्रि में चन्द्रग्राम प्रकाशित करता है इसी प्रकार शनि आठ चन्द्रद्वारा रात्रि में शान्तिरित होता है । शनीषर

का रङ्ग नीला, पीला, पालुर, ताजे का रङ्ग अनेक प्रकार के रङ्ग प्रतीत होते हैं। अब हम ठीक इसी प्रकार उक्षणपृष्ठ पर्पटन का प्रमाण वेद में दिखाते हैं:-

**आधर्णसिर्वृहद्विवो रराणो विश्वेभिर्गन्त्वोमभिर्हु वानः ।
भा वसान ओपधीरमृप्रखिधातु शृङ्गो वृपभो वयोधाः ॥**

(ऋ० सं० ५ । ४३ । १३)

अधार्णस्-यह सूर्य की नाई प्रकाशमान यहुत ऊपर तीन रङ्ग के बड़े रे किन्होंने चे वर्णित और अत्यन्त उद्यालायुक्त है ॥

**सउजर्मुराणस्तर्वभिः सुते गृभं वयाकिनं चित्तगर्भांसु सुस्वरुः ।
धारवाकेष्वजुगाथ शीभसे वर्धस्व पत्नीरभिजीवो अध्वरे ॥**

(ऋ० सं० ५ । ४४ । ५)

अधार्णस्-हे मन्दगामिन् ! अनेक छोटे २ प्रहरीं (उपग्रहों) के बीच अवस्थित अधार्णस् शनिग्रह । तुम छोटे काम वाले प्रहरीं के बीच में कैसे शोभते हो, जिस प्रकार ताराओं में चन्द्रमा । इस से शनि के उपग्रह सिद्ध होते हैं ॥

ज्यायांसमस्य यतु नस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते ॥

(ऋ० ५ । ४४ । ८)

हे चीरे ! जिस प्रकार समयिं तारे हैं, ऐसे तुम जान पड़ते हो, परन्तु अबै तेजस्वी और तुम्हारे अधिकांश गुण सूर्य की नाई हैं अधार्णस् प्रकाश उक्षणका, गति और रोहिणी नक्षत्र का शक्टभेद (देखो सूर्यसिद्धान्त अ० ८) प्रायः शनि, मङ्गल और चन्द्रमा करते हैं अधार्ण रोहिणी नक्षत्र का आकार गाढ़ी की नाई है, जो इन शनि आदि के भ्रमण मार्ग में पहुँचे से हम लोगों को नेप की नाई भाज्छादित हो जाने से लिप्त भिन्न दृष्टिगोचर होता है । इस शक्टभेद को फलित ज्योतिषी लोग अश्रभ मानते हैं । यह शक्टभेद बहुत क्रम होता है । गणितद्वारा जाना गया है कि आज से ५००० वर्ष पूर्व रोहिणी का शक्टभेद शनि ने किया था ॥

वस्तुतः इस से कुछ शुभाशुभ फल हम लोगों को नहीं होता, जो किसी सदृश्यम् में इस का उल्लेख है, परन्तु पीराजिक भाइयों को फिर भीका मिला धर के पश्चपुराणान्तर्गत काश्मीरएह में लिख भारा कि श्री महाराज दशरथ जी के समय में शनि ने रोहिणी का शक्टभेद किया था, जिस से उन के राज्य में १२ वर्ष तक अनावृष्टि हुई ती श्री दशरथ जी ने आकाशभरहल में आकर शनि से पुढ़ किया ती शनि ने पराजित होकर राजा को वर दिया कि तुम्हारे राज्य में अब में पीड़ा न दूँगा । अब इसी विद्या का क्षमा को सेकर

पौराणिक जी ने शनि की स्तुति रच ली । । । क्या आश्वर्य की आत है? कि वेदादि सदूपन्थों में सूर्योदिक आकाशस्थ पदार्थों को तौ जड़ माना है, परन्तु महाराज दधरथ जी ने उन से लड़ाई की । । ।

प्रजापति (युरेनस)

इस ग्रह का यर्णव वेद छोड़ कर किसी स्वीतिष्ठ के सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। इस की संख्या शनि के बाद है। सन् १७१ में हर्षल साहव ने गगनमण्डल को देख कर इस का निश्चय किया था। इस ग्रह की सूर्य से प्रायः १८२२००:००० मैल दूरता है। एवं उपास परिमाण इस का प्रायः ३४५०० मैल है। हमारे पृथ्वी परं ५ दिन १५ होता है। मिनिट ३६ से केवह में इस का १ घण्यं वा सूर्यं को परिभ्रमण करता है। इस का रह शुभ और कुछ भी लाभ है और इस के ८ उपग्रह हैं। जिस प्रकार हमारे प्राचीन ग्रन्थों में यहाँ की आठति आदि के अनुसार उन के नाम हैं उसी का अनुरूप योगीक और रोमन लोग भी करते हैं। उन में भी यहस्पति को "अुपिटर" (युपिटर) और शनि का "सटर्न" देव नाम रखा है। वे लोग शनि को यहस्पति से यहाँ आकार लाभा सक कर यहस्पति का पिता शनि को मानते हैं और यहस्पति का पिता मह (दादा) युरेनस को मानते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हमारे आधुनिक स्वीतिष्ठ ग्रन्थों में इस ग्रह का उल्लेख नहीं पाया जाता, परन्तु उक्त लक्षणों के मिलाने से हमारे वेद में प्रजापति मानक यह से अधिक सांदृश्य होता है। इस के अनेक उल्लेख वेद की संहिताओं में पाये जाते हैं, परन्तु मेरे पास सायणभाष्य न होने के कारण भन्त्रों का प्रमाण नहीं दे सका। सूर्यसिद्धान्तादि प्रवर्तित स्वीतिष्ठ के पुस्तकों में इस का कुछ भी वर्णन नहीं है॥

वरुण (नेप्चन)

प्रजापति (युरेनस) के अनन्तर वरुण की कहा है। इस का भी वर्णन स्वीतिष्ठ के सूर्यसिद्धान्त और आर्यभट्टीयादि ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। परन्तु आधुनिक आविकरण लक्षणों के मिलाने से वेद में इस ग्रह का वर्णन पाया जाता है। जिस के अनेक प्रमाण दिये जाते हैं, परन्तु प्रथम इस का वर्णन जैसा कि अहुरेजी ग्रन्थों में लिखा है, लिखकर पुनः वैदिक प्रमाणों से तुलना की जावेगी। चेतिसनगर निवासी स्वीतिष्ठ "लावेरीयर" प्रसृति क्षतिष्ठ उपलिं इस प्रकार विवार कर कि युरेनस यह के अनन्तर अवश्य ही कोई दुष्टा पह है, एवं उस अवास यह के आकर्षणद्वारा युरेनस की कहा

इस प्रकार विधलित होती है, इत्यादि प्रकार अनुभव करने लगे, एवं कुछ काल के पीछे निष्ठय किया, परन्तु उन के पास दूरयीकरण यन्त्र नहीं था। इस कारण वे इस के स्थान को प्रकट नहीं कर सके। घर्लिन नगर के ज्यो-रितिविद् छाक्टर गालसाहब फो स्थीय ग्रहणना विवरण सम्बलित इस प्रकार एक पत्र लिखा कि वास्तविक यदि किसी अज्ञात यह को आकर्षण शक्ति से युरेनस यह की कक्षा विधलित होती है तो यह यह इस सभायग्रन्थालय में असुख स्थान में अवश्य रहेगा। आप इस स्थान को अनुभव्यान कर अवश्य देखेंगा।

उक्त छाक्टर सन् १९४६ ई० ता० २३ सेप्टेम्बर को पत्र पाकर उसी रात्रि में आफाथरहदल में उहिलखित वस्तुएँ दूरवीक्षण यन्त्रद्वारा निरीक्षण करने लगे और उसी रात्रि में इस अनाविकृत ग्रह को उसी स्थान में पाया जहा उक्त चाहूद्य ने पत्र में लिखा था। अब हम उसी नियम के अनुसार जो ठायास एवं दूरी आदि का निश्चय हुआ है, लिखते हैं -

ऋग्वेदादि सहिताओं में इस ग्रह का यथन पाया जाता है, परन्तु ऐसे पास साध्यणसाप्त न होने से भन्नोंका प्रमाण नहीं दे सका और प्रधरित सर्वसिद्धान्तादि ग्रन्थों में इस का कुछ भी वर्णन नहीं है ॥

संक्षिप्त ग्रन्थालय

पाइचात्य परिहस्तो एव एतदेशीय नवशिक्षित लोगों का ऐसा निष्पत्ति है कि भारतवर्षीय ज्योतिषमन्यों में इस खण्ड के नक्षत्रों वा चल्लेश नहीं है और न इस देश के पूर्वज लोग जानते थे इत्यादि । यह कहना उन का एक भाग अविश्वसनीय है । इस प्रमाण के साथ चिह्न करते हैं कि जय घेदों में सब खण्डों के नक्षत्रादिकों का चल्लेश है तो अयश्य वेद की शासा एवं जायं (ज्योतिष) ग्रन्थों में होगा ।

विश्वकर्मा सप्तऋषिभिरुदीच्यादिशः पातु । अथर्वरा १७।७
अमींय ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृशे कुहचिद्विवेयः ॥
(अथ० सं० १ । २४ । १०)

सप्तर्षीन् ह स्म वै पुरक्षा इत्याचक्षते ॥ श० ब्रा०२ । १।२।४

अथर्ववेद की ऋचा में सप्तर्षि तारा की संस्था उत्तर दिशा में लिखी है और ऋग्वेद की ऋचा में “ऋक्ष” शब्द से सप्तर्षि का उपदेश है। अर्थात् ये जो रात्रि में यहैं २ नक्षत्र उत्तर ओर हैं। इस समय (दिन में) कहाँ हैं। शतपथ ब्राह्मण में “ऋक्ष” शब्द से और सामान्यतः सब नक्षत्र सप्तर्षि तारा अर्थ लेने के लिये पुष्ट प्रसारण है। यों ऋक्ष का अर्थ भालु है और अंग्रेजी में भी सप्तर्षि तारों को ग्रीटवी अर्थात् बड़ा भालुक लिखा है, जो उत्तर दिशा में हैं॥ विराट् परमेष्ठी प्रजापतिरभ्यर्वश्वानरः सह पद्मत्याप्तिः॥

(अथ० सं० १३ । ३ । ३ । ५)

अर्थात् ‘हंस’ नामक नक्षत्र, (विराट्) ग्रस्तहृदय, (परमेष्ठी) प्रजापति, अग्नि ये चारों नक्षत्र राशिचक (वैश्वानर) की पंक्ति से उत्तर में हैं॥ अङ्गरेजों ने भी दूर्योन द्वारा देखकर ठीक ऐसा ही लिखा है॥

सउदतिष्ठत उदीचों दिशमनुव्यचलत् । तं श्यैतं च
नौधसं च सप्तर्षयश्च सोमश्च राजानुव्यचलत् ॥

अथ० व० १५ । १ । २ । २२

उत्तर दिशा में जाकर पुष्ट नामक नक्षत्र (श्यैत) और पुष्टमत्स्य (नौधस) एवं सप्तर्षि नक्षत्रों को देखे ॥ इन्हीं दो नक्षत्रपुल्सों को (जिन में ३ सात नक्षत्र हैं) अङ्गरेजी में पोले Star^{Pole Stars} कहते हैं ।

सप्तर्षीन् वा इदं ग्रूमोऽपोदेवीः प्रजापतिम् ॥

(अथ० सं० ११ । ४ । ६)

अपस्पुत्रासो संविशाध्वमिमं जीवधन्याः समेत्य ॥

(अथ० १२ । ३ । ३ । ४)

अर्थात्—आपनामक नक्षत्र एवं प्रजापति और अपांवृत्स नामक नक्षत्र राशिचक के पास हैं ॥

इस रूपह में सप्तर्षि नक्षत्रों के पास एक अठन्पति नामक नक्षत्रपुल्स है।

जिस को अंगीजों ने "केवशिपिमा राजमहिषो" नामक नक्षत्र लिखा है। सप्तर्षि नक्षत्रों के नाम अवृ १. अङ्गिरा २. वसिष्ठ ३. भरीचि ४. पुलह ५. पुलस्तर्य ६ और कक्षु ७ घे भास वेद में नहीं। इन नामों से नक्षत्रों का दूसरा प्रयोग न तहीं। ये केवल उन २ ऋषियों हारा वेदोत्तरकालीन समय में जानेगये हैं और दूसरा प्रकार यह भी है। जैसे महर्यिंग अपने २ उत्तम कर्मद्वारा नोक्षपद को लास कर अचल सुख में निमान हुवे इसी प्रकार ये (अतितेजस्ती) एवं स्थिर विराजते हैं॥

ध्रुवमरुन्धतीं सप्तर्षीनिति दृष्टा वाचं विसृजेत ॥

आश्वलायन गृह्य सू० १ । ७ । २२

अथोत् ध्रुव, अरुन्धती, सप्तर्षिनक्षत्रगण इन को देख कर बोले। आश्वल यह है कि जिस प्रकार ये नक्षत्र उत्तरकाल एवं अचल हैं इसी प्रकार जो बात कहे वह दृढ़ अविचल एवं उत्तम हो॥

सप्तर्षीन्पृष्ठतः कृत्वा चुध्येयरचला इव ॥ १६ ॥

भासारत शां० रा० ष० अ० १००

अर्थात् जिस प्रकार सप्तर्षि नक्षत्र अचल हैं (अतिगतिवाले) इस प्रकार अपने को अजर अमर वीर समझ कर युद्ध किया॥

इस खण्ड में भी असंख्य नक्षत्र हैं जिन का उल्लेख देवों में प्राप्तः कई शामों में है। विस्तरसय से यहां नहीं लिखते॥

गन्धर्वा एनमन्वायत् त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः । पट् सहस्राः
सर्वान्तस् देवांस्तपसा पिपत्ति ॥ अथर्वा० ११ । ३ । ५ । २ ॥

३३ गन्धर्व अर्थात् राशिकान्तर्गत नक्षत्रपुस्त्री भव्य खण्ड में एवं उत्तर खण्ड में ३०० नक्षत्र हैं। जिस प्रकार यहे तपस्त्रीगण अपने पुरायकर्म दृढ़य लंक ओंक शुश को पाते हैं, इस प्रकार प्रकाशित हैं। नक्षत्रों की गन्धर्व संज्ञा है। इस का प्रमाण-

वातो वा अनो वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिः ॥ यजु० अ० ६ । ७ ॥

अर्थात् ७ नक्षत्रों की गन्धर्व संज्ञा है॥

दक्षिण खण्ड

इस खण्ड में अंगीजों ने बहुतसी लासामों की गति आदि जान कर निष्ठ

किया है और वे सोने तथा भारतवर्षीय नवशिक्षित आर्य ग्रन्थों से अन-
भिज्ञ लोग कहते हैं कि आर्यवर्ती के द्योतिष्ठ प्रन्थों में गोप्य खण्ड की छंड
कर उत्तर, दक्षिण खण्ड के नक्षत्रों के विषय में कुछ उल्लेख नहीं है और उन
के पूर्वज लोग नहीं जानते थे इत्यादि। पहले कहना उन का कदापि मानने योग्य
नहीं। पद्मिष्ठ हमारे सूर्यसिंहालतादि ग्रन्थों में इस खण्ड के नक्षत्रों का उल्लेख
नहीं पाया जाता, परन्तु वेद ग्राहण वाल्मीकीय आदि आद्यग्रन्थों में इस
का उल्लेख है। हमें जितने नक्षत्रों का पता लगा है उन को लिखते हैं:-
परातिनक्षत्रपुष्ट, मिरा नक्षत्रपुष्ट और नीकापुष्ट, ये रूपविकारी (पूर्वोक्त)
हैं और दृष्टवर्ण, शर्मिष्ठा और देवयानी ये तीन नक्षत्रपुष्ट नवयतारा हैं
और सारथिनामक पुष्ट भी। एवं विश्वहुनामक नक्षत्रपुष्ट, मिषुनमाला तारा
है। आकाशगङ्गा, यमुना, अगस्त्य, यम, दिव्यश्वान, कालकञ्ज, ध्याप, उच्चः
अवाः और दक्षिणसंये नक्षत्र सब राशिघक के दक्षिण में हैं॥

१ शुनो दिव्यस्य यन्महतस्तेन ते हविपा विधेम ॥ १ ॥

२ ये ऋयः कालकञ्जा दिवि देवा इवश्रिताः ॥ २ ॥

(अथर्वा सं० १ ६ । ५०)

३ यो ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षी परिरक्षी नृचक्षसौ॥३॥

(ऋग्वेद सं० १० । १४ । ११)

४ दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमखवन्तो रुमाहेमास्वस्तये॥४॥

(ऋ० सं० १० । ६३ । १०)

५ हिरण्ययी नौरच्चरद्विरप्यदन्वना दिवि ।

तत्रामृतस्य पुष्यं देवाः कुष्टमवन्वत ॥ अ० सं० ५ । ४ । ४

अपांत् राशिघक के दक्षिणखण्ड की यमलोकसंज्ञा है, क्योंकि वहां
एक यमनामक नक्षत्र है। इस नक्षत्र के पास दो कुत्ते की आकृति वाले दो
नक्षत्र हैं। जिन को यम के पास होने से "यमदूत" (उरमा, देवशुनी) प्रसिद्ध है
दृश्यमयोऽ के दक्षिणखण्ड के अन्तिम भाग में जिस प्रकार उत्तर ध्रुव के
पास उत्तर्पिं भारदि नक्षत्र हैं। उसी प्रकार विश्वङ् (ऋयः कालकञ्जाः) नक्षत्र
पुष्ट हैं॥ २ ॥ दो "दिव्य शान" नामक नक्षत्रपुष्ट दक्षिणपथ में हैं॥ ३ ॥ एवं
"नीकापुष्ट" नामक नक्षत्र जिस की अंग्रेजी में नैवीस (Nairs) कहते हैं। अं-
ग्रेजी ने उस "नीका पुष्ट" को पुष्प नक्षत्र के पास देखा है। वेद में जी "पुष्पं

देवाः” से पुर्य नक्षत्र से सम्बन्ध दिखलाया है (अर्थात् ‘पुर्य, के पास हैं’) ॥३॥ जो अग्रेजी में कैनीस मेजर (Canis major) नक्षत्र है वह हमारे यहाँ ठाप्य नक्षत्र है। देखो मूर्यसिद्धान्त अ० ८ और अग्रेजी में जिस को कैनीस भाइनर (Canis minor) लिखा है वही हमारे दीनों “दिव्य श्याम” हैं। अगस्त्य नक्षत्र का वर्णन मूर्य सि० अ० ८ में किया गया है, घर्हों देखों। अब चिरङ्कु नक्षत्र के विषय में वास्त्रीकीयरामायण में रुपकालङ्कार से लिखा है उसको हम यहाँ लिखते हैं:-

सृजन्दक्षिणमार्गस्थान्सप्तर्णिनपरान्पुनः । नक्षत्रवंशम-
परमसृजस्त्वोधमूर्धितः ॥ २१ ॥ दक्षिणां दिशमास्थाय
ऋषिपिमध्ये महायथाः । सप्ता नक्षत्रवंशं च क्रोधेन क-
लपीकृतः ॥ २२ ॥ अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्याद-
निन्द्रकः । दैवतान्यपि स क्रोधात्त्वप्तुं समुपचक्रमे ॥ २३ ॥
ततः परमसंभ्रान्ताः सर्पिं संघाः सुरासुराः । विन्ध्यामित्रं
महात्मान्मूर्चुः सानुनयं वचः ॥ २४ ॥ अयं राजा महा-
भाग ! गुरुशापपरिक्षतः । सशरीरो दिवं यातुं नाहंत्येव
तपोधन ! ॥ २५ ॥ तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपु-
द्गवः । अब्रवीत्सु महद्वाक्यं कौशिकः सर्वदैवताः ॥ २६ ॥ स-
शरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः । आरोहणं प्रतिज्ञातं
नान्तरं कर्तुमुत्सहे ॥ २७ ॥ स्वर्गस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य
शाश्वतः । नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानिद्विवाण्यथ ॥ २८ ॥
यावल्लोकाः परिष्यन्ति तिष्ठन्त्येतानि सर्वशः । भद्र-
तानि सुराः सर्वं तदनुज्ञातुमर्हथ ॥ २९ ॥ एवमुक्ताः सुराः
सर्वं प्रत्यूचुर्मुनिपुद्गवम् । एवं भवतु भद्रन्ते तिष्ठन्त्येता-
नि सर्वशः ॥ ३० ॥ गगने तान्यनेकानि वैश्वानरथाद्
बहिः । नक्षत्राणि मुनिश्चेष्ट ! तेषु ज्योतिः पु जाज्वलन् ।

॥३१॥ अवाविशरास्त्रिशुद्धश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः । अनु-
यास्यन्ति चैतानि ज्योतींपि नृपसत्तमम् ॥ ३२ ॥

वालकाएडे ६० सर्गः

चकारान्यं च लोकं वै कुद्धो नक्षत्रसम्पदा ।
प्रतिश्वरणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकारथः ॥ ३४ ॥

(महाभारत आदिपर्वं अ० ७१)

ब्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्पयः ।

अर्चिप्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम् ॥

(वाल्मीकीय यु० स० ४ : ४८)

त्रिशुद्धर्विमलो भाति राजपिंशः सपुरोहितः ।

पितामहः पुरोस्माकमिश्वाकूणां महात्मनाम् ॥

वाल्मी० रा० यु० का० ४ । ४९

भावरथः—राजा त्रिशुद्ध के ऊपर विश्वामित्र की कृपा एवं विश्वामित्र के राजपरिवर्त्त के साथ वसिष्ठ ऋषि के ब्रह्मपरिवर्त्त की तुलना दियलाने के लिये वेतायुगीय वाल्मीकीयरामायण के कर्ता जादि कवि नहर्यिं वाल्मीकि ने आकाश के दक्षिणस्थण्ड के नक्षत्रों का आलक्ष्मारिक रीति पर वर्णन किया है ॥

राशिघटक के उत्तरोय ध्रुव के पास सात विशेष तेज वाले नक्षत्र हैं जिन को सप्तर्षि कहते हैं । उन सात नक्षत्रों में एक वसिष्ठनामक नक्षत्र है । इसी प्रकार राशिघटक के दक्षिण भाग में दक्षिणीय ध्रुव के पास सात नक्षत्र हैं, उन्हें भी सप्तर्षि नक्षत्र कहते हैं, एवं इन्हीं के पास त्रिशुद्धनामक नक्षत्र, दक्षि-णहं और अगस्त्य जादि हैं । ये सभी नक्षत्र अनादिकाल से हैं । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, एवं अन्यान्य नक्षत्र, यह, उपग्रह जादि हैं ॥

विश्वामित्र ने कुद्ध होकर दक्षिणभागस्य सप्तर्षिनामक नक्षत्र, एवं अन्यान्य नक्षत्र की रचना करते हुवे कहा कि मैं “दूसरा इन्द्र (त्रिशुद्ध) रचूंगा या इन्द्र ही को लोक से निकाल द्वालूंगा, इस प्रकार नक्षत्रों की रचना करते देख महर्षिगण और देवलोग विश्वामित्र के पास आकर दोले कि है तपोधन । यह राजा (त्रिशुद्ध) गुरु (वसिष्ठ) के शाप से पापी हो रहा है । इस लिये शरीर सहित स्वर्ग की जाने योग्य नहीं है ॥

इन की धात सुन विश्वामित्र योले कि “त्रिशुद्ध शरीरसहित स्वर्ग को जावे ” इत्यादि प्रकार मैं प्रतिज्ञा करनुका हूं, यह मिश्या नहीं हो सकती ।

इस लिये सशरीर त्रिशृङ् राजा के बास्ते शाश्वत स्वर्ग हो और प्रुव भक्षण एवं अन्यान्य नक्षत्र जब तक सहिष्टत्तमान रहे, राजा के साथ रहें। इस प्रकार देवतों ने उन की बातें सुन कहा कि ऐसा ही हो। तो आकाश में वैद्युत यज्ञ (अनादि राशिघक) के बाहर दक्षिणस्य सब नक्षत्र घडे प्रकाश बालों के बीच नीचे की ओर छिर किये त्रिशृङ् देवतों की माझे उहरे उस के साथ अन्यान्य सब नक्षत्र भी जाएं ॥

इसी प्रकार भारत के उलोक का भी आशय है और श्री रामचन्द्र जी ने युद्धकाश में कहा कि देवों किस प्रकार त्रिशृङ् नक्षत्र प्रकाशित हो रहा है। एवं सप्तर्यं और ग्रहराशि (अभिजित) नक्षत्र प्रुव भक्षण के पास प्रकाशित हो रहे हैं ॥

उत्तर गोलार्ध की “ देवलोक ” या “ देवयान ” (पथ) और दक्षिण गोलार्ध की पितॄलोक या “ यमलोक ” वा “ पितॄपान ” सन्दर्भ है। इस का प्रमाण-वसन्तो ग्रीष्मोवर्षाः । ते देवा ऋतवः शरद्वेमन्तः शिशिरस्ते पितरः स (सूर्यः) यत्रोदगावर्त्तते । देवेषु तर्हि भवति ... यत्र दक्षिणो वर्तते पितॄपु तर्हि भवति ॥

शतपथ ब्रा० २ । १ । ३ ॥

अर्थात् जब सूर्य उत्तरायण में होता है, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ऋतुओं में तो देवभाग में दिन एवं शरद, हेमन्त, शिशिर ऋतुओं में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब पितॄलोकस्य (दक्षिण गोलार्ध के) प्राणियों का दिन होता है।

इस प्रमाण से सिंह हुया कि उत्तर गोलार्ध, देवलोक एवं दक्षिण गोलार्ध पितॄलोक है : अब हम नक्षत्रों की सदया कहां तक लिखें अनेक स्थल में वेदों में उपलक्षण भाग से फहीं लाए, कहीं सहस्र फहीं कोटिपर्यक्त नक्षत्रों का वर्णन है। याचवल्पयस्यूति में लिखा है कि-

पितॄयानोऽजवीर्याश्च यद्गत्यस्य चान्तरम् । तेनाग्नि
होत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८६ ॥

तत्राप्ताशीतिसाहस्रा सुनयो गृहमेधिनः । सप्तर्षिनागवी-
र्णन्ते देवलोकं समाश्रिताः ॥ १८७ ॥ प्रायश्चित्ताऽध्याय

कृपकालङ्कार से आकाश में नक्षत्रों को पर, एवं अत्यपुञ्ज बाले समुदाय को प्राप्त, इसी प्रकार भगर, एवं नगर के अन्तर्गत वीथी (सुहल्ला, वा पर्णि) का यसंन वेद एवं अन्यान्य गात्रों में किया है। उत्तर गोलार्ध में “ भाग ”

के आकार की वीथी है जहां सूर्य नक्षत्र हैं एवं अगस्त्य नक्षत्र के पास दक्षिणगोलार्ध में “अजै वकरी की नाइं वीथी (नक्षत्रपुङ्ग) है। इस दक्षिण-खण्ड में प्रायः ८८००० मुनितुल्य स्थिर नक्षत्र हैं—पृथु अग्निहोश आदि उत्तम कमं फरने वाले इन्हीं दो मार्गों से अर्थात् देवयान और पितॄयान से जाते हैं—देखो उपनिषद्। यस्तुतः पुराणों में जो ८८००० मुनियों की कथा है वह इन्हीं नक्षत्रों की लेफर कल्पना कर ली गई है।

शर्मिंष्ठा, देवयानी, आदि नक्षत्रपुङ्ग जिन का प्रमाण संस्कृत ग्रन्थों का नहीं दिया गया है उनका उल्लेस वृहत्सहिता वराहनिहिरण्य में है विस्तारभूमि से यहाँ नहीं लिखा गया॥

अगस्त्य नामक नक्षत्र का उद्य प्रायः अपोक्रतु की समाप्ति और शरद-शत्रु के भारतम में होता है। और इस के पास ही इस से न्यून दीप्तिवाला “लोपामुद्रा” नामक नक्षत्र है। ये दोनों राशिचक्र के दक्षिण दिशा में हैं। इस का घण्टन वेद में भी पाया जाता है। जैसे:-

पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोपावस्तोरुपसो जरयन्तीः १।
लोपामुद्रा वृष्णं नीरिणाति धीरमधीरा धयतिष्वसन्तम् ॥४॥

(प्र० स० १। १९०)

लायः—इस ग्रन्थ से वैश्वर उपदेश करता है कि है ननुप्यो। जिस प्रकार लोपामुद्रा नामक नक्षत्र अगस्त्य नामक नक्षत्र के पास अनेक शरदक्रतु दिन रात से खीं पुहय की नाइं विराजती है। इसी प्रकार तुम अपनी खीं के साथ अटल प्रीति करो॥

“प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेर्महौजसः” ॥
(कालिदास)

लायः—घड़े को नाइं आकारयाले अगस्त्य नामक घड़े प्रकाशमान नक्षत्र के उद्य होते ही जल चला जाता है। भाश्य यह है कि जिस कारण जागस्त्य नक्षत्र के उद्य होने से वपाँ की समाप्ति होती है इसी से लोगों में इस की कहावत प्रमिल है कि “अगस्त्य” ज्ञानि ने अगूठे में समुद्र को रख कर सीख लिया “इत्यादि”॥

राशिचक्र ।

मूर्य को उद्येष्ट और भाषाड नाम में एखी के उत्तरांश में और पौष नाम में दक्षिणांश में जाते देखते हैं, उसको देख कर ऐसा समझना उचित नहीं कि मूर्ये एकद्वार उत्तर और एकद्वार दक्षिण इस प्रकार जाया जाया

करता है। वस्तुतः पृथ्वी की गति के अनुरोध से जिस समय उस का उत्तरभेद सक्रिहित प्रदेश मूर्य के सामने होता है उस समय हमको घोष होता है कि मूर्य ही कुछ उत्तर की ओर जाता है, उसी समय का हम लोग "उत्तरायण" कहते हैं। अनन्तर जब पृथ्वी का दक्षिणमेष सक्रिहित प्रदेश मूर्य के सामने होता है, तब मूर्य को पृथ्वी के कुछ दक्षिण ओर जाते देखते हैं। उस समय को सब लोग दक्षिणायन कहते हैं। मतिवर्ष मूर्य की इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन जाते देखते हैं—इस सीमा को घिन्हित करने के लिये विद्वानों ने शूपष्ट के ऊपर के भाग में दो रेखा कल्पना की हैं—उसकी उत्तररेखा को नाम उत्तरकान्ति वा 'अयनान्तवृत्त'। दक्षिणरेखा का नाम दक्षिणकान्ति वा दक्षिण अयनान्तवृत्त कहते हैं। ये दोनों कान्तिरेखा विपुवरेखा से उत्तर दक्षिण की ओर २३° ८८' अन्तर में हैं। (संस्कृत के घन्थों में २४° लिखा है बहुत दिन होने से इतना अन्तर है) इन्हीं दो रेखाओं के बीच में पृथ्वी के मांग का जो अथ पड़ता है—जेपादि १२ राशि उसके अन्तर्गत होती हैं इसी कारण गगनमण्डल के इस अंश को 'राशिचक' कहते हैं॥


राशिचक की परिधि प्रायः नौ सौ छठासी अर्बुद लाङ्गूल, एवं उसका व्यास प्रायः उन्नीस छन्द माङ्गूल, इसी चक्र के भीतर मूर्य अवस्थिति करता है। पृथ्वी मूर्य से नौ फोटि पवास लाख अन्तर में रह कर प्रति बहसर एकवार मूर्य की प्रदक्षिणा करती है।

पृथ्वी मूर्य की प्रदक्षिणा करती है, पर घोष होता है कि मूर्य ही १२ राशियों में क्रम २ से गमन करता है। आपाततः घोष होता है कि मूर्य प्रत्येक राशि को २८ दिन से न्यून एवं ३१ दिन अन्तिक काल पर्यन्त भीग कर ३६५ दिन ६ होरा ९ मिनट १० सेकंड में व्यापिक गति समाप्त करता है। वस्तुतः मूर्य पृथ्वी को परिभ्रमण नहीं करता। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती २ उस की घारों ओर स्थग्न करती है। इसी से जब पृथ्वी राशिचक के उत्तरांश में चैप, वृष्टि, निषुन प्रभूति राशियों में जाती है तो उस समय मूर्य को राशिचक के दक्षिणांश में तुला, वृश्चिक, धन, आदि राशि में अवस्थित देखते हैं अर्थात् पृथ्वी की गति टीक विपरीत दिशा में मूर्य की गति अनुमान होती है। जिस समय पृथ्वी कन्या राशि में रहती है, उस समय मूर्य चैप राशि में, जिस समय पृथ्वी वृद्धिक राशि में, उस समय मूर्य वृष्टि राशि में है, ऐसा लोग समझते हैं। इसी कारण जिस समय पृथ्वी दक्षिण अयन उस समय मूर्य उत्तर अयन हुआ घोष होता है। पृथ्वी के उत्तरअयन अर्थात् पृथ्वी के चैप राशि में प्रवेश करने पर मूर्य तुला राशिस्य जान पड़ता

है। मेष राशि के परे पृथ्वी जब दृष्टि राशि में आती है, सूर्य को वृश्चिक राशि में, एवं पृथ्वी जब सिद्धुन् राशि में आती है तब सूर्य धनराशि में उपस्थित होता दीखता है। एतद्वेशीय आधुनिक ज्योतिष में यह बात स्पष्ट नहीं, उस में केवल इतना ही लिखा है कि जिस राशि में जिस ग्रह का उदय होता उसके सम्मराशि में उसका अस्ति होता है। अपांत् पृथ्वी जिस राशि में रहती है, उस से सम्मराशि में सूर्य अवस्थित दीखता है॥

सूर्य का इस प्रकार विपरीत दिशा में जाते दीखने का कारण यह है कि अचल पदार्थ में अवस्थित होकर अचल वस्तु को दीखने पर जिस प्रकार अपनी गति अनुभूत नहीं होती। एवं स्थिर पदार्थ ही की गति का भ्रम होता है। इसी प्रकार पृथिवी राशिचक्र में घूमती है, परन्तु हम लोगों को, अनुभ्रव होता है कि सूर्यपर्याय कम से एक २ राशि भोग करता है॥

राशिचक्र झापक चित्र



उपरोक्त चित्र में सू० सूर्य, ए पृ पृ पृष्ठिवी का कक्षा प्रदेश। पृष्ठिवी से फोड़ दर्थक सूर्य को पृष्ठिवी के गमनपथ के विपरीत दिशा में दर्थन करने पर पृष्ठिवी जिस प्रकार ए स्थान से 'ए और ए' की ओर आयेगी तो श्रीध होगा कि सूर्य स स्थान से 'स और स' स्थल में आता है। इस प्रकार राशि-चक्र के जिस स्थान में पृष्ठिवी पूर्म भावेगी उस अंश से सूर्य राशिचक्र के सम्म अंश में आता सा जान पड़ेगा। नक्षत्रगण के द्वीप होकर जो वहे दृताकार गप में सूर्य की सांवत्सरिक गति सम्पादित होती है, अनुसंध होता है, उस की रविमांग कहते हैं। वस्तुतः यद्यपि पृष्ठिवी का धार्षिक भूमण्डलांग है, जिस की पृष्ठिवी की कक्षा कहते हैं॥

यह दृष्ट निरस दृष्ट को वक्तव्य से छेद करता है। एक छेद फोण न० न० परिमित ॥

रविमांग और राशिचक्र १२ समानभाग में विभक्त हैं। इस प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं। प्रत्येक राशि ३० आयत। सूर्य प्रतिदिन राशिचक्र के माय एक १ अश करके गमन करता है॥

राशि चक्र

पहिले कहा जातुका है कि आकाश के मध्यरुप में १२ राशि(पुस्त्रा देर) और उस के भीतर लगभग १०१६ नक्षत्र हैं। इस मध्यरुप में जो सब नक्षत्र हैं वे अधल हैं। प्राचीन ज्योतिर्विद् परिहतों ने इन नक्षत्रों की एक २ आकृति कल्पना कर १२ राशियों में विभक्त किया है। इसी को राशिचक्र कहते हैं। १२ राशियों के नाम ये हैं—मेष (मेदासा जाकार) वृष (वैलसा भाकार) मिषुन (खी, पुह्य-जोहा) फकंट (फेकड़ा) सिंह (शेर) कन्या (कन्या की जाई) सुला (तराजू) धृष्णिक (घिर्झू) भूमु (बाण) भूर (धड़ियाल) कुम्न (पड़े की जाई) गोम (गडली की जाई) हैं। इस की शंस्या सब से ऊपर है अर्यात् इसी में सब प्रहादिकों का भूमण होता है। वे दो में राशियों के नाम स्पष्टतया नहीं पाये जाते परन्तु १२ विभाग और नक्षत्रों की आकृति का वर्णन है। एवं राशिचक्र को छेद में अधल लिहा है, परन्तु येदीतरकालीन ज्योतिष के ग्रन्थों में आर्य भृषु को छोड़ सकों ने राशिचक्र को अल और पृष्ठिवी को अधल भाला है। अब प्रथम राशिचक्र

का नाम तथा इस का अचलत्व वेदादि सूताखों से दिखाला कर पुनः राशिचक्र में सूर्य द्वारा क्षोंकर दिन रात होते हैं लिखेगे:-

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरिद्वौर्यावद्विवद्याधे अग्निः ।

ततः पष्टामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभिपष्टमन्हः ॥

(अथर्वा ८। ५। ८। ६)

अर्थात्-राशिचक्र (वैश्वानर) के ऊपर जो स्थान है उस से छः भाग सूर्य एक ओर दृश्य होता है, एवं छः भाग दूसरी ओर दृश्य होता है। जिस से एक छः भाग में एक बार दिन होता है (छः भाग तक एवं दूसरे भाग में रात और दूसरे भाग में जय दिन तक पहिले भाग में रात होती है) वैश्वानर शब्द से जो राशिचक्र अर्थ ग्रहण मुझा उस का प्रमाणः-

गगने तान्यनेकानि “ वैश्वानर ” पथाद्यहिः ।

नक्षत्राणि मुनिश्चेष्ट ! तेषु ज्योतिःपु जाज्वलन् ॥३१॥

(यात्मीकीय रात्र वात सर्वे ६०)

इस पर राम नामक टीकाकार ने लिखा है कि “ अनादिज्योतिष्य चक्र भार्ग से याहर में नक्षत्र सब्य प्रकाशित हैं ” यह ब्रिशद्भुत तारा के वर्णन में है, देखो ब्रिशद्भुत वर्णन ॥

विश्वेदेवा द्वादशारेण जगतीमुद्जयंस्तामुज्जीपम् ॥

(यजु० पू० अ० ८। ३३)

अर्थात्-जितने नक्षत्र प्रष्ठ तारादि हैं सब्य ही राशिचक्र (द्वादशारेण) में अवस्थित होकर उदय और अस्त सम्पादन करते हैं ॥

भपञ्चुरः स्थिरो भूरेवावृत्त्यावृत्य प्रातिदैवतिकौ

उदयास्तमयौ सम्पादयति नक्षत्रग्रहाणाम् ॥

(एषूदृशस्यामिहतायन्त्रवृष्टनम्)

आयंसिद्धान्त मासक ज्योतिष्यन्य का वचन है। अर्थात् राशिचक्र स्थिर है और इस में पृथिवी के भ्रमण के कारण गगन अवृत्त्य नक्षत्रादिकों का दैनिक उदयास्त मत्तीत होता है। इस का विद्युत प्रमाण पृथिवी के भ्रमण में देखो। अब इस राशिचक्र में २३ नक्षत्र हैं (सर्वसाधारण ज्ञानते हैं) परन्तु वेद में २८ नक्षत्र हैं, एवं इस समय महिनों नक्षत्र से भारतम होकर देवतों पर

समाप्त करते हैं, परन्तु वेद में कृतिका से आरम्भ होकर रेवती पर समाप्त हुआ है। प्रभाण -

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने
जवानि ॥ १ ॥ सुहवमग्ने कृतिका रोहिणी चास्तु भद्रं
मृगश्चिरः शमाद्रा ॥ पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यो भानु-
राश्लेपा अयनं भधा मे ॥ २ ॥ पुण्यं पूर्वाफालगुन्यौ चात्र
हस्तश्चित्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्त ॥ राघे विशाखे
सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टमूलम् ॥ ३ ॥ अन्तं पूर्वा
रासतां मे अपाढा ऊर्ज देव्युत्तरा आवहन्तु । अभि-
जिन्मे रासतां पुण्यमेव अवणः अविष्टाः कुर्वतां सु-
पुष्टिम् ॥ ४ ॥ आ मे महच्छतभिपग्वरीय आ मे द्वया ग्रोष्ठ-
पदा सुशर्म । आ रेवती चाश्वयुजौ भगं म आ मे राये
भरण्य आवहन्तु ॥ ५ ॥ अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानि
सहयोगं भवन्तु मे ॥ अथर्व वे० सं० १६ । १ । सू० ७।८।

इन नक्षत्रों के नाम ही से इन के आकार का भी धोष होता है जो महा-
कथि कालिदासकृत च्योतिविंदाभरण नामक चन्द्र में नक्षत्रों की आकृति वि-
धायक शोकलिखकर तथ इन मन्त्रों को अपोत् इकट्ठा एकघड़कं छारा लिखेंगे -

तारका त्रयमिति शराकृतौ केशवे गगनमध्यवर्त्तिनि ।
मत्तवारणगतेऽजलग्नतो निर्युर्गजमहीध्रिलिप्तिकाः ॥ १ ॥
मस्तकोपरि समागते धने मर्दलाकृतिनिपञ्चतारके ।
यान्ति कान्तिमति मेपलग्नतः सारसाक्षि रसधात्रलि-
प्तिकाः ॥ २ ॥ मण्डलाभशततारकाकुले मध्यभाजिनभसः ।
प्रचेतसि ॥ वाणशैलधरणीमिताः कलाः शारदेन्दुमु-
सि तावुरेयंयुः ॥ ३ ॥ भारमूर्त्तिमृतिकोपरिस्थिते पूर्व-

भाद्रपदमे द्वितारके । लिप्तिकाः करिकराक्षि सम्मिता
निःसरन्ति वृपभोदयात् प्रिये॥६॥ उत्तरे सुमुखि भारमूर्ति
भृत्युत्तमाहमिलिते द्वितारके । नीलचामरकचे नृयुगमतो
लोचनाचलकलाः पलायिताः ॥७॥ दन्तसंख्यभगणे भपा-
क्तावस्त्यमे लसदनन्तमध्यगे । कोमलाह्नि जिमुमोद-
यात्तदा कालखानलकलाः प्रियेऽचलन् ॥८॥ तन्वि घोटक-
मुखाकृति त्रिते मस्तकोर्ध्वं भाजि वाजिनि । चारुचन्द्र-
मुखि कर्कटोदयान् निर्गता गगननन्दलिप्तिकाः ॥ ९ ॥
तारकात्रययते त्रिकोणके मध्यगे दिविपदध्वनो यमे ।
पङ्कजाक्षि मिलिताः कुलोरतः शायकाक्षि भुज् ॥ लिप्ति-
काः ॥ १० ॥ हव्यवाहनशिखाकृतौ स्थिते मस्तकोपरि
पङ्कजकेऽनले । सिन्धुसिन्धुरमिताः कला गताः कुन्त-
दन्ति भृगनायकोदयात् ॥ ११ ॥ कम्बुकएठ शकटाकृतौ
नभोमध्यमागतवति प्रजापतौ । पञ्चमे गजकुपक्षलि-
प्तिका निःसृताः सुमुखि सिंहलग्नतः ॥ १२ ॥ मूर्यिकाशन-
पदाकृतौ विधौ व्योममध्यमिलिते त्रितारके । शार-
दैन्दुमुखि कन्यकोदयादीक्षणानलकलाः कलावति ॥ १३ ॥
उज्ज्वलैकशतपत्रसुन्दरे शूलिनि त्रिदशवर्त्ममध्यगे ।
निर्गताः खचरघस्तलिप्तिकाः पूर्णचन्द्रमुखि कन्यल-
ग्नतः ॥ १४ ॥ मध्यवर्त्तिनि शरासनाकृतिन्यन्वरस्य
सुरमालमे गताः । लिप्तिकाः सुमुखि पञ्चतारके पक्षपा-
वकमिता, घटोदयात् ॥ १५ ॥ रासपीठकठिनीरजः प्रभे
मध्यमृच्छति विहायसो गुरौ । तौलिनः पृष्ठपतमार-

लोचने लोचेनाद्रिकुमितागताः कलाः ॥ १४ ॥ मौलिंगे
 भुजगभे श्वपुच्छवद्भुज्ञराकृतिनि पञ्चतारके । भारकेलि-
 रसिके तुलोदयादत्ययुर्जलधियाक्षिं लिप्तिकाः ॥ १५ ॥
 लाङ्गलाकृतिनि पञ्चतारके चारुकेशि पितृभे शिरोगते ।
 नीलनीरजविनिद्रंलोचने वृश्चिकाद्विगलितं कलाशतम्
 ॥ १६ ॥ दक्षिणोत्तरगते द्वितारके योनिभे मिलति मस्त-
 कोपरि । कीटतः स्फुटसरोरुहानने निःसृतां गजरसाक्षि-
 लिप्तिकाः ॥ १७ ॥ अर्यमण्यमरवत्ममध्यगे सौम्ययाम्य-
 मिलिते द्वितारके । चापतश्चपललोचनाङ्गुले कालपा-
 वकमिताः कला गताः ॥ १८ ॥ मस्तकोपरि कराकृतौ करे
 तिष्ठतीन्दुमुखि वाणतारके । लिप्तिकाः शरकुपक्षसंख्य-
 काः शायकासनविलग्नतो गताः ॥ १९ ॥ एकमौक्तिकसमु-
 ज्जवलप्रभे त्वपृरीन्दुवदने खमध्यगे । आदितो मृगवि-
 लग्नमादिशत्युल्लसन्मदनवाणलोचने ॥ २० ॥ कुड्कुमारु-
 णतरैकतारके वायुभे सुदतिमध्यमागते । शायकाम्यरच-
 राधराः कलाश्चञ्जलाक्षिं वियुर्मृगोदयात् ॥ २१ ॥ तोरणा-
 कृतिनिपञ्चतारके तारकेशवदने विशाखभे तन्विं यान्ति
 वियुधाध्वमध्यगे कुम्भतो रसभुजाः कलाः प्रिये ॥ २२ ॥
 पञ्जगाकृतिनि सप्ततारके मित्रभे सुदतिमध्यगे दिवि ।
 वन्हिवाहुषथिवीमिताः कला निर्गता घटकुचे घटो-
 दयात् ॥ २३ ॥ तन्विकोलरवदनाकृतौ त्रिभे वासवे
 वसति मस्तकोपरि । कालवाणवसुधा कलाश्च ख-
 ञ्जनाक्षिं कलशोदयादयुः ॥ २४ ॥ मौलिभाजि नवतार-

काङ्क्षिते मूलभै सुदति शहूमूर्च्छिनि । लिप्तिकाएकमंराल-
कुन्तले निर्जगाम पृथुलोमलग्नतः ॥ २५ ॥ सूर्यमूर्च्छिनि
शिरोगते चतुस्तारके करिकरोहतोयभे । अन्त्यभाद-
मृतवाणि निर्गताः स्वेच्छाम्बवरशशाहूलिप्तिकाः ॥ २६ ॥
श्रीर्पभाजि भच्चतुष्टयाङ्किते विश्वभे तरुणि सूर्पका-
कृती । भूतिरस्तुतमनोजकार्मुके यान्ति कालशरचन्द्र-
लिप्तिकाः ॥ २७ ॥ (ज्योतिर्विदाभरणे) ॥

राश्रिसमय जो नक्षत्र जिस समय ठोक भावे पर दीखेगा वहनुसार जिस
राशि के जितने दृष्ट पलादि वीर्तेंगे उन का भी ज्ञान इसी चक्रद्वारा होगा ।
३५० अंशों का एक चक्र होता है और प्रत्येक राशि ३० तीम् तीम् अंशों की एवं

एक एक राशि में सवा दो दो नक्षत्र एवं प्रत्येक नक्षत्र १३° २०' में अवस्थित हैं ।
वेदमन्त्रों में नक्षत्रों के नामों के साथ योग लारा का भी चल्लेरा है । परन्तु
प्रत्येक योगलारा की संरक्षा नहीं है, किन्तु फालिदास ने लाराओं की संरक्षा
दी है ॥ नक्षत्रयोग का प्रमाण वेद में -

शिक्षा विभिन्नो अस्मै चत्वार्ययुता ददत् । अष्टपरः सहस्रा

प्र० सं ० = २ । ४१

अपांत् ४८००० विकृता जिस में ६० से भाग करने पर ८०० कक्षा हीती हैं । देखो
सूर्यसि० अ० १ । ६४

पृथ्वीक रलोक और अध्यंयेदीय मनों का अर्थे घन द्वारा किया गया है।

३१८

मात्रा	नहरों के नाम	लेप		राशियों के नाम	उदय उत्तर		जिस राशि के काल होते हैं
		अग्नि	काषा		अग्नि	दण्ड	
अरिधनी	पोगतारा सुन्दरा	२०	२०	षोडा	३०	४५	कंकट
मरणी	२३	२३	२३	चिकोण	१	२४	"
कृतिका	२३	२३	२३	अर्णिनशिया	३०	१	मिह
रेहिणी	२३	२३	२३	गाढ़ी (ग्रकट)	३०	३०	"
सुग्रीवं	२३	२३	२३	विद्वाउपद	३०	२०	कन्या
बाद्रीं	२३	२३	२३	वृत्तायल	३०	२०	"
बुन्देलु	२०	२०	२०	पत्रुप्	३०	२०	तुला
पुष्य	२०	२०	२०	माणिक्य यर्ण	३०	१	"
आरुलेपा	२०	२०	२०	कुते का पुढ़ल	३०	१	वृत्रिषफ
सप्ता	२०	२०	२०	हूल की नांड़	३०	१	"
पूर्वोक्तालगुणी	२०	२०	२०	दक्षिण चतुर दिशा	३०	१	कन्या ६
उत्तरोक्तालगुणी	२०	२०	२०	२०	३०	०	"
हस्त	२३	२३	२३	२०	२०	०	भूत
							(पक्षी की नाड़)

राजीवक

मुद्राया	नक्षत्रों के नाम	गोगतारा संख्या	दोज	कला	नक्षत्रों की आकृति		राशियों के नाम	सेवा अंग	मालूक पथ	उदय छाता	जिस राशि के काल थीं वे	चक्र	
					वृषभ	कुम्भ							
१४	विज्ञा	१३	२०	२०	पुस्तकी नदि उत्तरवाह	तुला	३०	३०	०	०	१५	३०	०
१५	स्वराती	१४	२०	२०	कुहम वर्ण	वृश्चिक	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
१६	विद्युता	१५	२०	२०	तोरण	घटु	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
१७	अनुराधा	१६	२०	२०	शूर्प	मकर	१०	३०	२	३०	३०	३०	०
१८	जयेष्ठा	१७	२०	२०	कांच	सिंह	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
१९	मुहूर्त	१८	२०	२०	मूर्ख	कर्त्तव्य	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
२०	पूर्वोपाता	१९	२०	२०	मूर्ख	काली	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
२१	उत्तरोपाता	२०	२०	२०	मूर्ख	काली	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
२२	अक्षिजित	२१	२०	२०	मूर्ख	काली	३०	२०	२	३०	३०	३०	०
२३	अवधा	२२	२०	२०	वाणी	कुम्भ	१५	३०	३०	३०	३०	३०	०
२४	धनिष्ठा	२३	२०	२०	मर्दल (आनन्दवाका)	कुम्भ	१५	३०	३०	३०	३०	३०	०
२५	ग्रतस्तिथ	२४	२०	२०	मर्दल (आनन्दवाका)	मर्दल	१५	३०	३०	३०	३०	३०	०
२६	पूर्वोपाता	२५	२०	२०	मर्दल (आनन्दवाका)	मर्दल	१५	३०	३०	३०	३०	३०	०
२७	उत्तरोपाता	२६	२०	२०	मर्दल (आनन्दवाका)	मर्दल	१५	३०	३०	३०	३०	३०	०
२८	रेष्टी	२७	२०	२०	मर्दल (आनन्दवाका)	मर्दल	१५	३०	३०	३०	३०	३०	०

उस्तिलखिन नक्षत्रों के अतिरिक्त और भी नक्षत्र इस मध्यखण्ड में हैं। जिन का वर्णन देदो में है परन्तु विस्तरभूषण से हस्त यहां नहीं लिखते। अप्रेजी ने जो इस खण्ड में केवल १०२८ ताराओं का विवरण किया है। उस से भी अधिक ताराओं का चलेख देवीं में पाया जाता है। एक नक्षत्र जिस को अप्रेजी में ओरायन (Oriion) (इस से मिलता हुआ स्तरुत शब्द अग्रहायण है) कहते हैं इस का वर्णन ग्राहणग्रन्थ में है। जिस प्रकार अहूरेजी ने इस को अनुसन्धान से यथावत् जाना है, उसी प्रकार वर्णन है। और देव में भी टीक ऐसा ही शब्द नक्षत्र वर्णन प्रसङ्ग में आया है -

आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे वैश्वानरश्च मे ।

यजुर्वेद० पू०भ० १८ । २७

अर्पात् ओरायन या अग्रहायण (सूर्यशीर्ष) राशिघक के पास के नक्षत्र पृथु राशिघक ॥

तमभ्यायत्याविद्वुत्स विद्वु ऊर्ध्वउद्ध प्रपेत तमेतं मृग इत्या-
चक्षते पर उ एव मृगव्याधः स उ एव सयो रोहित् सा रोहिणी
यो एवेषु स्त्रिकाण्डासो एवेषु त्रिकाण्डा तद्वा इदं प्रजापते
रेतस्त्सक्तमधावत् तद्सरोभवत् ॥ ऐ० ग्रा० १३ । ६ ॥

अपांसु रोहिणी उपर को हुई इस कारण रोहिणी नाम, एवं सूर्यशीर्ष नक्षत्र रोहिणी से विद्वु होकर रहा इसलिये सूर्यशीर्ष हुआ एवं जा दोनों के वाण से विद्वु हुआ वह-ठपाप वा लुभक हुआ। आशय यह है कि ग्राय-
घट और ग्राहण ग्रन्थों में रूपकाण्डार से गगमण्डलस्थ दिव्य पदार्थों
का वर्णन है। रोहिणी और सूर्यशीर्ष नक्षत्र जो व्याध के उपर हैं उन की
आकृति वाण की नाहै है इस से उस प्रकार वर्णन है। रोहिणी नक्षत्र के
विवर में एक सन्तोहर, ग्राहणाण्डार से ग्राहण ग्रन्थ में वर्णन है कि ग्रहसा
ने अपनी ३३ कन्यायें चन्द्रमा को दीं परन्तु चन्द्रमा का अधिक स्नेह
रोहिणी भासक कन्या से देखकर अवशिष्ट कन्यागण ग्रहसा के पास जाकर
कहने लगीं कि भगवन्! चन्द्रमा हम लोगों से अधिक स्नेह रोहिणी में करता
है। इस पर ग्रहसा ने चन्द्रमा और कन्यागणों को परस्पर शपथ देकर कहा
कि सब में समान मीलि रखें, सब ने स्थीकार किया। अनन्तर चन्द्रमा फिर
भी रोहिणी से अधिक स्नेह करने लगा। यह देख प्रजापति ने चन्द्रमा ऐसे

शाप दिया। इस से चन्द्रमा को यहमा रोग हुआ, पुनः चन्द्रमा शापमरण का प्रार्थी हुआ और ग्रहमा ने कहा कि सूर्य को चह दीक्षा शाप से मुक्त होगे, इत्यादि। ऐतरेय ब्राह्मण १३। ६। १, १, १०॥

अब उक्त आठपायिका का सारांश यह है कि लक्षिका, रोहिणी, पुष्प, मधा, चित्रा, विशाखा, अमुराधा, उषेष्ठा, पूर्वोपादा, उत्तरापादा, शर्वतभियक्, रेतवती इन १२ नक्षत्रों के साथ कभी न चन्द्रमा का पिधान (डक लेता है) होता है। इन १२ नक्षत्रों में जो अत्यन्त सूख्म है, उसी का चन्द्रमा अधिक पिधान फरता है। इस प्रकार के नक्षत्र केवल मधा, उषेष्ठा, चित्रा, रोहिणी इन में भी उत्तरोत्तर तेजस्वी हैं। अर्थात् मधा से उषेष्ठा अधिक प्रकाशवाला, उषेष्ठा से चित्रा, एवं चित्रा से भी अधिक रोहिणी तेजस्वी है। चन्द्रमा का पिधान तीन प्रायः उक्त सब नक्षत्रों के साथ होता है, परन्तु सब से तेजस्वी तारा रोहिणी का पिधान अतिमानोहर होता है। इसी के बायंन में उक्त आठपायिका है। यहाँ अश्रियनी आदि २७ नक्षत्र और लक्षिका की योगतारा मिल कर ३३ कन्या हुईं। चन्द्रमा को शाप करा उस में जो फाला सा चिह्न दीखता है, उसी का यत्न है। सूर्य को छह करा देमा मूर्यद्वारा प्रकाशित होता है, सो छत्तियक्ष में सूर्य अपना तेज ले लेता है। और शुक्र में देता है। इसी का उस प्रकार यत्न है। इसी कथा को भूल रूप से लेकर पुराणों में चन्द्रमा और रोहिणी विद्यक अनेक ऊटपटाङ्ग कथा रची गई हैं। अब लक्षिका नक्षत्र से पीराणिक माया फैली है। उस को लियते हैं:-

लक्षिका नक्षत्र की छ. योगतारायें हैं और यह नक्षत्र कात्तिंक भास्म में अघरय प्रात्-फाल उद्दित होता है। इस को कात्तिंक स्वामी नामक देवता भास्म कर कात्तिंक (स्नान) पूजादि का विधान पुराणों में लिया है। कात्तिंक स्वामी का नाम पायमातुर, अक्षिघर, शरजनना आदि। छः योगतारा भास्मों उस की भास्ता है। इसलिये “पायमातुरैनाम जान कर आहम्ब्ररख्ये हैं। यास्तविक पह पोपक्षीला मात्र है। अविद्या के प्रभाव से यह सब जाल फैला है।”

नक्षत्रों की देवता

त्रितीय ब्राह्मण एवं पञ्चम व्योतिष में अश्रियनी आदि २७ नक्षत्रों की चित्र २ देवतायें लियी हैं, परन्तु सूर्यमिद्वान्तादि व्योतिष यन्धों में इस

का कुछ भी वर्णन नहीं है। देखने से भारतवर्ष, मिताक्षरा एवं वाल्मीकीय-रामायण आदि यन्थ और भिठ्ठने से खगोल के नक्शे को अनुमान होता है कि एक सौर जगत् (जिस में हम लोग हैं) में धुध, शुक्र, भृगु, इहस्पति आदि अनेक लोक हैं और एक २ लोक में अनेक छोटे विभाग हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे विभागों के अनेक उल्लेख पाये जाते हैं और ये विभाग नक्शों की आकृति नक्षत्रपुस्त्र और दिशा आदि के अनुसार हैं। जैसे प्रत्येक अश्विनी आदि नक्शों का नाम घोड़ा आदि आकृति के अनुसार है और पुनः प्रत्येक चत्वा दो दो नक्शन की एक एक राशि (पुस्त्र) रूप १२ विभाग हैं (जिन की भेष आदि आकृति है) इसी प्रकार प्राचीन रीति से लक्षिका नक्शन की देवता “अनिं” है। सो वास्तविक दूरबीन से देखने से इस की आकृति अग्नि की नार्दे भासून होती है। इसी प्रकार अन्यान्य कई नक्शों की देवता हैं। यह तो आकृतिप्रक देवता हुर्दे। अब खगोल के विभाग के अनुसार देवयान आदि सज्जा। खगोल के उत्तरीय भाग की देव वा देवयान सज्जा है और दक्षिण प्रदेश की पितृयान और यम सज्जा हैं। और अगस्त्यनक्शन के प्रदेश की “धीधी” सज्जा है। किसी की सर्व सज्जा है। इसी विभाग के अनुसार जिस २ विभाग में जो २ नक्शन पड़ा है, उस २ की वह २ देवता (आकाशस्य समस्त चमकीले पदार्थ की देव) सज्जा है। इस विभाग के विषय में प्राचीन प्रमाण है:-

पितृयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम् । तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४ ॥
तत्राप्ताशीतिसाहस्रं मुनयोगृहमेधिनः । सप्तर्षिनागवीथ्यन्ते देवलोकं समाप्तिताः ॥ १८७ ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृती)

आश्रय-जिस प्रकार एक भारतवर्ष के भीतर अनेक सूरे (बहूलादि) हैं। प्रत्येक सूर्यों में अनेक क्षितिजती वा किला या क्रमबद्ध हैं। एक क्रमबद्ध में अनेक धूषे २ मुहूर्ले हैं। एक २ मुहूर्ले में अनेक धड़ी एवं छोटी गलियाँ हैं। इसी प्रकार खगोल में सौर जगत् के विभाग हैं। पितृयान, अजवीथी, देवयान, नागवीथी आदि। और भी प्रमाणः-

स (सूर्यः) यत्रोदगावर्त्तते देवेषु तर्हि भवति यत्र दक्षिणा वर्त्तते तर्हि पितृयु भवति ॥ शत० ब्राह्मणे २ । १ । ३ ॥

अर्थ-वह सूर्य जब उत्तरायण होने पर उत्तर की ओर जाता दीखता है तो देवयम प्रदेश में होता है। ऐसे जब दक्षिणायण होता है तो पितृयमन प्रदेश में होता है॥

इसी प्रकार सूर्य के जो १२ नाम हैं वे भी आकाश के विभाग के अनुमार जिन २ जाति में आकाश के जिस प्रदेश में सूर्य दीखता है, उस २ विभाग के अनुमार सूर्य के १२ नाम हैं। इस का वर्णन महाभारत के जादिपर्व में है, हम यहा विखारपत्र से उन स्त्रीकों का चलाए नहीं करते हैं। इसी के अनुसार नक्षत्रों की देवता उसी है। प्रगाण-

कृत्तिका नक्षत्रमन्विन्दैवताऽनेहुचस्य प्रजापतेर्धातुः

सोमस्यर्वं त्वा स्त्रे त्वा द्युते त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा
रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्दैवता मृगशीर्षं नक्षत्रं सोमो
देवताद्वारा नक्षत्रं रुद्रो देवता पुनर्वसु नक्षत्रमदितिर्दै-
वता तिष्ठो नक्षत्रं वृहस्पतिर्दैवताऽऽश्वेया नक्षत्रं सर्पा
देवता मध्या नक्षत्रं पितरो देवता फलगुनी नक्षत्रमर्य-
मा देवता फलगुनी नक्षत्रं भग्नो देवता हस्ती नक्षत्रं
सविता देवता चित्रा नक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाती नक्षत्र
वायुर्दैवता विशासे नक्षत्रमिन्द्राऽनी देवताऽनुराधा
नक्षत्रं मित्रो देवता रोहिणी नक्षत्रमिन्द्रो देवता विधृतौ
नक्षत्रं पितरो देवतापाढा नक्षत्रमापो देवतापाढा नक्षत्रं
विश्वे देवा देवता ऋवणा नक्षत्रं विष्णुर्दैवता ऋविष्ठा
नक्षत्रं वस्त्रो देवता शतभिषट् नक्षत्रमिन्द्रो देवता ग्रो-
षुपदा नक्षत्रमज एकपाद्वेता ग्रोषुपदा नक्षत्रमहिवृं-
ध्र्यो देवता रेवती नक्षत्रं पूषा देवताऽश्वयुजो नक्षत्र-
मश्विनी देवता भरणीनक्षत्रं यमो देवता पूर्णापञ्चा-
प्यन्ते देवा अदधुः। तैत्तिरीय ब्राह्मणे ४। ४। १०

इन मन्त्रों का अर्थ चक्रद्वारा किया गया है -

नक्षत्रों की देवता ज्ञापक चक्र

नक्षत्र	देवता	नक्षत्र	देवता
१ कुत्तिका	अर्ग्ग	१५ अनुरोधा	मित्र
२ रोहिणी	प्रगापति	१६ ज्येष्ठा	इन्द्र
३ मृगशीर्य	सोम -	१७ मूल	निश्चर्ति
४ आद्रा॒	रुद्र	१८ पूर्वापादः	आपः
५ पुमर्वसू	अदिति	१९ उत्तरापादः	विष्वेदीष
६ पुष्टि	द्यूह-पति	२० अवण	विष्णु
७ आश्लेषा	सर्प	२१ अविष्टा	घु
८ मधा	पितर	२२ शतभिषफ्	घरण
९ पूर्व फलगुनी	भग	२३ पूर्व भ्राद्रपदा	अजएकपात्
१० उत्तर फलगुनी	अर्थमा	२४ उत्तरभ्राद्रपदा	अहिवृद्धन्य
११ हस्त	सविता	२५ रेवती	पूषा
१२ चित्रा	त्वष्टा	२६ अश्वयज्	अश्विनी
१३ इवाती	वायु	२७ भरणी	यम
१४ विशाखा	इन्द्राग्नी		

गति

एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का नाम गति है। जड़ पदार्थ निश्चेष्ट स्थयं एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा सकता। परन्तु इस में भी एक प्रकार की गति है। चला देने से चलना है। यही नियम संसार में अत्यन्त प्रदम्भुत है, किमी जड़ घस्तु का चलना और हक्क जाना तीन कारणों से होता है॥

१-अपेक्षाकृत गुरुतर यस्तु के जाकर्यण, वायद्वारा अवरोध, एवं दूसरे घस्तु के साध घचंग। गुरुतर यस्तु का भर्म यह है जो अपने सेलोटे यस्तु को जाकर्यणद्वारा अपनी ओर से आता है। जिस के द्वारा कोई यस्तु चालित होता है, उस को शक्ति कहते हैं। विनाशकि के गति नहीं होती। कोई यस्तु किसी निर्दिष्ट काल में जितनी दूर जाता है, उसको उस यस्तु का वेग कहते हैं। जड़ पदार्थ की गति का नाम "कार्य" है और जिस शक्ति से गति होती है, वस को "फारण" कहते हैं॥

“चक्रावर्त” वा “वृत्ताभास”

जिस समय किसी यस्तु को चक्राकार पा तदनुरूप पथ में चलते देखते

है तो उस समय अवश्य विचारना होगा कि इस दस्तु में दो शक्ति दी गई हैं। एक शक्तिद्वारा नियत निष्प्रिय एवं अपरश्च किं ऐ नियत आकृष्ट होता है। इस में पहिली शक्ति अधोत् जिस से केन्द्राभिमुख गति होती है, उस को केन्द्राभिकर्पणशक्ति और दूसरी शक्ति अधोत् जिस ने केन्द्र द्वाङ् कर उस की जाना पड़ता है उस को "केन्द्रप्रसारणी" शक्ति कहते हैं ॥

केन्द्राभिकर्पणी शक्ति वा भूयाकर्पण शक्ति

सूर्य की गुरुता के कारण पृथिवी उस के द्वारा आलट हो कर सूर्य की ओर जाती है। दूसरी आरनहोंजा सकती, दूसी को केन्द्राभिकर्पणी शक्ति कहते हैं ॥

केन्द्रप्रसारणी शक्ति

जिस धर्म (स्वभाव) के प्रभाव से कोई पदार्थ स्वयंचालित नहीं चल सकता, एवं अन्यरूपीक घालित होने पर अपने आप स्थिर नहीं हो सकता उस का नाम "जहार्व" है। पृथिवी जहार्व पदार्थ है, तुतरा इस में पृष्ठिरूप इंश्वर ने ती ब्रह्मजुगमन शक्ति दी है। उसी के प्रभाव से यह सीधी चलती, परन्तु वह शक्ति सूर्य के आकर्पण से प्रतिहत होकर वरुणति या वृत्ताभास पथ में चलती है। पृथिवी के ब्रह्मजुगमनार्थ शक्ति कही गई है वही" केन्द्रप्रसारणी शक्ति है ॥

पृथिवी का गोलचक्र

पृथिवी का आकार गोल है जो अनेक युक्तियों और प्रमाणों से रिहू है, परन्तु किन्हीं जाधनिक ग्रन्थकारोंने वृषभी को समलूप और चतुर्धीण लिखा है जो ग्रामीण शास्त्रों एवं युक्ति से विवर होने से मानने योग्य नहीं। गोल होने में जो युक्तियां दी जाती हैं वे प्राय स्कूल एवं छोटी व पाठशालाओं के पाठ्य पुस्तकों में भी दी हुई हैं। इस लिये मैं केवल यहां प्रमाणों का दस्तऐग करताहूँ।

चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुभ्म-
मानाः । नहिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परिस्तपसो अद-
धातस्तुर्येण ॥ ऋग्वेदे १ । ३३ । ८ ॥

आश्रयः—पृथिवी गोलाकार है, पूर्व इस का आधा भाग अर्णात् द्वास गोल होने के कारण सूर्य से प्रकाशित रहता, एवं आधा भाग अन्यकारावृत्त रहता है और सूर्य के आकर्पण पर यह भूगोल दहरा है। मुन्—

आ प्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा स्मोकं देवः कृषुते
स्वाय धर्मणे । प्रवाहू अस्त्राक् सविता सवीमनि नि-
वेशयन्प्रसुवन्नन्तुभिर्जंगत् ॥ ऋग्वेदे ४ । ५३ । ३ ॥

आशयः—सूर्य द्युलोक एवं मूलोक आदि लोकों को अपने २ निष्ठनों में रखता हुआ और दिन रात करता हुआ अपनी कीड़ पर अवस्थित है। पुनः— स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्यन्तेऽह्न एव तदन्तमित्वाधात्मानं विपर्यस्यते रात्रि मेवावस्तात् कुरुते हः परस्तादथ यदेन्प्रातस्त्रेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्तमित्वाधात्मानं विपर्यस्यतेऽहरेवावस्तात् कुरुते रात्रों परस्तात् स वा एष न कदाचन निज्ञोचति । ऐतरेय ब्राह्मणे १४ । ६ ॥

इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा है:-

स वा एष न कदाचनास्तमेयति । नोदयति । तद्ददेन्पश्चादस्तमयतीति मन्यन्ते । अह्न एव तदन्तं गत्वा धात्मानं विपर्यस्यतेऽहरेवाधस्तात् कृणुते रात्रों परस्तात् । स वा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति । तद्ददेन्पुरुस्तादुदयतीति मन्यन्ते । रात्रेरेव तदन्तं गत्वाधात्मानं विपर्यस्यते रात्रिमेवाधस्तात् कृणुतेऽहः परस्तात् । स वा एष न कदाचनास्तमयति न ह वै कदाचन निम्लोचति । गोपथ ब्राह्मणे ६ । १० ॥

अर्थ—सूर्य न कभी छिपता (अस्त) और न निकलता (उदय) है। जो लोग सूर्य का अस्त होना मानते हैं वे दिन के अन्त होने पर अर्थात् रात्रि में पृथिवी के पूर्वसे पश्चिम से पुनः पूर्व में सूर्य को देखते हैं और सूर्य पृथिवी के इस भाग में दिन और दूसरे भाग में रात्रि को करता है। तथा लोग सूर्य का उदय मानते हैं। इसी प्रकार जब दिन के अन्त को प्राप्त होकर सूर्य पश्चिम में दिखलाएँ देता है और भूमि के इस भाग में रात्रि और दूसरे भाग में दिन करता है तो लोग सूर्य का अस्त मानते हैं। इन्हीं उपरोक्त दोनों प्रकारों से पृथिवी का गोलत्व, निराधारत्व एवं दिन रात का होना मिहु होता है। पुनः—

वृत्तभपञ्जुरमध्ये कक्षापरिवेष्टितः स्वमध्यगतः । मृजजल-
शिखिवायुमयो भूगोलः वर्तते सर्वतोवृतः ॥ ६ ॥

**कुसुमैस्तद्वद्गुर्हि सर्वसत्त्वैर्जलजैः स्थलजीव्र
भूगोलः । आर्यसिद्धान्ते गोलपादे ॥ ७ ॥**

अर्थ-नक्षत्र घटक के भीतर कक्षा से घिरा हुआ आकाश में पञ्चभूतात्मक (मृत्तिका, अग्नि, वायु, जल, आकाश) भूगोल अवस्थित है ॥ ६ ॥ एव इस की सब और जिस प्रकार कटम्ब के भूल के सब और पंखड़ी होती हैं, उसी प्रकार पृथिवी के सब भाग में जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले प्राणी रहते हैं ॥ ७ ॥ इसी प्रकार वराहमिहिर ने लिखा है—

- **पञ्चमहाभूतमयरतारागणपञ्चरे महीगोलः ।
खेऽयस्कान्तान्तःस्यो लोह इवावस्थितवृत्तः ॥ १ ॥ -
तरुनगनगरारामसरित्समुद्गादिभिरिचतः सर्वः ॥**

(पञ्चसिद्धान्तिका अ० १३)

अर्थ-मृत्तिका, वायु, जल, आकाश और पानी यह पञ्चभूतात्मक भूगोल राशिघटक के भीतर आकाश में गोलाकार अवस्थित है। जिस प्रकार चुम्बक के भीतर छोड़े का गोला रहता है। इस भूगोल के चारों ओर एह जाग वृत्त, पर्वत, नगर, वाटिका, नदी और चमुद्गादिकों से आच्छादित है। जास्कराधाये ने भी लिखा है—

**सर्वतः पर्वतारामग्रामचैस्त्यचयैरिचतः ।
कदम्बकुसुमग्रन्थिः केसरप्रसरैरिव ॥**

(सिद्धान्तशिरोमणि भुवन कोषे)

अर्थ-एथिवी की सब ओर पर्वत व्याग और चमुद्गादि हैं जिस प्रकार कटम्ब के फल की सब ओर पंखड़ी होती हैं ॥ पुनः—

- **समीयतः स्यात्परिधिः शतांशः । पृथ्वी च
पृथ्व्या नितरां तनीयान् ॥ नरस्य तत्पृष्ठग-
तस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥**

(मिहुन्तशिरोमणी)

अर्थ-परिधि का शतांश (१०० वां हिस्सा) जिस प्रकार एथिवीस्थ पुरुष को समस्तल दीख पड़ता है। इस का कारण यह है कि एथिवी मनुष्य की

अपेक्षा बहुत यही है। पुराणों में जो एथिवी को चपटी लिखा है। उस का खण्डन भास्कराचार्य ने लिखा है-

यदि समा मुकुरोदरसन्निभा भगवती धरणी तरणिः
क्षितेः । उपरिदूरगतोऽपि परिभ्रमन् किमुनरैरभरैरिव
नेक्ष्यते ॥ यदि निशाजनकः कनकाचलः किमु तदन्तरगः
स न दृश्यते । उद्गयन्ननु मेरुरथांशुमान्कथमुदीति च
दक्षिणभागके ॥ ११ ॥

अर्थ-यदि एथिवी दर्पणोदर धरातल के तुल्य चपटी है तो गन्धों को ऊपर को अवश्य करता हुआ सूर्य (सायद्वाल के पीछे) क्यों नहीं दीखता? यदि सूर्य नेह की ओट में आजाता है तो ऐसे क्यों नहीं दिखलाई देता? और यदि नेह की आड़ से निकल कर सूर्य उदय होता है तो पूर्व उत्तर दिशा ही से सूर्योदय होना चाहिये क्योंकि नेह उत्तर की ओर है। फिर (शीतकाल में) दक्षिणभाग से सूर्य का उदय क्यों होता है?

इस से यह मानना पड़ेगा कि एथिवी ही की आड़ में सूर्य आजाता है। अर्थात् एथिवी का जितना भाग सूर्य के सामने होता है उतने में दिन और जो ओट में आता है उतने में रात्रि होती है। इसी आशय का मन्त्र ऋषिद में आया है जिस पर सायणाचार्य ने भी उपोतिपशाख के अनुकूल ही भाष्य किया है-

प्रत्यङ्ग् देवानां विशः प्रत्यङ्गुदुरेपि मानुपान् ।

प्रत्यङ्ग् विश्वं स्वर्द्धंशे ॥ ऋृ० सं० मं० १ । सू० ध० मं० ५

भाष्यम्—हे सूर्य त्वं देवानां विशः महन्नामकान्देवान्महस्तो वै देवानां विश इति श्रुत्यन्तरात् । तान्महस्तसंज्ञकान्प्रत्यङ्गुदुरेपि प्रति गच्छन्नुदयं प्राप्नोपि तेपामभिमुखं यथा भवति तपेत्यर्थः । तथा मानुपान् प्रत्यङ्गुदुरेपि तेऽपि यथा अस्मदभिमुख एव सूर्य उदेतीति मन्यन्ते तथा यिश्वं व्याप्तं स्वः स्वलोकं दृशो द्रुपुं प्रत्यङ्गुदुरेपि यथा स्वलोकवासिनो जनाः स्वस्वाभिमुख्येन पश्यन्ति,

तथा उदेपीत्यर्थः । एतदुक्तं भवति लोकत्रयवर्त्तिनो जनाः सर्वे-
ऽपि स्वस्वाभिमुख्येन सूर्यं पश्यन्तीति तथा चाम्नायते-तस्मा-
त्सर्वं एव मन्यते मां प्रत्युदगादिति (तै० ब्रा० ६ । ५ । ४)

आशयः—पृथिवीस्त्व समस्ता लोग जानते हैं कि सूर्यं जेरे प्रति उदित हुया अगर पृथिवी गोल न होती एवं सूर्यं अपनी ही धुरी पर न धूमता तो ऐसी घटना कदापि न होती कि उत्तर मेहनियासी (देवता) लोग दक्षिण मेहनियासी एवं अन्यान्यप्रदेशस्थ व्यक्तिगण को प्रतीत होता कि सूर्यं का उदय जेरे सम्मुख होता है । लज्जाधार्य ने लिखा है कि—

समता यदि विद्यते भुवस्तरवस्तालनिभा वहूच्छ्रयाः ।

कथमेव न दृष्टिगोचरं नुरहो यान्ति सुदूरसंस्थिताः ॥

अर्थ—यदि पृथिवी चपटी होती तो वहुत दूर स्थित ताढ़ के समान ऊचे कंचे चेड़ पूरे दृष्टिगोचर क्यों नहीं होते ? अर्थात् दूरस्थित वृक्षों के केवल ऊर्ध्वं भाग दृष्टि पड़ने का कारण यही है कि उन का नीचे का भाग पृथिवी की गोलाई की ओट में आकाशा है ॥

पृथिवी का आधार

पृथिवी किस के आधार पर टहरी है इस में अनेक भूत हैं—कोई कहता है कि 'पृथिवी शेषनाश के स्तर पर है' कोई वैल पर घतलाता है । एवं कोई कूर्म में की पीठ पर कहता है इत्यादि । परन्तु वेदादि सत्य शास्त्रों में एवं आधुनिक विद्वानों ने निश्चय किया है कि सूर्यं के आकर्षण से अपनी कक्षा में आकाश में अवस्थित है । प्रमाणः—

सत्येनोत्तमिता भूमिः । अर्थर्ववेदे कां० १४ । १ । मं १।

अर्थ—परमेश्वर ने भूमि को धारण किया है । पुनः—

स दाधार पृथिवीम् । यंजुर्वेदे

अर्थः—उसी परमेश्वर ने पृथिवी को धारण किया है ।

"उक्षा दाधार पृथिवीमुत द्याम् । ऋग्वेदे"

सूर्यं (उक्षा) की आकर्षण शक्ति पर पृथिवी आकाश में है । इसी का अर्थ न समझ कर किसी लोगों ने लिखदिया है कि पृथिवी वैल के सींग पर है ॥

“स नेमिचक्रमजरं विवावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति।
सूर्यस्य चक्षुरजसैत्यावृतं तस्मिक्षपितां भुवनानि विश्वा ॥

श्लोकदे १ । १६४ । १४

आशयः—सूर्य को केन्द्र (मध्य) करते हुये जितने लोक एवं पृथिवी दर्शने दिशा युक्त अवस्था करती हुई अवस्थित है। इसी प्रकार सूर्य के अत्यन्त निकट शुष्ठु और शुक्र भी परिक्रमा करते हैं।

मित्रो जनान्यातयति प्रजानन्मित्रो दाधार

पृथिवीमत द्वाम् । तैत्तरीय ब्रा० ३ । ४ । ११ ॥

आशयः—सूर्य सौंह लोकों को (सौर जगत्) अपनी आकर्षण शक्ति से नियम में रखता हुवा एवं पृथिवी और द्युलोक को धारण करता है। पुनः—

मूर्ती धर्ता चेद्गुरित्र्यास्ततोऽन्यस्तस्याप्यन्योऽस्यै-
वमन्नानवस्था । अन्त्ये कल्प्या चेत्स्वशक्तिः कि-
माद्ये किन्नोभूमेः साप्तमूर्त्तिरच मूर्त्तिः ॥

(सिद्धान्त शिरोमणि भुवन कोपे)

अर्थः—यदि पृथिवी का कोई (जैसा कि पौराणिक लंग शेषनाग, मुखलगाम लोग वैष्णव पर मानते हैं) मूर्त्तिभान् धर्ता माना जावे तो उस धर्ता का कोई अन्य धर्ता मानना पड़ेगा और फिर उस का कोई दूसरा इसी प्रकार इस का कहीं अन्त न मिल पावेगा अर्थात् इस में अस्वस्था दोष लगेगा एवं अन्त में यही मानना पड़ेगा कि पृथिवी अपनी ही शक्ति से स्थित है।

आकृष्टिशक्तिरच मही तथा यत्स्वस्यं गुरु स्वाभिमुखं
स्वशत्त्वा । आकृष्ट्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्
क्वपतत्वियं खे ॥ (सिद्धान्तशिरोमणि भुवनकोपे)

अर्थात्—पृथिवी अपनी आकर्षण शक्ति से भूतल के सब पदार्थों को अपनी ओर सींचती है इस लिये पदार्थ पृथिवी पर गिरते हुये दियलादे देते हैं। जब पृथिवी के सभी पदार्थ के सब पदार्थ उस की अपेक्षा बहुत छाटे होने के कारण उस की आकर्षण शक्ति से पृथिवी पर गिरते हैं तो पृथिवी कहां को गिर जावे ? इस लिये यह शङ्खा कि पृथिवी यिना आपार के कैसे रह सकती है ? उर्ध्वपर निर्भूल है ॥

पृथिवी का भ्रमण

पृथिवी की गति दो प्रकार की है—आनन्दिक और वार्षिक । रथघक जिस प्रकार में दरड के ऊपर नियत चूमता है, उस की इस गति का भास दैनिक गति है । एवं वह इस प्रकार प्रतिदिन अपनी धुरी पर चूमती २ सूर्यों के चारों ओर एक घर्षण में पुनः जहां से चली थी वहीं आज्ञाय इस को उपर ली वार्षिक गति कहते हैं ॥

इन्हीं दो प्रकार की गतियों से दिवा, रात्रि, कतु परिवर्त्तनादि भासा प्रकार के नैसर्गिक व्यापार सम्पन्न होते हैं । पृथिवी का जा भाग जिस समय सूर्य के सम्मुख होता है उसी भाग में दिन होता है एवं उसके विपरीत भाग में रात्रि होती है । वह प्रतिदिन परिष्ठप्त से पूर्व को अपनी धुरी पर होता है, परन्तु लोग कहते हैं कि गंगनस्थ सूर्य, घन्दू, नक्षत्रादि पूर्व दिशा में उद्दित होते हैं एवं पश्चिम दिशा में अस्तमित होते देखे जाते हैं वस्तुतः सूर्य घन्दू आदि नक्षत्रों की जिस प्रकार उद्दित एवं अस्तमित होते देखते हैं, उन का उस प्रकार उद्यास्त नहीं होता । कंवल पृथिवी की गति के कारण ऐसा वोध होता है । किन्तु पृथिवी की यह गति हमारे दर्शन, अवण, स्पर्शन आदि किसी इन्द्रिय द्वारा अनुभूत नहीं होती । कोई उस को भास से पूमता नहीं देखता, करन से भी कोई उस की गति के शब्द को नहीं सुनता, एवं उस की गति को कभी कोई स्पर्शन्निय द्वारा स्पर्श नहीं करता । इसी कारण कितने ही शब्दिक लोग पहिले इस की गति को स्वीकार नहीं करते थे, एवं इस समय भी वहुत से लोग नहीं भासते । जो लोग किसी भी इन्द्रियद्वारा पृथिवी की गति का वोध नहीं करते वे पृथिवी की गति से दिवा, रात्रि, भास व्याप्त आदि ज साज कर, सूर्योदि आकाशस्थ अगरण पदार्थ की प्रात्यहिक गति स्वीकार कर उन्हीं के पर्याकरण से दिधा, रात्री, कतु परिवर्त्तनादि भासते हैं । जिस कारण इन ही जतों के भिन्न दूसरा कुछ जहीं फ़हा जा जकता । अब यहाँ चाहिये कि पृथिवी की गति से दिन रात्रि आदि स्वाभाविक घटना होती है या सूर्य एवं नक्षत्रादि आकाशस्थ पदार्थ प्रतिदिन पृथिवी की प्रदक्षिणा करते, इस से दिन रात आदि होते हैं किन्तु इन दोनों जतों को देखना चाहिये कि कौनसा भत असल (प्राकृत) है एवं कौनसा अप्राकृत है । एवं वहुत से ज्योतिर्किंदोने प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा इस की सीमांचा करके सत्यसत्यापन करने के लिये पदार्थ विद्या द्वारा जिन प्रमाणों का आश्रय लिया है उन में से कठिपय प्रमाण उल्लिखित किये जाते हैं ॥

दृष्टिपात करके देखें तो वे पुनः कही उक्त प्रकार अमूलक कल्पना नहीं कर सकते। जिस असीम ज्ञानवान् अनन्त शक्तिगम पुरुष ने अनिर्वचनीय सुशृङ्ख-खल सम्पूर्ण व्रह्माण्ड की रचना की है वह क्या इस क्षुद्र पृथिवी की किया सम्पादन के लिये उलटा नियम करेगा? यह किसी प्रकार विद्वास पोरण नहीं। जब केवल एक पृथिवी की आनिहक गतिहारा अनायाम दिन रात मास औतु भादि सब घटना संघटित हो सकती हैं तो उस के लिये नमीमण्डलस्थ असरूप भयानक प्रकारण नक्षत्रादि की भवद्वार गति कल्पना करे यह आश्चर्य है। जो कार्य अनायास चिठ्ठु ही सकता है कोई उस की सिंहु के लिये आह-स्थर नहीं रखता। एत एव जो सामान्य बुद्धि वाले पुरुष के लिये नितान्त अकर्तव्य व असङ्गत कह कर बोध हंता है उस को किस प्रकार सर्वशक्तिमान्, ज्ञानाकर, आदि पुरुष, विश्वकर्मा, जगत्किर्त्तायक में अमन्मध्य दीप आरोपण करके अपराधी होने का साहस करेगा॥

• (२) सूर्य यदि पृथिवी को प्रतिदिन परिभ्रमण करता तो वह प्रति नियत भूमण्डल के माध्यभाग अर्धात् निरक्ष प्रदेश को वेष्टनपूर्वक अभ्यन करता। पदार्थ विद्या द्वारा विशारद परिहतगण ने परीक्षा पूर्वक निश्चय किया है कि जब तक एक जड़ पदार्थ अन्य जड़ पदार्थ को परिभ्रण करता है उस समय दोनों पदार्थ समतलस्थित अर्धात् परस्पर इस प्रकार स्थित रहते हैं जो सूर्य परत करने से दोनों एक ही रेखा में परित रहते हैं, एव वेष्टनकारी भ्र-म्यमाण पदार्थ मध्यस्थित स्थिर पदार्थ को नियत एक निर्दिष्ट स्थान में होकर परिभ्रमण करता है। अत एव सूर्य यदि पृथिवी को प्रतिदिन परिभ्रमण करता तो उन की जक्षा अवश्य ही भूमण्डल के ठीक मध्यस्थान के ऊपर होकर जानी एवं उसको प्रतिदिन पृथिवी के ठीक पूर्व ओर उदित होता और पश्चिममें अस्त होता देखा जाता। परन्तु वस्तुतः प्रतिदिन ऐसी घटना नहीं होती। एक वत्सर में केवल दीही दिन सूर्य को भूमण्डल के ठीक गध्यभाग से उदित होकर ठीक मध्यभाग में अस्तमित होते देखते हैं। तद्भिन्न उस को छः महीना पृथिवी के दक्षिण पश्चिमांशमें अस्तमित होते देखते, एव अपर अर्धीशमें पृथिवीके पूर्व उत्तरमें उदित एव पश्चिम उत्तरमें अस्तमित होते देखते हैं॥

सूर्य को प्रात्यहिक गति मानने से कभी उस का उदयास्त उक्त प्रकार से चिठ्ठु नहीं किया जा सकता। एवं तद्भिन्न विस्तर भ्रुव नक्षत्र का भी सूर्य की तरह उत्तरायण व दक्षिणायण देखा जाता है। अत एव यह सम्पूर्ण भ्रुव नक्षत्रगणके उत्तर दक्षिणायनहारा भी पृथिवी की प्रात्यहिक गति चिठ्ठु होती है॥

(३) वहस्त वस्तु क्षुद्र वस्तु को कभी परिभ्रमण नहीं करता। अड़ पदार्थ की गति का ऐसा नियम है। यहाँ पदार्थ लोटे पदार्थ की घरें नहीं परि भ्रमण करता, पदार्थ विद्यावित् पश्चिमों ने घक्रायत्तं गति प्रसद्धमें विधि पूर्वक भिन्न किया है कि पृथिवी की अपेक्षा नूर्यमण्डल तेरह लाख मुण में भी अधिक बड़ा है। अत एव नूर्य को पृथिवी का परिभ्रण करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, प्रयुत पृथिवी की ही गति अनापास सिद्ध होजाती है। एवं पृथिवी की गति स्वीकार न करने से दिन रात्रि आदि घटना नूर्य को पृथिवी की परिक्रमा से मिद्द नहीं होती। पृथिवी वृत्ताभास पथ में घरें में एक वार भ्रमण करती है। इसी लिये ज्ञातुपरिवर्तन होता है। पृथिवी की कक्षा यदि नगण्डलाकार होती तो घरें में जिन्न २ प्रकार ज्ञातु की घटना न होती। नूर्य के घरें तरक परिभ्रमणकाल में पृथिवी नूर्यमण्डल में जिन्न २ स्थान अवस्थित होने से भी जिन्न २ प्रकार ज्ञातु की घटना होती ॥

(४) पश्चिम लोगों ने साधारण गति के नियमों को समझ कर पृथिवी की आनन्दिक गति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाया है कि जब कोई पदार्थ घूमता है तो उस का देग अपने केन्द्र प्रदेश (यीच) की अपेक्षा दूरतर प्रदेश में अधिक होता है। इसी कारण जब किसी घरें पर से कोई वस्तु जीचे को गिराई जावे तो वह कुछ दूर पूर्वीश में गिरेगी। इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यदि पृथिवी पश्चिम से पूर्व को भ्रमण न करती हो तो उच्चस्थान से द्रव्यादि केंद्रने से घरें ठीक जीचे न पड़कर घरें कुछ पूर्व ओर गिरता है ॥

(५) युध यह नूर्य से कभी भी अंश में अधिक दूर नहीं जाता। एवं शुक्र यह कभी भी अंश से अधिक दूर नहीं जाता। किन्तु यद्यपि वे पृथिवी को गम्य में रखकर परिभ्रमण करते ही भी कभी २ नूर्य से १००० पर्यन्त दूर में जाते किन्तु ऐसी घटना क्या पहिले परा अब कभी किसी से नहीं देखी ॥

(६) यह गति कभी नूर्य ओर कभी पश्चिम, और चाले, दौलते हैं और उन के गगनीय भाग में किसी किसी अंश में वे जिम प्रकार स्थिर हो जाते हैं, ऐसा बोध होता है किन्तु उन की गति की इस प्रकार विचित्रता क्या यथार्थ ही होती है सो नहीं। पृथिवी युध शुक्रके गमन भाग के यहिजाग में रह कर नूर्य को परिभ्रमण करते हैं। इस लिये ऐसा बोध होता है। पृथिवी की गति हमारे इन्द्रियगोचर नहीं होती। ऐसा समझ कर इस को अचला

समझ लेना किसी प्रकार गुह्यियुक्त नहीं । यदि कोई दुद्र जीव किसी व्यक्ति वस्तु पर सवार होता व्यक्ति पदार्थ के पूनर्जने या चलने से चढ़ा हुवा दुद्र जीव अपने आप किसी प्रकार उस की गति अनुभव नहीं कर सकता । जब कोई जहाज पर चढ़ा हुवा पुरुष जहाज में दैठा है और जब जहाज मग्नेट गमन करता है तो उस समय नौकास्थ पुरुष उस की गति को नहीं जान सकता । समुद्रतीरस्थ अपर किसी स्थिर पदार्थ को लहय न करके भारोही कभी अपने जहाज की गति नहीं जान सकता है । इस लिये हम लोग पृथिवी की दैनिक गति अनुभव नहीं कर सकते, इस से उस का स्थिरमानना किसी प्रकार मिह नहीं हो सकता ॥

‘पृथिवी’ की आन्धिक गति के कारण जो मृथं चन्द्रमा मह नक्षत्रादि प्रति दिन पूर्व दिशा में उदित होकर पश्चिम में अस्तगित देखे जाते हैं इस के अनेक प्रभाव हैं ॥

जब कोई तरणी या शकटादि यान तुल देग से गमन करते हैं तो तन-मध्यस्थिन भारोही लीरस्थ वा पाश्वंदा किसी दृक्षादि स्थिर पदार्थ के प्रति दृष्टिपात करने से वह अवश्य ही उन स्थिर दृक्षादि को अपनी विपरीत दिशा में जाते देखते हैं, इस में सन्देह नहीं । और सचल पदार्थ गति द्वारा जो अचल पदार्थ की गति का अस होता है, इस में सन्देह नहीं ॥

कोई २ कहते हैं कि यदि पृथिवी प्रतिदिन घूमती होती तो भूमरहलस्थ जितने पदार्थ जीवजनु आदि हैं सब उस की गति से उलट पड़ते । यह शब्दा व्यर्थ है । शहत वस्तु सदैव छोटे वस्तु को जाकर्यित करता है । पृथिवीस्थ जितने पदार्थ हैं उन की अपेक्षा पृथिवी व्यक्ति है एव सब वस्तु पृथिवी में आकृष्ट होकर रहते हैं । पृथिवी घूमते समय व्यक्ति जिस अवस्था में रहे उस के ऊपर अवस्थित जीव ज़तु व अन्यान्य पदार्थ नियत उस में आकृष्ट होकर रहेगा । पृथिवी घूमती व चाहे जिस दिशा में जावे हम लोग सहा अपने पैरों के नीचे पृथिवी व मस्तक पर आकाश को देराते रहेंगे । दुतरं पृथिवी की आन्धिक गति द्वारा किसी प्रकार हमारा अवस्थान्तर अनुभूत या घटने की सम्भावना नहीं ॥

कोई २ यह कहते हैं कि “पृथिवी की गति हैनि से एक वडा भयानक शब्द होता” यह शब्द एक मात्र अमूलक है ॥

हम लोग जो किसी वस्तु की गति का शब्द सुनते हैं उस का कारण यह है कि उस वस्तु का वायु के साथ व्यंग व वासिधात होने से यह शब्द उत्पन्न होता है । यह शब्द उसी वायु के सहकार से हमारे कानों में उन-

पड़ता है। पृथिवी शून्य के क्षेत्र अवस्थित है, वहां वायु या अन्य कोई पदार्थ नहीं। सुतरां उस का किसी के साथ घर्यण वा अभिघात की सम्भावना नहीं एवं घर्यण वा अभिघात होने से भी वायु का प्रभाव होने से तउजनित शब्द हमारे कर्णपोषर नहीं होता। शून्य में व्याधकता शक्ति नहीं। यदि यह शक्ति रहती तौ शून्य में पृथिवी न ठहर सकती। जब पृथिवी के अवस्थान में शून्य प्रति व्याधकता नहीं उत्पन्न होती है। वह उस गति का प्रतिवादी नहीं हो सकता। एवं गाढ़ी, घोड़ा, नीका प्रभृति सवारी द्वारा गमन काल में जो प्रश्वल वायु का शब्द सुन पड़ता है। ऐसा समझ कर यह कहना कि पृथिवी की गति से भी शब्द होना चाहिये, यह असम्भव है। कारण यह है कि वायु की प्रचण्ड गति समय पर्वत, अद्वालिका, वृक्षादि जितने वस्तु हैं, अपनी २ अवस्थानुसार वायु की गति का अवरोधक (रोकने वाले) होते हैं-तौ उस से अवश्य ही परस्पर द्रव्यों के संस्पर्शजनित शब्द उत्पन्न होते हैं। उस का प्रमाण यह है जो जिम स्थान में अधिक वृक्षादि रहते हैं, वहां वृक्ष के साथ वायु के अभिघात से अधिक शब्द होता है। जहां वृक्षादि थोड़े होते हैं, वहां शब्द भी कम होते हैं॥

पुनः लोग कहते हैं कि “यदि पृथिवी में गति होती तो पृथिवी के गति भारे के विपरीत और वायु की गति का अविश्य पराक्रम होता” यह शब्द भी अपात्म है। यदि भूवायु स्थिर रहता और पृथिवी उस के बीच होकर या उस भूवायु की स्वतन्त्रगति एवं पृथिवी की स्वतन्त्रगति होती किंवा भूवायु पृथिवी के आकर्षण के आधीन न होता तौ पृथिवी की गति भारे के विपरीत वायु का विगवान् प्रवाह होना सम्भव होता। पृथिवी की मध्याकर्षण शक्ति में अन्यान्य वस्तु उस में जिस प्रकार आरूप होती है उसी प्रकार वायु भी आरूप होता है। पृथिवी के आकर्षणाधीन होने से पृथिवी की गति जिस प्रकार हो जाती है वायु की भी गति उसी प्रकार नित्य होने पर भी स्थिति की गति के विपरीत दिशा में वायु गति नहीं होती॥

जब कोई पैदल या गाढ़ी आदि पर चढ़ कर जाता है, उस समय जो गाढ़ीआदि की गति प्रतिकूल वा अनुकूल में वायु की गति है अनुभव होती है उस का कारण यह है कि गाढ़ीआदि की एवं वायु की भिन्न २ गतिय वरस्पर में एक दूहरे के आधीन नहीं॥

लोदूं २ यह कहता है कि “यदि पृथिवी प्रति सेकेन्ड एवं प्रति मिनट बहुत भैल पथ पर्यटन करती तो पृथिवीस्थ बड़े २ मन्दिर तथा भकानादि वा स्तम्भादि एवं किसी उच्च स्थान से कोई पदार्थ केंकने से वह उगे के जड़ में नहीं गिरता। पृथिवी की गति वशात् अवश्य ही वह उच्च स्थान से बहुत दूर अलग गिरता। एवं पक्षी प्रभृति उड़ने वाले सेपर जीव गति जिस प्रदेश हीकर उड़ते हैं, पृथिवी दूत घेगे के अनुरोध से वे वहाँ से बहुत दूर पीछे पह जाते, जिस कारण वह फैका हुय। पदार्थ उड़ायीप्रमाण सेपर जीवगति पृथिवी के साथ समान घेगमें किसी प्रकार नहीं चल सकते। किन्तु यस्तुतः कभी ऐसी घटना दृष्टिगोवर नहीं होती। स्तम्भादि उच्च स्थानसे कोई पदार्थ गिरने या किसी पदार्थ के फैकने से वह उम की जड़ में गिरता है। एवं पक्षी प्रभृति सेपर माणी सब आकाश भागमें उड़कर अनायास पृथिवीके साथ २ चले जाते हैं।”

यह अमूलक आपत्ति किसी काम की नहीं। जब दो पदार्थ एकम रहते हैं, तब एक की गति से दूसरे की गति चिह्न होती है। धोड़ के गमन से अश्यारुद्ध का गमन चिह्न होता है। जहाज़ के गमन से जहाज़ पर चढ़े व्यक्ति का गमन चिह्न होता है। एवं शरूट की गति से गाढ़ी पर सवार का गमन चिह्न होता है। धोड़ा रथ नीका आदि से यदि कोई पदार्थ भूतलमें या जल में गिर पहे तो जब तक वह भूतल या जल में नहीं गिरता तब तक अश्य रथादि के साथ २ समान गति से चला जाता है, इसी कारण स्थिर रथ य शब्द नीका से कोई पदार्थ केंकने से जैसे यह इस रथ य नीका के ठीक नीचे गिरता है। इसी प्रकार सघल नीका य गमनशील रथ से कोई धैर्य गिरने या फैकने से भी यह ठीक उस के नीचे पहता है। इस लिये पृथिवी प्रतिहोरा पथिम सेजितनी दूर पूर्व की ओर जाती है, पृथिवीस्थ सम्पूर्ण पदार्थ के प्रति हीरा उतना ही दूर गमन चिह्न होता है, स्तम्भ से गिरी हुई इंट उम के मूल में गिरती है, लवं आकृत्यस्त्र लेकर जीव गम्भु भीजे नहीं कहते ॥

पृथिव्यादि लोकों का भ्रमण

पृथिवी के भ्रमण में युक्तियांलिखी जा चुकी हैं, जब प्रमाण लिखे जाते हैं—
वि सामना मिपिरामिन्द्रभूमिं महीमपारां सद्ग्ने ससत्य।
अस्तम्भाद्वद्धां वृपभी अन्तरिक्षमपन्त्वा पहचयेऽप्रसूताः ॥

(शास्त्रे ३। ३७। ८)

ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्वेमन्तः । शिशिरोवसन्तः । ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम् ॥

(अथर्ववेदे १२ । १८ । ३६)

आशय-हे भूमे ! तुम्हारी वार्षिक गति के कारण ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु होते हैं । और भी:-

आयं गौः पृथिविरक्मीदसदन्मातरं पुरः ।

पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ यजुर्वेदे अ० ३ । सं० ६ ॥

आशय-यह पृथिवी जल को प्राप्त होकर अर्थात् जल के सहित अन्तरिक्ष में आक्रमण करती है, अर्थात् अपनी धूरी पर धूमती है और सूर्य के भी चारों ओर धूमती है ॥ पुनः:-

या गौर्वत्तनिं पर्यति निष्ठृतं पश्योदुहाना ब्रतनीर-
वारतः । सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुपे देवेभ्यो दाशहु-
विपा विवस्ते ॥ ऋग्वेदे अ० ८ । २ । व० १० सं० १ ॥

आशय-जो पृथिवी सदा अनन्त रस फल फूलादि पदार्थों से प्राणियों को करती तथा अपने नियम का पालन करती, परमेश्वर की नहिंता का उपदेश करती, दानी और अच्छे लोगों की और विद्वानों की नाना प्रकार के सुख दती, अपनी कक्षा में सूर्य की चारों ओर पूसती है ॥

पृथिवी के अन्यान्य नामों में "गौ" भी नाम है । जिस की निरूपिनिरूप में की गई है-

गौरिति पृथिव्या नामधेयं यह दूरं गता भवतीति ॥

(निरुपे २ । ५५)

आशय-“गौ” पृथिवी का नाम है, जो दूर तक चलाई जाती है (सूर्य के आकर्षण से) । इसी प्रकार भाकंडह्ये पुराण में लिखा है कि-

भ्रमतां सर्वजगतां नाभिभूतेन भास्वतां । समुद्रादिवनो-
पेता सा रुरोह मही नभः ॥ गगनं चाखिलं ब्रह्मन् स-
चन्द्रग्रहतारकम् । अधोगतं महाभाग वभूवाक्षिप्तमा-
कुलम् ॥ मा० पु० अध्याय १०३ श्लोक ४२

अर्थ-भूर्ये इस समस्त विचरणशील ज्योतिष्क गणों के नामि (केन्द्र) स्थान में है और वह जब अपने केन्द्र पर भ्रमण करता है, तब अन्यान्य ज्योतिष्कगण इस की आकर्षण शक्ति से आकृष्ट हो, अपने २ हिसाब पर धूमते हैं। अतएव सुमुद्र पर्वत और बनादि समेत यह समस्त पृथिवी धूम के आकाश में घट जाती है और चन्द्र यह तारागण विशिष्ट गगनमण्डल आकृति और आकुल होके नीचे के भाग में चला जाता है ॥ इसी प्रकार आर्यभट्ट ने तौ अन्यान्य ग्रहों के भगण वर्णन में पृथिवी का भी भगण लिखा है –

युगरविभगणा.रयुधृशशिचयगियिहुशुच्छृङ् कुडिशि
वुरालृरवपृप्रांक ॥ (आर्यसिद्धान्ते देशगीतिकायाम्)

अर्थ-एक महायुग में पृथिवी के १५८-२७ भगण पूर्व से पश्चिम चलने में होते हैं ॥ यदि पृथिवी न भ्रमण करती होती तो आर्यभट्ट इस के भगण क्यों लिखते । इस प्राचीन ज्योतिषगात्र के विस्तु अन्यान्य आधुनिक ज्योतिष के ग्रन्थों में उक्त पृथिवी के भगण को “सूर्य भगण” के स्थान में “भू भगण” (नक्षत्रभगण) लिखे हैं अर्थात् पृथिवी को अबला एव राशिचक वा नक्षत्र को सचल सिद्ध करने के लिये ॥

इसी प्रकार आगे चलकर आर्यभट्ट फिर लिखते हैं कि –

प्राणेनैति कलां भूः । आर्यसिं० देशगी० आर्या ४ ॥

अर्थ-पृथिवी की गति कलान्तिका (Minute) होती है अर्थात् कला २ फरके चलती है । इस पाठ को आधुनिक ज्योतिष के ग्रन्थकारों ने धटक कर अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये ऐसा पाठ कर दिया है – “प्राणेनैति कला भू अर्थात् राशिचक (भू=राशिचक) कला २ फरके चलता है ॥

यह पाठ ब्रह्मगुप्त के समय तक ठीक था, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्म सिद्धान्त में पृथिवी के भ्रमण का खण्डन किया है, उस में लिखा है कि –

प्राणेनैति कलां भूर्यदि कुतो ब्रजेत् कमध्यानम् ।

आवर्त्तनमुद्याश्चेत्त पतन्ति समुच्छ्रुयाः कस्मात् ॥

(ब्रह्मसिद्धान्त अध्याय ११)

अर्थात्-यदि पृथिवी कला २ फरके चलती है तो किस रास्ते से कहा जाती है ? यदि पृथिवी चलती है तो कोठे आदि ऊध स्थान क्यों नहीं गिर जाते ? ॥ पुन आर्यभट्ट लिखते हैं कि –

अनुलोमगतिनैस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत् ।
अचलानि भानि तद्वत् सपश्चिमगानि लङ्घयाम् ॥
(आर्यसिद्धि गोलपाद)

अर्थ-जिस प्रकार नीका में बैठा हुआ मनुष्य किनारे की स्थिर धीजो को दूसरी ओर को चलते हुये देखता है । ऐसे ही मनुष्यों की मूर्यांदि नक्षत्र जो स्थिर हैं, पश्चिम की ओर चलते हुए दीखते हैं और पृथिवी स्थिर जा लूम होती है, परन्तु वास्तव में भूमि ही चलती है । पुन आर्यभट्ट लिखते हैं- भपञ्चरः स्थिरोभूरेवावृत्यावृत्य प्रतिटौवसिकौ उठयास्तमयौ सम्पादयति ग्रहनक्षत्राणाम् । (आर्यसिद्धिलालं गोलपाद)

अर्थ-मूर्यांदि सब नक्षत्र स्थिर है, परंथी ही वार २ अपनी धुरी पर धूम कर प्रति दिवस इन के उदय और अस्त का सम्पादन करती है और भग्नरकोष में(अङ्गारक कुजो भीसो लोहिताह्नो महीसुत) महाल यह के नामों में “महीपुत्र” वा “महीज” नाम लिया है, इस का कारण यही जान पड़ता है कि पृथिवी की कक्षा (धरण नाम) के बाद महाल की कक्षा है । इसलिये नहीं से उत्पन्न महाल को लिया है, यदि पृथिवी न चलती होती तो उस के भ्रमणमार्ग की उपवस्था ऐसी क्षो लिखी जाती ॥

पृथिवी भ्रमण में अर्वाचीन ग्रन्थकारों की सम्मति
वरामिहिर ने लिया है -

भ्रमति भ्रमस्थिते क्षितिरित्यपरे वदन्ति नोडुगणाः ।
यद्येवं श्याना न खात्पुनः स्वनिलयमुपेयुः ॥ ६ ॥

अन्यत्र-

भवेद्भूमेरहाभ्मरंहसाभ्वजादीनाम् । नित्यं पश्चात्
प्रेरणं यथाल्पगा स्यात् कथं भ्रमति ॥७॥ पञ्चांसिऽअ०१३॥

अर्थ-जिस प्रकार लोहार के भ्रमणन्त्र लिखत लोहे का गोला धूमता है। उसी प्रकार भ्रमणन्त्र में ठहरी हुई सी पृथिवी प्रमती है, नक्षत्रगण नहीं। इस प्रकार यहुत से आचार्यों का मत है, (उण्डन) परन्तु यदि पृथिवी भ्रमण करती है तो आकाशगणमी पक्षिगण अपने २ घोंसले को नहीं पाते अर्थात्

पृथिवी को घूमती भानते तौ पक्षियों के घोमले (पृथिवी के भ्रमण से) अपनी पहिली जगह को छोड़ कर दूसरी जगह में हो जायें, इस लिये पक्षिगण अपने घोमले दो नहीं पा सकते और यदि एक ही दिन में पृथिवी का भ्रमण हो तौ भ्रमण वेग से कोठे मन्दिरादि की पताकादि का नित्य पश्चिमाभिमुख गमन हो। यदि फहो कि पृथिवी को जन्द गति के कारण ऐसा होता है तो एक ही दिनमें जन्द गति से पूरा भ्रमण घो कर होता है ॥

इस के टीकाकार और महामहोपाध्याय परिषिद्ध सुधाकर द्विवेदी ग्रोफ़े-सर (ज्योतिष के) स्तरुत कालिज बनारस लिखते हैं कि -

एतेन वराहमिहिरेण भूवायुसहितायाः

पृथिव्याः प्राग्भ्रमणं न वुद्धमिति ज्ञायते ॥

पुन -

ध्वजादीनां पश्चिमाभिमुख सञ्चलनमिदमपि खण्डनं भूवायु सहितायाभूमेः प्राग्भ्रमणेन व्यर्थमेवास्तीति ज्ञेयमिति ॥

अर्थात्-इस में सालूम होता है कि यराहमिहर की पृथिवी का भूवायु के सहित भ्रमण करना समझ में नहीं आया ॥

और यह जो पताका का पश्चिमाभिमुख सञ्चलन रूप खण्डन किया है यह भी पृथिवी भूवायुसहित घूमने के खण्डन में व्यर्थ ही है ऐसा जानना इत्यादि ॥

इस से पाठकगण भली भाति समझ जायेंगे कि उक्त महामहोपाध्याय जो भी पृथिवी का भ्रमण युक्त और प्रभाग युक्त समझते हैं एव इस के पक्ष-याती हैं और यह प्राचीन सिद्धान्त है ॥

**जयति स जगदीशो यस्य नानाविधानामचरचरच-
यानां निर्मितौ क्वापि नाभूत् । कथमपि लघु साध्यं क-
हिंचिद् गौरवेण विरचितमिह नूनं चेतनं वा जडं वा ॥**

~~~~~

**अथ प्राचीन ज्योतिःशास्त्राचार्यशायवर्णनम्**

इह सलु ग्रहभ्रमणविषये द्वे भते तावद् सुप्रसिद्धे । एकं भूः स्थिरा तामभितश्च सूर्यादयोग्रहा भ्रमन्तीति । अन्यज्ञ-

रविरचलस्तं परितः सभूमयः सर्वेग्रहाः पर्ययं कुर्वन्ति ॥

तत्राद्यमतवादिनः प्रत्येकं ग्रहः पूर्वदिशं चरन् यावता  
कालेन भूवमभित एकं भगणं पूरयेत् तस्मात् कालादनुपा-  
तेन ग्रहस्यैकदिनसम्बन्धिनीं समानां गतिं निश्चित्य तां म-  
ध्यमामभिदधानास्तस्याः सकाशादभीष्टकाले खेटस्य भच-  
क्रेऽवगतं स्थानं मध्यमग्रहशब्देन द्यवहरन्ति । एतमते रवि-  
ज्ञशुक्राणां वसुमत्याः समन्तादेकेनैव हायनैनैकं भगणं भव-  
तीति तेषां मध्यमा गतिस्तुल्यैवजायते । तथैव मध्यमस्थानमपि

अन्त्यमतवादिनस्तु प्रत्येक खेटस्य सूर्यमभितः परि-  
भगणकालभवगम्य तत्र मते वुधशुक्रयोर्मध्यमे गतीं स्थाने  
चाद्यमतीयाभ्यां गतिभ्यां स्थानाभ्याभन्योन्यं च भिद्यते ।  
सूर्यमभितो भगणपूर्तिकालस्य भेदात् । सूर्यभूम्योरन्तरे  
कदाचिदप्यसंचरतां कुजजीवरविजानां तु मध्यमगतयः  
स्थानानि चाद्यमतीयाभ्योगतिभ्यः स्थानेभ्यश्च न भिद्यन्ते  
यतस्ते प्रत्येकं तरणिं धरणिं च तुलयेनैव कालेन परिभ्रमन्ति ॥

तत्र भारतवर्षीयाः सकलमूलग्रन्थकाराः सर्वेग्रहास्तररोणिं  
परितोभ्रमन्तीत्यभिप्रेत्य ग्रहपातभगणान् निरणायिपतेत्येत-  
दुपपादनार्थमुच्यते ॥

द्वयोरपि मतयोर्वादिभिर्विक्षेपकेन्द्रार्थं मन्दस्पष्टे ग्रहे  
पातस्य योजनमङ्गीक्रियते । ग्रहाणां विक्षेपकेन्द्रमप्युभयत्र  
समानम् । तत्र ये मध्यमा ग्रहा उभयमतेऽपि समाना अत  
एवस्वस्वमन्दफलसंस्कृताऽपि-

नापाठं-

प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों का आश्रय वर्णन

इस भारतवर्ष में यहो के भ्रमण विषय में दो भत हैं। एक पृथिवी अचला और इस की चारों ओर सूर्य एवं अन्यान्य ग्रह भ्रमण करते हैं। दूसरा सूर्य अचल और उस की चारों ओर सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं॥

इन में प्रथम वादिगण प्रस्तुतेक ग्रह पूर्व दिशा को छलते हुवे जितने काल में सूर्य की चारों ओर एक भगण पूरा करते हैं, उस काल से अनुपातद्वारा ग्रह के एक दिन सम्बन्धित समानगति का निश्चय कर, उस की "सम्बन्धमगति" सज्ञा रखते एवं उस से इस काल में यह का राशिधर्म में स्थान निश्चय करते हैं। जिस को "सम्बन्धग्रह" करते हैं। इस भत के अनुमार सूर्य वुध, शुक्र, पृथिवी का एक ही वर्ष में पूरा भ्रमण होता है। उन की सम्बन्धमगति तुल्य ही वोध होती है। इसी प्रकार सम्बन्धम स्थान भी॥

और अन्त्य भतवादिगण तौ प्रत्येक ग्रह का सूर्य की चारों ओर काल को जान कर इस भत में वुध, शुक्र के सम्बन्धमगति और स्थान प्रथम वादिगण के गति और स्थान में एक दूसरे से भीद पहता है। सूर्य की चारों ओर भगण पूर्तिकाल के भीद के कारण से सूर्य और सूर्य के अन्तर कही भी विना घले नहूल, द्वाहस्पति और शनि के सम्बन्धमगति और स्थान प्रथम वादिगण के गति और स्थान से नहीं भेद पहता। जिस कारण प्रत्येक ग्रह सूर्य और पृथिवी इन दोनों की चारों ओर परिभ्रमण समान ही काल में करते हैं॥

उन में से भारतवर्षीय सब मूल ग्रन्थकारों का यह भत है कि सब ग्रह सूर्य को चारों आर परिभ्रमण करते हैं। इसी अभिप्राय से ग्रह पात भगणों का निर्णय करने के विवार से इस की विषयता कही जाती है। दोनों भत वा-दिगण विक्षेप केन्द्र के लिये मन्द स्पष्ट ग्रह में पात का योग करना स्वीकार करते हैं। ग्रहों के विक्षेप केन्द्र भी दोनों भतों में समान हैं। उन में जो सम्बन्ध ग्रह हैं, वे दोनों भत में सुल्य हैं। अतएव अपने २ मन्द फल सस्कृत ग्रह भी-

साम्यं न जहति तेषां पाता भतद्वये तुल्या एव स्युः ।  
विक्षेपकेन्द्रस्योभयत्र तुल्यत्वात् । यथा कुज गुरु शनी-  
नाम् । अतएव तेषां पठिताः पातभगणा अप्युभयत्र  
समानाः । सम्बन्धी वुधशुक्रौ त्वाद्यमते सम्बन्धसूर्य-  
तुल्यौ । अन्त्यमते च मूलग्रन्थोक्तशीघ्रोद्भवमानौ यत्

एं तन्मते वुधस्य किंचिद्गुनाप्ताशीति सावनदिनैरेकं भगणं पूरयतः प्रत्यहं स्वकक्षायां द्वात्रिंशद्विकलाधिकपञ्चत्वारिंशदुत्तरशतद्वयमितकलारूपा गतिः शुक्रस्य चेपन्नयूनैः पादोनतत्त्वदसैः कुदिनैरेकं पर्यंयं कुर्वतोऽनुदिनं निजमार्गं विकलाप्तकाधिकपणवतिकलात्मिका मूलग्रन्थेषु तत्तच्छीघ्रोञ्चगतित्वेनोपन्यस्तेति तयोः पातौ नोभयमते तुल्यौ । विक्षेपकेन्द्रस्य तुल्यत्वेऽपि मध्यमस्य भेदात् । अतएव तयोः पातभगणाभ्यां मध्येनोभयत्र तुल्याभ्यां भाव्यम् । तावेतौ पातावस्मन्मूलग्रन्थकारैर्मन्दस्पष्टयोर्वुधशुक्रयोर्नं प्रक्षिप्येति । अपि तु मन्दफलसंस्कृते तत्तच्छीघ्रोञ्च इत्यतः स्फुटमेतदवगम्यते यत् पठितेभ्यः सूर्यकेन्द्रकभ्रमणभगणाविरुद्धेभ्यो भगणेभ्य उत्पन्नेषु मध्यमेषु कुजजीवरविजेषु प्रक्षेपयोग्यं तद्विरुद्धेभ्य उत्पन्नयोश्च वुधभार्गवयोः प्रक्षेपायोग्यं तत्तच्छीघ्रोञ्चे च प्रक्षेपयोग्यं पातं साधयन्तः पठिता ग्रहपातभगणा मूलोक्तवुधशुक्रशीघ्रोञ्चरूपमध्यमवुधशुक्रसम्पादकतरणिकेन्द्रकभ्रमणवादिभतीया इति । कथमन्यथा मध्यमवुधशुक्रप्रक्षेपयोग्यापातसम्पादकाः शीघ्रकेन्द्रभगणाधिकाः पातभगणा न पठ्येरन् । अतएव भौमादीनां पञ्चानामपि ग्रहाणां सूर्यकेन्द्रकं भ्रमणं मूलकाराणामभिमतमित्यवसीयते । अन्यथा तन्मतीयपातभगणपठनानौचित्याद् ॥

ननु ज्ञशुक्रयोः सूर्यकेन्द्रकं भ्रमणमस्तु मूलकाराणा-

भ्रमिभतम् । आद्यमतविरुद्धानां तयोः पातभगणानां  
पठनात् । कुजजीवरविजानां तु भूमिकेन्द्रकमेव स्यांच्च  
सूर्यकेन्द्रकम् । तत्यातभगणानामाद्यमताविरुद्धत्वादि-  
ति चेत् । रविकेन्द्रकभ्रमणास्त्रीकारे सूर्यस्य भौमादि-  
शीघ्रोच्चत्वानुपपत्या रविकेन्द्रकभ्रमणस्यैव मूलका-  
राभिप्रेतस्त्वात् ॥

**भाषार्थः**—तुल्यता नहीं छोड़ते उम के पात दोनों मतों में तुल्य ही हैं । विशेष केन्द्र दोनों मतों में तुल्य होने के कारण । जिस प्रकार भूल, शुरु, एवं शनि का । अतएव उन के कहे हुवे पात भगण भी दोनों मतों में तुल्य हैं । भयम बुध और शुक्र से आद्य मत में भयम सूर्य के तुल्य हैं और अ-  
न्त्यमत में तो मूल ग्रन्थीकृ शीघ्रोच्च के समान हैं । जिस कारण इस मत में  
बुध का कुछ न्यून ५० सावन दिन में एक भगण पूरा होता है । प्रतिदिन अपनी  
कक्षा में २४४ कला २२ विकला चलता है और शुक्र तो कुछ न्यून २४२ सावन  
दिन में एक बार घूम आता है और प्रतिदिन अपने जारी में ६६ कला ११  
विकला चलता है ( अपनी धुरी पर ) मूल ग्रन्थों में उस को शीघ्रोच्च गति  
कहकर लिखा है उन के पात दोनों मतों में तुल्य नहीं है । विशेष केन्द्र के  
तुल्यत्व में भी भयम के भेद के कारण । अतएव दोनों के पात एवं भगणद्वारा  
भी दोनों मतों से दोनों तुल्य नहीं होना चाहिये । ये दोनों पात हमारेमूल  
प्रम्यकारों द्वारा मन्द और स्पष्ट के बुध और शुक्र के प्रक्षिप्त नहीं किये जाते  
हैं, अर्थात् इन का विशेष नहीं होता ॥

प्रत्युत मन्दफल सस्कृत में उप २ शीघ्रोच्च में साफ़ २ जान पढ़ता है जो  
कहे हुवे सूर्यकेन्द्रक भ्रमण भगण अविरह भगण से उत्पन्न भयम महूल शह-  
हपति, सूर्य में प्रक्षेप योग करना और उम के विरुद्ध उत्पन्न बुध और शुक्र के  
प्रक्षेप को नहीं जोड़ना और उस के शीघ्रोच्च में प्रक्षेप योग करना पात को  
स्थिर करता हुवा कहे हुवे प्रहपात भगण मूलोक्त बुध, शुक्र शीघ्रोच्च रूप  
भयम बुध, शुक्र सम्पादक सूर्यकेन्द्रकभ्रमणवादिगण के मतानुसार हैं । नहीं  
तो क्यों नहीं भयम बुध, शुक्र प्रक्षेप योगपात सम्पादक शीघ्रोच्च केन्द्र भगण

अधिक पात् भगप् कहने घाहियें। इस लिये भौमादि ५ यहों के सूर्यकेन्द्रक भ्रमण मूलग्रन्थकारों का अभिप्राय था। नहीं तो उन् के भ्रतानुषार पात्-भगत् लिखना अनुचित था। मान लो कि वृहस्पति शुक्र का सूर्यकेन्द्रक भ्रमण मूलग्रन्थों का अभिप्राय हैं। आद्यमत के विषद् उन् के पात् भगण पाठ हैं। महाल वृहस्पति एव शनि का तो सूर्यकेन्द्रक ही हो, सूर्य केन्द्रक नहीं, यदि उस पात् भगण के आद्यमत के अविष्ट हो सो नहीं। सूर्यकेन्द्रक भ्रमण न भगने से सूर्य का भौमादि शीघ्रोद्धत्व की अनुपत्ति द्वारा सूर्यकेन्द्रक भ्रमण का ॥ तथाहि—

**भूमेरतिदूरोग्रहकक्षायाः प्रदेशो ग्रहस्य शीघ्रोद्धम्।**

**“ उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे**

**नीचस्थितः स्यान्निकटे धरित्र्याः”**

इत्युक्तत्वात् कक्षान्तर्गताया भूमेनिं गतया केन्द्रं स्पृशन्त्या  
रेखया स्पृष्टः कक्षाप्रदेश एव च भूमेर्दूरतरः स च रवे:  
केन्द्रगतत्वाभावे रविसमुख एव किमिति स्यात्केन्द्राति-  
रिक्तस्थलस्थस्य रवे: केन्द्रसमानगतिकस्य मूलहृदभिप्रेतत्व-  
कृत्पनमपेक्ष्य तु रवेरेव केन्द्रत्वकृत्पनाया लघीयस्या मूलहृ-  
दभिप्रेतत्वकृत्पनमुचितम् ॥

न च सूर्यमाभितो ग्रहभ्रमणमभिप्रदत्तामाद्याचार्याणां  
भूमिं परितो भ्रमणप्रदर्शनमसंगतिनिति वाच्यम्। लोक-  
प्रतीत्यनुसृतये लाघवेन गोलत्तित्ववगतये च सूर्यधर्माणां  
धरण्यामारोपणस्य तैरङ्गीकरणम् ॥

तदेवमारोपणसिक्ता लाचार्याद्योथलाघवं लोकप्रतीतिं  
चानुसरन्त एव कृत्पनादाघवेन सिद्धेऽपि तरणिसहितस्य  
भपञ्जरस्य धरण्याश्चाचलत्ववलत्वे अन्योन्यस्मिन्ना-  
रोप्यैव तरणिं भवकं च चलं धरणिं चाचलां इष्टयां

चक्रुरित्यपि प्रतीयते । भवति हि लाघवमयं रविः प्रातस्त-  
त्रस्य इदानीमत्रास्तीति वीघ्यितुम् । जानन्ति चैवमेव लो-  
काः । एवं रवेराश्यन्तरसंचारमपि । कल्पनायां तु भवत्येव  
तरणोर्धरणिं परितो भ्रमणस्याहीकरणे तरणिं परिभ्रमतां  
व्योमचारिणामपि भुवमभिभ्रमणमनायत्या स्वीकृतमिति  
गौरवम् । मतान्तरे च धरणेरेकस्या एवेति लाघवम् ॥

तदेवं भूमेर्मूलोक्तस्य भचक्रभ्रमणस्य सजातीयं स्वाक्षं  
परितो भ्रमणं रविभ्रमणस्य सजातीयं क्रान्तिवृत्ते भ्रमणं च  
मूलकाराणामभिप्रेतमिति सिद्धुम् ॥

स एष विषयोऽर्वाचीनैर्ग्रन्थकारैर्न व्यज्ञायि । यतस्तेषु  
केचन कुञ्जगुरुरविजेषु पातं संयोज्य साधिताद्व विक्षेपके-  
न्द्राच्छुरस्यानयनमुपलब्ध्यतिरिक्ता-

भाषाधे.—मूलग्रन्थकारो के अभिप्राय से उसी प्रकार, मूर्मि से अतिदूर  
ग्रहकक्षा का प्रदेश यहो का शीघ्रोद्य होता है ॥

“रुद्धस्यित आकाशगमी अत्यन्त दूर मे एव नीधस्यित होने पर पृथिवी  
के निकट”ऐसा करने पर कक्षान्तरं भूमि से निकला केन्द्र को छूती हुई रेखा  
से स्पर्शं करता हुआ कक्षाप्रदेश में भी भूमि अधिकतर दूर और वह मूर्य के केन्द्र  
गतत्व के अभाव से मूर्य सम्मुख ही क्या हो । केन्द्रातिरिक्तस्य रुद्ध का  
मूर्य के केन्द्र समानगतिक का मूलग्रन्थकार के अभिप्राय की कल्पना की  
अपेक्षा करके मूर्य ही केन्द्रत्वं योही कल्पना करके मूलग्रन्थकारका अभिप्राय  
कल्पना उचित था और न मूर्य को चारों ओर ग्रहग्रन्थं प्रदर्शनं असंगत  
है, ऐसा कहना चाहिये । लोक की प्रतीति का अनुसरण करने के लिये एवं  
योहे उपाय से गोलस्थिति समझने के लिये मूर्यधर्मे (अचल होना) पृथिवी  
में आरोपण करके उन के मानने से । इस प्रकार आरोपण करने वाले आधार्य  
योगलापव और लोकप्रतीति को अनुसरण करते हुवे लघुकल्पनामात्र से  
सिद्ध हुवे यूर्ध्वसहित सशिवक और एषिवी के अध्यत्म और चलत्व में एक

दूसरे में ज्ञानोपय कर सूर्य एवं राशिचक को सचल और पृथिवी को अचला वर्णन किया है ऐसा जान पड़ता है। यह लाभव भी है कि प्रातःकाल सूर्य यहाँ है, अब वहाँ है इत्यादि। इस प्रकार समझना सहज है। लोकभी ऐसा ही जानते हैं। इसी प्रकार एक राशि से दूसरी राशि में जाना (लोक में वृद्धवहार है कि इस साम में सूर्य ज्ञेय राशि में ही पुनः वृषभमें जावेगा इत्यादि) कल्पना की जाती है (वस्तुतः नहीं) कल्पना करलेने से कि पृथिवी के चारों ओर सूर्य भ्रमण करता और सूर्य के चारों ओर यहादिक भ्रमण करने वाले पृथिवी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार अहूकार करने से “गौरव” (समझना कठिन) है। किसी के मत में पृथिवी ही का भ्रमण लाघव है। सो इस प्रकार भूमि का मूलग्रन्थोक्त भ्रमण भ्रम का सजातीय अपने अक्ष पर परिभ्रमण करना और सजातीय क्रांति यृत्ति में भ्रमण करना मूलग्रन्थकार का अभिमाय सिद्ध है। सो इस विषय को नवीन ग्रन्थकारों ने नहीं समझा जिस कारण उन में कोई २ भङ्गल, गुह, शनि में पात की जोड़ कर साधित विक्षेप केन्द्र से शर का लाना—

उपपत्तिसहितं मन्यमाना वृधशुक्रयोः शीघ्रोच्चे पातं  
प्रक्षेपेण शरानयनमुपलद्धितिरिक्तोपपत्तिरहितमवगम्य  
वृधशुक्रयोः शीघ्रोच्चस्याने यावान् विक्षेपस्तावानेव यत्र  
कुत्र स्थितयोरपि तयोर्भवतीत्यन्नोपलद्धिरेव वांसनेत्याहुः।  
अन्ये च वृधशुक्रयोर्मूलग्रन्थेषु पठितान्वास्तवानपि पात-  
भगणानवस्तुभूतान्त्यल्पतया सुखमात्रार्थकांश्चाहुः। दैव-  
गत्यार्थभट्टस्य वुद्धिपथमारुढम्—

“अनुलोभगतिनैर्स्यः पश्यत्यचलं विलोभगं यद्वत् ।

अचलानि भानि तद्वत्समपश्चिमगानि लङ्घायाम् ॥

इत्यादिना प्रकाशितमपि भवकस्याचलत्वं क्षीण्याश्रं  
स्वाक्षं परितो भ्रमणम् ब्रह्मगुप्तः

“आवर्तनमुवर्याश्चैत्रं पतन्ति समुच्छ्रयाः कस्मात्”

इत्यनेन भ्रमणप्रारम्भोक्तरकाले संयुक्तानां पृथ्व्याकृषुनां

वस्तूनां पतनाभावमजानन् प्रारम्भकालिकध्रमणस्वभावमे-  
वावगच्छक्षपालपत् । लक्ष्मीच-

“यदि च धर्मति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयुः खगाः ।  
इपवोऽपि नभः समुज्जित्ता निपतन्तः स्युरपांपतेदिशि ॥  
पूर्वाभिमुखे भ्रमे भुवी वरुणाशाभिमुखो ब्रजेदूधनः ।  
अथ मन्दगमात्तथा भवेत्कथमेकेन द्विवा परिभ्रमः” ॥

इत्यनेन भूवायुसहितायाः क्षितेर्भ्रमणमजानन् । ग्रीष्मतिश्च-

“यद्येवमम्बरचरा विहगाः स्वनीडमासादयन्ति न स्वलु-  
धर्मणे धरित्र्याः । किञ्चाम्बुदा अपि न भूरि पयोमुचः स्युर्दे-  
शस्य पूर्वगमनेन चिराय हन्त ॥ भूगोलवेगजनितेन समी-  
रणेन केत्वादयोऽप्यपरदिग्मतयः सदा स्युः । प्रांसादभूधर-  
शिरांस्यपि संपतन्ति तस्माद्भ्रमत्युडुगणस्त्वचलाऽचलैव” ॥  
इत्यनेनोभयमप्यजानन् ॥

भ्रापार्थः—उपलक्षित को छोड़कर उपपत्ति सहित मानने वाले बुध शुक्र  
के श्रीग्रोद्धर्म में पात प्रक्षेप्तुराग शर का लाना उपलक्षित को छोड़ कर उपपत्ति-  
रहित जान कर बुध शुक्र के श्रीग्रोद्धर्म स्थान में जितने विक्षेप हैं उतना ही  
विक्षेप जिस किमी स्थान का हो उन दीर्घों का होता ही है । इस में उप-  
लक्षित ही उपपत्ति है ॥

बहुत से लोग बुध शुक्र को मूलग्रन्थ में पढ़े हुवे यास्त्रिक पातझगरों  
को न्यूनतया शुद्धपूर्वक समझने के लिये फटा है । देवगति से आर्यसह बुद्धिपृष्ठ  
पर आकृद लिखते हैं—

“जिस प्रकार नीका में बैठे हुवे मनुष्य को पर्वतादि किनारे की अचल  
( रहरी हुई ) वस्तुए चलती ओर को चलती हुई दिखलाई देती हैं । ऐसे  
ही पूर्व की ओर को चलती हुई एवियो पर रहने वाले मनुष्यों को अचल  
( स्थिर ) तारे भी प्रशिचम को जाते हुवे दिखलाई देते हैं ॥”

इत्यादि द्वारा एवियो का भ्रमण एवं राशिचक का अचलत्व प्रकाशित  
करने पर श्री व्रतगुप्त ने समझकर भही लिहा है कि—

“यदि पृथिवी भ्रमण करती तो कोटि आदिक जंघी वस्तु क्यों नहीं गिरती”

इस से भ्रमण प्रारम्भोत्तर काल में पृथिवी के आकर्षणशक्ति से इस के ऊपर की वस्तु नहीं गिरती, इम बात को न समझकर प्रारम्भकालिक भ्रमण स्वभाव ही को केवल मुनकर लहल ने लिखा है कि—

“यदि पृथिवी भ्रमण करती है तो पक्षिगण अपने घोंसले को क्योंकर पहुंचते हैं ? आकाश में छोड़े हुवे धाण पक्षिगण दिशा में क्यों गिरते हैं ? पूर्व की ओर पृथिवी का भ्रमण होता है तो पक्षिगण में धाण गिरते हैं । यदि कहो कि पृथिवी की मन्दगति से ऐसी घटना होती है तो एक ही दिश में अपने अधा पर क्योंकर भ्रमण करती है ? ”

इत्यादि हारा भूवायुसहित पृथिवी के भ्रमण को न समझकर श्रीपति ने लिखा है कि—

ननु तरणिमभितो धरणे: क्रान्तिवृत्ते भ्रमणे स्वीकृते  
रवेरिव नक्षत्राणामपि स्थिराणामुदगदक्षिणायनं प्रुवतारोन्न-  
तिभेदश्चोपलभ्येत । न चापरिमेयां भचक्रदूरतामपेक्ष्य धर-  
णिभ्रमणमार्गस्यात्यन्तमणुतया न तथोपलब्धिरितिवाच्यम् ।  
भकक्षादूरतायाः पष्टिगुणारविकक्षादूरत्वतुलयाया एव ।

“भवेद्दुभकक्षा तीक्ष्णांशोभ्रमणं पष्टितादितम्” । इत्या-  
द्यागमाभिहितत्वादिति चेत्त । छेदके कक्षावृत्ते प्रतिवृत्ते  
चैकक्ष्यामेव दिशि मेपादिस्थितिमाद्याचार्याणामपरिमेय-  
स्यैव भचक्रदूरत्वस्याभिमततया तद्विरुद्धमुपपत्तिशून्यं दूर-  
त्वं वोधयतस्तस्य वचनरयानभिज्ञप्रक्षिप्ततायाः स्फुटमेव  
प्रतीयमानत्वादिति शम् ॥

प्राचीनज्योतिपाचार्यवर्याणामेवमाशयः ।

वापुदेवाभिधानेन यथावुद्ग्रंदर्शितः ॥

इदमाशयवर्णनं भया गजनागाद्रिकुसम्मिते शक्ते ।

रचितं सुहृदांमहीभ्रमभ्रमिणांगोलविदांविदांमुदो॥इति ॥

‘भाषार्थः—सूर्य की चारों ओर पृथिवी का कान्तिवृत्त में भ्रमण मानने से सूर्य की जाई स्थिर नक्षत्रों का भी उत्तरायण एवं दक्षिणायण एवं ध्रुवतारा की उत्तरिभेद प्रतीत होते। और न भवक की अपरिमेय दूरता की अपेक्षा पृथिवी का भ्रमण मार्ग की तुलना अणुमात्र है इस लिये उस प्रकार प्रतीत नहीं होता ऐसा कहना चाहिये ॥

राशिभवक की कक्षा की दूरता से ६० गुणा भूर्यक्षा की दूरता की तुलना है। ‘सूर्य की कक्षा भ्रमण ६० गुण भवक की कक्षा से होता है’ इत्यादि शास्त्रोंक होने से। यदि कहो सो नहीं। प्रयृत्त वेद्यक कक्षावृत्त में एक ही दिशा में जेपादि स्थिति आद्य आचार्यों का अपरिमेय भवक की दूरता के अभिप्राय-उन के विरुद्ध उपपत्तिशूल्य दूरत्व समझने के लिये मह वचन साफ़ २ प्रक्षिप्त है॥

यदि पृथिवी चलती है तो सेधर पक्षिगण अपने २ घोंसले को क्योंकर पहुंचते हैं? और मेघ वार २ महीं वर्षता। देश के पूर्व गमन से भूगोल के वेग से वायुद्वारा पताका भी दूषरी दिशा में होजातीं और कोठे पहाड़ की छोटियां टूटकर गिरजातीं इस लिये नक्षत्रगण भ्रमण करते हैं, पृथिवी अचला ही है। इस से दीनों ने न ही समझकर॥ प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के आचार्यवर्यों ही के आशय वर्णन में (वायुदेव शास्त्री) ने अपनी युद्धि अनुभार दिखलाया और यह आशय वर्णन में शाके १७९८ में गोलविद्यावित् मञ्जनों के लाभ के लिये जिन्हे महीभ्रमण में भ्रम होता है लिया॥

### युग+कल्प

#### काल

यद्यपि बहुत लोग यह भी कह सकते हैं कि काल ही धर्म की हानि और वृद्धि का फारण है। जैसा कि अनेक संस्कृत के ग्रन्थों में लिखा है कि “कलि काल में सनातन आर्यधर्म नष्ट होके विविध पातुण्ड मत प्रयृत्त होने” इसी प्रकार इन दिनों देख भी रहे हैं कि आर्यधर्म उचित्त होता जाता है तो लहिये क्या अब आर्यधर्म की उत्तरि हो सकती है? इत्यादि कह कर कितने परिहत धर्मान्तर से उपेक्षा करते हैं, परन्तु यह एकमात्र उन की आलस्य-परायणता ही है और अपने आलसी चित्त को उक्त धर्मों का भूटा सहारा द कुपय में गिरना है॥

इस पूछते हैं कि शास्त्र की किस वात को लेके फलिकाल में धर्म की हानि पुकार रहे हैं? क्या केवल काल ही धर्महानि का कारण है या और

भी कुछ ? यदि काल ही है तो यह साधारण दृष्टप में भर्म का ह्रास करता है, अथवा कलित्य भर्म के संयुक्त होने से ? प्रथम तो काल कुछ एक श्वतत्र वस्तु ही नहीं है, जो उम की किसी कार्य के प्रति फारणता वा अफारणता भानी जाय, क्योंकि “अधिक काल और न्यून काल” इत्यादि व्यवहार पृथिवी के भूमण- यशात् भूयं द्वारा परिष्पन्द किया ही की अधिकता वा न्यूनता हो जायगी। जो पृथिवी की चलनकिया अपेक्षाकृत कुछ अधिक हो गई है, वही अधिक काल एवं जब वह न्यून है, वही न्यून काल कहा जायगा। सुतरां और २ ठप्पवहार भी सब इसी प्रकार सम्पन्न हैं जायगे, फिर कहिये काल क्या कुछ वस्तु शेष रहा ? सुतरां पृथिवी की चलनकिया समूह का नाम काल रहा और परिष्पन्द किया तो सत्ययुग से आज तक सदा एक ही दृष्टप से चली आती है, पुनः उस समय धर्महानि नहीं हुई और अब ही हुई, ऐसे का विशेष कारण कुछ काल ही को नहीं रह सकते। हाँ, जिस प्रकार सभी पदार्थ जो अगत् में उत्पन्न होते हैं, उन के प्रति दिशा प्राग्रभाव एवं ईश्वरादि (वैशेषिकशास्त्रोक्त) कारण होते हैं। इस प्रकार काल भी एक साधारण कारण है। यह ईश्वरीय नियम अनादिकाल से एक प्रकार से चला आता है। क्या सत्ययुग, क्रेता, द्वापर, कलि या मन्वन्तर और कल्य सब समयों में जिस प्रकार ईश्वरीय नियम से स्वभावतः जल में शोतुलता, अग्नि में उष्णता आदि गुण हैं, इसी प्रकार जितने पदार्थ हैं मझी के लिये उम के अविचल नियम हैं। हम इस का प्रमाण देते हैं:-

कलिः शायानोभवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठुरंत्रे-  
ता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्। ऐ० ब्रा० ३३। १५ ॥

अथृत्-भर्म के कामों में मनुष्य जब तक (शायान.) आलस्य किये पड़ा रहता है तब तक उस मनुष्य की कलि सज्जा है। जब आलस्य को त्याग देता है तब वह द्वापर कहलाता है। जब कमर बांध के भर्म के कामों में रुहा होता है तब वह क्रेता कहलाता है और जब भर्म की यथावत् रीति से सेवन करता है तो वह सत्ययुग कहलाता है ॥

पाठक ! देखिये यहां उक्त प्रमाण से कलित्य आदि भर्म स्पष्ट २ मनुष्य ही में प्रतिपादन किये गये हैं कुछ काल में नहीं, तथा मनुष्यों ही के कारण उक्त भर्म काल में भी कहे जा सकते हैं। अतएव काल ही केवल भर्म या

कायं की हानि वृद्धि में सुख्य कारण होता नहीं है, वरन् मनुष्यों की शिथि-  
लता आलस वा उद्याग का अभाव ही हानि का कारण होता है ॥

अनेक लोगों का कथन है कि मनु के स्वाभा वक्तुणु ऋतु में अवश्य हो  
होते हैं, किसी के टाले नहीं टलते । इस लिये सत्ययुग आदि में जो धर्म-  
वृद्धि और ह्रास आदि युग हैं वे अवश्य ही होंगे । हम कहते हैं कि कहने वाले  
का अपने आप न शोचना चाहिये कि ऋतुओं के परिवर्तन में भी मूर्य की  
गति एव तत्त्वदेश विशेष आदि अन्यान्य कारण हैं जिन की काय कारणता से  
ऋतुओं में तत्तद्वयुग प्राप्त हो सकते हैं । सार्ववीरिया द्वीप में क्यों घस्तन्त  
मनु नहीं आता ? अथवा इङ्ग्लैण्ड देश में यहा की नार्दे यैटिसक अल्ल क्यों  
नहीं उत्पन्न होते ? अतएव निष्ठु हुआ कि कालकृत कार्यों में हानि वा  
वृद्धि नहीं होती । जिस प्रकार दिन रात भहीना यथं आदि काल की सत्ता  
है इसी प्रकार सत्य, त्रिता, द्वापर, कलि आदि काल की सत्ता है । प्राण, नाहीं  
दश आदि कायर्णन पूर्णरीति से मृत्युमें किया गया है । इस लिये यहा उम  
के परिमाण का बणन नहीं होगा, परन्तु वेदों के प्रमाण मात्र दिये जावेंगे -  
**याओपधीः पूर्वजाता देवेभ्यस्त्रियुगंपुरा ॥ ऋष्ट० १० । ६७१**

ऋग्वेद में अनेक स्थानों में ( १ । ९ । ८ । १ । १५ । ६ । १ । १४ । ३,  
३ । २६ । ३ । ३३ । ८ आदि) युग शब्द आया है, परन्तु कृत, त्रिता द्वापर, कलि  
( सपरिमाण ) के विभाग उम में नहीं आया । सामान्यत के लिया है । जो  
ओपधिया पूर्व तीनों युगों में विद्वानों द्वारा जानी गई हैं । अर्थात् वेद में  
युग का नाम भी नहीं आया है, परन्तु युगों के बर्ष सर्या परिमाण दिये हैं -

**शतं ते अयुतं हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृएमः ॥**  
( अर्थव॒ ८ । २ । २१ )

अर्थात् १२००० दिव्य वर्षकृष्ण युग के दशवे भाग को चार तीन दो एक  
से गुणा करने पर उम से सत्ययुग, त्रिता, द्वापर और कलियुग की दिव्यवर्ष  
संख्या होगी । ( देखो मूर्यसिद्धान्त अ० १ )

मनुस्मृति में भी युग काल विशेष का नाम माना है जैसा -

**कलिः प्रसुप्तो भवति सजाग्रत् द्वापरं युगम् ।**

**कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥**

मनुस्मृति ८ । ३०१-३०२

अर्थ-इस का अर्थ उसी प्रकार है, जैसा कि ऐ०ग्रा ०३३ । १५ का किया गया है ॥

अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवदर्थं त्रेतायै कल्पि-  
नं द्वापरायार्थं कल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणुम् ॥  
( यजुर्वेद च० अ० ३० । १८ )

कृताय सभाविनं । त्रेताया आदिनमदर्शं । द्वापराय  
वहिस्सदं । कलये सभास्थाणु ॥ तै० ग्रा० ४ । ३ । १ ॥

**भाषार्थः**—इसी प्रकार ऐतरेय व्रात्यण में भी चार युगों का उल्लेख है,  
परन्तु द्यूतकीदार्थं पाशा का जित्र २ अवस्थान मात्र है। एवं त्रितीय व्रा० ३ । ४ ।  
१ । १६ में भी चारों युगों का नाम द्यूत कीदार्थं पाशा के नाम में आया है।  
छान्दोग्योपनिषद् ४ । १ । ४ में केयल रुतयुग का उल्लेख है। सामवेदीय पद्-  
विश व्रात्यण में लिखा है कि चन्द्रकला से पुग चतुष्टय फूहे ये प्राचीन माम  
प्रचलित हुवे हैं। १००० सहस्र चतुर्युग का जो एक कल्प होता है उस का प्रमाणः—  
एकं यदद्व्यमकृणोत्सहस्रधा कियता स्कम्भः प्रविवेश तन्त्र ।

( अथर्व १० । २१ । १९ )

एक कालहृषी अद्वा १००० हिस्सों में विभक्त किया है। पुनः कल्प के  
बाद सहित होती है उस का प्रमाण—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ॥

( ऋग्वेद १० । १९ )

अर्थात् जिस प्रकार पूर्वं ( गत ) कल्प में सूर्य चन्द्रमा आदि की रचना  
ईश्वर ने की थी उसी प्रकार इस वर्तमान कल्प में भी की है ॥

कृपकालद्वारा से-सहित काल के परिमाण के वर्णन में ज्योतिष में लिखा  
है कि १४ ग्रनु और १ सन्धि सहित १५ नन्वन्तर एक कल्प वा व्रात्यदिन  
और उसने ही की रात्रि अर्थात् ३० मन्वन्तरों का एक व्रात्य अहोरात्र  
होता है अर्थात् जिस प्रकार हमारे सौर मान से १५ मुहूर्त का दिन एवं १५  
मुहूर्त की रात्रि होती है उसी प्रकार एक २ मन्वन्तर का एक ५ व्रात्य मुहूर्त होता  
है और जिस प्रकार हमारी जायु १०० वर्ष की है इसी नियम से व्रात्य अहो-  
रात्र के परिमाण से १०० व्रात्ययं सहित की आयु होती है अर्थात् महाप्रदय  
होता है। प्रत्येक मन्वन्तर में जो सन्ध्या और सन्ध्यांश हैं, वह इस प्रकार  
समझना चाहिये कि जिस प्रकार ६० घड़ी का मानुषी दिनरात होता है उस  
का छठा भाग १० घड़ी हुआ जिस में ५ घड़ी प्रातःकाल सन्ध्यांश और साय-

झाल ५ घड़ी सन्ध्या कहलाती है इसी प्रकार सत्ययुग आदि प्रत्येक युग में उस २ दिव्य वा मानुपवर्ष संस्पा का छठा भाग सन्ध्यासन्ध्यांश कहता है॥

### प्रलय

सुष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के अनेक क्रम हैं, अर्थात् महाप्रलय के दीन में जितने २ प्रलय अवान्तर प्रलय होते हैं, उन सब का क्रम एधक् २ है परन्तु जैसा एक महाप्रलय के अवान्तर प्रलय का क्रम होता है जैसा ही प्रत्येक महाप्रलय में उन उन अवान्तर प्रलय होने पर आता है तब वर्षों तक वरायर मूरलाधार वृष्टि होती है जिस में पर्वतादि भी जलमय हो जाते हैं। द्वितीय मन्वन्तर का फिर आरम्भ होता है तब फिर जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियां, उम से अम्ब, अम्ब से धीर्घ और वोर्य से शरीरों की उत्पत्ति होती है अर्थात् यह प्रत्येक मन्वन्तर के आदि अन्त का प्रलय जल से होता है इस में पृथिवी और पार्यंव शरीर भाव का प्रलय हो जाता है। जल, अग्नि, वायु और आकाश बने रहते हैं। १७२८००० वर्ष में आधा समय पहिले मन्वन्तर की समाप्ति में सन्ध्या और आधा सन्ध्या आगामी मन्वन्तर का सन्ध्यांश ( प्रातः काल ) समझा जाता है। इतने समय तक पृथिवी सर्वथा जलमय हो जाती है ॥

आशय यह है कि मन्वन्तरों की आरम्भ समाप्ति में अधान्तर प्रलय जल से और मन्वन्तर के आरम्भ में जल से ही सुष्टि का आरम्भ होता है और ब्राह्मकल्प में अग्नि से प्रलय होता है। अग्नि से ही सुष्टि का फिर आरम्भ होता है और महाप्रलय में वायु तथा आकाश से प्रलय होता है और महाकल्प के पश्चात् फिर वायु तथा आकाश से सुष्टि का आरम्भ होता है। आत्मा से आकाश और आकाश से वायु की उत्पत्ति जो शास्त्रों में दिसाई है उस का अभिप्राय परमेश्वर से सुष्टिकम दिखाने का है। घस्तुतः आकाश भी एक तत्त्व अग्नि, वायु आदि के समान ही उत्पन्न वा नष्ट होने वाला है। केवल भेद इतना ही है कि जैसे अग्नि की अपेक्षा वायु मूर्ख होने से दैर्घ्यने में नहीं आता वैसे वायु से भी अधिक मूर्ख आकाश सत्त्व है। इस कारण वह स्पर्शन इन्द्रिय से ज्ञेय नहीं। आकाश का गुण शब्द है वह शब्द जिस में रहता तथा जहाँ से प्रकट होता वही आकाश द्रव्य है। यद्यपि किन्हीं लोगों का यह सिद्धान्त है कि आकाश कोई द्रव्य नहीं, उम के उत्पत्ति नाथ भी नहीं होते, इस पक्ष में वायु तक का ही प्रलय भाना जायगा तथा प्राय वायु आदि के तुल्य आकाश को द्रव्य वा तत्त्व भानकर उस के उत्पत्ति नाथ

आनन्दे का पक्ष दोनों मालूम होता है और वायु की गति का कारण प्रायः अग्नि है। वायु में हल्कापन आजाता है इसी से शीघ्रकाल में वायु की गति अधिक और शीतकाल में भारीपन रहने से वायु की गति बेची तेज नहीं होती है। हल्का ही पदार्थ अधिक बलायनान होता और जारी पदार्थ अधिकांश में खिंच होता है। जैसे भारी गम्भीर नमून्य की दुहि स्थिर और हल्के की चपल दुहि होती है। इन उड़ जाते और पत्थर नहीं उड़ता है। तात्पर्य यह है कि पदि अन्य तत्त्वों का संघर्षण न हो और अग्नि वायु को हल्का न करे तो वायु का चलना ही न हो तथा वायु सर्वत्र व्यापक है वभी पंखा हिलाने से चलने लगता है। जैसे जल सर्वत्र भरा हो और एक स्थल से जल लिया जावे तो उस स्थल में इधर उधर से जल गिरेगा ऐसे ही सर्वत्र भरे वायु को जहां २ अग्नि हल्का करता है वहां २ अन्यत्र से वायु गिरता है इस लिये उस में गति होती है। जब अग्नितत्त्व का प्रलय होजाये तब वायु की गति होना भी दुस्तर है अपर्याप्त अग्नि के प्रलय में वायु अपने कारण आकाश में स्वयमेव दीन हो जाता है। इस लिये जल, अग्नि, वायु, आकाश इन ही तत्त्वों से तीन ही प्रकार का प्रलय होता है। जब २ जिस २ तत्त्व से प्रलय होता है, तब २ उसी तत्त्व से किर सृष्टि का आत्मस्म होता है ॥

### ऋतु

पृथिवी के परिभ्रमण काल में उस के मेहदण्ड वा कल्पित व्यास सम्यक् सम्बन्धान रह कर कुछ तिर्यक्कृप से स्थिति करता है, इसी कारण समय २ पा पृथिवी पर सूर्य के तेज का न्यूनाधिक्य होता रहता है। अतएव ऋतु-परिवर्तन हुआ करता है ॥

पृथिवी स्वत्तावतः किञ्चित् वक्त्रभाव से नित्य ही भ्रमण करती है। किसी समय भी इस भाव अपर्याप्त वक्त्रता को नहीं छोड़ती। बुतरां सूर्य को चारों ओर भ्रमण करती २ किमी २ समय सूर्य सम्बन्ध में इस का भेद देश एक घार उचत और एक घार अवगत हो जाता है। कोई पदार्थ तिर्यक्कृप से एक भाव से निरवलस्य होकर घक्काकार वा वृत्ताभास पथ में परिभ्रमण करने से वह घक वा वृत्ताभास के केन्द्र सम्बन्ध में उस का शिरोभाग और अधोभाग अवश्य ही एक घार उचत एवं अवगत होता है, ऐसी प्रतीति होती है ।

पृथिवी अपनी कक्षा पर कुछ तिर्यक्भाव से नित्य भ्रमण करती २ इस का भेद प्रदेश एकघार सूर्य के उम्मुक्षुर एवं एकघार सूर्य के परोक्षमें उपस्थित हो जाता है इस से सिद्ध होता है जो पृथिवी के द्विष्पत् तिर्यक्भाव से अवस्थिति करने एवं इस की वार्षिक गति द्वारा क्रतु सब वार २ प्रस्तावन करते और परिवर्तित होते हैं ॥

यदि पृथिवी सूर्य को परिभ्रमण नहीं करती तो हम लोग ऋतुओं का बार २ आना, एवं इस के परिवर्तन का कभी नहीं देख पाते। पृथिवी यदि उम्मदाव से अवस्थित हो कर ठीक धक्काकार घण में परिभ्रमण करती तो सूर्य का आलोक पात कभी तिथंक्रमाव से कभी सरलभाव से अथवा दिवा भाग में सूर्य के आकाशमण्डल कभी दीघंकाल कभी अल्पकाल अवस्थिति इस प्रकार कभी नहीं पटता। सुतरा पृथिवी में उत्ताप का कभी तारतम्य न होकर वह सब समय सुर्वंत्र समझाव से अनुभूत होता॥

मूर्यकिरण सरल रेखा की नाहूँ एक ही ओर विकीर्ण होता है। ऐसे पृथिवी के साथ सम मूर्त्रपात काल में जो स्थान टीक मूर्य के सम्मुखवर्ती होता है, वही स्थान अधिक उपर होता है। इसी कारण दोनों अयनान्त-वृत्त के मध्यवर्ती देशों में ग्रीष्म ऋतु का मादुभाष्य होता है ज्योतिकि उस उस देश को लोड कर किसी अंश में गूर्य किरण लम्बज्ञाय से पतित नहीं होता। उत्तर अयनान्तवृत्त के जितने उत्तर होगा या दक्षिण अपनान्तवृत्त के जितने दक्षिण होगा उत्तरा ही शीत का आधिक होता है॥

यीर्प्प काल की उत्पत्ति सामान्यतः दो कारणों से होती है। प्रथमतः इस समय सूर्यरशिष्ट पृथिवी में लम्बज्ञाव से पड़ती है। द्वितीय गगनम-गहल में सूर्य अधिक काल स्थिति करता है और जिस समय इन दो अवस्थाओं में वैपरीत्य होता है, उस समय हेमन्त काल का उद्यम होता है। उपेष्ठ और आपाद मास में दो प्रहर के समय गगनमगहल में दृष्टिपात फरने से सूर्य को हम लोग अपने मस्तकोपरि देखते हैं, किन्तु पौष और माघ मास में इस प्रकार सूर्य के प्रति अवलोकन करने से उस को बहुत दक्षिणांश में अर्थात् भाकाश के बहुत नीचे देखते हैं। अधिकन्तु उपेष्ठ और आपाद मास के दिन में सूर्य ज्ञाकाशपथ में दीर्घकाल रहता है, किन्तु पौष और माघ मास में स्वल्प क्षण अवस्थिति करता है। इसी कारण उपेष्ठ और आपाद मास में ग्रीष्म का एवं पौष और माघ मास में शीत का मानुषर्थ्य होता है॥

इस प्रकार शीत और धीम के सारतम्पानुसार भिन्न २ देश में भिन्न २ जातीय उद्दिज्जन और जन्म भव उत्पन्न होते हैं, ये सब इस प्रकार असु परिवर्तन म होने से जीवित नहीं रह सकते। विश्वकर्ता ने पृथिवी को जीव के धीम और जीव को पृथिवी के योग्य धना कर अपनी अपारमहिमा प्रकट की है॥

### वेदों में ऋतुओं का उल्लेख

मधुश्रृ भाघवश्र वासन्तिकावृत् शुक्रश्र शुचिश्र ग्रीष्मा-  
वृत् नभश्र नभस्यश्र वार्षिकावृत् इपश्रोर्जश्र शारदा-  
वृत् सहश्र सहस्यश्र हैमन्तिकावृत् तपश्र तपस्यश्र शैशि-  
रावृत् ॥ यजुर्वेदे पू० अ० १३ ॥ ५ । ६ । १५ । १६ । २४०७

भाषार्थ—मधु, भाघव, १ वसन्त ऋतु शुक्र, शुचि, २ ग्रीष्मश्वतु, नभस्, नभस्य  
३ वर्षांश्वतु, इप, ऊर्ज, ४ शरदश्वतु, सहः, सहस्य ५ हैमन्तवृत्तु और तपस्, तपस्य द्व  
शिशिर ऋतु हैं वर्षांत् मधु आदि दो २ महीनों के वसन्तादि दिनः ऋतु होते हैं॥  
सामवेद में भी उनी ऋतुओं का उल्लेख है—

वसन्तइन्द्रुरन्त्यो ग्रीष्म इन्द्रुरन्त्यः ।

वर्षांश्वयन शरदो हैमन्तः शिशिर इन्द्रुरन्त्यः ॥

( सामवेद प्र० ६ । अ० ३ । ६ । १३ । २ )

सभ ऋतुओं में वसन्त ऋतु को मुख्य मानते हैं । प्रमाणः—

मुखं वा एतद्वृत्तनां यद्वसन्तः ॥

( तत्त्विरीय ब्राह्मणे ११ । २ । ६ । ९ )

वेद या ब्राह्मण प्रन्थीोंमें १२ महीनों के नाम नक्षत्रों के नामानुसार चैत्रादि  
महीने, वरन भयु भाघवादि हैं । चैत्रादि नाम होने का नियम यह है कि जिस  
महीने की पौर्णमासी को जो नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र के नामानुसार उस  
महीने का नाम होता है । जैसे चित्रा नक्षत्र में जिस महीने की पौर्ण-  
मासी हुई उस महीने का नाम चेत्र, इसी प्रकार विशाखा नक्षत्र वाले का  
विशाख, इसी प्रकार और भी जानो । परन्तु यह नियम अब नहीं रहा । अब वी  
चाही उस २ महीने की पौर्णमासी को वह २ नक्षत्र न पढ़े, परन्तु चैत्रादि  
नाम रुद्र से हो रहे हैं । इसी कारण वेदों में इस अविचल नियम में १२  
महीनों के नाम हैं । जो कभी उस का परिवर्तन नहीं हो सकता । जैसाकि  
चाहे जब वसन्त ऋतु हो, उस के प्रथम और द्वितीय नाम को छन्नमें  
शुक्र, शुचि; चाहे जब वर्षा ऋतु हो उस के प्रथम और द्वितीय नाम को छन्नमें  
चाहे जब शरद ऋतु हो, उस के प्रथम और द्वितीय नाम

की कम से इष्ट, कर्ज, हेमन्त ऋतु चाहे जय हो उस के प्रथम एवं द्वितीय मास को कम से सह; सहस्य और गिरिश ऋतु चाहे जय हो उस के प्रथम और द्वितीय मास की कम से तपस् एवं तपस्य कहते हैं ॥

अपुना जो लोग मधु आदि १२ महीनों को चैत्रादि के वाचक समझते हैं। यह मेरी समझ में उन की भूल प्रतीत होती है क्योंकि चैत्रादि नाम म-शब्दों के अनुसार और मधु आदि ऋतु के लक्षणानुसार हैं ॥

अर्थात् सूर्य के कारण ऋतु परिवर्तित होते हैं जो चैत्र, वैशाखादि इस समय वसन्तादि ऋतुओं में होते हैं, वे इस के फौंट महस्त वर्ष पहिले श्रीप्तम वर्षों श्रद्धादि में हुवे हैं। इस का नियम यह है कि उग्र भाग २६००० वर्ष में (अधन गति के कारण) प्रत्येक दो दो महीनों के सब ऋतु कम से होते गये हैं ॥

अर्थात् चैत्र में एक बार वसन्त ऋतु मधु सवा चार हजार वर्ष में। श्रीप्तम ऋतु ८० राहु आठ हजार वर्ष में। वर्षों ऋतु १३ हजार वर्ष में। शरद ऋतु २१ हजार वर्ष में। इसी प्रकार हेमन्त और गिरिश हुए हैं ॥

### दिन और रात्रि

जिस प्रकार किसी प्रकाशमान वस्तु के सामने कोई निस्तेज यस्तु रहने से उम निस्तेज वस्तु का केवल सामने का आधा भाग प्रकाशित होता और उस का दूसरा आधा भाग अन्यकार में रहता है। इसी प्रकार प्रकाशमान सूर्य के किरणों से निस्तेज भूगोल का आधा भाग ( सामने का ) भात्र प्रकाशित होता एवं अपराह्न भाग अन्यकार में रहता है। पृथिवी की यह अवस्था सतत इसी प्रकार रहती है अर्थात् एकाहुँ प्रकाशित एवं अपराह्न अन्यकारावृत रहता है, फिलु इस की दैनिकगति के कारण से इस के सब स्थानों में कम २ से आलोक और अन्यकार का आविभाव होता एवं तद्द्वारा दिन रात होते हैं ( जहां प्रकाश भहां दिन एवं जहां अन्यकार वहां रात्रि ) पृथिवी के नियत आवर्तन ( Revolution ) से कमशः भिन्न २ समय में प्रत्येक स्थान ही सूर्य के सामने होता है, जिम समय जो स्थान सूर्य के सामने होता उस समय वहां के लोगों को बोध होता है कि सूर्योदय हुवा। पीछे वही स्थान कम से पूर्व की ओर अपराह्न होने से उन लोगों को सूर्य ठीक अपने मस्तकोपरि ( मध्याह्न ) दृश्य होता है। निशान जय पृथिवी के आवर्तन द्वारा सूर्य भग्नल अद्वृश्य होता उस समय उन लोगों को बोध होता है कि सूर्योदा-

हुया। इसी प्रकार जब एक स्थान में दिन होता है तो दूसरे स्थान में सायंकाल, एवं एक देश में जब सच्चाहूँ तब दूसरे देश (पाताल) में आधीरात होती है। कलतः सूर्य का उदयास्त वास्तविक नहीं होता किन्तु एथिवी की दैनिकगति से दिन, रात, सच्चाहूँ, सच्चा आदि होते हैं, एथिवी के सब स्थानों में दिन रात एक परिमाण से नहीं होते, कहीं ३० मुहूर्त का दिन रात कहीं ६० का, कहीं हमारी अपेक्षा एक सप्ताह, एवं जो सहीने का दिन इत्यादि होते हैं। अब हम वेदादि शास्त्रों के ममाण देते हैं। जिन से यह बात सिंह होगी कि दिनाधिपति, होराधिपति, भासपति, वर्षपति आदि फलितज्योतिष की कल्पनामात्र है, वस्तुतः छिद्रान्त ज्योतिष से इस का सम्बन्ध नहीं। वेदोत्तरकालीन अनायं संस्कृत ग्रन्थों में एव इस समय की शिक्षित अशिक्षित दोनों भण्डली प्राप्तः—“दिन”शब्द के स्थान में “वार” का व्यवहार करते (लिखते, पढ़ते) हैं। इसी प्रकार रविवार, सोमवार आदि लिखते पढ़ते थोलते हैं। परन्तु इस प्रकार का व्यवहार हमें वेद, व्याख्यण, गुह्यसूत्र, व्याकरण, भाषा भारत और वाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में नहीं मिलता, यहां तक कि अमरकोप जो यहुत थोड़े दिन का बना हुआ ग्रन्थ है उस में भी नहीं पाया जाता “घस्तो दिनाहनी वा तु क्लीवे दिवसवासरौ” अर्थात् घस्त, दिन, जहन्, दिवस, वासर, ये दिन के नाम हैं। ऐसा अमरकोप के कालवर्ग में नहीं मिलता है। परन्तु “वार” शब्द दिन के अर्थ में नहीं आया॥

**आदित्प्रलस्थ रेतसो ज्योतिरपश्यन्ति ‘वातरम्’।**

**परो यदिध्यते दिवा ॥ ऋष्ट सं० ८।६।३०**

अथोत् सूर्य का प्रकाश दिनभर रहता है॥

**देवतों के दिन**

एकं वा एतद्वेवानामहः यत्संवत्तरः ॥ तैत्र्या० ३।६।८८

हमारे एक वर्ष की धरादर उत्तरमेहनिवासिनों (देवतों) का एक दिन होता है॥ दिन के पांच विज्ञानः—

**तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हि कृणोति संग्रहः प्रस्तौति ‘भृत्यन्दिनम्’।**

**उद्गायत्य ‘पराह्लः’ प्रति हरत्वस्तं चक्रिघनम्॥**

(ऋष्ट सं० ८।६।४८)

दिन के पाँच भाग होते हैं—सूर्योदय, संगव, ( भयाहू के पहिले और सूर्योदय के पीछे) भयाहू, अपराह्ण और सूर्यास्त या सायद्वाल । इसी प्रकार शतपथब्राह्मण में भी लिखा है:-

आदित्यस्त्वेव सर्वऋतवः । यदैवोदेत्यथ वसन्तो  
यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा मध्यंदिनोऽथ वर्षा  
यदापराह्णोऽथ शरद् यदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः ॥

( थत० ब्रा० २ । ३ । ८ )

अर्थ—सूर्य ही सब ऋतुओं का कारण है और प्रतिदिन सब ऋतुमें वीतती है अर्थात् जब सूर्योदय होता है तो वसन्त ऋतु 'संगव' काल में, ग्रीष्म, भयाहू में वर्षा, अपराह्ण में शरद् और सूर्यास्त समय हेमन्त ॥

दिनमान अर्थात् दिन का घटना घढना-  
सोम राजन् प्रणआयूपि तारीरहानीव सूर्योवासराणि ॥

( ऋवेदे ८ । ४८ । ९ )

भाषार्थः—हे सोम राजन् ! वासर ( जगद्वासक ) इस को जिस प्रकार सूर्य घड़ाता है इसी प्रकार तू मेरी आयु को घड़ा ॥

दुगणाद्विनवाख्वाप्तिर्दुगणोऽपि हि देशकालसम्बन्धात् । लाटाचार्यणोक्तो यवनपुरेऽर्द्धस्तगे सूर्ये ॥१८॥ रव्युदये लङ्कायां सिंहाचार्येण दिनगणोऽभिहितः । यवनानां निशि दशभिर्गतैर्मुहूर्तैश्च तद्गुरुणाम् ॥१९॥ लङ्कार्धरात्रसमये दिनप्रवृत्तिं जगाद् चार्यभटः । भूयः स एव सूर्योदयात् प्रभृत्याह लङ्कायाम् ॥२०॥ देशान्तरसंशुद्धिं कृत्वा चेन्न घटते तथा तस्मिन् । कालस्यास्मिन्साम्यं तैरेवोक्तं यथाशाख्यम् ॥२१॥ मध्यान्हं भद्राश्वेष्वस्तमयं कुरुपु केतु-मालानाम् । कुरुतेऽर्द्धरात्रमुद्यन्भारतवर्षे युग्मपदकः ॥२२॥

उदयो यो उङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे ।  
 मध्याह्नो यमकोट्यां रोमकविपयेऽर्द्धरात्रः सः ॥ २३ ॥  
 अधिमासकोनरात्रग्रहदिनतिथिदिवसमेपचन्द्रार्कः ।  
 अयनत्त्वर्क्षगतिनिशाः समं प्रवृत्ता युगस्यादौ ॥ २४ ॥  
 अन्यद्रोमकविपयाद्वैशान्तरमन्यदेव यवनपुरात् । उङ्काह्न-  
 रात्रसमयादन्यत्सूर्योदयात्मैव ॥ २५ ॥ सूर्यस्याह्नास्तमयात्प्र-  
 तिदिवसं यदि दिनाधिपं ब्रूमः । तत्रापि भास्पवाक्यं न  
 च युक्तिः काच्चिदन्यास्ति ॥ २६ ॥ क्वचिन्निशादिवसप-  
 तेः ॥ क्वचित्क्वचित् । स्वल्पे स्वल्पे स्थाने व्याकुलमेवं दिन-  
 पतित्वम् ॥ २७ ॥ होरावात्ताप्येवं यस्माहोरा दिनाधिप-  
 स्याद्या । तस्याऽपरिनिष्टाने हीराधिपतिः कथं भवति -  
 ॥ २८ ॥ अविचार्येवं प्रायो दिनवारे जनपदः प्रवृत्तो-  
 ऽयम् । स्फुटतिथिविच्छेदसमं युक्तमिदं प्राहुराचार्याः  
 ॥ २९ ॥ अ० १५ पञ्चसिद्धान्तिकायाम् ॥

यराहमिहिर ने उपरोक्त ग्लोक लिखे हैं । एवं इस पर वासनानामके  
 टीका श्री महामहेशापाध्याय पं० मुधाकर हिंदी प्रोफेसर संस्कृत कालिज धनारस  
 ने की है । पाठकों के अबलोकनार्थं भाषा में अर्थ किया गया है ॥

**भाषार्थः**-जिस कारण अहंगणसे वारप्राप्ति होती है और अहंगण सौ देशकाल  
 के सम्बन्ध से सिद्ध होता है । जैसे:-लाटाधार्य ने यवनपुर (जीनपुर) में सूर्यो-  
 ह्नास्त समय में, सिंहाचार्य ने उङ्का में, सूर्योदय काल में मुमुक्षुओं के गुरु  
 यवनाधार्य ने रात्रि में १० मुहूर्त घोतने पर अहंगण कहा है और आर्यमह  
 ने तो एकत्र उङ्का में अहुंरात्रि समय दिन प्रवृत्ति कही है । पुनः उन्हीं आर्य-  
 भट्ट ने दूसरे स्थान में लिखा है कि उङ्का में सूर्योदय से वार प्रवृत्ति होती  
 है ॥१८.१९.२०॥ उस देश में देशान्तर की शुद्धि भी की जावेती भी चस्प्रकार  
 काल की समता नहीं होती तो काल साधनार्थ उन्हीं आधार्यों द्वारा शास्त्र-  
 सम्मत कहा गया है, उसी प्रकार इस विषय में काल की साता किस प्रकार  
 की है वह समता आगे कही जाती है:-

भारतवर्ष में जब सूर्य उदित होता है उस समय उद्गत वर्ष में सध्याहृ, कुष्ठवर्ष में सूर्योस्त, केतुमाल वर्ष में आधीरात् एव उद्गत में जब सूर्य उदय तथा सिद्धपुर में सूर्योस्त, यमकोटि में सध्याहृ, रोमक नगर में आधीरात्। इस प्रकार गणक लोग देश की स्थिति जानकर अपने ३ असीष्ट देश असीष्टकाल में अहरणं चापते हैं और तदनुसार यहाँ को सवर्णं अपने २ समय में वास्तविक हो देखते हैं। दिन के जारम्भ भेद से इस में कोई छानि नहीं। ऐसा आचार्य का अभिप्राय है ॥ २१ । २२ । २३ ॥ युग के आदि में अधिमास क्षयतिपि, ग्रह, सावनदिन, तिथि, मेयराति, चन्द्रमा, सूर्य, अयन, क्रतु, नाशश्रगति, रात्रि ये सब वरावर एक ही समय में प्रवृत्त हुवे अर्थात् सूर्योस्त समय में अधिमासादि सब एक साथ प्रवृत्त हुवे परन्तु किस स्थान में? सो आचार्य नहीं कहते परन्तु प्रायः सब सिद्धान्तों के अनुमार उद्गत ही में युगादि हुई ॥ रोमक देश से जो देशान्तर लिया जाता है वह दूसरा है। एव जीनपुर से जो देशान्तर लिया जाता है वह और ही है ॥ स्त्रा उद्गत में आधीरात् से वारप्रवृत्ति हुई यह किसी का भत है और यहाँ सूर्योदय समय वारप्रवृत्ति हुई यह औरों का भत है। अब पदि प्रतिदिन सूर्य के आपि अस्त समय ही से हम लोग दिनाधिप अर्थात् वारप्रवृत्ति को कहें, उस में भी कोई आप्तवाक्य प्रभाव नहीं और न कोई युक्ति ही है। सूर्य से किसी स्थान में सन्ध्या, किसी स्थान में दिन, किसी स्थान में रात्रि होती है इस प्रकार छोटे छोटे स्थानों में भी वारप्रवृत्ति की असङ्गति होती है ॥ २४ । २५ । २६ । २७ ॥ कौसे पहिले वारप्रवृत्ति की घात कही गई उसी प्रकार “होराधिपति” की घाता भी जाननी चाहिये। जिस कारण दिन से पहिले होराधिपति होता है। इस कारण वारप्रवृत्ति के अनिश्चय होने पर होराधिपति का निश्चय नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ और यह देश प्रायः विना विचार ही जिस दिन जो वारप्रवृत्ति होता है उस दिन उस वार की प्रवृत्ति जानता है। अर्थात् जाज कीम दिन है, यह परम्परा ही से जाना जाता है, इस में कोई गणित की युक्ति नहीं है जिस से वार जात किया जावे। अब जो आचार्यों ने जो यह गणित स्फुट तिथि आदि विचार के तुल्य हो वही गणितयुक्त समीचीन कहा है। अर्थात् जिस गणित से प्रहगण तुल्यता को प्राप्त हो वही गणित समीचीन कानना, दिनपति चाहे जो हो इस में हम को आयह नहीं ॥

### मास

अमारे द्युष्मान में अर्थात् शास्त्रों में एवं लोक में चान्द्रमास से द्युष्मान

होता है ( विशेष देखना हो तौ सूर्यसिद्धान्त अ० १४ देखो ) चान्द्रमास दो प्रकार का होता है । एक अमावास्या से दूसरी अमावास्या तक ग्रुप । इस को "अमान्त मास" कहते, एवं एक पौर्णमासी से दूसरी पौर्णमासी तक दूसरा । इस को "पूर्णिमान्त" मास कहते हैं । उपवाहार दोनों ही प्रकार के महीनों से होता है, परन्तु मुख्य कर "अमान्त" मास से होता है ॥

चान्द्रमा जो पृथिवी को एक बार पूरा परिभ्रमण करलेता है, इस में २३ दिन ३होरा४३ मिनट ११.५ सेकेन्ड समय लगता है । यही पूर्णिमान्त मास होता है, एवं एक अमावास्या से दूसरी अमावास्या तक में सामान्यतः २८ दिन १२ होरा १४ मिनट २.७ सेकेन्ड समय होता है । इसी को अमान्त एवं मुख्य चान्द्रमास कहते हैं ॥ अमान्त और पूर्णिमान्त मास कभी से आरम्भ होता है । वह मीठे लिखा जाता है ॥

| अमान्त                                | पूर्णिमान्त |
|---------------------------------------|-------------|
| चैत्र {<br>गुरुपक्ष }<br>कृष्णपक्ष }  | चैत्र       |
| बैशाख {<br>कृष्णपक्ष }<br>शुक्रपक्ष } | बैशाख       |
| ज्येष्ठ                               | ज्येष्ठ     |

अमान्त एवं पूर्णिमान्त मास होने का प्रमाणः—

अमावास्यया मासान् सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति । अमावा-  
स्यया हि मासान्तं पश्यन्ति पौर्णमास्यया मासान् सम्पा-  
द्याहरुत्सृजन्ति पौर्णमास्यया हि मासान् संपश्यन्ति ॥

( तै० ब्रा० ७ । ५ । ६ । १ )

स्पष्ट है । भाषा में अर्थ करने की आवश्यकता नहीं ॥

### अधिक मास

युग के आरम्भ से अमावास्या के अन्त तक एक चान्द्रमास शेष रहता है । इस चान्द्रमास के शेष होने से उस का ५४ दण्ड २८ पल ३१ विपल ५२ अनुपल ३० प्रत्यनुपल के अनन्तर मूर्ख वृपराशि में प्रवेश करता है अर्थात् वृप की सक्रान्ति में एक सौरमास शेष रहता है । इस लिये सीर मास और चान्द्रमास इन दोनों के अनन्तर ५४ दण्ड, २३ पल, ३१ विपल, ५२ अनुपल, ३० प्रत्यनुपल हो जाता है, उस के अनन्तर मिपुन की सक्रान्ति समये ३०

द्विगुण अर्थात् १ दिन ४६ दण्ड, ५५ प०, ३ विं, ४१ अ० प० वडता है । एवं फकंट सक्रान्ति में तीन शुण और चिह फी सक्रान्ति में चार शुण, इसी प्रकार कमशः वडते २ भीन सक्रान्ति में अर्थात् २ वर्ष में दोनों का अन्तर १० दिन ५३ द०, ३० प०, २२ विपल, ३० अ० प० होता है । इसी प्रकार प्रत्येक चौर और चान्द्रमास में एक दिन का तारत्साम्य होता है । एवं १ वर्ष में प्राय ११ दिन अधिक होते हैं । अतएव ये दिन सब जय कमशः ३० दिन पूरे हो जाते हैं तो अधिक जास होता है, इसी को अधिमास कहते हैं । वेदों में भी अधिमास का उल्लेख है ॥

**वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदाय उपजायते ॥**  
**( ऋष्ट० सं० १ । २५ । ८ )**

अर्थात् यह जो काल के विभाग १२ महीने हैं। इन में प्राणिमात्र उत्पन्न होते हैं । एवं इन बारह से अधिक महीना होता है । यानी अधिमास ( उपजायते ) ॥

**अहोरात्रैर्विमितं त्रिंशद्वृं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते ।**  
**( अथर्व० १३ । ३ । ८ )**

अर्थात् जिस परमात्मा ने दिन रात ३० दिन का महीना, १३ महीने ( अधिमास गिन कर ) रखे हैं ॥

### १५. तिथियों का वर्णन वेदों में

अग्नेः पक्षति ( परिवा ) वायोर्निःपक्षति ( द्वितीया )  
 रिन्द्रस्य दृतीया सोमस्य चतुर्थ्यदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै  
 पष्ठो मरुतां सप्तमी दृहस्पतेरपृम्यर्यम्णो नवमी धातुर्द-  
 शमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥  
 ( यजुर्वेद अ० २५ । ४ )

भाष्यार्थ-पक्षति ( परिवा ) निपक्षति ( द्वितीया ) दृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इन फी कम से अठिन, वायु, इन्द्र, सूर्य, अदिति, इन्द्राणी, मरुत, दृहस्पति, अर्यमा, धाता, इन्द्र, वरुण, यम सज्जा हैं ॥

वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में अष्टका, उदृष्ट, व्यष्टका तिथियों का भी वर्णन है ॥

**तस्य ब्रात्यस्य । योस्य द्वितीयोऽपानः सापुका ॥**

( अथवे सं० १५ । १६ । २ )

पौर्णमास्यां पूर्वमहर्भवति । व्यष्टकामुत्तरम् अमावा-  
स्यायां पूर्वमहर्भवति । उदृष्ट उत्तरम् ॥ तै० ब्रा० ११। दा० १० ॥  
अर्थात् कल्पन प्रतिष्ठार से आठवीं तिथि को “व्यष्टका” और शुक्ल की  
परिवा से जाठवीं तिथि को “उदृष्ट” कहते हैं ॥

चन्द्रमा की कला की छास वृद्धि

यस्त्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुनः । वायुः सो-  
मस्य रक्षिता समाना मास आकृतिः ॥ ऋ० सं० १०४॥५॥  
यमादित्या अंशुमाप्यायन्ति यमक्षितमक्षितयः पिवन्ति ॥

( तै० ब्रा० २ । ४ । १४ )

हे चन्द्र ! तुम्हे सूर्य की किरणें (कल्पन पक्ष में) शोष जाती है । एवं पुनः  
कला २ कर बढ़ाती हैं ( शुक्ल पक्ष में ) ।

नवो नवो भवति जायमानोऽहूँकेतुरुपसामेत्यग्रे । भागं  
देवेभ्यो विदधात्यायन् ग्र चन्द्रमास्तरति दीर्घमायुः ॥

( ऋ० सं० १० । ४ । १९ )

अर्थात्-जिस प्रकार सूर्य किरणों से चन्द्रमा की फला प्रतिदिन २ बड़ती  
बढ़ती पूर्णमासी को पूरी हो जाती हैं । इसी प्रकार मेरे ऐश्वर्यों को मेरी  
आयुभर वृद्धि करो ॥

तिथि ६९०५

चन्द्रमा प्रतिदिन राशिघर में पश्चिम से पूर्व ओर १३ । १० । ५५ जाता  
है और सूर्य ५८ । ८ चलता है । इसी कारण चन्द्रमा प्रतिदिन सूर्य से १२  
अंश, ११ कला, ४७ विकला करके पूर्व की ओर आगे जाता है । चन्द्रमा की

इस ग्रात्यहिक अग्रगति से एक २ तिथि घनती है। चन्द्रमा की फला (प्रकाश का १६वां भाग) का वृद्धि का नाम शुक्रपक्ष और ह्रास का नाम रुद्धपक्ष। चन्द्रमा का आकाश के पक्षी भी कहते हैं। इसी कारण इस के दो पक्ष (हुए) लिखे हैं। चन्द्रमा जब सूर्य से १०० अशया छः राशि अन्तर में होता है तो पूर्णमासी तिथि कहते हैं। एवं पूर्वोक्त रीति से चन्द्रमा जब १०० अश

से १२, ११, ४३ पूर्व से पश्चिम गमन पूर्वक १० अश पहुंचने पर कृष्णाष्टमी तिथि होती है। एवं क्रमशः सूर्य के निकट होने से (एक स्थान में) अमावास्या स्पा तिथि होती है। पुनः क्रम २ से चन्द्रमा सूर्य से जैसे २ दूर होता जावेगा वैसे २ चन्द्रकला बढ़ती जावेगी, एवं बढ़ते २ जब १०० अश पर आजावेगा तो पूर्णमासी होगी। अब इस के प्रमाण दिये जाते हैं:-

**यां पर्यस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः ॥ ऐ० ब्रा० ३२१०॥**

चन्द्रमा के एक उदय से दूसरे पर्यन्त काल की तिथि संज्ञा है॥

**चन्द्रमा वै पञ्चदशः । एष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते ॥**

**पञ्चदश्यामापूर्यते ॥ ( तै० ब्रा० १ । ५ । १० )**

आशय यस्तुतः चन्द्रमा एक ही है, पर लोक में ठ्यवहार होता है कि परिवा का चन्द्रद्वितीया का चन्द्र भादि। यही एक चन्द्रमा रुद्धपक्ष में क्रमशः १५ दिन पटता है। एवं पुनः शुक्रपक्ष में १५ दिन क्रम २ से बढ़ता है॥

**तिथि भाग ७२०**

**द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्त्ति चक्रं परि द्वामृतस्य ।**

**आपुत्रा अग्ने मिथुनासी अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च  
तस्थः ॥ ऋ० सं० १ । १६४ । ११ ॥**

भावार्थ-एक चक्र (सवत्सर या राशिचक्र) में १३ महीने या राशि अविचल समातन हैं और जिस में सूर्य के पुत्र (सूर्य से चलपक्ष) स्वरूप ३६० जोड़े (अहोरात्र) अर्थात् ७२० तिथि भोग हैं॥

**अमावास्या और पौर्णमासी**

**तस्य ब्रात्यस्य । यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां चैव  
तत्पीर्णमासीं च ॥ तस्य ब्रात्यस्य ॥ १ ॥ यदस्य दक्षिणम-  
क्ष्यसी स आदित्यो यदस्य संव्यमक्ष्यसी स चन्द्रमाः ॥**

( अथर्व० १५ । १३ । ८ । १० )

**भावार्थः**—उस ब्रात्य के अद्वास्तुरूप भूयं और चन्द्रमा जथ एक स्पान में होते हैं तथ अमावास्या होती है ॥ १ ॥ उस ब्रात्य की दहिनी आंख स्वरूप और वार्ष आंखस्वरूप चन्द्रमा है ॥ पुनः—

**चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति ।**

**आदित्याद्वै चन्द्रमा जायते ॥ ऐतरेयब्राह्मणे ४०५**

**भावार्थः**—चन्द्रमा अमावास्या को शूर्य के साथ ( समसूत्रस्य ) होता है और पुनः उस से अलग होता है ॥ पुनः—

एप वै सोमो राजा देवानामन्तं यज्ञचन्द्रमा स यत्रैप एतां  
रात्रिं न पुरस्तान्न पश्चाद्वृद्धशे तदिमं लोकमागच्छति स  
इहैवापश्चोपधीश्च प्रविशति स वै देवानां वस्त्रन्तं ह्येपां  
तद्वेपां रात्रिमिहामावासति तस्माद्मावास्या नाम ॥

( शतपथ ब्राह्मणे १ । ६ । ४ । ५ )

**भावार्थः**—यह चन्द्रमा जो देवों के भव(जोयधि)आदि करने वाला है सो जिस रात्रि में कुछ भी नहीं दीर पहता है उस रात्रि की अमावास्या संज्ञा है ॥

### पौर्णमासी

**सोमावास्यायां रात्रिमेतया पोडश्या कलथा सर्वमिदं  
प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते ॥ वृहदारण्यके ॥**

**भावार्थः**—यह चन्द्रमा जिस रात्रि में १६ फलाजी से प्रकाशित होता है वो सद्य प्राणियों को शुभमद होता है अर्थात् पौर्णमासी की ॥

**शुक्र या पूर्वपक्ष और कृष्ण वा अपरपक्ष**

**पूर्वपक्षं वै देवान्वज्यन्त । अपरपक्षमन्वसुराः ।**

**ततोदेवा अभवन् । परा सुराः ॥ तै० ब्रा० रारा० ३ । १**

**अर्थात्**—जिस समय उत्तरसेहनियासियों को शुक्रपक्ष होता उस समय उस के विरुद्ध दक्षिणसेहनियासियों को कृष्णपक्ष होता है ॥

**आश्रित्य ताममावास्यां पश्यतः सुसमागतौ ।**

**अन्योन्यं चन्द्रसूर्यों तौ यदा तद्वर्ती उच्यते ॥**

जिस तिथि में चन्द्रमा और सूर्य समसूक्ष्म होता है उस को अमावास्या या “दर्श” कहते हैं ॥

**चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा ।**

**पर्वाएयेतानि राजेन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेव च ॥**

चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, सूर्य की संकांति इन का नाम “पर्व” है ॥

**या पूर्वा पौर्णमासी सानुमतिर्योत्तरा सा राका ।**

**या पूर्वमावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहूः ॥**

( ऐ० ग्रा० ३२ । १० )

अर्थ—चतुर्दशीयुक्त पौर्णमासी को “अनुमति” एवं परिवायुक्त पौर्णमासी को “राका” कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्दशीयुक्त अमावास्या को “सिनी वाली” एवं परिवायुक्त अमावास्या को “कुहू” कहते हैं। इसी प्रकार गोपय ग्राहण में भी लिखा है । ६ । १० ॥

### क्षयतिथि

कल्प या युग के आरम्भ में भौम और चान्द्रदिन एक ही समय आरम्भ होता है किन्तु साधनदिन से चान्द्रदिन न्यून होने से साधनदिन के शेष होने के पहिले वह शेष हो जाता है अर्थात् उस के परदिवस में सूर्योदय से आगे शेष हो जाता है, यही चान्द्र दिन के शेष एवं पर दिवस में सूर्योदय के शेष इन्हीं दीनों के बीच के समय को “अवम” या क्षयतिथि वा तिथि कीहानि आदि कहते हैं। यही अवशिष्टाङ्क प्रतिदिन बढ़ते २ जय ६० दशड पूरा होता है तब पूरी एक तिथि की हानि वा क्षयतिथि होती है। इस का भी वेद में उल्लेख है—

**द्वौ च ते विंशतिश्चते रात्र्येकादशावमाः ॥ अथर्व २१।३।४७।५**

अर्थात् १ वर्ष में ११ “अवम” एवं दो वर्ष में २२ इसी प्रकार और जानो। यहां स्पष्ट ‘अवम’ शब्द तिथि का याचक है। जैसा भास्कराचार्य ने अपने सिद्धान्तधिरोग्नि मासक ज्योतिषपद्धति में लिखा है ॥

### सायन और निरयण

यहाण निरन्तर राशिचक में धमण करते हैं। इस राशिचक के

किसी स्थान को आरम्भ नहीं कह सकते, तब सूर्य मार्ग के जो दो स्थानों में सूर्य के आगमन समय दिन रात का परिमाण वरावर होता है और जिन दो स्थानों में अपन शेष होता, उन्हीं चारों स्थानों में से किसी स्थान से आरम्भ कहा जासकता है। किन्तु विषुवरेखा के जिस स्थान में सूर्य के आने से दिनमान बहुत और बहुत लंबा आदि का नूतन पलबादि उद्गम होते दृश्य हो, उसी स्थान को राशिचक्र का आरम्भ कह सकते हैं। इसी स्थान से सूर्यमार्ग को ३६० अंशों में विभक्त कर उस के प्रथम ३० अंश में, उसके बाद ३० अंश दृष्ट इत्यादि क्रम से १२ राशि कल्पना कर जो लगन स्फुट और यह स्फुट गणना की जावे उस का नाम "सायन" है ॥

ज्योतिष गणना के प्रथम (आरम्भ काल में) आकाशमन्त्र के चिह्नित में राशि स्थित अश्विनी नक्षत्र के प्रारम्भ में दिन और रात्रि भान समान स्थिर हुआ था। पीछे कम २ से नक्षत्रगण घसकता जाता है। विषुवरेखा से प्रतिवत्सर अश्विनी नक्षत्र जितनी दूर घसक जावेगा, उसी अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के आगमन (समय) उसी दिन को वत्सर का पहिला दिन कल्पना कर लगनस्फुट यहस्फुट द्वारा उसी स्थान को राशिचक्र का आरम्भ कह कर जो गणना की जावे, उस को "निरयण" कहते हैं ॥

हमारे ज्योतिषशास्त्र के अनुसार राशिचक्र वा अपन प्रतिवर्ष ५४ विकला प्रतिमास ४ विकला ३० अनुकला और प्रतिदिन ९ अनुकला घसकता है। एवं ६६ वर्ष ८ मास में राशिचक्र विषुवरेखा से एक अंश करके चला है और इसी प्रकार राशिचक्र विषुवरेखा से चल २ कर समय २ पर उस विषुवरेखा के स्थान में मिल जाता है। सम्प्रति सूक्ष्मगणनानुसार लगभग २६०० वर्ष में राशिचक्र का विषुवरेखा पर पूरा एक फेरा होता है और प्रतिवत्सर इस की गुति ५०.३ विकला है। वेद में भी "अयन" का उल्लेख है:-

**भानुराश्लेपा अयनं मधा मे ॥ अर्थव॑ १९ । ७ । २ ॥**

अर्थात्-आश्लेपा नक्षत्र के अन्त एवं मधा की आदि में "अयन" है ॥

भारतवर्ष में यद्यपि प्रमाण एवं युक्ति से "सायन" भत टीक है, परन्तु अद्यावधि ज्योतिष के विद्वानों ने इस को स्थिर नहीं किया है और अधिकांश निरयण भत से "पञ्चाङ्ग" बनाते हैं। जिस लिये सायन और निरयण दो पक्ष चल रहे हैं, इस लिये दोनों में कौन सा प्रकृत शास्त्रसम्मत है, इस को हम प्रमाणों से सिद्ध करते हैं:-

यस्मिन्दिने निरंशःस्थात्संस्कृतोर्डयनांशकैः ।

तद्विनं च महापुण्यं रहस्यं मुनिभिः स्मृतम् ॥

( ज्योतिर्निर्वन्धे वसिष्ठः )

अयनांशसंस्कृतो भानुगीले चरति सर्वदा ।

अमुख्याराशिसंक्रान्तिस्तुल्यः कालविधिस्तयोः ॥

स्नानदानजपश्चाद्वत्तहोमादिकर्मभिः ॥

सुकृतं चलसंक्रान्तावक्षयं पुरुषोऽशनुते ॥ पुलस्त्यस्मृती ॥

चलसंस्कृततिग्मांशोः संक्रमो यः स संक्रमः ।

अजागलस्तनद्वय राशिसंक्रान्तिरुच्यते ॥

पुण्यदां राशिसंक्रान्तिं केचिदाहुर्मनीषिणः ।

नैतन्मम मतं यस्मान्तस्पृशेत् संक्रान्तिकक्षया ॥ वसिष्ठः ॥

संस्कृतायनभागार्कः संक्रान्तिस्त्वयनं किल ।

स्नानदानादिपुष्ट्रेष्ट्रा भृथमः स्थानसंक्रमः ॥ सोमसिद्धान्तः ॥

अयनांशसंस्कृतार्कस्य मुख्या संस्कृतिरुच्यते ।

अमुख्या राशिसंक्रान्तिस्तुल्यः कालविधिस्तयोः ॥ ४७ ॥

( रोमशसिद्धान्त स्पष्टाधिकार )

चलसंस्कृततिग्मांशोः संक्रमो यः स संक्रमः । नान्योन्यत्र

च तत्क्षेत्रं नैति तत्क्रान्तिकक्षया ॥ ६२ ॥ शाकलयसं-

हितादृतोयाध्याय स०सिं०अ० १४ स्नोक उदाह० १० देखो -  
उपरोक्त सूष्य वचनों का यही आशय है कि जितने वैदिक व शास्त्रीय यज्ञादिक  
सुस्कार हैं, सायन गणनानुसार ही होना उत्तम है, निरपेण से नहीं ॥

शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः । युगानां परि-

वर्त्तन कालभेदोऽत्र केवलम् ॥ सू० सि० अ० १ । ६ ॥

इस पर एकान्तर की टीका इस प्रकार है -

कालवशेन ग्रहचारे किंचिद्वैलक्षण्यं भवतीति तत्तदन्तरं

ग्रहचारे प्रसाध्य तत्त्वकालस्थितलोकव्यवहारार्थं शा-  
खान्तरमिव कृपालुस्त्वान् ॥

आशयः—कालघात ग्रहोंकी गति में भ्रेद पड़ता है। इस लिये समय २  
पर ग्रहों को वेष्टकर बीज देवे और होक व्यवहारार्थं तिथ्यादि का निश्चय करो।

अत्र गणितस्कन्धे उपपत्तिमानेवागमः प्रमाणम् ॥

( भास्कराचार्य, गोलदब्धाधिकारः )

अर्थ—इस गणित स्कन्ध में “उपपत्तिमान्” ही शास्त्र प्रमाण है ॥

यस्मिन्देशे यत्र काले येन दृग्गणितैक्यकम् ।

दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात् तिथ्यादिनिर्णयम् ॥

अर्थ—जिस देश में जिस काल में जिस प्रकार दृग्गणितैक्य दीखे, उसी  
पक्षद्वारा तिथ्यादि का निश्चय करो ॥

“महाराज द्विजराज श्री ५ महीश्वरीप्रसाद नारायणसिंह  
घहादुराख्येन श्रीकाशीनरेशेन” आदिष्टः पञ्चाङ्गकरणे  
मवृत्तोऽहम्। भवति यद्यप्यत्र सायनगणनैव मुख्या तथा-  
यस्मिन्भारतवर्षे सर्वत्र निरयणगणनाया एव प्रचारात्  
सामान्यजनप्रमोदायेदं तिथिपत्रं निरयणगणनैव  
व्यरचयम्”

आशयः—महाराज द्विजराज श्री ५ महीश्वरीप्रसाद नारायणसिंह घहादुर  
नामक काशी नरेश की आक्षा से मैं पञ्चाङ्ग बनाने के लिये प्रश्न छुवा हूँ।  
यद्यपि शायग्रमाण से सायन गणना ही मुख्य है, तथापि इस भारतवर्षे में  
सर्वत्र निरयणगणना के प्रधार से एवं सामान्यलोगों के प्रसव करने के लिये  
इस तिथिपत्र की निरयण गणना द्वारा मैंने रचा ॥

देखो भूमिका “शतुर्वर्णन” यजुर्वेद का प्रमाण सायनगणनानुसार ज्ञातुओं  
और साम का होना ॥

मधुप्रमाधवश्ववासन्तिकावृत् ॥ तै० ४ । ४ । ११

आश्वयुजामाश्वयुजीकर्म ॥ ॥ आहिताग्नेराग्रा-

यणस्यालीपाकः ॥ ॥ आश्वलायन गृष्ठसू० अ०२ खं० २

मार्गशीर्षां प्रत्यवरोहणं चतुर्दश्याम् ॥१॥ पौर्णमास्या  
वा ॥२॥ हेमन्तं मनसा ध्यायेत् ॥३॥ आश्व० गृ० सू० र॒३  
अथातोध्यायोपाकरणम् ॥४॥ ओपधीनां प्रादुर्भावे अ-  
वणेन श्रावणस्य ॥ ५ ॥ आश्वलायन गृ० सू० ३ । ५

इन बच्चों का भी यही आशय है कि सायनगणना सुर्य है। इसी से  
वैदिक एव स्मात्तंकमें होने चाहियें ॥

### ग्रहण

चन्द्रमा अमावास्या को मूर्य और पृथिवी के भयस्थान में प्रवेश करता है  
और पृथिवी पूर्णिमा को चन्द्रमा और मूर्य के भयघतिनी होती है। पृथिवी  
भय निस्तेज एव गोलाकार है, इस हेतु इस का जी भाग मूर्यरश्मि से प्रका-  
शित होता है उस के विपरीत भाग (परली तरफ) में मूर्च्छाकार (मूर्दे दी  
नोक की सी आकृति) इस भूर्छाया में जब चन्द्रमा प्रवेश करता है तब वह  
कमश मलिन होने लगता है। इसी को "चन्द्रग्रहण" कहते हैं। ऐसी घटना  
किंवल्प पूर्णमासी ही को होती है इस कारण पूर्णमासी ही को चन्द्रग्रहण हो  
सकता है। चन्द्रमण्डल मूर्य और पृथिवी के भयघतिनी होने से मूर्यरश्मि  
अवरुद्ध होती है उसी को "मूर्यग्रहण" कहते हैं। मूर्य और चन्द्रमा के समस-  
काल में अर्थात् अमावास्या को जब सूर्य ग्रहण होने की सम्भावना होती  
है। यदि चन्द्रकक्षा और भूकक्षा समतल स्थित होती तो मति पूर्णमासी  
को चन्द्रग्रहण एव मति अमावास्या को मूर्यग्रहण होता। यदोकि उस २ काल  
में मूर्य चन्द्रमा और पृथिवी समसूत्र में रहने से चन्द्रद्वारा गूर्यरश्मि आज्ञान  
वा भूर्छायाद्वारा चन्द्रविम्ब दीमिहीन होता। किन्तु चन्द्रकक्षा और पृ-  
थिवी कक्षा समतलस्य नहीं है। इन दो कक्षा (ओं के दो विन्दुसात्र में तिर्यग्  
भाव से भव्य होती है। जिन (राहु, केतु) को चन्द्रपात कहते हैं, इसी  
पातस्थान में चन्द्रमा जब आता है, चन्द्रमा मूर्य और पृथिवी समतलस्य  
होती है। अतएव पूर्णमासी वा अमावास्या को चन्द्रमा अपने पातस्य वा  
निकटस्य न होने से चन्द्र या मूर्यग्रहण नहीं होता ॥

### चन्द्रग्रहण के नियम

१-पृथिवी की लापा के केन्द्र से चन्द्रविम्ब के केन्द्र तक जो अन्तर है, वह  
भूर्छाया और चन्द्रमा के ठापामात्रुंके योगसे न्यून न होने से ग्रहण नहीं हो सकता॥

२-चन्द्रमा के केन्द्र से छाया केन्द्र पर्यन्त जो अन्तर है, वह छाया और चन्द्रमा के ब्यासाद्वारा वियोग फल की अपेक्षा न्यून अधिक दौरों समान न होने पर पूर्ण ग्रहण नहीं हो सकता ॥

३-एविधी से चन्द्रमा जितनी दूर, भूचालाया उस के प्रायः साढ़े तीन गुण अधिक दूर विस्तृत एव इस छाया के जिस प्रदेश में चन्द्रमा प्रवेश करता है उस के परिमर चन्द्रध्यास के प्रायः तीन गुण : चन्द्रविम्ब जब समय रूप ने छाया में प्रविष्ट होता है, उम समय "पूर्णग्रहण" होता है। और जिस समय उस का एक अशमात्र छाया में आच्छान्त्र होता है उस समय "आंशिकग्रहण" होता है ॥

४-एक वर्ष में दो बार भी चन्द्रग्रहण हो सकता है और चन्द्रग्रहण एकघार न हो यह भी सम्भव है। एक वर्ष में पाच भूर्यग्रहण और दो चन्द्रग्रहण का होना सम्भव है ॥

५-चन्द्रमा अभावास्था को १७। २१ पातस्यान में निकटवर्ती होने पर सूर्यग्रहण, एवं पूर्णमासी को ११। ३४ निकट होने पर चन्द्रग्रहण हो सकता है॥

६-चन्द्रपात यदि स्थिर रहता तो प्रतिवत्सर एक ही समय ग्रहण होता किन्तु यह पात सूर्य से परिचम को सूर्यको प्रायः १८ वर्ष २२८ दिन और ६ होरा में एक बार प्रदक्षिण करता है। इसी कारण इतने समय के अन्त में चन्द्रपात अपने स्यान में प्रत्यागत होता है। सुतरां प्रति १८ वर्ष २२८ दिन छः होरा में चन्द्रग्रहण और भूर्यग्रहण प्रायः समानहृष्ट से होते हैं ॥

हमारे बहुत से फलितज्योतिषी और पौराणिकों का यह निश्चय है कि जब २ एविधी पर अधिक पाप होता है तब २ ग्रहण अधिक होता है। यह उन की खानितमात्र है ।

### सूर्यग्रहण के नियम

चन्द्रमा द्वारा सूर्य की किरणें अवश्य होने से सूर्यग्रहण होता है। चन्द्रमा यद्यपि यस्तुतः सूर्य की अपेक्षा ठोटा है, परन्तु दूरता में वह सूर्य की अपेक्षा एविधी के निकटस्थ होने से उस का भी विम्ब के समान देख पड़ता है। सूरप्रहण तीन प्रकार के हैं:- आंशिक, माध्य, एवं मध्यग्रास ॥

१-सूर्य और चन्द्रमा का दूर्घमान व्यासाद्वारा योगफल यदि सूर्य के केन्द्र से चन्द्रमा के केन्द्र की अपेक्षा न्यून होता है तो ग्रहण सम्भव होगा ॥

- २-सूर्य के दृश्यमान व्यापाराद्वारा से चन्द्रमा का दृश्यमान व्यापाराद्वारा अन्तर करने पर यदि वह सूर्यके केन्द्र से दूरता अवेता न्यून हो तो "साध्यग्राम" होगा॥  
 ३-सूर्य का दृश्यमान व्यापाराद्वारा चन्द्रमा के दृश्यमान व्यापाराद्वारा मे अन्तर करने पर यदि वह सूर्य के केन्द्र से दूरता अवेता न्यून हो तो "सधंग्राम" ग्रहण होगा॥  
 ४-सूर्यग्रहण कहीं न रहीं प्रतिदिन होता है, परन्तु स्थान विशेष से वह ग्रहण कहीं दीखता है कहीं नहीं दीखता। इस का प्रमाण आगे दिया जावेगा ॥

### ग्रहणविषयक वैदिक ग्रन्थ-

यत्वा सूर्य स्वर्भानुरत्नमसा विघ्यदासुरः । अक्षेत्रविद्य-  
 या गुग्धो भुवनान्यदीघयुः ॥५॥ स्वर्भानीरध यदिन्द्र मा-  
 याऽवोदिवो वर्त्तमाना अवाहन् । गूढं सूर्यं तमसापत्रतेन  
 तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्ददत्रिः ॥ ६॥ मा मामिमं तत्र सं-  
 तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निगारीत् । त्वं मित्रोअसि  
 सत्यराधास्ती मैहावतं वर्णश्च राजा ॥ ७ ॥ ग्रावणो  
 ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन् कीरिणा देवान्नमसोपशिक्षन् ।  
 अत्रिः सूर्यन् दिवि चक्षुराधात्स्वर्भानोरप भाया अधु-  
 क्षत् ॥८॥ यं वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विघ्यदासुरः । अत्र  
 यस्तमन्वविन्दन्वह्यज्ञे अशक्तुवन् ॥ ९ ॥

(ऋग्वेदे ५। ४०। ५-६ ॥ )

पुनः-

उच्चापतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं भ्राजमानम् ।  
 पश्याम त्या सवितारं यमाहुरजस्तज्योतिर्यदविन्ददत्रिः ॥  
 (अथर्ववेदे १३। १। २। ३६) पुनः:-

स्वर्भानुर्ह वाऽआसुरः । सूर्यं तमसा विघ्याध स तमसा  
 विद्धो न व्यरोचत-तस्य सीमरुद्रावेवैतत्तमोऽपाहतां स  
 एषाऽपहतपाप्मा तपति ॥ शतपथब्राह्मणे ५। ३१२। २

पुनः—

स्वर्भानुर्वाआसुरः सूर्यं तमसा विद्यत्तदत्रिरपनुनोद  
तदत्रिरन्वपश्यत् ॥ गोपथब्राह्मणे ३० ३ । १९

पुनः—

स्वर्भानुर्वाआसुरः आदित्यन्तमसाऽविद्यत्तदेवाः स्वर-  
सामानी भवन्त्यादित्यस्य सृष्टयैः॥ताण्ड्यब्राह्मणे ४ । ५२

पुनः—

स्वर्भानुर्वाआसुर आदित्यन्तमसा विद्यत्त देवा न  
व्यजानन्तेऽत्रिमुपाधावंस्तस्यात्रिर्भासेन तमोऽपाहन्यत् ॥  
\* प्रथमपाहन् सा कृष्णाविरभवदद्वितीयं सा रजता  
यत्तृतीयं सा लोहिती यथा वर्णमभ्यतृणत्सा शुक्रासीत् ॥

( ताण्ड्यब्राह्मण ६ । ६ । ८ ) पुनः—

स्वर्भानुर्वाआसुर आदित्यं तमसा विद्यत् स न व्यरो-  
चत्तस्यात्रिर्भासेन तमोऽपाहन्स व्यरोचत यदेतदभा अभ-  
वत्तद्वासस्य भासत्वम् ॥ ताण्ड्यब्राह्मणे १४ । ११ । १४ ॥

पुनः—

यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविद्यदासुरः । अत्रयस्तमन्व-  
विन्दन्वह्यन्ये अशकुवन् । आश्वलायन शाखा अष्टुक ४

पूर्वोक्त ऋग्वेद, अथवंवेद एवं ग्राहणयन्यों के ग्रहणविषयक मन्त्र और  
छपाल्यान का एक ही आशय है । इस लिये प्रह्लेक प्रसाण का जिक्र न अर्थ  
न करके एकत्र आशयमात्र लिखा गया है:-

आशयः—हे सूर्य ! चन्द्रमा ने तो तुम्हे अन्धकार से घेर लिया है इस  
से सब लोग अपने न स्थान न जानकर सुग्रह हो रहे हैं ॥५॥ द्युलोक में तेरा  
प्रकाश है उस को चन्द्रमा ने आळडाक होकर अन्धकार से तेरे सूप को एक

\*विवरण—इस में ग्रहण के रङ्ग का वर्णन है । कृष्ण, चांदी का रङ्ग, लाल  
बर्ण और शुक्र ये भार प्रकार के होते हैं । देखो सूर्य चिं ग्रहणाध्याय ॥

मात्र छिपा दिया है। इस बात को पूर्णविचर करने पर ज्ञानद्वारा जाना जाता है॥५॥ हे सूर्य ! तेरा नाम भित्र एव वरुण अनेक स्थानों में लिखागया है। ऐसे अनेक विशेषण होने पर भी इश्वरीय नियम के बढ़ हो तुम्हेअन्धकार निगल गया ( सर्वप्रासादगृहण का उपलक्षण है ) ॥ ६ ॥ भानो ब्रह्मा ने मेघ की नाई तुम्हारे लिये चन्द्रमा का आच्छादक अपण किया है। उन्मीलनकाल में द्युलाक में पुन प्रकाश होने लगा ॥ ७ ॥ जिस सूर्य को चन्द्रमा ( स्वभानु ) ने आच्छादित कर लिया था, उस को केवल ज्ञानी लोग ( ज्योतिष्यविद्यावित ) जानते, दूसरे नहीं जान सकते ॥ ८ ॥

ग्राधण—मेघ। अत्रि=ज्ञान। स्वभानु=चन्द्रमा। आमुर=अन्धकार। अन्वयिन्द्रिय=ज्ञान।

वेदादि भृत्यशास्त्रों में ग्रहण का कारण न तौ राहु नामक दैत्य लिखा है और न उस समय स्थान दान एव आद्वादि कुछ कर्त्तव्य ही लिखा है। जो उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध है ॥

**सूर्यन्दुभगणधात्री संस्यानविदोऽधिकृत्य कथयामि ।**

ग्रहण सदैव भानोः स्यानविशेषात् क्वचिद्दृश्यम् ॥१॥

अविदितसस्यानानां वोधोऽपि हि जायते यथाधान्यम् ।

क्षीरं शह्वोपहितं दशनविनाशक्षमं भवति ॥ २ ॥

संक्षेपसूत्रवशतः शशिना ध्रियते दिवाकरो येपाम् ।

तेषां सूर्यग्रहणं स च देशं प्रतिदिनं क्वापि ॥ ३ ॥

भाषार्थ—सूर्य चन्द्रमा नक्षत्रगण एव पृथिवी की सस्या जानने वाले के मत के अवलम्बन से मैं कुछ ग्रहण की विशेषताकर्त्ता हूँ। सूर्यग्रहण सदैव कहीं न कहीं प्रतिदिन होता है, परन्तु स्थान विशेष से वह ग्रहण कहीं २ दीख पड़ता, कहीं नहीं दीखता। अर्थात् सर्वत्र नहीं दीखता। यह बात गणित द्वारा जानी जाती है। जिस प्रकार भात, दूध को शर पर रह कर खाने से दातों का नाश होता है यह जोषधि यल से जाना जाता है। उसी प्रकार गणितद्वारा अविदित स्थान का ज्ञान होता है। जिस देश में दृष्टिरेखा के बग्गे से चन्द्रमा द्वारा सूर्य आच्छान होता है उस २ देश में सूर्यग्रहण होता है। यह घटना प्रतिदिन कहीं न कहीं अवश्य होती है। १ । २ । ३ ॥

इसी प्रकार जिस समय पृथिवी पर सूर्यग्रहण होता है, उस समय चन्द्रलोक में पृथिवीग्रहण हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्यरशिम द्वारा

चन्द्रमशहल दीपिमान् होता है, इसी प्रकार पृथिवी सी सूर्य के आलोक से आलोकसमय हो जाती है, इस कारण जब चन्द्रमा पृथिवी और सूर्य के मध्य स्थान में पूर्वोक्त प्रकार समावेशित होता है, उस समय चन्द्रमशहल हारा सूर्य किरण अपवारित हो भूमरहल अन्धकारग्रास्य होकर चन्द्रलालक में अदृश्य होता है, उसी की पृथिवीग्रहण कहते हैं ॥

मुन्-वराहमिहिराचार्य ने लिखा है कि:-

नीचस्योऽस्माकमंशुमान्मवति । चन्द्रः परमोऽन्तस्योर्ध-  
नवहुभानोर्भवति हेतुः ॥७॥ अस्माकमुदयसमये येपा-  
मल्पास्तगोदिवसनायः । मध्याह्नो वा येपां तेपामपि  
न युगपद्यग्रहणम् ॥८॥ तदतीतमुदयगानां क्षणद्वये नै-  
श्यदस्तकेशानाम् । मध्याह्नटेशगानामनवरतं वर्त्तमानेन  
॥९॥ उक्तश्च संहितायां भया प्रपञ्चोऽस्य राहुचाराद्वौ ।  
ग्रहणस्य यन्त्रिमित्तं विनैव राहुं रविहिमांश्चोः ॥१०॥

भाषण-इमारे उदयकाल या अस्तकाल में अर्थात् चन्द्रपूर्ण दिन में सूर्य दूरस्थ और चन्द्रमा निकटस्थ रहता है। इसी कारण सूर्यग्रहण में चन्द्रमा मेघ की नाई सूर्य को ढक लेता है। जिस से हम उस को उतने समय तक नहीं देखते। इमारे उदय समय में जिन देशों में सूर्य अस्तप्राप्त होता, उसी समय जिन देशों से भयाह्न होता है उन देशों में एक ही काल में ग्रहण दृश्य नहीं होता। लम्बन और अवनति भीद से सूर्य के अदृश्य होने के कारण ॥

जिस कारण वर्त्तमान एक ही दिन में कभी उदय देशों से मनुष्यों को ग्रहण ठपतीत होवे, उस के अनन्तर दो लाल में निरन्तर अस्त देशों में ग्रहण भावी होवे और भयाह्न देशों में दो लाल निरन्तर ग्रहण रहना चाहिये ॥

सूर्यग्रहण और अन्धग्रहण में राहु छाँड़ कर को अन्धान्य यास्त्रिक कारण है, उन्हें मैने स्वरवित सहित मैं कहा है ॥

नित्यमधस्यस्यन्दोर्भामिर्भानोः सितं भवत्यहम् ।  
स्वच्छाययान्यद्सितं कुम्भस्येवातपस्यस्य ॥ १ ॥

सलिलमये शशिनि रवीर्दीधितयो मूर्च्छितासतमो नैशम् ।  
क्षपयन्ति दर्पणोदरविहिता इव मन्दिरस्यान्तः ॥ २ ॥

( वृहत्संहितायाम् )

भाषार्थ-धूप में रखें हुए घट के तुल्य चन्द्रमा का आधा भाग सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो जाता है और दूसरा आधा अपनी छापा से अन्यकार में रहता है । सूर्य की किरणें चन्द्रमा पर पड़कर प्रतिविन्धित होकर लौट आती हैं और रात्रि के अन्यकार का नाश करती हैं । जैसे धूप में रखें हुवे दर्पण पर सूर्य की किरणें पड़ कर मन्दिर के भीतर छाँटी जाती हैं ॥ पुनः—

भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमकं ग्रहे प्रविशतीन्दुः ।

प्रग्रहणमतः पश्चात्तेन्दोर्भानोर्च पूर्वार्धात् ॥

( वृहत्संहितायाम् अ० ५ )

भाषार्थ-चन्द्रमा अपने ग्रहण में सूर्णि की छापा में जौर सूर्यग्रहण में सूर्य और पृथिवी के चंचल में आजाता है, इस कारण ग्रहण होता है । पुनः—

एवमुपरागकारणमुक्तमिदं दिव्यदृग्भिराचार्यैः ।

राहुरकारणमस्मिन्नित्युक्तः शास्त्रसङ्गभावः ॥

( वृहत्संहितायाम् अ० ६ )

भाषार्थ-यह दिव्यदर्शी आषार्यों ने सत्यशास्त्रों के अनुकूल ग्रहण का कारण कहा है । इस में राहु कारण नहीं है ॥ पुनः आपेभव ने लिखा है कि—

चन्द्रो जलमकीऽग्निर्मृद्भूच्छायापि या तमस्तद्वि ।

छादयति शशी सूर्यं शशिनं च महती भूच्छाया ॥

( भार्यसिद्धान्ते गोडपादे ३७ )

धर्म-चलमय चन्द्रमा अग्निस्त्रूप सूर्य को ग्रहणकाल में ढक लेता है और सूत्तिकामय पृथिवी जिस की बढ़ी छाया चन्द्रग्रहण काल में चन्द्रमा को ढक लेती है, राहु नहीं ॥ इसी प्रकार भास्कराचार्य ने भी लिखा है कि—

पूर्वाभिमुखो गच्छन् कुच्छायान्तर्यतः शशी विशति ।

तेन प्राक् प्रग्रहणं पश्चान्मोक्षोऽस्य निस्सरतः ॥

( सिद्धान्तशिरोभणी )

भाषार्थ-जब चन्द्रमा सूर्य की ओर की जाता हुआ भूमि की ऊपर में चला जाता है, तब ग्रहण पड़ता है और जब ऊपर आया के निकलता है, तब सौहरा उग्रहण होता है ॥ यहला घटकार ने भी यही कारण लिखा है:-

**द्वादश्यत्यक्मिन्दुर्विदुं भूमिभाः ॥**

भाषार्थ-चन्द्रग्रहण में भूमि की ऊपर चन्द्रमा को और सूर्यग्रहण में चन्द्रमा सूर्य को ढक लेता है। इसी प्रकार आदि कवियालमीकि ने भी लिखा है:-

**अभ्यधावत काकुत्स्यं स्वर्भानुरिव भास्करम् ॥**

( धार्मीकीयरामायण मुहुकाशह सर्गं १०२ । ३ )

भाषार्थ-जिस प्रकार चन्द्रमा ( स्वर्भानु ) ग्रहणकाल में सूर्य को आछादन कर लेता है, उसी प्रकार रावण श्री रामचन्द्र जी महाराज की ओर पावा करता है ॥

—१०२—

**युक्तिपूर्व वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध ग्रहण में हेतु कल्पना**

१-पुराणों में ग्रहण का विलक्षण कारण लिखा है। जिस समय विष्णु जी सोहनी का रूप धर असृत धाँट रहे थे, रात्रि नामक एक रात्रि देव विष बनाकर उन की पद्मिनी में आ देठा । जब विष्णु भगवान् ने उस को असृत दिया, वह उस को उसी समय पी गया। परन्तु सूर्य और चन्द्रमा ने उस की उग्राली खा दी कि यह देवता नहीं है, रात्रि है। इस पर विष्णु ने क्रीय कर एक से रात्रि का गिरफ्टार डाला, परन्तु यह असृत पी खुका था, इस लिये न भरा । इस कारण से वह सूर्य एवं चन्द्रमा को जाहां पाता है यहीं ग्रह लेता है। परन्तु वह उस को गरदन के छेद में होकर निकल जाता है। यद्यपि यह लेता है महाभारतादि में भी समुद्रमन्थन प्रसङ्ग में आया है और उसी के अनुसार आलङ्कारिक वर्णन से इस का आशय भी उत्तोतिपथाक्ष के अनुकूल ही है। परन्तु इस आलङ्कारिक लेख को त भ्रमभ कर लोक में ऐतिहासिक घटना भाज कर अन्यपरम्परा चल रही है। इस इस विषय को “पुराण भीमांसा” नामक पुस्तक में लिखेंगे ॥

इस अन्यपरम्परा का कारण फलितव्योत्तिप्रवृत्ति पूराण (वस्तुतः नवीन) ग्रन्थ हैं। इसी के अनुसार आधुनिक धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि यही वस्त्राल रात्रि गगनग्रामी चन्द्रमा और सूर्य को रूपर्थ करता है, इस कारण

पृथिवीस्थ मनुष्यों को भी अशीघ होता है। ग्रामारम्भकाल में मरने का अशीघ एवं लोक काल में जन्माशीघ करना चाहिये। इसलिये स्नान व्यतिरिक्त शुद्धि नहीं होती। उस के अतिरिक्त ग्रहण काल में राहु के घण्ठ अनुसार भूमध्यडल में अनेक प्रकारकी शुभाशुभ पटना होती है। देखो भग्नस्य पुराण अ० ६३॥

### भारतवर्ष की छोड़ अन्यान्य देशों में ग्रहणकाल में पोपलीला

ग्रहण की उत्पत्ति विषय में अनेक अप्रकृत और अमूलक भूत हैं, उस के प्रभाव में अनेक लोगों के विच में ग्रहण घटित नामा प्रकार की आशङ्काएँ हीती हैं। किसी असाधारण कारण द्वारा इस की पटना होती है। एवं इस के द्वारा चन्द्रमा या सूर्य या पृथिवी को अझङ्कल होता है। अनेक जातियों में इस प्रकार विश्वास पहिले या और कहीं २ अव भी है ॥

२-पूर्वकाल में रोमन नगर में लोग चन्द्रग्रहण काल में चन्द्रमा को यातना-ग्रस्त समझ कर उस के क्षेत्रान्तर्य वित्तल पन्न बजाया करते थे। एवं लंबे स्वर से कोलाहल किया करते थे। उन में यहुतों को ऐसा विश्वास या कि कुहक जीवी लोग चन्द्रमा को आकाश से गिरा कर “दूर्वासेत्र” में चराया, या एवं उन्हीं लोगों के कुहक द्वारा चन्द्रग्रहण होता है। इस देश में ऐसा नियम या कि कोई व्यक्ति ग्रहण के वास्तविक कारण को प्रकाश फूप से आलोचना न करे ॥

३-चीम देश में चीनियों को ऐसा विश्वास है कि भयङ्कर सर्पं सब चन्द्रमा और सूर्य को ग्रास करते हैं, इसी कारण उन का ग्रहण होता है। ग्रहण समय में यासकारी सर्प को ताङ्गा के लिये चीनी लोग हरका बजाया करते हैं॥

४-अमेरिका खण्ड के अन्ते पाती भेक्सीको देशीय लोग ग्रहणकाल में चपवास (खाते नहीं) करते हैं। उन का यह विश्वास है कि चन्द्रमा एवं सूर्य में जापस में विश्राद हुआ है और चन्द्रमा को सूर्य ने मारा है। इसी निमित्त वे लोग विशेषतः उन की खियां आपस में एक दूसरे को कटुघड़न जादि व्यवहार कर एवं याहु और अन्यान्य अङ्ग प्रहार द्वारा शरीर से रुधिर आहर करती हैं, इस विचार से कि जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्य संघान में लड़कर आपस में एक दूसरे को क्षेत्रित करता है, हम लोगों को भी उन के दुःख में पहानुभूति प्रकट करनी चाहिये ॥

५-पूर्वप खण्ड में विद्यां के मंसार से इस समय भूर्खेक्ष प्रकार के अनेक

भ्रमसूलक सम्भार लुप्तप्राय हो गये और अन्यान्य स्थानों में भी प्रकृत (अ-सठी) ज्योतिष सम्बन्ध रूप से प्रचरित हुआ। हे जगदीश्वर ! हमारे देश से यह सायन कलित विद्यार क्य जावेगी । भगवन् ! सिद्धान्त ज्योतिषहृष्प सूर्य प्रकाशित कर फलितरुपी तिमिर का शीघ्र नाश करो ॥

### पञ्चाङ्ग

‘ किसी ज्योतिषी का वचन है कि जिस प्रकार हाथी, घोड़ा, रथ, देल इन चार प्रकार की सेना (बल) से राजा पृथिवी को जीतकर अपने वश में कर लेता है । इसी प्रकार मैं भी पञ्चाङ्गरुपी बल से आकाश को वश में करलेता हूँ ॥

‘ चतुरद्वयलो राजा जगती वशमानयेत् ।

‘ अहं पञ्चाङ्गवलवानाकार्णं वशमानये ॥

अर्थात् १ तिथि, २ वार, ३ नक्षत्र, ४ योग, ५ करण ये पाच अङ्ग हैं। प्राचीन समय से ‘धार’ और ‘योग’ पञ्चाङ्ग के अङ्ग नहीं थे और ऐसा भी ‘न था कि इसे मैं पांचों अङ्ग हो । तिथि, करण और माध्यनक्षित्र (वार) एक ही अङ्ग में थे और योग का तो एकमात्र प्रचार ही नहीं था, योकि सिद्धान्तज्योतिष में (अंगमध्ये) और वराहमिहिर ने भी इस का गणित प्रकार नहीं लिखा है) इस का गणित प्रकार लिखा है और न प्राचीनयन्धी में थार, योग, करण शब्द से किसी यज्ञादि का विधान पाया जाता है। भारतवर्ष में प्राय सब ही श्रीत एव स्पार्त कर्म करने में ग्रतिदिम आर्यमात्र की पञ्चाङ्ग व त्रिष्ठि पञ्च की आवश्यकता पड़ती है । तदनुसार प्राचीनकाल से इस तिथियत्वादा पञ्चाङ्ग का प्रचार चला आता है, परन्तु पहिले वैदीकरकालीनपञ्चाङ्ग भारतवर्ष भर के लिये एक ही बनते थे और यादवर्य का पञ्चाङ्ग एकदारयनता था और उसी का प्रचार आर्यों में था। आपस में खींचातानी नहीं थी, जैसी कि अब है ॥

पाच सबत्सरो के नाम एवं ग्रन्थाण -

‘ संवत्सरोसि परिवत्सरोसि इद्वावत्सरोसि इद्वत्सरोसि ,  
( तैत्तिरीयग्रास्त्रण ३ । १० । ४ )

‘ अर्थात् १ सबत्सर, २ परिवत्सर, ३ इदावत्सर ४ वत्सर, ५ इद्वत्सर ये पाच वृत्सर हैं । और भारत में भीष्मजी ने दुर्योधन से कहा है -

‘ तैपां कालातिरेकेण ज्योतिपां च व्यतिक्रमात् ।

पञ्चमे पञ्चमे वर्षे द्वौ मासावृपजायतः ॥ ३ ॥

एपाभ्यधिका मासाः पञ्च च द्वादशक्षपाः ।

त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वर्तते मतिः ॥ ४ ॥

( सहाभारते विराट्-पर्वणि अ० ५२ श्लोक )

अर्थात् राजा विराट् के गोहरण के पीछे कौरव पारहवों की युद्धतैयारी के समय प्रथम इस थात का निश्चय किया गया कि पारहवों के १२ वर्ष बनवास के पूरे हुवे या नहीं ? यहों की गति से प्रत्येक पांच वर्ष पर दो दो महीने अधिक होते हैं । इस हिसाब से बनवास के १२ वर्ष, ५ महीने, १२ दिन हुवे । अर्थात् मेरी सभक्ष में १३ वां वर्ष बीत रहा है । इस लिये पारहवों के प्रकट होने में ( पञ्चाङ्ग ये ) कोइ सन्देह नहीं है ॥ अब तो पांच वर्ष के पञ्चाङ्ग का प्रधार एकमात्र उठगया और भारतवर्ष के भिन्न २ प्रदेशों में भिन्न २ प्रकार पञ्चाङ्ग एक दूसरे से विरुद्ध बनने लगे । केवल घटी, पल, स्पष्टपद आदि का भेद हो सो नहीं, दिन, लग्न, तिथि, एवं पञ्चाङ्ग बनाने के यन्त्र भी भिन्न २ कल्पित फरलिये । एवं सायनपञ्चाङ्ग जो धारानुसार था, उस के स्थान में निरयणपञ्चाङ्ग बनने लगा । इस समय तीन पक्ष के यन्त्र एवं इन्हीं तीनों पक्षों के अनुसार पञ्चाङ्ग भी बनते हैं:- १ सौर, २ ब्राह्म, ३ आर्य हैं ॥

सौर वा सूर्यसिद्धान्त के अनुसार भकरन्द विवरण तत्त्वविवेक आदि । प्रस्त्रसिद्धान्त के अनुसार करणप्रकाशादि और आर्यसिद्धान्तानुसार यहलाभ और करणकुतूहलादि हैं । इन्हीं सौनो पक्षों के यन्त्र आपस में खेलासानी एवं तिथि आदि के निश्चय में झगड़ा हालते हैं और एक २ प्रतादि दो दो दिन किये जाते हैं । ये सब झगड़े कलितज्ज्योतिष के प्रधार से होते हैं ॥

### संवत् शक आदि

भारतवर्ष में प्रत्येक श्रीत एवं सार्त्त कर्म के सकल्प में और पञ्चाङ्ग या लैकिकव्यवहार में स्थानस्थित का व्यवहार होता था, जिस का बर्णन सूर्यसिं ० अ० १ अहंपानयन में किया गया है । अब इस का प्रधार उठगया और निम्नलिखित सबस् का प्रधार भिन्न २ प्रदेशों में भिन्न २ रीति से होता है:-

१-कलिकाल-जैशादि और नेषादि दोनों ही का प्रधार है । पञ्चाङ्ग में कहीं गत कल्पवद् कहीं वर्तमान कल्पवद् छिलते हैं । शक वर्ष में १७५ भिन्नाने से गत कलिवर्ष होते हैं ॥ . . .

२-सप्तर्षिंकाल-इस को सौकिककाल भी कहते हैं। अर्थात् सप्तर्षिनसन्नात्र १०० वर्ष में राशिचक्र के एक नक्षत्र से घटकर दूसरे नक्षत्र में जाते हैं और २३ नक्षत्रों को २५०० वर्ष में एकवार समाप्त करते हैं। परन्तु प्रचार के बल प्रत्येक वर्ष में एक २ वर्ष बढ़ाते जाने का है। एवं १०० वर्ष पूरा होने पर पहिला, दूसरा, तीसरा, इस क्रम से बढ़ाते जाने का है। ज्योतिषग्राह्यानुसार वर्षमान कलियर्थं २७ चैत्रशुक्र १ दिवन सप्तर्षिंकाल का आरम्भ हुआ। वर्ष चैत्रादि और वर्षमान है। एवं भाहीना पूर्णिमात्त होता है॥

३-विक्रमकाल-वर्ष चैत्रादि और कार्त्तिंकादि और भाहीना अमात्त और पूर्णिमात्त दोनों होते हैं। शकवर्ष में १३४ निलाने से कार्त्तिंकादि विक्रम वर्ष और १३५ निलाने से चैत्रादि विक्रम संवत् होगा॥

४-ईसवी सन्, स्थिस्तीसन्, अग्रेनीरात्य समय से इस देश में इस का प्रचार है। वर्ष सायन और सौर होता है और १ जनवरी से वर्ष आरम्भ होता है। इस समय जनवरी का आरम्भ अमात्त पौष या भाष्य में होता है। शक वर्ष में ३८ ३९ निलाने से ईसवी सन् होता है॥

५-शककाल-ज्योतिष के करण ग्रन्थों में इस वर्ष से अधिक काल लेते हैं। इस का वर्ष चान्द्र और सौर होता है। चान्द्रवर्ष चैत्रादि और सौरवर्ष मेवादि होता है और भाहीना अमात्त, एवं पूर्णिमात्त होता है॥

६-चेदिकाल, या कल्चुरियाकाल-इस का इन दिनों प्रचार नहीं। विक्रम चैत्रादि संवत् ३०५, शक १७०, ईसवी सन् २४८, २४९ आश्विनशुक्र प्रतिपदा इस चेदिकाल का आरम्भ होता है। इस का वर्ष आश्विनादि और भाहीना पूर्णिमात्त एवं अमात्त होता है। इस में १६८ १७७ निलाने से शकवर्ष और २४७। २४८ निलाने से ईसवी सन् होगा॥

७-गुरुकर्त्ता-इस का इस समय प्रचार नहीं। वर्ष ईशादि और भास पूर्णिमात्त होता है। शकवर्ष २४२ चैत्र शुक्र प्रतिपदा को इस वर्ष का आरम्भ हुआ। इस में २४२ निलाने से शकवर्ष होगा और ३१८। ३७ निलाने से ईसवी सन् होगा॥

८-हिङरी सन् का मूल स्थान अरब देश है। मुख्लमानों की अमलदारी से इस देश में इस का प्रचार हुआ 'हिङरा' मुख्लमानों का पैशव्वर 'मुहम्मद', ईसवी सन् ६२२ ता० १५ जुलाई शक ५४४ आषण शुक्र गुरुवार की रात्रि को (मुख्लमानों की शुक्रवार की रात्रि) भक्त होकर नदीमा भये थे। इस से इस सन् का नाम 'हिङरी' हुआ। इस का भाहीना भोदरंभ इत्यादि चान्द्र

है और अधिकमात्र इस में नहीं जोड़ा जाता। इस लिये वर्ष के बीचल ३५४ या ३५५ दिन का होता है और इस के अनुसार ३२ या ३३ सौरवर्ष में इस मनू के वर्ष का एक अमू सौरवर्ष की अपेक्षा यढ़जाता है। शुक्र प्रतिपदा या द्वितीया तिथि से चान्द्रमा को देखने पर इस का महीना आरम्भ होता है। महीना का एक दिन, दूसरा दिन आदि कहने को पहिला चन्द्र, दूसरा चन्द्र इस प्रकार है ( चान्द्रदिन या तारीख )। महीना में २८ या २९ दिन होते हैं। बार और सारी यह का आरम्भ सूर्योत्सु समय से होता है। इस कारण हमारे गुरुवार की रात्रि मुसलमानों की शुक्रवार की रात्रि होती है ॥

९-बहूली सन्-इस का प्रचार बहूल प्रान्त में है। इस का वर्ष सौर धर्य नेप की सक्रान्ति से आरम्भ होता है। महीना का नाम चैत्र, वैशाख आदि चान्द्र होता है। नेप सक्रान्ति से महीने का आरम्भ होता है, जिस को वैशाख कहते, उस को तासीर प्रान्तवाले चैत्र कहते हैं। बहूली सन् १०३०थक वर्ष १८१५ दें० सन् १८६३-६४ बहूली सन् में ५१५ मिलाने से शकवर्ष निकलता है। ५६३, ५६४ मिलाने से इसकी सन् होता है ॥

१०-विलायती सन् बहूल के किसी भाग में मुख्यत ओरियाप्रान्त में प्रचरित है। इस का वर्ष सौर परन्तु महीना चान्द्र होता है। वर्ष का आरम्भ कन्या सक्रान्ति के दिन से होता और महीने का आरम्भ बहूलियों में सक्रान्ति के दूसरे या तीसरे दिन से होता। परन्तु विलायती सन् के महीने का आरम्भ सक्रान्ति के दिन से होता है। विलायती वर्ष में ५१४। १५ मिलाने से शकवर्ष होता और ५६२। १३ मिलाने से इसकी सन् होगा ॥

११-अमली सन्—“ओरिया” प्रान्त के राजा इन्द्रद्युम्न की जन्मतिथि अर्थात् भाद्रपद शुक्र १२ से यह वर्ष आरम्भ होता है और सक्रमणकालीन महीना आरम्भ होता है। इस का महीना सौर, परन्तु वर्ष चान्द्र सौर होता है। कन्यासक्रान्ति भाद्रपद महीने में द्वादशी के पहिले या धीरे आरम्भ हुआ है ॥

१२-फसलीसन् को अक्षय यादशाह ने चलाया था। प्रथम हिजरी सन् का वर्षाङ्क इस की वरायर चलता था, परन्तु हिजरी वर्ष के बीचल चान्द्र ( ३५४ दिन का) होता है जौर फसली सौर होता है। इसी से इस वर्ष से एक वर्ष का अन्तर पड़ता है। दक्षिण में जिस फसली सन् का प्रचार है, उस में

१२। ५१३ मिलाने से शक वर्ष होगा और ५८०-९१ मिलाने से ईसवी सन् होगा । और वहाँलियों के फ़सली सन् में ५१४-५१५ मिलाने से शक वर्ष होता है एवं ५४२ । ९३ मिलाने से ईसवी सन् होता है ॥

१३-मूर सन् या शाहुर सन्-इस को कभी २ " अरथी सन् " कहते हैं, ईसवी सन् १३४४ हिजरी ७४५ में यह वर्ष ( मूर सन् ) आरम्भ हुआ । मूर सन् के वर्ष में ५२१ । २२ मिलाने से शक वर्ष होगा और ५८१ । ६०० मिलाने से ईसवी सन् होगा ॥

१४-हर्ष काल-फ़लीजदेश के राजा हर्षवर्द्धन ने इस काल को चलाया था । वेस्त्री के समय से भयुरा और कबौज-इन प्रान्तों से आरम्भ हुआ था परन्तु अब इस का प्रचार नहीं है । इस वर्ष में ५२२ मिलाने से शक वर्ष होगा और ६०६ । ६०७ मिलाने से-ईसवी सन् होगा ॥

१५-मगी सन्-चटगांव मान्त में चलता है-इस में और वहाँली सन् में ५५ वर्ष का अन्तर है शेष सब अंशों में वरावर है ॥

१६-कोष्ठम काल-'परशुराम काल' यह काल भलवार मान्त में 'मंगलीर से कुमारी वर्षन्त और तीने वेष्टी से आरम्भ हुआ । इस का वर्ष भी और इस के नाहींनों के नाम मेष, वृष इत्यादि राशियों के नाम के अपदंश ११-१०० वर्षों का इस का एक चक्र होता है । और इस समय इस का चीया चक्र है परन्तु अब इस की वर्ष गणना १०० से भी अधिक होने लगी है । इस वर्ष में ७४६ । ७५ मिलाने से शकवर्ष और ८२४ । २५ मिलाने से ईसवी सन् होगा ॥

१७-नेवार काल-नेपाल में यह काल शक १६०७ से आरम्भ हुआ । इस का वर्ष कात्तिंकादि और भास अमान्त होता है । तात्त्वपट पर या संस्कृत ग्रंथों में इस को " नेपाल काल " कहते हैं । ८०० । ८०१ वर्ष मिलाने से शकवर्ष और ८३८ । ७९ मिलाने से ईसवी सन् और ८३५ मिलाने से कात्तिंकादि विक्रम संवत् होगा ॥

१८-चालुक्यकाल-चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने इस को शाके १०८ में आरम्भ किया था । विजलकलयुतिपा ने जब शाके १०८४ में इस को पराजय किया तब से यह संवत् यन्द होगया । इस वर्ष में १०७ । ८८ मिलाने से शकवर्ष और १०३५ । ७६ मिलाने से ईसवी सन् होता है ॥

- १९-सिंहसंघत-फाटियादाह और गुजरात प्रान्तों से प्रचरित हुआ। महीना इस का अमान्त, वर्ष चान्द्र सौर होता है। इस में १०३५। ३६ मिलाने से शकवर्ष और १११३। १४ मिलाने से ईसवी सन् होता है और ११३७ मिलाने से आधादादि विक्रम संवत् होता है॥
- २०-लक्षण सेमनकाल-यह काल तिरहुत प्रान्त में विक्रम काल या शककाल की द्वारायर प्रचरित है। इस का वर्ष फार्त्तिकादि, महीना अमान्त है। इस वर्ष में १०४०। ४१ मिलाने से शकवर्ष और ११५। १९ मिलाने से ईसवी सन् और ११५५ मिलाने से कार्त्तिकादि विक्रम संवत् होगा॥
- २१-इलाहीसन्-इस को अक्षर यादशाह ने आरम्भ किया था। इस से इस "को "अक्षरी सन्" भी कहते हैं। इस में १४३६। ७७ मिलाने से शकवर्ष और १५४५। ५६ मिलाने से ईसवी सन् होगा।
- २२-राज शक या राज्याभियेक शक-मराटी राज्य के संस्थापक शिवा जी ने इस काल को घलाया। शिवा जीके राज्याभियेक के समय उपेष्ठ शुक्र १३ शतके १४३६ में आनन्द संवत्सर चला। दक्षिण में चान्द्र सौर अमान्त शकवर्ष अनुसार होता है। इस में १५८। ८६ मिलाने से शकवर्ष और १६३३। ३४ मिलाने से ईसवी सन् होगा॥

संवत् प्रदर्शकचक्र

अर्थात् जिस संवत् का जिस समय से भारत मुक्त होता है, इस चक्र से ज्ञात होगा।

| कलि<br>(चेत्र, मेष)                | सप्तर्षि<br>(चेत्र)               | विक्रम            |                        | इंसवी<br>(जनवरी )                | शक<br>(चेत्र, मेष)                      |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                   | चेत्र             | (आपाहङ्क) (कार्त्तिक)  |                                  |                                         |
| गत ४३७९<br>वर्तमान<br>४३८०         | ४३८४                              | १९३५              | १९३४                   | १९७८                             | १९६८                                    |
| चेदि<br>भाद्रकृष्ण<br>१प्रतिपदा    | गुप्तवासी<br>कार्त्तिक<br>(चेत्र) | गुप्त<br>(मोहरंग) | हिन्दी<br>(सुग, जुलाह) | कसली<br>दक्षिणी<br>(सुग, जुलाह)  | कसली<br>बहाली<br>(भाद्र कृष्ण १)        |
| १९३०                               | १९५९                              | १५५९              | १२४५                   | ११८७                             | १८८५                                    |
| चिलायती<br>(कन्या)<br>भाद्रशुक्राव | अमली<br>(मेष)                     | बहाली<br>(मेष)    | अर्दी<br>सूर<br>(सूर)  | हर्य<br>(सूर)                    | कोलम<br>(सिंह, कन्या)                   |
| १२४५                               | १२८५                              | १२४५              | ५८८                    | १२४०                             | १०५३                                    |
| नेपाल<br>(मेघार)<br>(कार्त्तिक)    | चालुक्य                           | सिंह<br>(आपाहङ्क) | लक्ष्मण<br>(कार्त्तिक) | इलाही<br>(भक्तवरी)<br>(साधन मेष) | शिवा जी<br>राजशक<br>(ज्येष्ठ शुक्रा १३) |
| ८९८                                | ८०२                               | ७६४               | ७५९                    | ३२३                              | २७४                                     |

धूम केतु (Comet)

यह, उपर्युक्त और नक्षत्रों के अन्तरिक्ष एक प्रकार का ज्योतिष्क कमी र राशि को आकाश में दृष्टिगोचर होता है। यह गोलाकार और पुच्छ के साथ होता है। इस के पुच्छ होने में दीसि रहती है और यह मार्जनी (कालू) की जाहं देख पड़ती है। इस ज्योतिष्क को “धूम केतु” कहते हैं। धूम केतु के शरीर

( आकार ) में दो भाग होते हैं । एक मस्तक और दूसरा पुष्ट । इस का मस्तक भाग कुछ चड्डबल एवं उस का मध्यभाग तारा की नाई अपेक्षाकृत दीमिमान् होता है । यही मध्यस्थल धूम केतु की अदि प्रतीत होती है । पुष्टभाग कुछ चड्डबल होता है और कभी २ किञ्चित् वर्फभाय से क्रमशः प्रशस्त होकर बहुत दूर तक यढ़ जाता है । पुष्ट का मध्यभाग अपेक्षाकृत कृष्ण वर्ण होता है । एवं एक रेखा में रहने के कारण उस के दो अंग २ भाग दीखते हैं । धूमकेतु का केतु बहुत कालपर्यन्त मूर्य के विपरीत दिशा में रहता है । सब समय धूमकेतु का केतु हम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता, कभी ३ केतुहीन धूमकेतु एवं कभी २ छः केतुपुक्त धूमकेतुपुक्त धूमकेतु दीखने लगता है । धूमकेतु प्रभूति स्वयं प्रकाशमान नहीं किन्तु अन्यान्य यहों की नाई यह भी मूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है । यह यह मूर्य के निकट होता है तो दीखने लगता है । अन्यथा दूर होने पर अदृश्य होता है । और यहों की नाई यह भी मूर्य की परिक्रमा किया फरता है । अर्थात् पश्चिम से पूर्व और कभी २ पूर्व से पश्चिम जाता है । अद्यावधि यूरोपियन विद्वानों ने उग भग ७०० धूमकेतुओं की गति विधि आदि का जिथप किया है । एवं जिन २ पुरुषों ने जिन धूमकेतुओं का पता लगाया है उन २ के नाम से वे २ धूमकेतुप्रजिहु किये गये हैं । हमारे बहुत से नवगिति भारतवर्यों पुरुषों को ऐसी धारणा है कि हिन्दू लोगों के यहां इस का कुछ लक्षेख नहीं है । यह उन को एक भात्र भूल है । क्योंकि प्रदूष तो हमारे घेरे ही में इस का मूल पाया जाता है । एवं अन्यान्य कृतिपय च्योतिपय के संहिता ग्रन्थों में १००० के उगभग धूमकेतुओं का लेख है:-

शनोमृत्युर्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः ॥

( अथवे वै० कां० १६ । ६ । सं० १० )

कभी २ धूमकेतु मूर्य के अतिनिकट होने के कारण उसे बड़ी उपेता होती है ॥  
 पैतामहश्चलकेतुः पञ्चवर्षशतं प्रोप्य उदितः । अथोद्दलकश्वेतकेतुर्दशीत्तरवर्षशतं प्रोप्य दृश्यः ॥ शूलाग्राकारं शिखां दर्शयन् ब्राह्मनक्षत्रमुपसृत्य मनाग्न्धुवं ब्रह्मराशिं सप्तपर्वन् संस्पृश्य कश्यपः श्वेतकेतुः पञ्चदशं वर्षशतं प्रोप्येत्रां पद्मकेतोश्चारन्ते…… ॥ नभस्त्रिभागमाक्रम्याप-

सव्यं निवृत्यादुर्गदक्षिणजटाकारशिखः । अथरश्मि-  
केतुर्विभावसुजः प्रोप्य शतमावर्त्तकेतोरुदितश्चारान्ते  
कृत्तिकासु धूमशिखः ॥

इह संहिता ग्रन्थ के टीकाकार धैर्य भट्टोत्पल ने "पराशरसंहिता" नामक  
ग्रन्थ के वर्धन का उल्लेख किया है ॥

ज्ञात-पैतामहकेतु ५०३ धर्म प्रदातु कर जर्पोत् एक घार दूरय होकर ५००  
धर्म के पीछे दृष्टिगोचर हुआ । उद्भाषकश्वेतफेतु ११० धर्म के पीछे दृष्टिगोचर  
हुआ । शूलायशिणाधारी काश्यपकेतु १५०० धर्म के पीछे, पद्मकेतु चदय  
होकर पूर्वं से होता हुआ ग्रास्तराग्नि ( जमिजित् ) नक्षत्र स्वर्णं करता हुआ  
भ्रुवनक्षत्र व्रह्मनक्षत्र और चमूर्पि नक्षत्रों को स्वर्णं करता हुआ आकाश के  
तीव्रे भाग को अद्वै प्रदक्षिणाकार कर जटाधारी की नाहें जयस्थित है ।  
एव विभावसुज रश्मिकेतु चौरवधं के पीछे दूरय हुआ और जावतंकेतु कृति-  
का नक्षत्र में प्रकाशित है । इन प्रत्येक धूमकेतुओं के साथ जो उपक्रियशेष  
के नाम लगे हैं वह इस कारण से कि जिन २ भ्रामुरुणों ने जिन २ धूमकेतुओं  
कं। देख कर उन का उल्लेख किया या उन २ के नाम से वे २ प्रसिद्ध हैं ॥

### उल्कापिण्ड

राश्रिकाल में जो गगनभ्रहल से नक्षत्र गिरते दीख पड़ते हैं वह नक्षत्र-  
पात नहीं किन्तु उल्कापिण्डपात होता है ॥

उल्कापिण्ड किस प्रकार कहां से गिरता है ऐस धात पर आधुनिक यूरो-  
पियन विद्वानों ने अनेक वादानुयादपूर्वक यह निश्चय किया है कि जिस  
प्रकार यह, धूमकेतु आदि निर्दिष्ट नियमानुसार सूर्य की परिक्रमा करते हैं  
उसी प्रकार उल्कापिण्ड भी सूर्य की धारों और भ्रमण करता है । उल्कापिण्ड  
और पृथिवी के भ्रमण भाग का सम्पात ( संयोग स्थान ) है । जब पृथिवी  
और उल्कापिण्डगण भ्रमण करते २ सम्पातस्थान में पहुंच जाते हैं,  
ऐस समय उल्कापिण्ड सब पृथिवी में गिरते हैं या उसी समय ज गिर कर  
भूवायु राशि में मिल जाते हैं । एवं पीछे कमशः पृथिवी के आकरण के प्रभाव  
से भूतल में गिरते हैं । उल्कापिण्ड की संस्या १६ माईल से १०० माईल प-  
र्यन्त पृथिवी से ऊपर की है और इस की गति प्रतिविष्ट १८ माईल से ४० माईल  
पर्यन्त होती है । प्रतिवर्ष में पृथिवी में किसी उल्कापिण्ड गिरते हैं, इस  
की स्थानी दुराघ्य है । प्रतिदिन लाखों उल्कापिण्ड पृथिवी के भित्र २

प्रदेशो में गिरते हैं। उल्कापिण्ड में परीक्षा से देखने पर निश्चित हुआ है कि इस में लोहा, टीन आदि अनेक पृथिवी की अपेक्षा विलक्षण धातु रहते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिषशास्त्रो में अशनि और पायाण द्रव्य मिश्रित इस के पिण्ड में लिखा है। एवं वेद में इस का भी उल्लेख है।-

### शन्मो भूमिर्वपमाना शमुत्का निर्हतं च यत् ॥

(अथवं० । कां० १९ । ६ । म० १ )

आधुनिक सिद्धान्त कैसा सिद्धान्त है कि पृथिवी के गमन से उल्का टक्कर लगाए गए गिरता है। जैसा क्यों कहा गया है। और श्री प० श्रीपति ने भी एक ज्योतिष ग्रन्थ में उल्कापिण्ड का उल्लेख किया है ॥

### ज्वार और भाटा

प्रतिदिन नियमपूर्वक जो समुद्र के जल का प्रामाण एवं युद्धि होती है उस को ज्वारभाटा कहते हैं, अर्थात् समुद्र का जल जो सहसा बढ़ जाता है, उस को ज्वार (स्वरूपभाया में “बेला”) कहते हैं और यही ज्वार का जल जब समय घट जाता है, तब उस को भाटा कहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति से यह घटना होती है ॥

ज्योतिर्वित् परिहतो ने यह निश्चय किया है कि चन्द्रमा पृथिवी के आकर्षण से आकृष्ट होकर अपनी कक्षा में घूमता है। पृथिवी जिस प्रकार चन्द्रमा को आकृष्ट फरती है, चन्द्रमा भी उसी प्रकार पृथिवी का आकर्षण फरता है। इसी कारण पृथिवी का जो भाग जिस समय चन्द्रमा के टीक नीचे आता है। उस समय उस भाग की जलराशि बढ़ जाती है और वही ज्वार होता है। पृथिवी का जल भाग जिस प्रकार चन्द्रमा के आकर्षण के आधीन है, स्थलभाग भी उसी प्रकार चन्द्रमा का ठाप्प है, तो जल तरलपदार्थ है इसी कारण वह अनायास चालित और स्फीत हो जाता है। यह ठपापार स्थ को दृष्टिगोचर होता है, स्थलकठिन होता है। इस लिये स्फीत और स्फूर्ति सहज से नहीं होता और वह इन्द्रियगोचर भी नहीं होता। पृथिवी का जो अश चन्द्रमा के निम्न भाग में आजाता है उस समय उस भाग में ज्वार होने की सम्भावना होती है। किन्तु रात दिन में कोई स्थान एक बार से अधिक चन्द्रमा के टीक निष्पत्ति नहीं होता तब जो इस समय एक स्थानमें दो बार ज्वार होता है, उस के कारण नीचे दिखलाये जाते हैं।-

पृथिवी का जो स्थान जिस समय चन्द्रमा के टीक निष्पत्ति भाग में अवस्थित होता है, उस समय वह स्थान अन्यान्य अश की अपेक्षा उस के निकटवर्ती

होता है, इस कारण उस स्थान का जल चन्द्रकर्तृक अधिक आकृष्ट होकर चन्द्रमा के समुद्रस्फीत हो जाता है। उस स्थान का जल इस प्रकार यढ़ता है। वहके पादविपक्ष(पाताल)स्थान चन्द्रमा से अधिक दूर होनेके कारण यहांचन्द्रमा का आकर्षण न्यून होता है। कारण यह है कि जो वस्तु आकर्षक पदार्थ के निकट रहता है वही अधिक तेज से आकृष्ट होता है और निकट से जैसे २ दूर जाता है, आकर्षण प्रभाव भी उसी दूरस्थ के अनुसार घ्रास होता जाता है। सुतरां इस स्थान का जल नत हो जाता है और अपर स्फीत अर्णत् उड़त और स्थानद्वय एथिवी के केन्द्र से यहुत दूर अपसृत हो जाता है। सुतरां दोनों स्थानों के कपर एथिवी की केन्द्राभिकर्पणी शक्ति अनुसार उर्वता होती है। इस कारण उस २ स्थान की जलराशि की तरलता स्वाभाविक तरलता की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार मध्याकर्पण के विरल प्रभाव से दोनों ओर का जल तरल होता है और एक ओर चन्द्रमा के अड्डविहित आकर्षण से उस जल रक्षील (यढ़ता है) होता है, दूसरी ओर केन्द्रप्रसारणी शक्ति का ग्रादुमांव के नियमन से वह नत हो जाता है। इस से दोनों जगह ज्वार होता है। जिम स्थान की जलराशि स्फीत होती है, उस के पश्चस्थ जलराशि अवश्य ही सङ्कुचित होती है। इसी सङ्कोच का नाम भाटा है॥

चन्द्रमा जिस प्रकार जल आकर्षण करता है सूर्य भी उसी प्रकार जल आकर्षण करता है। एवं फोर्ड बाथा ज होने से सूर्यकर्तृक एक एथक् उद्यार होने की सम्भावना थी किन्तु सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा एथिवी से यहुत निकटवर्ती है। इस कारण उस की आकर्षण शक्ति अधिक होती है। एवं उसी शक्ति द्वारा सूर्यकृत ज्वार निराकृत होता है। परीक्षा द्वारा निश्चय किया गया है कि एथिवी के जल के ऊपर सीर आकर्षण की अपेक्षा चन्द्राकर्पण अधिक होता है। सुतरां, चन्द्रमा और सूर्य दोनों जल आकर्षण करने से चन्द्राकर्पण सीराकर्पण को रोक देगा और दोनों यदि समसूत्र में रहें और आकर्षण करें तो अधिक शक्ति होगी। वस्तुतः इसी प्रकार होता भी है। अभावास्था समय चन्द्रमा और सूर्य समसूत्रस्थ होते हैं यथांत् उस समय चन्द्रमण्डल सूर्यमण्डल के नीचे भाग में अवस्थिति करता है। इस कारण दोनों मिल कर जल आकर्षण करते हैं, इसकारण अन्यान्य दिन की अपेक्षा इस दिन ज्वार अत्यन्त प्रबल होता है और पूर्णमासीको सूर्य और चन्द्रमा परस्पर आकर्षणमण्डल के विपरीत भाग में उदय होते हैं। चन्द्रमा ज्य पूर्व भाग में तो सूर्य पश्चिम भाग में रहता है। एवं चन्द्रमा ज्य पश्चिम भाग

जै ती सूर्यं पूर्वं भाग में रहता है। चन्द्रमा के एक उदय से दूसरे उदय पर्यन्त २४ होरा ४८ मिनट लगता है। एवं इतने समय में पूर्वोक्त रीति से दो बार उधार हो जाता है। दो बार की प्रतिदिन निश्चिपित एक समय होने की सम्भावना नहीं।

प्रातःकाल में १० बजे उधार होने से दूसरे दिन १० बजके २४ मिनट में उधार आरम्भ होगा और प्रतिदिन ४८ मिनट करके अप्रसर होता है अर्थात् एकादशी के दिन ६ बजके ५६ मिनट पर उधार होने से द्वादशी दिन ७ बज कर ४८ मिनट पर होगा। उधार के आरम्भ से भाटा की समासिपर्यन्त १२ होरा २४ मिनट होता है। इस काल को द्विगुण करने पर एक तिथि होगी। उधार आरम्भ होने पर प्रायः उः होरा पर्यन्त दक्षिण ओर से उत्तराभिमुख वेगवान् होता है। उस के बाद प्रायः १२ मिनट पर्यन्तस्थिगित रहता है। उस के बाद भाटा होता है। भाटा के आरम्भ होने पर वह वेग पुनर्वांर दक्षिणाभिमुख उः होरा पर्यन्त अप्रसरण करके ४ मिनट तक स्थिर होता है। अबन्तर उस के पूर्वोक्त रीति से पुनर्वांर उधार होता है और पुनर्वांर भाटा होता है॥

पूर्णमासी और अमावास्या के दो एक दिन पीछे उधार की अत्यन्त शुद्धि होती है और चन्द्रमाम के द्वितीय और चतुर्थ पाद के प्रथम दो तीन दिन उधार अत्यन्त सुर्ख हो जाता है। कारण अमावास्या और पीर्णमासी के समय चन्द्रमा और सूर्य मिलकर अधिक परिमाण जल आकर्षण करने से जल की गतिका वेग अत्यन्त प्रश्नल हो जाता है। अमावास्या और पीर्णमासी के पीछे चन्द्रमा और सूर्य आकर्षण नहीं करते। इस से आकर्षण ममावहास हो जाता है, किन्तु जल की गति का वेग दो एक दिन न घीतने पर हास नहीं होता। क्योंकि जड़पदार्थ एक बार किसी शक्ति के प्रभाव से चालित होने से उस की गति शीघ्र स्थिर नहीं होती। इसी प्रकार चन्द्रमा की कला की शुद्धि और हास कम से उधार भाटा होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया ॥ हम विश्वारभय से यहां अधिक उल्लेख नहीं करते। पाञ्चात्य परिषद और भारतवर्योप्य नवशिद्धित लोगों की धारणा है कि भारतवर्य में उक्त घटनाविषयक नियम नहीं जानते हैं। परन्तु यह कहना उन का एकमात्र युक्तिशूल्य है। हमारे शास्त्रों में चन्द्रमा को समुद्र का पुत्र, एवं चन्द्रमा की कला की शुद्धि और हास कम से समुद्र में बेला (उधार) वा जलोच्छवास और पुनः जल का हास (भाटा) होता है, स्पष्टतया लिखा है। जैसे:-

वेलान्दोलानिलवलंक्षोभोद्वेग समुच्छ्रुतम् । वीचीह-  
स्तैः प्रचलितैर्नृत्यन्तमिव सर्वतः ॥ १७ ॥ चन्द्रद्विक्ष-  
यवशादुद्वृत्तोर्मिसमाकुलम् ॥ महाभारते आदिपर्वणि

## २१ अथाये

अर्थात्—यह जो समुद्र में उधार और भाटा से उहर्ते कपर को उठ २  
कर पुनः गिरती हैं। इस का कारण वायु और चन्द्रमा की कला की छहि  
और ह्रास होता है।

## वेद या वर्त्यवेक्षण ( Observation )

शलाका या यष्टि या दूसरे किसी पदार्थ के सहारे से जो आकाशस्य  
नक्षत्रादिकों को देखते हैं, उस क्रिया का नाम सस्तुत में “ वेद ” है। एव  
यन्त्रादि द्वारा देखने से “ यन्त्रवेष ” कहते हैं। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों,  
एवं हमारे कलिपय नवशिक्षित भारतवर्षीय लंगों की ऐसी धारणा है कि  
भारतवर्ष में वेद की परम्परा एवं वेदविषयक ग्रन्थ तथा यन्त्रादिक नहीं  
थे और त कहीं वेदशाला थी इत्यादि ॥

यह धारणा उन की एकमात्र युक्तिशूल्य और जयित्वासनीय है क्योंकि  
जिन सूर्य, यृथिवी, नक्षत्र, धूमकेतु आदि की गति आदि को यथावत् जानने  
के लिये अझरेज अर्थों स्पष्ट व्यय करके एक यन्त्र निर्माणपूर्वक ५०० वर्ष के  
उगमग में ग्रहादिकों की गति विधि आदि से अभिज्ञ हुए है, इन विधयों  
को हमारे पूर्वज करोड़ों वर्ष पूर्व ही से निश्चय कर हमारे ज्योतिष शास्त्र में  
उन का उल्लेख कर गये हैं। राशिवक्त १२ भाग, एवं एक एक भाग में तीस २  
अंश एवं ३६० अश का राशिवक्त, धूमकेतु, सप्तर्षि तारे, ग्रहण आदि विषय,  
शहस्रति का गुरुत्व अधिक ज्ञान कर गुह नाम रखना, महूल को लोहिताङ्ग  
( अंगों ने ताम्बे की जार्दं रङ्ग निश्चय किया है ) इत्यादि विना यन्त्रों ही  
कर गये हैं। अब हम यहाँ पाठकों के अवलोकनार्थ कलिपय वेद यन्त्रों का  
मामं लिखते हैं ॥

१-गोलयन्त्र ( Globe ) काठ का बता—हुगोल और सूगोल के विषयों को  
चिवडारा भलीभान्ति ज्ञान के लिये। देखो मृ० मि० अ० १२  
एवं सिहुस्त शिरोमणि भुवनकोष ॥

२-चक्र यन्त्र धातुमय या काष्ठमय-इस यन्त्र से यहों का अक्ष, भीग, शर आदि जाना जाता है (अङ्गुरेजी में "चेहोलाइट कम्पास" कहते हैं) इस से पृथिवी को भी भाष कर क्षेत्र फल जान लेते हैं।  
 ३-चाप अङ्गुरेजी सरकार के सरवे विभाग एवं इंजीनियरिंग विभाग  
 ४-तुरंगोल में इस से काम लिया जाता है।

५-नाड़ी वलय-इस यन्त्र से स्थदेशीय उदय आदि काल ज्ञान होता है।  
 ६-घटिका यन्त्र-प्रसिद्ध ही है।

७-शहूकु-हाथीदान्त या किसी घन पदार्थ का १२ अङ्गुल लम्बार बना कर उस को लाया से कालज्ञान, दिशा आदि जानते हैं।

८-फलक यन्त्र-इस से काल ज्ञान होता है।

९-प्रष्टियन्त्र (Compass) क्षेत्र फल निकालने के लिये ऐसा, ज्याहुँ, अता, त्रिज्या इत्यादि प्रयोजन के लिये होता है।

१०-स्वयंवह यन्त्र-काल ज्ञान के लिये।

यहा हम ने दिहमात्र यन्त्रों का नाम लिखा है। यन्त्रों के बनाने के लिये हमारे भारतवर्ष में शिल्पगण उपोतिषियों से जिज्ञाषे, उन के ग्रन्थ भी भिन्न २ थे, क्योंकि जहाँ यन्त्र का उल्लेख उपोतिषय में आया है। मायः यह लिखा रहता है कि अच्छे गोलविद्या जानने वाले शिल्पी से अमुक यन्त्र बनवावें। वाल्मीकीय रामायण के बालकारह में जहाँ महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, लिखा है कि यज्ञशाला और यज्ञवेदी आदि बनाने के लिये गणक, शिल्पी, सनक, सक्षा ( यद्वृ ) आदि को चुलाना चाहिये। इस से शिल्प शाला और ज्योतिष शाला भिन्न २ होने के कारण ज्योतिष शाला में यन्त्र निर्माण का पूरा उल्लेख नहीं किया गया है। शिल्प शाला के ग्रन्थ अधुना नहीं मिलते। परन्तु यन्त्रविधायक थोड़े से नवीन ग्रन्थों का नाम लिखते हैं जो आपनाथों के अनुकूल ही हैं।

१-सर्वतोभद्र यन्त्र-भास्कराचार्य रूप सिद्धान्त शिरोमणि पुस्तक में इस का उल्लेख है, परन्तु यह ग्रन्थ नहीं, मिलता है।

२-यन्त्रराज=महेन्द्रसूरि रूप एवं इस पर भास्महोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी ने टीका की है। १८२ स्तोक है। शाके १८२ का बना है।

३-भूषध्मस्यन्त्र-पद्मनाभकृत ३१ स्तोक है। इस पर टीका ग्रन्थकारने अपने भाष की है। शाके १३२० में बना।

पु-यन्न प्र चिन्तामणि-चक्रधरकृत शाके ११०० में बना । ५६ शोक में ग्रन्थ  
समाप्त हुवा है ॥

५-प्रसोदयन्न—गणेशकृत । १३ श्लीक ॥

६-गोखानल्द-चित्तानणि ने १२५ सौकास्तक पत्र घनाया ॥

## वैधशाला ( Observatory )

वैधशाला उस को कहते हैं जहां ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धिय यन्त्र ( वैधी-  
यंयोगी ) रखे रहते हैं और समय २ पर यन्त्रद्वारा ग्रहादिकों को वैध  
कर गणितद्वारा गति आदि का निश्चय करते हैं । यह कार्य बहुत धनमात्र  
होता है । इसी कारण प्रत्येक राज्यशासन समय यह राजास्थित रहा । इस  
समय थोड़े काल से जब से भारत की राज्यशासी समुद्र यान पर चढ़ कर हीपान्तर  
को गई, उस के साथ २ भारत की विद्या भी गई । एवं वैधशाला आदि का  
क्रम टृट गया ॥

पाठकों के भवलीकनार्थे योहे से स्थानों का नाम लिखते हैं कि जहां ३  
बेधशाला थीं—और कहीं २ अथ भी मृत्युकस्त्र होरही हैं ॥

१-सिवारा  
२-पूर्णीर  
३-बीड  
४-हैदराबाद }

५-दिल्ली  
६-मथुरा  
७-जगपुर  
८-उज्ज्येश्वरी

९-काशी-थी राजा मानसिंह कारित-मान मन्दिर नाम से प्रसिद्ध है। इस का जीर्णद्वार तक इस समय नहीं हो सका। इस विषय पर पं० वायूदेव शास्त्री जी ने सन् १९६८ हैस्वी में एक लेख प्रकाशित किया था और अहुत शोक प्रकाशित किया था ॥

भूगोल वर्णन

यद्यपि खगोल विद्यायक पुस्तक के साथ खगोल का सम्बन्ध उतना नहीं है परन्तु सूर्य सिंह अ० १२ में इस का विषय गौणभाव से आया है और काष्ठ-

मध्य मूर्गोल और खगोल की रथना का प्रकार लिखा है। इस कारण अब हम उस गोल का वर्णन करते हैं ॥

कृत्रिम गोलः एक घातु के तार के आधार से रहता है। यह तार उस गोल के बीच में से केन्द्र होके जाता है इस के दो अन्त एक पीतल के भल-वृत्त में दो छेद होते हैं, उन में लगे रहते हैं। यह पीतल का चालवृत्त आधारवृत्त कहावे और तार पृथिवी का “अक्ष” कहावे। पृथिवी का अक्ष अर्थात् उम के केन्द्र पर से जाने द्वारी एक काल्पनिक रेशा है जिस पर उस का भ्रमण माना है और जिस की घारें और समस्त वस्त्र पदार्थों का भ्रमण प्रतिदिन देख पड़ता है ॥

उस अक्ष के दोनों अन्तों को पृथिवी के भ्रुव कहते हैं उन में एक को “उत्तर भ्रुव” और दूसरे को “दक्षिण भ्रुव” कहते हैं ॥

जो वृत्त दोनों भ्रुव होके जाते हैं उन को “पार्श्वोत्तरवृत्त” (एक को दक्षिण वृत्त और दूसरे को उत्तर वृत्त) या “मध्याह्न वृत्त” कहते हैं। मूर्गोल के पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर पूर्वने से पृथिवी का केन्द्र और मूर्य इन के ठांक यीच में जय को दृश्याहृ वृत्त आता है तथ उम मध्याह्न वृत्त पर मूर्य के सम्मुख जितने देख रहते हैं। उन में मध्याह्न होता है ॥

कृत्रिम वृत्त पर केवल १२ मध्याह्न वृत्त लिखे रहते हैं और अवशिष्ट स्थान में आधार वृत्त को मध्याह्नवृत्त कर सकते हैं ॥

पृथिवी के दोनों भ्रुवों से जो समान अन्तर पर एक वृत्त रहता है और जो गोल के समान दो भाग करता है उस को “निरक्ष देश” कहते हैं। और गोल के उत्तराहुं को “उत्तर गोल” और दक्षिणाहुं को “दक्षिण गोल” कहते हैं ॥

अब पृथिवी के एष पर जो स्थान हैं उन पर पूर्वीक अनेक काल्पनिक वृत्त मान के उम स्थानों का परस्पर स्थितिसम्बन्ध किस प्रकार से ठहरते हैं इस का विवार करते हैं:-

प्रत्येक वृत्त के ३६० समानभाग मान लिये हैं उन प्रत्येक को अंश कहते हैं। इस लिये अद्य वृत्त में १०० अंश वृत्त के चतुर्थांश में १० अश होते हैं। जैसे दोनों भ्रुव परस्पर १०० अश दूर में हैं और निरक्षदेश से प्रत्येक भ्रुव १० अंश पर है। निरक्ष देश से किमी स्थान के अंशाभ्यक अन्तर को “अक्षांश” कहते हैं जो वह स्थान निरक्ष देश के उत्तर में हो तो “उत्तर अक्षांश”

एवं दक्षिण में हो तो “ दक्षिण अक्षांश ” कहलाते हैं । परन्तु संस्कृत में स्थान की जिस दिशा में निरक्ष देश हो उस दिशा के अक्षांश कहलाते हैं । अर्थात् निरक्ष की उत्तर में स्थान हो तो दक्षिण अक्षांश और दक्षिण में स्थान हो तो उत्तर अक्षांश होता है । इस लिये यह परिभाषा उक्त परिभाषा से उलटी है जैसा उत्तरध्रुव और निरक्षदेश इन के ठीक सध्य में ४५° उत्तर अक्षांश हैं परन्तु संस्कृत में वे दक्षिण अक्षांश कहलाते हैं ॥ निरक्षदेश से जो २ स्थान अधिक दूर रहते हैं, वहां अक्षांश अधिक होते हैं ॥

### कृत्रिम गोल पर किसी निर्दिष्ट स्थान के अक्षांश जानने के लिये

नियम-आधार यूक्ति की जो अलङ्कृत निरक्ष से प्रूव तक अंशस्थान में अद्वित रहती है उस अलङ्कृत के नीचे निर्दिष्ट स्थान को ले आना तथ उस स्थान के कपर जिस अंश संरूपा का चिह्न हो उतने अक्षांश जानना ॥

किस स्थान पर सब से अधिक अक्षांश हैं, और कितने होते हैं । पहिले कहा है कि हर एक यूक्त में ३६० अंश मान लिये हैं । उन को अंश कहते हैं इस लिये एक अंश की उम्म्याई यूक्तके महत्व के अनुसार होती है । गोल पर जो वृत्त गोल के समान दो भाग करते हैं उन की महावृत्त कहते हैं । जैसे निरक्षदेश भूयान्वृत्त ये सब महावृत्त हैं । महावृत्त के एक अंश की उम्म्याई अनुमान ३० कोश होती है । अब हिन्दुस्तान के उत्तर से दक्षिण तक और वैसे ही सिहल आफिका अमेरिका और आष्ट्रीलिया इन के स्थलमान से उम्म्याई गिनो ॥

### किसी निर्दिष्ट स्थान में जितने अक्षांश हों उतने ही अक्षांश

जितने स्थानों में होवें उन सब स्थानों को जानने के लिये

नियम-आधार यूक्त की जो अलङ्कृत निरक्ष से प्रूव तक अश संरूपा से अद्वित रहती है उस अलङ्कृत के नीचे उस निर्दिष्ट स्थान को ले आना पुनः उस के कपर जिस अश संरूपा का चिह्न हो उस संरूपा की नज़र में घर गोल को पुगाने से जो २ स्थान उस चिह्न के नीचे आयें वे अभीष्ट स्थान हैं ॥

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निरक्षदेश से १० अंश के अन्तर पर जो दो भूयस्थान हैं उन्हें छोड़ और किती स्थान का निश्चय केवल अक्षांश पर से नहीं हो सकता । जितने स्थान पर समान अक्षांश हैं वे सब अवश्य निरक्षदेश

के एक समान्तर वृत्त में रहते हैं। उस समान्तर वृत्त को "स्पष्ट परिधि" कहते हैं। अब कृत्रिम गोल पर यद्यपि केवल १६ स्पष्ट परिधि लिये रहते हैं ती भी गोल पर हर एक स्थान पर से एक स्पष्ट परिधि की कल्पना हो सकती है। गोल पर के १६ स्पष्ट परिधियों में हर एक गोलाहुं में आठ २ लिखे रहते हैं और हरएक गोलाहुं में निरक्ष और प्रुध इन के धीर में ८० अश होने के कारण वे स्पष्ट परिधि सब मध्याहु वृत्तों को दश २ अशों से विभक्त करते हैं। और हरएक विभाग का मध्य देश भी अक्षांश जानने के लिये आधारवृत्त से विभक्त हो सकता है। यह स्पष्ट है कि पृथिवी के प्रुध तो स्वतः निश्चित हैं। उन पर से निरक्ष देश का निश्चय होता है। निरक्ष देश पर से स्पष्ट परिधि ठहराये जाते हैं। परन्तु वहां से पूर्वोपर देश नापते हैं। उस के ठहराने का इस में कोई प्रकार नहीं है। इस लिये वैसा "यास्पौत्र" वा 'मध्याहु वृत्त' जिस से पूर्वोपर देश नापते हैं और जिस को मुख्य रेखा कहते हैं, उस का ठहराना स्वतन्त्रता से होता है॥

जैसा भारतवर्षीय ज्योतिष यन्हों में उज्जिपिनी आदि पर से जो मध्यान्ह वृत्त जाता है उस को मुख्य रेखा भानते हैं। और अङ्गरेज् लोग लगड़न पर से जो मध्यान्ह वृत्त जाता है उस को मुख्य रेखा भानते हैं और मुख्य रेखा छोड़ कर और जो स्थान हैं वे उस के पूर्व में या पश्चिम में गिने जाते हैं। जिस प्रकार किसी स्थान का निरक्ष रेखा से जो अन्तर होता है उसे अक्षांश कहते हैं। उसी प्रकार उस स्थान का जो मुख्य रेखा से अन्तर निरक्ष पर नापा जाता है उस को "देशान्तर" कहते हैं॥

देशान्तर निकालने का नियम-आधारवृत्त के नीचे निर्दिष्टस्थान को ले आना। तब मुख्य रेखा से आधार वृत्ततक निरक्षदेश में जितने अग्र होगे जो निर्दिष्टस्थान का देशान्तर होगा॥

जो निर्दिष्टस्थान मुख्यस्थान के दहिनी ओर होवे वो पूर्व देशान्तर और जो वाई ओर होवे तो पश्चिम देशान्तर जानना॥

**निर्दिष्ट स्थान में जो देशान्तर है, उस देशान्तर के जितने और स्थान होवें उन के जानने के लिये,**

नियम-आधारवृत्त के एक अलङ्क के नीचे निर्दिष्ट स्थान को ले आना तब एक प्रुध से ले दूसरे प्रुध तक उस अलङ्क के नीचे जितने स्थान होवे वे सब समान देशान्तर के स्थान हैं॥

## किसी स्थान के अक्षांश और देशान्तर निकालने का नियम

आधार वृत्त की ओर अलङ्घ निरक्ष से, भ्रुव तक अंशों से अद्वित रहती है, उस अलङ्घ के नीचे वह निर्दिष्ट स्थान ले आता । तथ उस स्थान के ऊपर आधारवृत्त में जितनी अंश सुख्या का चिह्न होगा, उसने वहां अक्षांश जानना, और आधार वृत्त की वह अद्वित अलङ्घ जहां निरक्ष में लगा हो वहां जितने अंश का चिन्ह होगा, उसना देशान्तर जानना ॥

### नियम ६

जिस स्थान के अक्षांश और देशान्तर ज्ञात हैं उस स्थान की गोल पर ठहराने के नियम ॥

निरक्ष देश पर निर्दिष्ट स्थान का देशान्तर का अंश चिन्ह जानके उसे आधारवृत्त की अद्वित अलङ्घ के नीचे ले आना तब आधारवृत्त पर लगाए निर्दिष्ट अक्षांश का चिन्ह हो उस के नीचे अभीष्ट स्थान होगा ॥

यह पांचवें नियम के उल्टा है ।

निर्दिष्ट स्थान कुत्रिम गोल पर किस ढांव में है । यह ठहराने की जब इच्छा है तब एथिवी पर उस स्थान के वास्तविक अक्षांश और देशान्तर जान के तदनुसार उस स्थान का कुत्रिम गोल पर चिन्ह करना ॥

### उदाहरण-

एक शुभ गोल यन्त्रके उस पर किसी एक ठांव में उत्तर भ्रुव का एक चिह्न करके उस के सामने ही गोल पर दूसरा एक दक्षिण भ्रुव का चिह्न करना । फिर उन दोनों भ्रुवों से समान अन्तर पर एक निरक्षदेश अद्वित फरके सोलह स्पष्ट परिधि और १२ मध्याहूर रेखा अद्वित करना और उन मध्याहूर रेखाओं में किसी एक को मुख्य रेखा अर्थात् लगड़न की मध्याहूर रेखा ठहराना । फिर कुत्रिम गोल पर इस मुख्य रेखा के किसी विन्दु पर लगड़न का चिह्न किया जावे से ठहराना चाहिये । जो एथिवी के एष पर लगड़न से उत्तर भ्रुव तक अन्तर माप सकते तौ उस विन्दु को ठहरा सकते । परन्तु आज तक कोई भ्रुव तक जा नहीं सका । इस लिये उस विन्दु को ठहराने के लिये जो भाकाश से सम्बन्ध रखते हैं सो कोई दूसरा प्रकार यहां अवश्य लगाना चाहिये ॥

भाकाश की ओर देखने से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पृथिवी के चारों ओर और सब आकाशस्थ पदार्थ भ्रमण करते हैं । जबवा पृथिवी अपने अद्व तर पर भ्रमण करती है और इसी से सब खस्त पदार्थ इनारी दृष्टि के सामने आते हैं । इन दोनों कल्पनाओं में पृथिवीके भ्रमण विशेष में लघव है और वैदिक प्रमाण से भी पृथिवी ही का भ्रमण सिद्ध होता है । अब ऐसी

कल्पना करो कि पृथिवी अपने अत पर नित्य एक बार घमणा करती है। तब पृथिवी के केन्द्र से उस का भ्रुव स्थान होके जाने हारी रेखा में ओ कोई नक्षत्र होता तो और सब धूमते हुये नक्षत्रों में वही एक स्थिर देख पड़ता। एक घमकीली तारा उस स्थिर स्थान के अतिनिकट में है इसी लिये उस को भ्रुव तारा कहते हैं। जो देखने वाला पृथिवी के भ्रुव स्थान पर रहता है उस का वह भ्रुव तारा ठीक शिर पर दिखाई देता है। और जो निरक्षदेश पर रहता है उस को यह पृथिवी जहां चारों ओर आकाश में लगी हुई दिखाई देती है जिस को स्फुरत में “किंतिज” कहते हैं उसमें भ्रुवतारा देख पड़ता है। इसी प्रकार भास्कराचार्य ने भी “सिद्धान्तशिरोमणि” नामक ग्रन्थ में लिखा है:-

### निरक्षदेशे द्वितिमण्डलोपगौ

**भ्रुवौ नरः पश्यति दक्षिणोत्तराविति ॥**

पृथिवी पर निरक्षदेश और भ्रुव इन के बीच में जो देश अधिक भ्रुव के पास होगा। वहां भ्रुव तारा अधिक ऊंचा देख पड़ेगा। यह अर्थ आचार्य ने भी किं गिं में लिखा है कि:-

**उदगिदिशं याति यथा यथा नरस्तथा तथा स्वान्ततमृक्ष  
मण्डलम् । उदग् भ्रुवं पश्यति चोन्नतं क्षितेरिति ॥**

अब यह भ्रुव तारों की कंचाई एक वृत्त में हर एक क्षेत्रज्ञ नाय सकता है और इस कंचाई में जितने अंश होते हैं वे ही निरक्ष से भूमि पर अंश हैं। अर्थात् “अक्षांश” हैं। यों लगड़न में अक्षांश ठहरा के कन्त्रिम गोल पर मुख्य रेखा में निरक्ष से उत्तर की ओर “अक्षांशान्तर” पर लगड़न का चिह्न करना। इस प्रकार से अद्या इस के सजातीय और किसी प्रकार से और सब स्थानों के वास्तविक “अक्षांश” ज्ञात होते हैं। परन्तु केवल अक्षांशों से प्रत्येक स्थान का निश्चय नहीं होता इस लिये पृथिवी के पृष्ठ पर जो स्थान हैं उन के देशान्तर जानने की रीति का अवश्य विचार करना चाहिये। पृथिवी अपने अत पर ६० घड़ी में एक बार धूमती है और ६० घड़ी का ३६० घं भाग १० पल होते हैं। इस लिये इस से यह जान पड़ता है कि जो स्थान मुख्य रेखा से धूर्व में एक अंश पर हैं वे सब मुख्य रेखा के मध्याहू काल से दश पल पहिले सूर्य के नीचे आते हैं अर्थात् वहां तब भयाहू होता है और जो स्थान मुख्य रेखा से पश्चिम एक अंश पर है, वहां मुख्य रेखा के मध्याहू काल से दश पल पीछे मध्याहू होता है। इसी प्रकार से जो स्थान पूर्व में दो अंश के अन्तर पर हैं, वहां २० पल पहिले मध्याहू होता है।

यों ही आगे भी। कृत्रिम गोल पर १२ मध्याहु वृत्त लिखे रहते हैं। इसी लिये दो २ वृत्तों के बीच में पन्द्रह २ अंश रहते हैं और १० पलों को जब पन्द्रह में शुणते हैं तब १५० पाल अर्थात् अद्वाई घड़ी होती है। अद्वाई घड़ी की एक होरा होती है। इन लिये उन नम्बर वृत्तों को "होरा वृत्त" भी कहते हैं। अब जिस स्थान पा देशान्तर उत्तराना हो उस का मध्याहु काल ब्रेथ में यूभ प्रहृता है। और उसी स्थान में जो मुख्य रेखा का भी काल ज्ञात हो तो एक सुलभ गणित से इष्ट स्थान का देशान्तर यूभ पड़ेगा। अब इतना हो फरना प्राहिये कि इष्ट स्थान का मध्याहु काल और लगड़न का मध्याहु काल इन दोनों का अन्तर जानके दश २ पलों का एक २ अंश गिमना और वे पूर्व वा पश्चिम जैसे हाँवें वैसा देशान्तर कहना जैसा कि निर्दिष्ट "पुर" के मध्याहु काल में लगड़न में ११ बजे हों तो निर्दिष्ट पुर में १५ पूर्व देशान्तर जानना और जो लगड़न में एक यजा हो तो निर्दिष्ट पुर में १५ पश्चिम देशान्तर जानना। लगड़न का काल जानने के अनेक प्रकार है। उन में एक सुलभ प्रकार यह है कि शुद्ध अर्थात् दोपरहित एक कालमापक यन्त्र पास रखके उसे लगड़न में दृष्ट काल पर लगाके उस को वहाँ से पृथिवी के इतरभाग में ले जाना तब जब तक कि वह यन्त्र शुद्ध प्रकार से चलता है तब तक उस पर से लगड़न का काल ज्ञात होगा। इस प्रकार घड़ी आदि यन्त्र बनाने की विधि हमारे शिल्प शास्त्र में है, परन्तु इस के वह ग्रन्थ नहीं मिलते हैं घड़ी न.व (जहाज) जो समुद्र में चलती है, उन पर देशान्तर जानने के लिये एक कालमापक यन्त्र रहता है। उन्नतांश यूभने के लिये एक यस्तांश नामक यन्त्र रहता है। इस से उक्तांश जानने के लिये द्वुवत्तारा वा और किसी स्वस्य पदार्थ के उपतांश नापते हैं। तब नीकाध्यक्ष की कृत्रिम गोल पर से यह स्थ जान पड़ता है कि हम समुद्र के दृष्ट पर किस ठांव में हैं और हम को इष्ट घाट पर पहुंचने के लिये किस दिशा में चलना चाहिये। ऐसी कल्पना करो कि मुख्य रेखा जहाँ निरक्ष में लगी है वहाँ नीका है। तब यहाँ दृष्ट हुआ मध्याहु और कालमापक यन्त्र से ज्ञात हुआ लगड़न का मध्याहु ये दोनों अवश्य एक ही काल में होने अव वह नाव निरक्ष देश पर पश्चिम की ओर उत्तरी दूर तक गई जहाँ दृष्ट मध्याहु काल लगड़न के मध्याहु काल के पीछे १० पल पर होते। तब यहाँ अंश पश्चिम देशान्तर होगा और उस नाव का गमन पश्चिम की ओर जनुवान ३० कोश होगा। परन्तु जो नाव ४५० अंशांशों के स्पष्ट परिधि पर अपांत्

निरक्ष और भ्रुव इन के मध्य मार्ग पर चले ही काल में दश पल अन्तरं होने से जो एक देशान्तरांश होता है, वह ३० कोश से न्यून ही कोश चलने से होगा। इसी प्रकार से और उत्तर की ओर देशान्तरांश की उम्म्वाई और छोटी रहती है। यह सद्य पृथिवी की गोलत्व कल्पना पर ऐसी घटना होनी चाहिये तदनुसार ही होती है। पृथिवी गोल है। यह कल्पना नाथ चलने की जितनी रीतियाँ हैं उन सद्यों का मूल है और इन रीतियों से नाथिक को कोई वही मूल कभी नहीं होती। इस लिये नाथिक छोग जां पृथिवी का आकार मानते हैं उस से और मांति का उस का आकार होना असम्भवनीय है॥

### विधि ७

**किसी निर्दिष्ट स्पष्ट परिधि पर एक देशान्तरांश में कितने कोश होते हैं यह जानने के लिये नियम**

निर्दिष्ट स्पष्ट परिधि पर दो होरा दर्तों के बीच में जितना अन्तर होगा उतना निरक्ष पर नापके उस में कितने अंश अन्तरगत होते हैं, सो देख सेना। फिर उस अश सख्त्या को दो से गुण देना। उतने कोश निर्दिष्ट स्पष्ट परिधि पर एक देशान्तरांश की उम्म्वाई होती है। मूर्य जो पर्याय से फिर २ उसी मध्याह्न वृत्त पर आता है, इसी से प्रायः “काल गति” की गिनती होती है। इस से किसी मनुष्य का पृथिवी के स्पष्ट पर मध्याह्न वृत्त बदलने से कुछ असत्कारिक घटना होती हैं॥ उदाहरण-ऐसी कल्पना करो कि कोई एक मनुष्य पृथिवी को ६० घड़ी में एक प्रदक्षिण कर सकता है और पृथिवी के अपने अक्ष पर घूमने से साठ घड़ी में उस की धारों ओर मैं मूर्य का भ्रमण देख पड़ता है इस लिये वह मनुष्य अपनी गति से किसी स्थान को मध्याह्न काल में छोड़ पर्यायन की ओर चलना हुआ सबंदा मूर्य के नीचे रह सकेगा। अर्थात् उस को साठों घड़ी मध्याह्न ही बना रहेगा और वह मनुष्य जिस स्थान से चलो यहां के रहने हारे मनुष्य की उतने काल में दो मध्याह्न होंगे अर्थात् वह एक दिन गिनेगा और वे दो मनुष्य जब फिर गिनेंगे तब उन दोनों की गिनती में एक दिन का अन्तर होगा॥

यहां एक पुरुष की साठ घड़ी में पृथिवी को प्रदक्षिण करने का सामर्थ्य जानके दोनों की गिनती में एक दिन का भी दिखलाया। परन्तु उस प्रदक्षिण करने हारे मनुष्य को साठ ही घड़ी में एक प्रदक्षिण करना आवश्यक नहीं है। वह चाहे उतना जीरे वले और उस के चलने में जाहे उतना विराम

हो तौ भी वह मनुष्य प्रदक्षिण करके जब फिर अपने स्थान पर आवेगा तब उस की गिनती में एक दिन न्यून होगा ॥ उदाहरण—

ऐसी कल्पना करो कि कोई मनुष्य अपने स्थान से पश्चिम की ओर एक दैशान्तरांश पर गया, तब उस के छोड़े हुवे स्थान में जिस काल पर जितने मध्याह्न होंगे, उस काल के दश पल पीछे उस मनुष्य को वहाँ २ उतने मध्याह्न होंगे, यह स्पष्ट है । इस गणित से जब वह मनुष्य अपने स्थान से १० अंश पर पश्चिम में जा रहेगा, तब उस को अपने स्थान के मध्याह्नों से पन्द्रह घड़ी पीछे उतने मध्याह्न होंगे । यों ही जब वह १० अंश पर जा रहेगा तब उसको ३० पहुँची पीछे उतने मध्याह्न होंगे । जब वह २५ अंश पर जा रहेगा, तब उस को ५५ घड़ी पीछे उतने मध्याह्न होंगे और जब ३६० अंश पर जा रहेगा, अर्थात् फिर अपने स्थान पर आ पहुँचेगा, तब उस को शाठ घड़ी पीछे उतने मध्याह्न होंगे । इसी लिये वहाँ उस की गिनती में एक दिन न्यून होगा फिर वह चाहे उतना धीरे चला हो और उस के चलने में चाहे उतना चिराज हुआ हो । यों ही जो कोई मनुष्य किसी स्थान से पूर्व की ओर चले तौ उस को मध्याह्न उत्तरोत्तर पहिले ही होंगे । तब जब उस को एक प्रदक्षिणा हाँगी तब उस की गिनती में एक दिन बढ़ जायगा ॥

पृथिवी के प्रदक्षिण करके आये हुवे लोगों से जो लोग मिले हैं उन का उन आये हुवे लोगों के साथ दिन बार के विषय में प्रायः विवाद हुआ है ॥ कृत्रिम गोल की उण में रखने के लिये यों कि जिस से

### वह पृथिवी की वास्तविक स्थिति दिखलावे

नियम—पहिले खुले स्थान में समान भूमि पर ककांटक ( कम्पास ) से उपर उत्तर दक्षिण करके उस के बैन्हू स्थान में एक मूर्च्याकार शुक्र उत्तरा । उस शुक्र के अग्र की दाया मध्याह्न के पहिले और पीछे उस दृत के परिधि में जहाँ लगे वहाँ दो चिह्न फरना । फिर उस चिह्नों पर से एक सरल रेखा करके उस रेखा के किसी स्थान पर उस भूमि में एक लम्ब रेखा फरनी । वह लम्ब रेखा उस स्थान की यान्मयोत्तर ( दक्षिण उत्तर ) रेखा कहावे । तब उस भूमि पर कृत्रिम गोल को यों रखना कि जिस में उस का आधार भूत ठीक उस यान्मयोत्तर रेखा पर रहे । फिर अपने रहने के स्थान का जो चिह्न गोल पर होगा, उसे आधार दृत के नीचे ले आके प्रयुक्तस्थान की अक्षांशों

भ्रुवस्थान के चारों ओर ३३। २३ अन्तर पर जो वृत्त होते हैं उन को क्रम से “उत्तर कदम्बवृत्त” और “दक्षिण कदम्बवृत्त” कहते हैं। दो अयनवृत्त और दो कदम्बवृत्त इन चार वृत्तों से भूगोल के पांच विभाग होते हैं। उन को भूगोल के खण्ड कहते हैं। जो खण्ड दो अयनवृत्तों के बीच में है उसे उत्तर-खण्ड कहते हैं क्योंकि पूर्वी के और प्रदेशों की अपेक्षा से वहां उत्तरता विशेष रहती है। भ्रुवस्थान के चारों ओर कदम्बवृत्तों के भीतर जो देश हैं उन को शीतखण्ड कहते हैं क्योंकि वहां शीत बहुत रहता है। और उत्तर खण्ड और शीत खण्ड इन के बीच में जो खण्ड हैं उन को क्रम से उत्तर और दक्षिण समशीतोष्णखण्ड कहते हैं॥

### भ्रुवन संस्था

आधुनिक सिद्धान्तानुसार जिस पृथिवी पर हम लोग रहते हैं वह आकाश में सूर्य के भाकर्यण पर ठहरी है। इस के ऊपर अन्तरिक्ष जिस में मेष, वायु, चन्द्रमा हैं और उस के ऊपर महालादि प्रह एवं सूर्य और सूर्य से ऊपर नक्षत्र भरहल है। अब हम वेद के प्रमाण देते हैं:-

योस्य प्रथमः प्राणः ऊर्ध्वो नामासौ स अग्निः ॥३॥

योस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः ॥४॥

योस्य तृतीयः प्राणोऽभ्युढो नामासौ स चन्द्रमाः ॥५॥

योस्य चतुर्थः प्राणो विभुर्नामाथ स पवमानः ॥६॥

योस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा “आपः” ॥७॥

योस्य पष्टः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः ॥८॥

योस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः ॥९॥

योस्य प्रथमो व्यानः सेर्वं भूमिः ॥ १ ॥

योस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम् ॥ २ ॥

योस्य तृतीयो व्यानः सा द्यौः ॥ ३ ॥

योस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥ ४ ॥

( अथर्वं सं० काण्ड १५ । १५ । १७ )

इन मन्त्रों से दैशर प्रात्य नामधारीने विराटस्वद्वप्य में भुवनस्या का उपदेश किया है—अर्थात्

१—नक्षत्रमण्डलं या राशिचक्र—सघ से ऊपर । इस के नीचे

२—द्यौः लोक—जहाँ सूर्य एवं अन्यान्य मङ्गलादि यह हैं । इस के नीचे

३—अन्तरिक्ष लोक—जहाँ चन्द्रमा है । एवं इसी अन्तरिक्ष में चन्द्रमा के नीचे

४—धायुमण्डल, जल, मेघ, इन्द्रधनुष् आदि का स्थान है—जीर सब से नीचे

५—प्रजा या भूमि है । आपुनिक विद्वानों ने निश्चय किया है कि ४५ मील

से १०० पर्यन्त ऊपर को वायुमण्डल है जिस में मेघ विशुली आदि हैं ।

इसी प्रकार हमारे प्रास्कराचार्य आदि ने जी लिखा है—

**भूमेर्वहिर्द्वादश योजनानि । भूवायुरत्राम्बुविद्युदाद्यम् ॥२॥**

( सिंशिं मध्यगति वासना )

दीनों आर्यं भट्ठ, लक्ष्मि ने भी ऐसा लिखा है अर्थात् भूमि से ऊपर १२ योजन या ६० माइल पर वायुमण्डल है इसी में निर्धात, उल्का, मेघ, इन्द्र-धनुष्, धीज, गन्धर्व नगर ॥

**निर्धातोल्का धनसुरधनुर्विद्युदन्तः कुवायोः ।**

**संदूरश्यन्ते खननगरपरीवेपपूर्व० ॥.**

एथिधी के ऊपर जो यायु हैं वह सात प्रकार के हैं । आयह, प्रवह, उद्यह, संवह, सुवह, परिवह और परायह । इन्हों सात यायुओं को सात पाताल या तीन द्वीप हैं वन से गुणम करने से ४८ होते हैं । वस्तुतः एक ही है परन्तु स्थान भेद से सिवा २ स्थाया की गई है । इसी को पुराण वालों ने ४८ करोड़ वायु लिखा है “कोटि” का अर्थ प्रकार है ४८ कोटि अर्थात् ४८ प्रकार के । इसी “कोटि” को करोड़ संख्या अर्थ समझ कर पीराणिक महात्माने लिख भारा है ॥

**आवहः प्रवह उद्यहस्तथा संवहः सुपरिपूर्वकौ वही ॥**

**सप्तमस्तु पवनः परावहः कीर्त्तिः कुमरुदायहोपरैः ॥ १॥**

( धीवृद्धिद तन्त्र ग्रहभ्रमसंस्या ) ॥

**सप्ताहुंगभां भुवनस्य रेतो विष्णुस्तिष्ठन्ति प्रदिशा  
विधर्मणि । ऋष० सं० १ । १६४ । ३५ ।**

प्रुवस्थान के चारों ओर ५३। २७ अन्तर पर जो युज होते हैं उन को कम से "उत्तर कदम्यवृत्त" और "दक्षिण कदम्यवृत्त" कहते हैं। दो अयनवृत्त और दो कदम्यवृत्त इन चार वृत्तों से भूगोल के पांच यिभाग होते हैं, उन को भूगोल के खण्ड कहते हैं। जो रुपह दो अयनवृत्तों के बीच में है उसे उच्च-खण्ड कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के और प्रदेशों की अपेक्षा से वहाँ उच्चता विशेष रहती है। प्रुवस्थान के चारों ओर कदम्यवृत्तों के भीतर जो देश हैं उन को शीतखण्ड कहते हैं क्योंकि वहाँ शीत बहुत रहता है। और उच्च खण्ड और शीत खण्ड इन के बीच में जो खण्ड हैं उन को कम से उत्तर और दक्षिण समशीतोष्णखण्ड कहते हैं॥

### भुवन सर्स्या

आधुनिक सिद्धान्तामुकार जिस एथिकी पर हम लोग रहते हैं वह आकाश में मूर्य के भाकर्यण पर ठहरती है। इस के ऊपर अन्तरिक्ष जिस में मेष, वायु, चन्द्रमा है और उस के ऊपर मङ्गलादि यह एवं मूर्य और सब से ऊपर नक्षत्र भग्नलहै। अब हम वेद के प्रमाण देते हैं:-

योस्य प्रथमः प्राणः ऊर्ध्वो नामासौ स अग्निः ॥३॥

योस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः ॥४॥

योस्य तृतीयः प्राणोऽभ्युठो नामासौ स चन्द्रमाः ॥५॥

योस्य चतुर्थः प्राणो विभुर्नामाथ स पवमानः ॥६॥

योस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा “आपः” ॥७॥

योस्य पठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पश्चवः ॥८॥

योस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः ॥९॥

योस्य प्रथमो व्यानः सेर्य भूमिः ॥ १ ॥

योस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम् ॥ २ ॥

योस्य तृतीयो व्यानः सा द्यौः ॥ ३ ॥

योस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥ ४ ॥

( अर्थवं सं० काण्ड १५ । १५ । १७ )

इन सत्त्रों से दैवत आत्म नामधारीने विराट्स्वरूप में भुवनसंस्था का उपदेश किया है-अर्थात्

१-नक्षत्रमण्डल वा राशिचक्र-सब से ऊपर । इस के नीचे

२-द्यौः लोक-जहाँ सूर्यं पृथ्वं अन्यान्य महालादि यह हैं । इस के नीचे

३-अन्तरिक्ष लोक-जहाँ चन्द्रमा है । एवं इसी अन्तरिक्ष में चन्द्रमा के नीचे

४-वायुमण्डल, जल, जेघ, इन्द्रधनुष् आदि का स्थान है-और सब से नीचे  
५-प्रजा वा भूमि है । आधुनिक विद्वानों ने निश्चय किया है कि ४५ ग्रील

से १०५ पर्यन्त ऊपर को वायुमण्डल है जिस में जेघ छिन्नुली आदि हैं ।

इसी प्रकार हमारे भास्कराचार्य आदि ने भी लिखा है:-

**भूमेर्वहिद्वदश योजनानि । भूवायुरत्राम्बुविद्युदाद्यम् ॥२॥**  
( सिं० शि० मध्यगति वासना )

दोनों आयं जह, लक्ष ने भी ऐसा लिखा है अर्थात् भूमि से ऊपर १२ योजन या ६० भाइल पर वायुमण्डल है इसी में निर्धात, उल्का, जेघ, इन्द्र-धनुष्, वीज, गन्धर्व नगर ॥

**निर्धातोत्का घनसुरधनुर्विद्युदन्तः कुवायोः ।**

**संदृश्यन्ते खनगरपरीवेष्पूर्व० ॥**

एथिदी के ऊपर जो वायु हैं वह सात प्रकार के हैं । आवह, प्रवह, उद्वह, संवह, त्रिवह, और परावह । इन्होंने सात वायुओं को सात पाताल या जो द्वीप हैं वन से गुणन करने से ४९ होते हैं । वस्तुतः एक ही है परन्तु स्थान भेद से सिव २ स्थाया की गई है । इसी को पुराण वालों ने ४९ करोड़ वायु लिखा है “कोटि” का अर्थ प्रकार है ४९ कोटि अर्थात् ४९ प्रकार के । इसी “कोटि” को करोड़ संख्या अर्थ समझ कर पौराणिक महात्माने लिख भारा है ।

**आवहः प्रवह उद्वहस्तथा संवहः सुपरिपूर्वकौ वहौ ॥**

**सप्तमस्तु पवनः परावहः कीर्तिः कुमरुदावहोपरैः ॥ १॥**

( धीवृद्धिद तन्त्र ग्रहभ्रमसंस्था ) ॥

**सप्तार्द्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णुस्तिष्ठन्ति मदिशा  
विधर्मणि । क्रृ० सं० १ । १६४ । ३५ ।**

भाय थं - चन्द्रमा और यदादिको की कक्षा कान्ति शृङ्ख के आम पास है, यह फली कान्तिशृङ्ख के उत्तर या दक्षिण कान्तिशृङ्ख को काट कर जाता है जिन को "घिक्षेप" कहते हैं। यह विक्षेप ग्रा अथ उत्तर या दक्षिण में रहता है। यह कान्ति प्रदेश १५ अथ छोड़ा है।

### भूगोलरेखा वर्णन

वैदिक प्रभाणों से खगोल एवं भूगोल  
की रेखादि का वर्णन

यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सव्य-  
मक्ष्यसौ स चन्द्रमाः ॥२॥ अथर्ववेदे । कारणे १५

अथात् व त्वं नामधारी ईश्वर के दक्षिण जांख मानो मूर्यं है बाहूं जांख चन्द्रमा, दिन रात नामिका, दिति और अदिति ( आकाश के दो खशह पूर्व और पश्चिम ) दोनों कपाल और संबलतर थिर है। इस उपदेश से हम को मूर्यां द की सत्त्वा, दिन रात का होना, आकाश के विभाग एवं नक्शे का बनाना आदि का ज्ञान होता है ॥

प्रपितृयाणं पन्थां जानाति प्रदेवयानम् ।

( अथर्ववेदे १५ । १२ । ५ )

अथात्-मूर्यं जाय उत्तरायण एव दक्षिणायण होता है उस को कम से उत्तरायण को "देवयान" एव दक्षिणायण को "पितृयान" कहते हैं ॥

वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः ।

शरह्मन्तः शिशिरस्ते पितरः स (सूर्यः) ।

यत्रोदगावर्त्तते देवेषु तर्हि भवति ।

यत्र दक्षिणावर्त्तते तर्हि पितृषु भवति ॥

( शतपथब्राह्मणे २ । १ । ३ )

भाषार्थः—यमन्त, ग्रीष्म, वर्षा इन ऋतुओं में सूर्य उत्तरायण होने के कारण देवयान ( उत्तर मेह ) में होता है और शरह्म, हेमन्त, शिशिर इन ऋतुओं में पितृलोक ( दक्षिण मेह ) में होता है अथात् दक्षिणायण ॥

यंथा वै पुरुष एवं विपुवांस्तस्य यथा दक्षिणोऽहु  
एवं पूर्वाहुर्वी विपुवतो यथोत्तराहुं एव मुत्तराहुर्वी  
विपुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रबाहुक् सतः  
शिर एवं विपुवान् ॥ ऐतरेय ब्राह्मणे १८ । २२ ।

**भावार्थ**—जिस प्रकार पुरुष होता है उसी प्रकार विपुवान् सूर्य होता है। जिस प्रकार पुरुष के शरीर वा शिर के पूर्वाहुं और दक्षिणाहुं होते हैं उसी प्रकार पूर्वाहुं एव उत्तराहुं होते हैं अर्थात् समान दो भाग होते हैं। इसी कारण जब सूर्य मेष एवं कन्या राशिस्य दीखता है तो उस समय अहोरात्र वरान्शर होता है ॥

ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासीऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे ॥

( यजुर्वेद अ० ३४ । २७ )

**भावार्थ**—एथिवी के भ्रमण सार्ग को रविमार्ग वा कान्तिवृत्त कहते हैं, जिस पर सूर्य प्रत्येक राशि में जाते दीखता है ॥

पडाहुःशीतान् पदु मास उष्णान्ततम् ॥

( अर्णववेद १८ । ५ । १० । १७ )

**भावार्थ**—उः सहीने सूर्य के उत्तरायण होने के कारण गर्भ रुक्षती है। एवं उः मास के दक्षिणायण होने से शीत होता है ॥

तस्मादादित्यः परमासी दक्षिणैति यदुन्तरेण ॥

( सैक्षिरीय ब्राह्मणे ६ । ५ । ३ )

**भावार्थ**—विपुवती देखा से उः मासपर्यन्त सूर्य दक्षिण जाते दीखता है, एवं उः मासपर्यन्त उत्तरायण में उत्तर की ओर जाते दीखता है ॥

द्वादश प्रधयश्चकमेकं त्रीणि नभ्यानि क उत्तिष्ठिकेत ।

तस्मिन्साकं त्रिशता न शङ्कवोर्पिताः परिन चलाचलासः ॥

( ऋ० स० १ । १६४ । ४८ )

**भावार्थ**—३६० अंश का एक चक्र ( सवत्सर वा स्केर ) होता है, जिस में तीन नामि ( गर्भी, शर्दी, वयो चतु वा मूल, भविष्यत्, धूमंभान ) हैं। उक्त ३६० अंश समातन और भविष्यत है ॥

पष्टि॑ सहस्राश्वस्यायुतासनमणीणां विंशतिं शतो ।  
दश श्यावीनां शता दश श्यरूपीणां दश गवां सहस्रा॥

( ऋ० स० ८ । ४६ । २२ )

भावार्थ - और प्रत्येक ३६० में साठ २ कलाएँ ( या दण्ड ) होती हैं ।  
अर्थात्  $360 \times 60 = 21600$  कला ॥ २१६०० कला

त्वमेताज्ञनराज्ञो द्विर्दशावन्धुना सुश्रवसोपजर्खमुपः ।  
पष्टि॑ सहस्रा नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्प-  
दावृणक ॥ ऋ० सं १ । ५३ । ६ ॥

भाव थं - और प्रत्येक कला में साठ २ विकला ( या पल ) होती है ।  
अर्थात्  $21600 \times 60 = 1296000$  विकला ॥

योऽश्वेभिर्वहते वस्त उस्ताख्यिः सप्त सप्तोनाम् ॥ २६ ॥  
अधप्रियभिपिराय पष्टि॑ सहस्रासन्द्रभ् ॥ २६ ॥

( अर्थात् स० ८ । ४६ । २६ )

भावार्थ - और प्रत्येक विकला में साठ २ अनुकला ( विपल ) होती है  
अर्थात्  $1296000 \times 60 = 7776000$  अनुकला ॥

चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्वकं न वृत्तं  
व्यतीरचीविपद् ॥ ऋ० सं १ । ११५ । ६

भावार्थ - ३६० अश का एक चक होता है और इस में चार पाद होते हैं । प्रत्येक पाद में नव्ये २ (९०) अंश होते हैं, जिन को वृत्तपाद-फहते हैं ॥

अनवत्साखिं शतं योजनान्येकैका क्रतुं परियन्ति सद्यः ।

( ऋ० स० १ । १५३ । ८ )

भावार्थ - यहां पर ठीक सूर्योदय होता है उस स्थान से (पश्चिम) परे ३७ योजन पर उप प्रकाश होता है ( अरुणोदय से पहिले जो प्रकाश होता है) इस सन्वत से हृश्वर देशान्तर साने और सूर्य एक ही समय में सबंध उदित वा अस्तमित नहीं होता, इस का उपदेश फरता है ॥ इति ॥

ज्योतिष के ग्रन्थों में बहुत से साक्षेतिक दुर्लभ शब्दों से संस्कृतायें निर्देश की गई हैं, उन प्रत्येक का अर्थ-

| साक्षेतिक शब्द | भाषार्थ    | साक्षेतिक शब्द | भाषार्थ  |
|----------------|------------|----------------|----------|
| अत्यष्टि       | १७         | हन             | सूर्य १२ |
| अज             | १          | हृषि           | ५        |
| अनल            | ४          | देवता          | २        |
| अध             | शून्य, ०   | हृषा           | ३        |
| अति            | ३          | हृश            | ११       |
| अङ्ग           | ६          | उरग            | ८        |
| अक्षि          | शमीश्वर    | उह             | नवमी २३, |
| अम्बर          | ०          | ऋत             | नवमी ५३  |
| अक्ष           | १२         | ऋतु            | ६        |
| अस्त्रिय       | ४          | ककुम्          | १०       |
| अङ्गु          | ८          | कर             | २        |
| अवधि           | ४          | काल            | ८        |
| अनिम           | ३          | कु             | २        |
| अद्वि          | ७          | कुम            | महाल     |
| अग             | ७          | कुम्र          | ८        |
| अरुण           | १२         | कुमा           | १        |
| अश्वि          | ८          | कुलि           | यग       |
| अचल            | ७          | कृत            | ४        |
| अष्टि          | ८०         | य              | शून्य ०  |
| आधा            | ८          | सुग            | ८        |
| आङ्ग           | जोड़ा हुवा | सेट            | यह       |
| आकर            | महाल       | गंगा           | ८        |
| आहत            | गुणित      | गी             | ८        |
| इज्य           | शहस्रपति   | गुण            | ८        |
| इन्दु          | १          | ग्रह           | ८        |
| इन्द्र         | १४         | घन             | १५       |
| इम             | ८          | यान            | गुणन     |

ज्योतिष के ग्रन्थों में बहुत से साक्षेत्रिक दुरुह शब्दों से संख्यायें निर्देश की गई हैं, उन प्रत्येक का अर्थ—

| साक्षेत्रिक शब्द | भाषाधं | साक्षेत्रिक शब्द | भाषाधं |
|------------------|--------|------------------|--------|
| चन्द्र           | १      | नन्द             | १०     |
| लिङ्ग            | ०      | नमस्             | २      |
| ज्ञ              | ६४     | नपन              | ३      |
| जलधि             | ४      | निशाकर           | ४      |
| जिग              | ५४     | निगम             | ५      |
| जिट्टु           | १४     | पक्ष             | २      |
| ज्वलन            | ३३     | पर्वत            | ७      |
| नक्ष             | ५५     | पर्योधि          | ८      |
| तत्त्व           | २५     | पात्रक           | ९      |
| नान              | ४८     | पृथिवी           | १०     |
| निधि             | १५     | प्रसाकर          | ११     |
| त्रि             | ५      | वाण              | ५      |
| गुरु             | १      | वाहु             | ८      |
| दन्त             | ३२     | भ                | १२     |
| दशन              | ३२     | भुज              | १३     |
| दहन              | ३२     | भुज्ज्व          | १४     |
| दत्त             | ३२     | भू               | १५     |
| दिव्य            | ०      | भूधर             | १६     |
| दिन              | ०      | भूप              | १७     |
| दृक्             | ०      | भूमि             | १८     |
| दिव              | ०      | भूमिधर           | १९     |
| द्युधर           | ०      | शौल              | २०     |
| द्वि             | ०      | महत्             | २१     |
| देव              | ०      | महीधर            | २२     |
| भरणी             | १      | महीज             | २३     |
| नस               | २०     | मार्गण           | २४     |
| नग               | १      | मुनि             | २५     |
| नव               | १      | यम               | २६     |

ज्योतिष के ग्रन्थों में वहुत से साक्षेतिक दुर्लभ शब्दों से संख्यावें निर्देश की गई हैं, उन प्रत्येक का अर्थ—

| साक्षेतिक शब्द | भाषार्थ | साक्षेतिक शब्द | भाषार्थ |
|----------------|---------|----------------|---------|
| यमल            | ८       | शिव            | ११      |
| यम             | ८       | शिसी           | ३       |
| यग             | ८       | शिलीमुण        | ५       |
| रन्ध्र         | ८       | शेषित          | विभव    |
| रद्            | ८       | शैल            | ७       |
| रस             | ८       | यद्            | ८       |
| रघि            | ८       | सर्प           | ८       |
| राम            | ८       | सागर           | ४       |
| रह             | ८       | सायक           | ४       |
| जप             | ८       | सितहृष्ट       | ११      |
| लोधम           | ८       | सिद्ध          | १२      |
| वन्हि          | ८       | सितत्विट्      | १२      |
| वसु            | ८       | सुर            | ३       |
| यसुधा          | ८       | सूर्य          | १२      |
| विष्ट          | ८       | सीति           | शनि     |
| वाहि           | ८       | हत             | ५       |
| विघर           | ८       | हिमांशु        | ५       |
| विश्व          | ८       | हस्ती          | ५       |
| विषु           | ८       | हृतभृक्        | ५       |
| वीतिहोत्र      | ८       | हृत            | ५       |
| व्यास          | ८       | हृति           | पटाना   |
| ओम             | ८       |                |         |
| शर             | ८       |                |         |
| शशि            | ८       |                |         |
| शशाङ्क         | ८       |                |         |
| श्रिति         | ११      |                |         |
| शली            | ११      |                |         |

४३८

सूर्यसिद्धान्त भाषानुवादः

—卷之三—

अचिन्त्यावयक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । समस्तज-  
गदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥ अल्पावशिष्टे तु  
कृते मयनामा महासुरः । रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञा-  
सुज्ञानमुत्तमम् ॥ २ ॥ वेदाह्नमश्यमस्तिलं ज्योतिपां गति-  
कारणम् । आराधयन्विवस्यन्तं तपस्तेषे सुदुश्वरम् ॥ ३ ॥  
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने । ग्रहाणां चरितं  
प्रादान्मयाय् सविता स्वयम् ॥ ४ ॥ विदितस्ते मया भाव-  
स्तोषितस्तपसा ह्यहम् । दक्षां कालाश्रयं ज्ञानं ग्रहाणां  
चरितं महत् ॥ ५ ॥ न मे तेजःसहः कश्चिदाख्यातुं ना-  
स्ति मे क्षणः । मदंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यते  
॥ ६ ॥ इत्युक्तवान्तर्दधे देवः समादिश्यांशमात्मनः । स  
पुमान्मयमाहेदं प्रणतं प्राङ्गुलिस्थितम् ॥ ७ ॥ शृणुपौक-  
मनाः पूर्वं यदुक्तंज्ञानमुत्तमम् । युगे युगे महर्णीणां स्व-  
यमेव विवस्यता ॥ ८ ॥ शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह  
भास्करः । यगानां परिवर्त्तन कालभेदोऽत्र केवलम् ॥ ९ ॥

**भारपानुवाद**—उस व्रतको जिस का रूप ध्यान में नहीं आसकता और न किसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो सकता है, जिस में सत्त रज तम आदि प्रकृतिके गुण नहीं हैं और नित्य ध्यान सुसग्दि गुण वर्तमान हैं और जो अद्विल अगत् को भारण करता है, नमस्कार है ॥ १ ॥ सत्प्रयुग के अन्त से थोड़े समयपश्चिमे भयनामक महा अमृत ने यह शूद्र पुरुषवामक सम से छोड़ और उत्तम

ज्ञान ॥ २ ॥ जो सब वेदाङ्गों ( वेद के छः अङ्ग हैं, ग्रन्थ, कल्प, ध्याकरण, निरुक्त, उन्दः शास्त्र और ज्योतिष ) में अप्रणीत है और यह नक्षत्रों की गति का कारण है, जानने की इच्छा से नारायण की आराधना करके अतिकठोर परिश्रम वा तप किया ॥ ३ ॥ उस के तप से प्रसन्न होकर वर घाहने वाले भय को घर्हों का सम्पूर्ण ज्ञान सूर्य ने दिया ॥ ४ ॥ सूर्य ने कहा—हे भय! मैंने तेरा प्रयोजन जाना और मैं तेरे तप से प्रसन्न हुया, मैं तुम को काढ़ के आश्रय जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है यह दूँगा ॥ ५ ॥ मेरा तेज कीर्ति नहीं सम्भाल सकता और मुझे उपदेश करने का अवकाश भी नहीं इस लिये यह पुरुष जो मेरा अंश है तुम से सम्पूर्ण शास्त्र कहेगा ॥ ६ ॥ यह कह कर सूर्य अपने अंश पुरुष को आज्ञा देकर अन्तर्धान हो गया और उस पुरुष ने भय से जो हाथ जोड़े और भय हुया खड़ा था, यह कहा ॥ ७ ॥ हे भय! जो उत्तम ज्ञान स्वयं सूर्य ने पूर्व युग में भहरियों को उपदेश किया था उस को एकाग्र हो अवण करो ॥ ८ ॥ यह यहुत प्राचीन शास्त्र है जो पूर्वकाल में सूर्य ने वर्णन किया है और प्राचीन और आधुनिक शास्त्रों में युगों के यद्दलने का कारण केवल काल का भेद है। अर्थात् ध्रहादिकों की गति विधि भादि निरूपण के नियम एकसे रहते हैं परन्तु समय २ परवेध ( Observation ) द्वारा यहों को देखने से कुछ बीज ( Correction ) देना पड़ता है, इस कारण कुछ २ काल में भेद पड़ता है ॥ ९ ॥

विवरण—स्त्रीक २-७ असुर जाति के भय ने खगोलस्य पदार्थों के सम्प्रकृत ज्ञान के लिये “सावित्र विद्या” ( ज्योतिष शास्त्र ) में कठिन परिश्रम ( Study ) किया जिस से प्रथम उस ने सूर्य ( जो सारे जगत् में सब से बड़ा पदार्थ एवं केन्द्र स्वरूप है ) का निश्चय किया ( उस का आकार, गति, वर्ण, भगण आदि ) और उसी को भूल मानकर सौर जगत्स्य अन्यान्य ग्रह, उपर्यह ऐंथं नक्षत्रादि समस्त जाकाशस्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया। इसी को जालद्वारिक वर्णन में ( सूर्य की तपस्यादि ) प्राचीन शैलों से लिखा है। ज्योतिष शास्त्र को प्राचीन समय में “सावित्रविद्या” कहते थे इस में प्रमाणः—

“अहीनाशृत्यः । सावित्रं विदाद्विकार ॥ १० ॥ स ह हंसो भूत्वा ।

स्वर्गं लोकस्थित्याय । देवभागो ह श्रीतर्पयः । सावित्रं विदाद्विकार ॥ ११ ॥ शूषो ह यार्पयः । आदित्येन समाजगाम ॥ तै० ब्रा० ३ । १० । १० ॥

अर्थात् अशृत्या ने अश्वीर ने सावित्रविद्या को जाना और स्वर्ग

को प्राप्त हुवा और शीतर्द देवभाग ने सावित्रिविद्या को जाना और वार्ष्ण्य शूष्य ने सावित्रिविद्या को जाना और नूर्यके तुल्य (विद्यामें) प्रकाशमान हुवा॥

झोक ६ । ७ । ८ के विषय में पाठ भी इह है । पूजा के आनन्द आश्रम नामक पुस्तकालय में एक टीका रहिल पुस्तक है जिस के नं० ८५०९ में इस प्रकार पाठ है कि “न मे तेजःशृः कथिदारुपातुं नास्ति मे क्षणः । नदंशः पुरुषोऽप्य ते निःशोषं कथयिष्यति ॥ ६ ॥ तस्मात् त्वं स्वां पुरोऽगच्छ तत्र ध्वानं ददामि से । रोमके नगरे ब्रह्मशायान्म्लेच्छायतररथूक् ॥ ७ ॥ इत्यु-  
क्त्वान्तर्दध्ये देवः” अर्थः—हे भय ! मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और मुझे कहने का समय नहीं । यह मेरा अंश पुरुष तुम से सब कहेगा । इस लिये तू अपनी नगरी को जा, वहाँ रोमकनगर में ब्रह्मशायप से मैं झ्लेच्छायतार लेने याला हूँ तो वहीं तुमे ज्योतिषपश्चात्य का उपदेश करूँगा । यह पाठ सटीक एक पुस्तक में ६ झोक नहीं है, एवं दूसरी में दोनों हैं । इस पर मिस्टर रें वर्जेस (अंग्रेजी अनुवादक) की सन्नति है कि उक्त झोक ६ । ७ । ८ असङ्गत हैं किसी ने लिखा जान पड़ते हैं । इस पर पूरा वर्णन भूमिका में किया गया है, वहाँ देखिये ॥

लोकानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः ॥ स  
द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्त्यश्चामूर्त्य उच्यते ॥ १० ॥ प्राणादिः  
कथितो मूर्त्यस्खुल्याद्योऽमूर्त्यसंज्ञकः ॥ पद्भिः प्राणीर्व-  
नाडी स्थान्तरपृष्ठा नाडिका स्मृता ॥ ११ ॥ नाडीप-  
स्थ्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम् ॥ तत्त्विंशता भ-  
विन्मासः सावनोऽकीर्दयैस्तथा ॥ १२ ॥ ऐन्द्रवस्तिथि-  
मिस्तद्वृत्संक्रान्त्या सौर उच्यते ॥ मासैद्वृदशमिर्वर्षं दि-  
व्यं तदहरुच्यते ॥ १३ ॥ सुरासुराणामन्योऽन्यमहोरात्रं  
विपर्ययात् ॥ तत्परिः पद्मुणा दिव्यं वर्षमासुरमेव च  
॥ १४ ॥ तद्वृदशसहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम् ॥ सूर्याद्व-  
संख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः ॥ १५ ॥ सन्ध्यासन्ध्यांश-

सहितं विज्ञेयं तत्त्वतुर्युगम् ॥ कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्म-  
पादव्यवस्थया ॥ १६ ॥ युगस्य दशमोभागश्चतुर्खिद्वयेकपद्  
गणः । क्रमात्कृतयगादीनां पष्ठांशः सन्ध्ययोःस्वकः ॥ १७ ॥

भायाद्वारा—काल दो प्रकार का है, एक वह जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति और नाश का कारण होने से अनन्त है। दूसरा जो ज्ञानगम्य है अर्थात् गणित द्वारा जानने योग्य है। ज्ञानगम्य काल दो प्रकार का है। एक सूत्तं या स्थूल है, दूसरा सूत्तम् (जिस का परिमाण नहीं हो सकता) है। १०॥ प्राण से लेकर बृहपादि पर्यन्त काल को सूत्तं काल कहते हैं। एवं त्रुटि आदि (अति सूत्तम् काल जो वयवहार में नहीं आता) को असूत्तं काल कहते हैं। उः प्राण की १ विनाही (पल) एवं ६० विनाही की १ नाही (घड़ी, दिन) होती है। ११॥ ६० नाही का १ नात्कान्त्रिक अहोरात्र (दिन + रात्रि) और ३० नात्कान्त्रिक अहोरात्र का १ नात्कान्त्रिक महीना होता है। एक सूर्य के उदय से लेकर दूसरे सूर्य के उदय पर्यन्त काल को "सावन" (Civil day & night) वा "पार्विद्व" अहोरात्र कहते हैं और ३० माघन अहोरात्र का १ सावन समय होता है। १२॥ ३० तिथियों का १ चान्द्रमास होता है। संकान्ति से संकान्ति तक काल का १ सौर मास होता है—और प्रत्येक पूर्वोक्त १२ नात्कान्त्रिक मास का १ नात्कान्त्रिक वर्ष, १२ सावनमास का १ सावनवर्ष, १२ चान्द्रमास का १ चान्द्र वर्ष और १२ सौरमास का १ सौरवर्ष होता है। एवं १२ सौर मास का दिव्य अहोरात्र होता है (देवता और असुर का)॥ १३॥ देव और असुरों का अहोरात्र विपर्येय (बरअक्ष) से होता है अर्थात् जब देवताओं का दिन होता है, तब असुरों की रात्रि होती है। एवं जब असुरों का दिन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। ऐसे दिव्य ३० अहोरात्र का १ दिव्यमास और १२ दिव्य महीनों का १ दिव्य वर्ष होता है॥ १४॥ पूर्वोक्त १२००० दिव्य वर्षों की १ चतुर्युगी (चौकही-युग) होती है। जिस के सौर वर्ष ४३२०००० होते हैं॥ १५॥ उक्त चतुर्युगी का परिमाण सन्ध्या और सन्ध्यांश मिलाकर है। चतुर्युगी में जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि काल से ४, ३, २ और १ (संस्था से जो आगे गुणन होगा) हैं यह धर्म के ४ चरण की जाहे हैं॥ १६॥ युग (पूर्वोक्त १ महायुग वा चतुर्युगी) के वर्ष के दशम भाग को ४, ३, २ और १ से गुणा करने से काल से कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग के वर्षों

का परिमाण होगा और इन प्रत्येक युगों के वर्ष परिमाण का छठा भाग अपना २ सन्ध्या और सन्ध्यांश वर्ष होता है जो उसी में जिला है अर्थात् प्रत्येक युगमात्र वर्ष के छठा भाग के वर्ष दो भाग में से एक भाग आदि सन्धि का वर्ष और दूसरा भाग अन्त सन्धि का वर्ष होता है ॥ १३ ॥

११-विघण-सेकरण के  $\frac{1}{3}$ ३४० भाग को शुटि कहते हैं ॥

१२-एक दिन जिस समय माध्यान्हिक रेखा के क्षेत्र कोई स्थिर तारा दीख पड़ती है उस समय से उस के दूसरे दिन उसी रेखा पर-जिस समय उक्त तारा दीख पड़े, उसने समय को नाक्षत्रिक अहोरात्र कहते हैं ॥

१३-एक दिन के मध्यान्ह काल से उसके दूसरे दिनके मध्यान्हकाल वर्षन्त समय को प्रकल्प सौर दिन कहते हैं ॥

१४-पृथिवी का उत्तरमीह के निवासी देव और दक्षिण मेह के निवासी असुर कहते हैं । पृथिवी की दैनिक गति से जब छ: भास में उस का उत्तर-भेदप्रदेश सूर्य के भग्नमुख होता है तब देवताओं फा छ: भास तक दिन और उस समय असुरों की रात्रि और जय पृथिवी का दक्षिणप्रदेश सूर्य के सामने होता है तब असुरों का छ: भासीने का दिन और उस समय देवों की रात्रि होती है । इस प्रकार पृथिवी की धार्यिक गति में १ वर्ष का-देवता और असुरों का १ अहोरात्र होता है ॥

युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ कृताद्वद्सं-

ख्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलपूष्वः ॥ १८ ॥ ससन्धयस्ते

मनवः कल्पे ज्ञेयाश्रुतुर्दश ॥ कृतप्रमाणः कल्पादौ स-

न्धिः पञ्चदशः स्मृतः ॥ १९ ॥ इत्थं यगसहस्रेण भूतसं-

हारकारकः ॥ कल्पोग्राहसमहः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती

॥ २० ॥ परमायुः शतं तस्य तथाहोरात्रसंख्या ॥

आयुपोऽर्द्धमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः ॥ २१ ॥ कल्पा-

दस्माद्ब्रु मनवः पद्व्यतीताः ससन्धयः ॥ वैवस्वतस्य च

मनोर्युगानां त्रिघनो गर्तः ॥ २२ ॥ अष्टाविंशत्युगाद-

स्मादात्मेतत्कृतं युगम् ॥ अतः कालं प्रसंख्यय संख्या-  
मेकत्र पिण्डयेत् ॥ २३ ॥

भाषामूः-पूर्वोक्त ११ महायुगों ( चतुर्थंगी ) की १ मन्यन्तर संघा है और  
मन्यन्तर के अन्त में सत्ययुग के वर्ष परिभाषण ( सौर वर्ष १७८८:०० जिस के  
द्विष्य वर्ष ४८०० होते हैं ) के वरावर सन्धि का परिभाषण है । इस सन्धि सम्म  
सारी पृथिवी जा से भर जाती है अर्थात् जलमय हो जाती है ॥१८॥ पूर्वोक्त  
१४ मन्यन्तर का १ कल्प होता है । इस में १४ अन्त की सन्धियां होती हैं और  
एक आदि सन्धि सत्ययुग के वर्ष परिभाषण के वरावर होती है अर्थात् १ कल्प में  
१५ मन्यन्तर और १५ सन्धियां होती हैं ॥१९॥ पूर्वोक्त रीति से १००० चतुर्थंगी  
का १ कल्प होता है जिस के अन्त में सब प्राणियों का नाश हो जाता है ।  
१ कल्प का १ ब्राह्म दिन होता है और इसी परिभाषण की रात्रि अर्थात् पूर्वोक्त २ कल्प का १ ब्राह्म अहोरात्र होता है ॥ २० ॥ ब्रह्म की आयु ( सुष्ठि  
वर्तमान रहेगी ) ब्राह्ममान से १०० वर्ष की है अर्थात् पूर्वोक्त ३० ब्राह्म अहो-  
रात्र का १ ब्राह्ममान, एवं १२ ब्राह्म मान का १ ब्राह्म वर्ष होता है । ऐसे १००  
वर्ष की ब्रह्म की आयु है । इस आयु का आधा भाग वीत गया और अव-  
शिष्ट ( वाकी ) आयु के कल्पों में से यह वर्तमान पहिला कल्प है अर्थात्  
१०० वर्ष में से ५० वर्ष पूरे वीत गये । एवं ५१ वा वर्ष अवशिष्ट आयु का वीत  
रहा है ॥ २१ ॥ इस वर्तमान कल्प ( ब्राह्मदिन ) में से ६ मन्यन्तर सन्धियों  
सहित वीत गये हैं और इस वर्तमान वैवस्वत नामक सम्म मन्यन्तर के ११  
महायुगों में से पूरे २७ चतुर्थंग वीत गये हैं ॥ २२ ॥ और २८ वर्षों चतुर्थंगी में  
से सत्ययुग पूरा वीत गया है । अब काल की संख्या करने के लिये इस २८  
वर्षों चतुर्थंगी के कल्प युग तक के बीते हुवे वर्षों को एक स्थान में योग करो ॥२३॥

विधरण-द्वोक्त १८ से २३ तक

१४ मन्यन्तरों के नाम ये हैं—१ स्यायम्भुव, २ स्वारोचिष, ३ ओज्जनि,  
४ लाम्स, ५ रेषत, ६ पाकुष, ७ विषस्वत, ८ सावर्णि, ९ दक्षसावर्णि, १० ब्रह्म  
सावर्णि, ११ घर्मसावर्णि, १२ रुद्रपुत्र, १३ रीच्य, और १४ भौत्यक । ये १४  
मन्यन्तर और १५ सन्धि मिलाकर १००० महायुग होते हैं । महायुग का  
दधम भाग ४३०:० सौ० वर्ष कलियुग का परिभाषण, इस के द्विगुणित द्वापर,  
तीन गुणा व्रेता और चार गुणा सत्ययुग और प्रत्येक युग के वर्षों का छठा  
भाग आदि और छठा भाग अन्त सन्धि के वर्ष होते हैं ॥

### युगवर्ज्ञापक चक्र

| कल्पयुग  |        | द्वापर युग |          | चतुर्थ या महो युग |        |
|----------|--------|------------|----------|-------------------|--------|
| सीर      | वर्ष   | सीर        | वर्ष     | सीर               | वर्ष   |
| संविधि   | सीर    | प्रिया     | संविधि   | प्रिया            | संविधि |
| सीर      | वर्ष   | जीर        | संविधि   | जीर               | वर्ष   |
| युगमान   |        | युगमान     |          | युगमान            |        |
| आर्दि    | १८४००० | ४५६        | आर्दि    | १८००००            | ३००    |
| संविधि   |        |            | संविधि   |                   |        |
| कल्प युग |        |            | युगमान   |                   |        |
| कल्पमान  |        |            | १८००००   |                   |        |
| अन्तर    | १८४००० | ४५०        | अन्तर    | १८००००            | ३००    |
| संविधि   |        |            | संविधि   |                   |        |
| मान्त्रि |        |            | मान्त्रि |                   |        |
| सहित     |        |            | सहित     |                   |        |
| युगमान   |        |            | युगमान   |                   |        |

१ मन्यन्तर=३१ महायुग

२ युगयुग=सीरयम्  $1840000 \times 45 = 83800000$  सीर यर्पे (१ मन्यन्तर के यर्पे) इन को १५ [मन्यन्तर] से गुणिता हो ४५४५००००० सीर यर्पे हुये (१५ मन्यन्तर के यर्पे) १५ सत्रि १ सत्रि में १७८००० सीरयं । इन को १५ से

गुणा किया तो २५३०००० सौर वर्ष हुये। इस संह्या को १४ मन्यन्तर की वर्ष संह्या में योग किया तो ४३२००००००० सौर वर्ष हुये। यही १ कल्प वा द्वाष्ट दिन का परिमाण हुआ। इसी प्रकार इतने ही वर्ष की द्वाष्ट रात्रि होती है। इस वर्तमान कल्प के ६ मन्यन्तर वीत गये।

$$6 \times ३०६७२५००० \text{ (मन्यन्तर परिमाण)} = १८४३२०५०० \text{ सौर वर्ष}$$

मन्यन्तर की वीती हुई सन्धि ३X १२८:०० (सन्धि परिमाण वर्ष) = १२०५६:००  
 वीते हुवे चतुर्युग २७ X ४३२००:० (१ चतुर्युग वर्ष) = ११६४००००  
 गत कृत युग १९२०००

कल्प के आरम्भ से सतयुग के अन्त पर्यंत १९२००४४०० सौर वर्ष हुवे॥

ग्रहक्षदेवदैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्। कृताद्विवेदा  
 दिव्याद्वाः शतम्ना वेधसोगताः॥ २४॥ पश्चाद्व्रजःतोऽति  
 जवाक्षत्रैः सततं ग्रहाः। जीयमानास्तु लम्बन्ते तु-  
 ल्यमैव स्वमार्गगाः॥ २५॥ प्राग्गतित्वमतस्तेषां भगणैः  
 प्रत्यहं गतिः। परिणाहवशाद्विना तद्वशाद्वानि भुञ्जते  
 ॥ २६॥ शीघ्रगस्तान्यथालपेन कालेन महतालपगः। तेषां  
 तु परिवर्त्तनं पौर्णान्ते भगणः स्मृतः॥ २७॥

भाषानु०-कल्प के आरम्भ से जगद्विर्माता ईश्वर को यह, नक्षत्र, देव,  
 अमुर, भनुष, भूमि, पर्यंतादिकों ( भराचर=जङ्गम, स्थायर ) की स्थानिकता  
 हुवे ४३४०० दिव्य वर्ष वीत गये॥ २४॥ यह सब अपने २ भागों पर नक्षत्रों के  
 साथ अति शीघ्र गति से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं परम्परा नक्षत्रों से  
 चलने में योग्य होते रहते हैं। यह गति सब यहाँ की तुल्य वेग से जनित  
 है॥ २५॥ इस कारण यहाँ की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है और उस गति  
 का ज्ञान यहाँ के भगणों के नाम से होता है। यहाँ की कक्षाओं ( Orbit ) के  
 परिपथ ( Circumference ) मिल २ होने के कारण यद्यपि ८८ की तुल्य वेग  
 से जनित है तथापि मिल २ है॥ २६॥ शीघ्र चलने वाले यह घोड़े समय में  
 राधि धर का धमण पूरा करलेते हैं और भन्द २ चलने वाले पह अधिक  
 समय में एक भगण पूरा करते हैं। राधिचक में रेवती के योग तारा से चल-  
 कर पुमः यहाँ लौट कर आजाने को प्रत्येक यहाँ का अपनार “भगण” कहते  
 हैं॥ २७॥

विवरण—२४ स्तोक ४७४०० दिव्य वर्ष  $\times$  ३६० = १५०६४००० सौर वर्ष को १८९०९८४००० ( पूर्वोक्त सीर वर्ष ) वर्ष से घटाने पर शेष १८५३७२०००० सौर वर्ष कल्प के आरम्भ से कृतयुग के अन्ततक उपलील हुए हैं । अब इस प्रकार समझना चाहिये कि—

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| कृतयुग के अन्त तक                                  | १८५३७२०००० |
| गत चतुर्वयुग                                       | १८५६०००    |
| गत द्वापर                                          | ८६४०००     |
| गत कलि (मिति चैत्र कृष्णपक्ष संवत् १८५८ तक) पृ० ०२ |            |

योग १८५८५००२

वर्तमान सुष्टि संवत् यही है और चैत्र शुक्ल १ संवत् १८५८ को १८५८५००३ का आरम्भ होगा ॥

२६ ॥ यहों की कक्षा वडी और छोटी होने के कारण प्रत्येक की गति एकसी नहीं होती है । अर्थात् जिन यहों की कक्षा वडी है ( जैसे शनि, द्वाहस्त्रिति ) उन की अपनी कक्षा में शूर्य की परिक्रमा करने में अन्यान्य छोटी कक्षा वाले यहों की अपेक्षा अधिक समय लगता है । और जिन की छोटी कक्षा ( जैसे—चन्द्रमा, बुध, शुक्र ) है उन की गति अधिक होती है ॥

विकलानां कला पष्ठ्या तत्पष्ठ्या भाग उच्चते । तत्  
त्रिंशता भवेद्राशिर्भगणो द्वादशीवते ॥२८॥ युगे सूर्यज्ञ-  
शुक्राणां खचतुप्करदार्णवाः । कुजार्किगुरुशीघ्राणां  
भगणाः पूर्वयायिनाम् ॥ २९ ॥ इन्दोरसाम्नित्रिज्ञीपु-  
सप्तमूधरमार्गणाः । दस्यप्तुरसाङ्काशि लोचनानिकु-  
जस्य तु ॥३०॥ बुधशीघ्रस्थ शून्यर्तुखाद्रिग्यहूनगोन्ददः ।  
द्वहस्पते: खदसाक्षि वैदपद्मवह्नयस्तथा ॥ ३१ ॥

भाषानुवाद—६० विकलाओं की ( Second ) १ कला ( Minute ) और ६० कलाओं का १ अंश ( Degree ), ३० अंश की एक राशि ( Sign ) और १२ राशियों का १ भरण ( Revolution ) होता है ॥ २८ ॥ एक चतुर्युगी में शूर्य, बुध और शुक्र शूर्य की ओर चलने में ४३२०००० भरण पूरा करते हैं । मङ्गल,

शनि और शृहस्पति के शीघ्रोच्च के भगण भी ४३८८००० ही होते हैं ॥ २८ ॥  
एक महायुग में चन्द्रमा के ५७७५३३३६ और भूल के २८६८२ भगण होते हैं ॥ २९ ॥  
एक महायुग में शुध के शीघ्रोच्च के १७३३३०६० और शृहस्पति के ५६४८२० भगण होते हैं ॥ ३१ ॥

**विवरण-**२८ शोक-मूर्य और चन्द्रमा की कक्षा का वह स्थान जो पृथिवी से अत्यन्त दूर हो, उन का मन्दोच्च कहलाता है (मूर्य और चन्द्रमा का), नद्दलादि ५ यहों ( भूल, शुध, शृहस्पति, शुक, शनैश्चर ) का वह स्थान जो मूर्य से अत्यन्त दूर हो। उन का मन्दोच्च कहलाता है और वह स्थान जो पृथिवी से अत्यन्त दूर हो उन का शीघ्रोच्च कहलाता है ॥

**सितशीघ्रस्यपट्सप्त्रियमाश्रिवखभूधरः । शनेभु-**

**जङ्गपट्पञ्चरसवेदनिशाकराः ॥ ३२ ॥ चन्द्रोच्चस्याभि-**

**शून्याश्रिवसुर्पर्णवायुगे । वामं पांतस्य वस्त्रिनि-**

**यमाश्रिशिखिदत्तकाः ॥ ३३ ॥ भोनामष्टाक्षिवस्यद्वित्रि-**

**द्विद्वयष्टरेन्दवः । भोदया भगणैः स्वैः स्वैरुत्ताः स्वस्यो-**

**दयायुगे ॥ ३४ ॥ भवन्ति शशिनो मासाः सूर्यन्दु भगणान्त-**

**रम् । रविमासोनितास्ते तु शेपाः स्यराधिमासकाः ॥ ३५ ॥**

**भाषानुवाद-**एक महायुग में शुक के शीघ्रोच्च के ३०२२३३६ और शनि के १४४५६८ भगण होते हैं ॥ ३२ ॥ एक महायुग में चन्द्रमा के मन्दोच्च के ४८८८३ और चन्द्रमा के वामपात वा राहु ( Scending nod or north nod ) के २३२३८ भगण होते हैं ॥ ३३ ॥ एक महायुग में नक्षत्रों के १५८८३३७८८ भगण होते हैं । इस नक्षत्र भगण संरूपा में से यहों के भगण घटाने पर महायुग ने प्रत्येक यहों की अपनी २ उदयसंरूपा निकल आयेगी ॥ ३४ ॥ सूर्य के भगणों में से चन्द्रमा के भगणों को घटाने पर शेष ( याकौं ) अङ्ग महायुग ने चान्द्रमास की संरूपा होयी और इस चान्द्रमास से सौरमास घटाने पर जो यही महायुग में अधिमास की संरूपा होगी ॥ ३५ ॥

**विवरण-**३२ शोक-भूल, शृहस्पति और शनि के भगण और शुध के शीघ्रोच्च और शुक के शीघ्रोच्च के भगण एक युग में सूर्य के चारों ओर परित्यास की संरूपा है ॥

विवरण-३३ श्लोक-कान्तिवृत्त जो सूर्य का मार्ग है, यहाँ की कक्षाये उस के सम सेत्र में नहीं हैं, परन्तु उस के साथ कोण बनाती हैं और कभी उस को काट कर कपर चढ़ती हैं, कभी उस को काट कर नीचे आती हैं। जिस स्थान में कांतिवृत्त को ग्रहों की कक्षा काटकर कपर चढ़ती हैं उस की "पात" (राहु या केतु) कहते हैं। यह पात स्थान बदलता रहता है और इस की घटना गति है अर्थात् यूर्य से पश्चिम की ओर है ॥

विवरण-३४ श्लोक-किसी नक्षत्र का निरक्ष देश में जहाँ दिन रात बराबर होता है, एक स्थान पर उदय होकर फिर उसी स्थान पर उदय होना नक्षत्रभगण कहलाता है और जो समय इस में लगता है उस का नाम नाक्षत्र दिवस है, इस लिये युग में १५८२२३७८८ ज्ञात्रिक दिन हुवे। इस में से जिस ग्रह के भगण चंहपा को घटादें, युग में उस ग्रह की उदयसंहपा (दिन) होगी। जैसे सूर्य के भगण ४३२०००० के उक्त संहपा से घटाने पर शेष १५९९८१९८८८ संहपा होगी। यही एक युग में सूर्योदय की संहपा है (जावन दिन हुवे), इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहों का भी जानना ॥

विवरण-३५ श्लोक-एक भावायुग में चन्द्रमा के भगण ५९५५३३३६। सूर्य के भगण ४३२०००० घटाने से शेष अन्तर ५३४४३३३६ युग में चान्द्रमास हैं। सूर्य के भगण को १२ (नात) से गुणा करने पर ५३४४३३० युग में सूर्य नात घटाने पर शेष अन्तर १५९९८३६ युग में अधिग्राम ॥

सावनाहोनि चान्द्रेभ्यो द्युभ्यः प्रोभय तिथिक्षयाः । उ-  
दयादुदयं भानोर्भूमिसावनवासराः ॥ ३६ ॥ वसुद्वयष्टा-  
द्विरूपाङ्कसप्ताद्रितिथयो युगो । चान्द्राः स्वाट्खस्वव्योमस्वा-  
ग्निस्वर्तुनिशाकराः ॥ ३७ ॥ पद्मवह्नित्रिहुताशाङ्कतिथय-  
श्वाधिमासकाः । तिथिक्षयायमार्थाश्विद्वयष्टव्योमशरा-  
म्यिनः ॥ ३८ ॥ सहचतुष्पक्षसमुद्राष्टकुपञ्चरविमासकाः ।  
भवन्ति भोदया भानुभगणौरूपिताः क्रहाः ॥ ३९ ॥ अधि-  
मासो नुरात्र्यक्षं चान्द्रसावनवासराः । एते सहस्रगणिताः ।  
कल्पे स्युर्भगणादयः ॥ ४० ॥

**भाषामुदाद-**एक महीयुग में चान्द्रदिनों (तिथि) की संख्या से सावन दिन घटानेपर शेष संख्या महायुग में "तिथितय" संख्या होगी । एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को " सावनदिन" कहते हैं ॥३६॥ एक महायुग में १५९९९९९९२८ सावन दिन और १६०३००००००० चान्द्र दिन (तिथि) होते हैं ॥३७॥ एक महायुग में १५९९९९९९२८ अधिमास और २५०८२८५२ तिथितय होते हैं ॥३८॥ एक महायुग में ५१८५०००० सौर जात्य होते हैं और नाक्षत्रदिन की संख्या में सूर्य के भग्नांशों की घटाने से जो शेष संख्या रहेगी वही युग में पार्थिव वा सावन दिन की संख्या होगी ॥३९॥ सूर्योक्त भग्नण, अधिमास, तिथितय, नाक्षत्रदिन, चान्द्रदिन और सावन दिन इन प्रत्येक को भिन्न भिन्न १०० से गुणा करने से कल्प में इन प्रत्येक की संख्या होगी ॥४०॥

विवरण ३९ शोक-युग में सावन दिनों की संख्या जानकर यहाँ की दैनिक गति (भुक्ति) जान सकते हैं और पृथिवी या सूर्य की धारों और यहांदिकोंका भग्नण काल ( भग्ना ) भी जान सकते हैं । जिस यह की दैनिक गति जाननी हो तो उस प्रह के युग के भग्नांशों को युग के सावन दिन संख्या से भाग देने पर भागफल दैनिक गति होगी । इस के लिये वैराग्यिक की क्रिया करे । १ युग के सावनदिन : युग के भग्नण :: तो दैनिक भग्नण वा दैनिक भुक्ति का होगी । जिस कारण दैनिकगति कलाओं में निकाली जाती है । इस लिये प्रत्येकप्रहाँ के युगभग्नण संख्याओं को भिन्न २ घारह से गुणा कर गुणन फल राशि संख्या होगी । उस को १० से गुणा करने पर अंश होगे, (अंश संख्या होगी) एवं अंश को ६० से गुणा करने पर कला होगी । उदाहरण के लिये प्रथम सूर्य की मध्यदैनिकगति निकालकर दिखाता हूँ:-

१ युग में सूर्यके भग्नण  $4320000 \times 12 \times 30 \times 10 =$

कृपर वाली संख्या जो गुणा

१ युग में सावनदिन संख्या १५९९९९९२८ करने पर कला संख्या होगी, उसमें नीचे वाली संख्या से भरग देने पर कला फला ५९ । यितला ८ । अनुकला १० । यही सूर्य की मध्यदैनिकगति हुई (यहा कला के अन्तर यितला और अनुकला, ६० से गुणा करने पर होगी) कला में भाग न होसका तो यितला ६० से गुणा कर याके, एवं यितला करे । शेषाङ्क को ६० से गुणा करनेपर अनुकला होगी) अब उपरोक्त नियम से प्रत्येक महालादि यहाँ की भी दैनिक भुक्ति निकल आवेगी । इस लिये प्रत्येक की क्रिया भिन्न २ नहीं लिखी गई ॥

| ग्रहण                | अश | फला | अनुकला | प्रत्यनुकला |
|----------------------|----|-----|--------|-------------|
| रवि                  | ०  | ५९  | ८      | १०          |
| चन्द्रमा             | १३ | १०  | ५५     | ०           |
| वृद्ध                | ०  | ५९  | ८      | १०          |
| शुक्र                | ०  | ५९  | ८      | १०          |
| मङ्गल                | ०  | ३९  | २६     | २६          |
| शुहस्पति             | ०  | ४   | ५९     | ९           |
| बुधशीघ्रोच्च         | ४  | ५   | ३२     | २१          |
| शुक्रशीघ्रोच्च       | १  | १६  | ७      | ४४          |
| मङ्गलशीघ्रोच्च       | ०  | ५९  | ८      | १०          |
| शुहस्पतिशीघ्रोच्च    | ०  | ५९  | ८      | १०          |
| शनिशीघ्रोच्च         | ०  | ५९  | ८      | १०          |
| चन्द्रमा का मन्दोच्च | ०  | ६   | ४१     | ०           |

यहो के मन्दोच्च की गति अत्यन्त घोड़ी है अर्थात् प्रति फला के  $\frac{1}{2}$  भाग से भी न्यून है। इस लिये गणित में शून्य ही लिया जाता है॥

यहो की दैनिक गति कही गई। अब यहो के भगण काल लाने का नियम लिखा जाता है। जिन ग्रहों का भगण काल (१२ राशियों में वारधरण का काल) जानना है, त्रैराशिक द्वारा इस प्रकार लाना चाहिये कि एक युग के भगण में तो इतने (युग) सावन दिन होते हैं तो १ भगण में क्या होगा। इस लिये युग के सावन दिनों में युग के भगण संख्या से भाग देवे, भागफल, इस यह का भगण काल होगा। उदाहरण के लिये, सूर्य का भगण काल निकाला जाता है। जिसे युगीय सावन दिन १५९३१३८८ में युगीय सौरभगण ४३२०००० का भाग दिया तो दिन ३१ घटी पल विष्णु हुआ। यही सूर्य का सावन दिनों में १ भगण काल हुआ। इसी प्रकार पृथिवी के चारों ओर चन्द्रमा के परिक्रमा करने का काल २७ दिन १९ घटी १८ पल है। इतने समय में चन्द्रमा राशिचक के एक स्थान से चल कर पुनः उसी स्थान पर आजाता है। चान्द्रमास दस घण्टा परा होता है जब चन्द्रमा पुनः सूर्य की राशि में आजावे। चान्द्रमास दिन निकालने के लिये युगीय चान्द्रमास से युगीय सावन दिन में भाग दो तो दिन ३१ घटी ३१ पल ५० यही अमान्त चान्द्रमास होगा।

३६५ ३१ ३१ ३१

दिनों में १ भगण काल हुआ। इसी प्रकार पृथिवी के चारों ओर चन्द्रमा के परिक्रमा करने का काल २७ दिन १९ घटी १८ पल है। इतने समय में चन्द्रमा राशिचक के एक स्थान से चल कर पुनः उसी स्थान पर आजाता है। चान्द्रमास दस घण्टा परा होता है जब चन्द्रमा पुनः सूर्य की राशि में आजावे। चान्द्रमास दिन निकालने के लिये युगीय चान्द्रमास से युगीय सावन दिन में भाग दो तो दिन ३१ घटी ३१ पल ५० यही अमान्त चान्द्रमास होगा।

अब प्रत्येक ग्रहो के भगण काल जो पूर्वोक्त किया से स्थिर हुवे हैं, लिखे जाते हैं। मङ्गल का ६८६ दिन ५९ घड़ी, द्यहस्पति का ४३३२ दिन १५ घड़ी, शनि का १०७५५ दिन ४६ घड़ी, बुध का ८७ दिन ५८ घड़ी, शुक्र का २२४ दिन ४२ घड़ी। बुध आदि के शीशेओं के भगण के लिये देखो स्तोक ३२ का विवरण ॥

**प्राग्गते: सूर्यमन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्रयः । कौजस्य  
वेदखयमा वौधस्याष्टर्तुवन्हयः ॥४१॥ खखरन्द्राणि जैव-  
स्य शौक्रस्यार्थगुणेपवः । गोऽग्नयः शनिमन्दस्य पाता-  
नामथ वामतः ॥४२॥ मनुदस्तास्तु कौजस्य वौधस्याष्टाष्ट-  
सागराः । कृताद्रिचन्द्राजैवस्य त्रिखाङ्काश्च भृगोस्तथा  
॥४३॥ शनिपातस्य भगणाः कल्पे यमरसर्तवः । भगणाः  
पूर्वमेवात्र प्रोक्ताश्चन्द्रोच्चपातयोः ॥ ४४ ॥ पण्मनूनां  
तु सम्पोद्य कालं तत्सन्धिभिः सह । कल्पादिसन्धिना  
सादुं वैवस्वतमनोस्तथा ॥ ४५ ॥ युगानां त्रिघनं यातं  
तथा कृतयुगं त्विदम् । प्रोक्तय सृष्टेस्ततः कालं पूर्वोक्तं  
दिव्यसंस्यया ॥ ४६ ॥ सूर्याद्वसंस्यया ज्ञेया कृतस्यान्ते  
गताअमी । खचतुष्कयमाद्रयग्निशरन्द्रनिशाकराः ॥४७॥**

**भाषानुवाद-**एक कल्प में सूर्य के मन्दोद्ध के (जो पूर्व की ओर चलता है) ३७७ भगण होते हैं। मङ्गल के मन्दोद्ध के २०४ और बुध के मन्दोद्ध के ३६८ भगण होते हैं ॥ ४१ ॥ एक कल्प में द्यहस्पति के मन्दोद्ध के ३०३, शुक्र के मन्दोद्ध के ५१५ और शनि के मन्दोद्ध के ३९ भगण होते हैं। अब पातो के भगण की संख्या कहते हैं, जो पूर्व से पद्धिम की ओर चलते हैं ॥ ४२ ॥ एक कल्प में मङ्गल के पात के २१४, बुध के पात के ४८८, द्यहस्पति के पात के १३९, शुक्र के पात के ३१९ भगण होते हैं ॥ ४३ ॥ और शनि के पात के ६६२ भगण होते हैं, चान्द्रमा के पात और मन्दोद्ध के भगण पहिले कहे गये ॥ ४४ ॥ उसन्वत्तरों के काल को ६ सन्धियों सहित और काल की ६०८ द की सन्धि सहित काल को एक स्थान में जोड़ फर रख्ने और सप्तम वैवस्वत मन्दन्तर् ।

के २७ वीति हुवे चतुर्दुर्गिणों को एवं २८ वीं चतुर्युगी के गत सतयुग के काल को एकत्र कर पूर्वोक्त छः मन्त्रन्तरों के काल में जोड़ने से जो संख्या उल्घ हो उस में से सुष्टि रचना का काल जो दिव्य वर्षों में ( २४ वां शोकोक्त ४७४०० ) दिया है । सौर वर्ष बनाकर घटाने से २८वीं चतुर्युगी के अन्त तक १५४३२०००० सौर वर्ष सुष्टि के गत वर्ष हो गे ॥ ४५ । ४६ । ४७ ॥

विवरण ४३ शोक-अव अहर्गण बनाने के नियम लिखे जाते हैं । वर्तमान सुष्टि की आदि से इष्टकाल ( जिस सबत् भास् दिन तक चाहे ) तक सावन दिनों की संख्या का जाभ है । अव उदाहरण के लिये अववरण कला २ संवत् १५४६ तक का लाया जावेगा । गत सौर वर्ष सुष्टि की आदि से सबत् १५४८ के अन्त तक १५४४८५००२ में १२ वर्ष घटाओ तो शेष संवत् १५४५ के अन्त तक १५४५८५००२ होगा ॥

अत ऊर्ध्वमंसी युक्ता गतकालाव्दसंख्याया । मासी-  
कृता युता मासैर्मधुशुक्रादिभिर्गतैः ॥ ४८ ॥ पृथक् स्या-  
स्तेऽधिमासद्वाः सूर्यमासविभाजिताः । लब्ध्याधिमासकै-  
युक्ता दिनीकृत्य दिनान्विताः ॥ ४९ ॥ द्विष्टास्तिथिक्षयाभ्य-  
स्ताश्चान्द्रवासरभाजिताः । लब्धोनरात्रिरहिता लङ्घाया-  
मार्हुरात्रिकः ॥ ५० ॥ सावनो द्युगणः सूर्याद्विनमासा-  
व्दपास्ततः । सप्तभिः क्षयितः शेषः सूर्याद्वीवासरेश्वरः ॥ ५१ ॥ मासांव्ददिनसंख्याप्तं द्वित्रिव्वं रूपसंयुतम् । सप्तोहु-  
तावशेषौ तु विज्ञेयौ मासवर्षपौ ॥ ५२ ॥

ज्ञायानुवाद—उक्त कलयुग के अन्त तक की वर्षों की संख्याओं में इष्ट (जिस संवत् शाके पा समय तक चाहो ) काल के गतवर्ष की जोड़ी । पुनः जोड़ने से जो संख्या हो उस को १२ से गुणा करने से भास की संख्या हो गी । पुनः इस भास संख्या में चैत्रमास के शुक्र पक्ष की परिवर्तने से जितने भास वीति हों जोड़ी तो इष्ट कालतक की भास संख्या हो गी ॥ ४८ ॥ इन की सित्र २ स्याम पर रक्षती । एक स्याम के अङ्गों को युग के अधिमासों से गुणा करो और युग के सीरमास की संख्या से भाग दो । इस से अधिमास की संख्या निकल जा

येगी। इस अधिमाससंरूपा को दूसरे स्थान में रखे हुए अङ्कों के साथ जोह कर उस को ३० से गुणा कर दिन बनावे। एवं इष्ट काल से जितने चान्द्र दिन वीते हों उस को जोड़े ॥ ४८ ॥ उक जोड़े हुए अङ्कों को भिन्न २ दो स्थानों में रखे। उन में से एक को एक महायुग के तिथिक्षयाङ्क द्वारा गुणा करे और पूर्वोक्त एक महायुग के चान्द्रदिनों पर भाग करे और भागावधिए जोड़ कर भागफल गतक्षयतिथिसंरूपा होगी। इस तिथिक्षय संरूपा को दूसरे स्थान में रखे हुवे अङ्कों में से घटाने पर जो संरूपा लक्ष्य होगी वही लङ्का में आधीरात तक जितने सावन दिन वीसे हैं, सावनदिन की संरूपा होगी ॥ ५९ ॥ उक आई हुई सावनदिनसंरूपा से दिन, मास और वर्ष का अधिपति जाना जावेगा। यार आदित्य वार से गिन कर निकल आते हैं। सइ अहर्गण को ७ से भाग करके शेयाङ्क को आदित्यवार से गिने तो उस तिथि का वार निकल आवेगा अर्धात् ७ भाग करने पर १ वर्षे तो रविवार, २ वर्षे तो सोमवार, ३ वर्षे तो भूलवार, ४ वर्षे तौषुधवार, ५ वर्षे तो वृहस्पतिवार, ६ वर्षे तो शुक्रवार और यदिकुल न अचे तो शनिवार जानना ॥ ५१ ॥ उक अहर्गण को दो स्थानों में अलग २ रखकर एक को ३० से और दूसरे को ३० से भाग दो। जो फल हो उस को क्रम से २ और ३ से गुणन करो और दोनों के गुणनफल में १ जोड़दो, पुनः ७ से भाग दो तो भागफल क्रम से भास और वर्दं के अधिपति होगे ॥ ५२ ॥

**विवरण-** अब उक संरूपाङ्क सीर वर्षे को १२ से गुणा कर भास बनाओ एवं गुणनफल में गतमास चैत्र शुक्रकी आदि से आपाद शुक्रकी आदि तक ३ भास हुये। इन को जोड़ो तो इष्टकाल तक भास संरूपा होगी।  $12 \times 3 = 36$  भास हुये ॥ ४८ ॥ उक संरूपा आपाद शुक्रसे जाने जाने याली संकांति तक सीर भासों की संरूपा है। इम की प्रेराधिक द्वारा चान्द्रमास बनाये। अर्धात् इस संरूपा को युग के अधिमास से गुणाकर गुणनफल में युगीय सीर भास संरूपा से भाग दे। भागफल गत अधिमास संरूपा होगी। जैसे—सीरमास  $36 \times 14 = 504$  ( युगीय अधिमास ) =  $504 \times 4 = 2016$  ( युगीय सीर भास ) =  $2016 \times 14 = 28224$  गत अधिमास हुया। उक अधिमास को शेषाङ्क के राहित गत सीर भासों में जोड़ने से योगफल आपाद शुक्र के आरे

आने वाली सकान्ति तक चान्द्रमास की सख्त होगी और यदि उक्त शेषाङ्क को छोड़दें तो आपाद शुक्र के अन्त तक गत चान्द्रमास की सख्त होगी ॥

आपाद शुक्र के अन्त तक गत चान्द्रमास  $= ३४७०६१९८८३ + २२१३८७१४$  ( गत अधिमास )  $= २४८८२०४५८३$  ( गत चान्द्रमास )  $\times ३ = ७२५७६७१३७१०$  ( दिनहुये )  $+ १६$  ( गतदिन आपाद शुक्र के अन्त से आवण कृष्णा २ के आदि तक )  $= ७२५७६७१३७८२६$  ( स्थिर की आदि से वृष्टकाल तक गत चान्द्रदिन वा तिथि ) अब इस चान्द्रदिन से सावनदिन घनाने के लिये वैराशिक की किया करे अपोत् गत चान्द्रदिन को युगीय तिथिक्षय से गुणा कर गुणनफल में युगीय चान्द्रदिन का भाग दे, भाग फल सख्त हत तिथिक्षय सख्त होगी । गत चान्द्रदिन  $७२५७६७३७८८६ \times २४८८२०४५८३$  ( युगीय तिथिक्षय )  $= १८०३६८८६३७३९$   $७११०४ - १६०३००००८०$  ( युगीय चान्द्रदिन )  $= ११३५०१४६६$  यही गत तिथिक्षय सख्त हुई और शेष अङ्क जो भाग देने से रहगया  $\frac{११३५०१४६६}{१६०३००००८०}$  । यह तिथिक्षय शेष अङ्कमहित गत चान्द्रदिनी से निकालदे तो गत तिथि के अन्त तक सावनदिनी की सख्त होगी, परन्तु अहगण इष्टतिथि की अंत रात्रि पर्यन्त चाहिये । इस लिये शेष अङ्क छोड़देना चाहिये । यह शेष गत तिथि के अन्त से यज्ञमान तिथि के अंत रात्रि तक का काल है । इस कारण आवण कृष्णा २ सवत् १४६ को लड्डा की आधीरात तक निम्नलिखित अहगण हुये । गत चान्द्रदिन  $७२५७६७१३७८२६$  गततिथिक्षय  $११३५०१४६६$  और गत सावन दिन  $७१४४४४ - १९३६०$  ॥ ४८ ॥ ५० ॥ उक्त अहगण में ३ का भाग देने से शेष १ मिला, इस लिये आवण कृष्णा २ को रविवार था ॥ ५१ ॥ पुन उक्त अहगण में ३० का भाग दिया तो  $२४८८२०४५८३ - ४५$  ( जीर शेष अङ्क को छोड़दिया )  $\times २ = ४९६८८४४ - १८८० + १ = ४९६८८४४ - १८९ - १$  से भाग दिया तो शेष अङ्क ६ मिला तो आवण क० २ को भास का अधियनि शुक्र था । पुन वर्षाधिपति झग्नजने के लिये  $३५१४४४४ - ३६० - ३६० = १९८५५४८०$  ( शेष अङ्क को छोड़दिया )  $\times ३ = ५४३३६७६९ + १ = ५४३३६७६९ - ३६९६२ - १$  तो शेष अङ्क ४ रहा इस लिये सवत् १४६ का वर्षाधिपति बुध था ॥ ५२ ॥

यथास्वभगणाभ्यस्तो दिनरात्रिः कुवासरैः । विभाजितो  
मध्यगत्या भगणादिर्ग्यहो भवेत् ॥ ५३ ॥ एवं स्वर्णीत्रम-  
न्दोज्ञा ये प्रोक्ताः पूर्वयायिनः । विलोभगतयः पातास्त-  
द्वचकाद्विशोधिताः ॥ ५४ ॥ द्वादशज्ञा गुरोर्याता भगणा-

वर्तमानकैः । राशिभिः सहिताः शुद्धाः पष्टया स्युर्विज-  
यादयः ॥५४॥ विस्तरेणैतदुदितं संक्षी पाद्वयावहारिकम् ।  
मध्यमानयनं कार्यं यहाणामिष्टतो युगात् ॥५५॥ अस्मि-  
न्कृतयुगस्यान्ते सर्वं मध्यगता ग्रहाः । विना तु पातमन्दो-  
चान्मे पादौ तुल्यतामिताः ॥ ५६ ॥

भायानुवाद-उक्त अहर्गण को यहों के एक कल्प के भग्नों की संख्या से गुणा करो और कल्प के सावनदिन सख्या से भाग दो तो यहों का भग्नादि मध्य अर्थात् राशि, अंश, कला आदि निकल आवेंगे। इस प्रकार यहों की मध्यगति से स्थान ज्ञात होजावेगा ॥ ५३ ॥ इसी प्रकार शीघ्रेत्तमन्देश्वों के मध्यस्थान जिन के भग्न पहिले कहे जा चुके हैं और पातों के मध्यस्थान जाने जासकते हैं, परन्तु पातों के स्थान १२ राशि में से पटाकर गणित करे क्योंकि इन की राशि क्रम से विलोम अर्थात् उलटी होती है ॥ ५४ ॥ दृहस्पति के गत भग्नों को १२ से गुणा कर गुणनफल में गत राशियों का योग कर योगाङ्क को ६० का भाग देने पर भग्नफल विजपादि सबत्सर होगा ॥ ५५ ॥ ऊपर अर्थात् ४४ स्रोक से ४४ तक यहों के मध्यान्यन्य प्रक्रिया विस्तारपूर्वक कही गयी। उपर्युक्त में व्रेतायुग के आरम्भ से यहों का मध्य स्थान निश्चय करना चाहिये ॥ ५६ ॥ जिस कारण इस सत्ययुग के अन्त में पात और भन्देश्व को छोड़कर सब यहों के मध्यस्थान मेय राशि के आरम्भ में दे ॥ ५७ ॥

**विवरण-** कल्प के आरम्भ में सब यहाँ का एक ही स्थान था, सब यह रेती नक्कल के पोर्टफोलियो से चले, इस लिये इस समय पर उन का भव्य स्थान निकालने के लिये विराशिक की किया करनी चाहिये अर्थात् उक्त अह-गंगा को कल्प के भवयों से गुणा कर गुणनफल में कल्प के सायनदिनों का भाग देये तो यहाँ का भव्यस्थान निकलेगा : जैसे-  $1484848143.0$  (अहर्गण)  $\times 8320000000 = 1006224934520000000 \div 149949320000$  (कल्प के सायन दिन)  $= 1045478481.0$  भगण शेष अङ्क ३६५८८८०००००१२ =  $834519360000$  कल्प के सायनदिन से भाग दिया तो २ राशि हुईं और शेष अङ्क ८४४२५४-६००००१२ =  $962936200000$  अंश हुये, इस में उक्त "कल्प के सायनदिन का भाग दिया तो फल अंश शून्य हुआ। और जो उक्त अंश को ६३ से गुणा

किया तो  $4596459600000$  कला संख्या हुई । इस में उक्त कल्प के सावन दिन का भाग दिया तो २९ कला मिलें । शेष अद्वा  $655700000 \times 60 = 393420000$  इस में उक्त सावन दिन का भाग दिया तो फल शून्य विकला हुई । इस लिये आवण क० २ संघर्ष १४६ को शूर्य का भव्यस्थान  $155457890$  भगण, ३ राशि, ० अंश, २९ कला, शून्य विकला । इसी प्रकार चन्द्रमा के भगण से उक्त अहर्गण को गुणन शेष किया पूर्वधर्म किया तो चन्द्रमा का भव्यस्थान भगण  $2164937657$ । राशि ९ । अंश २१ । कला ५२ । विंश ३७ । शेष प्रहोर के निम्नलिखित भगण आदि हैं—

|            | भगण         | राशि | अंश | कला | विकला |
|------------|-------------|------|-----|-----|-------|
| मङ्गल      | १०३३०९३४१   | २    | १   | ३४  | ५२    |
| बुध        | १३५४७५४८०   | २    | १   | २८  | १     |
| शुक्र      | १५५४७५४८०   | २    | १   | २८  | ०     |
| द्वाहस्पति | १६४०१०२५    | ८    | २२  | १६  | ४३    |
| शनि        | ६६३५८३१     | ३    | २०  | ५५  | ४७    |
|            | ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ |      |     |     |       |

बुध के श्रीग्रोद्धर भगण को अहर्गण में गुणा करने और कल्प के सावन-दिनों पर भाग करने से  $121034835$  भगण, ० राशि, ३ अंश, ८ कला और ४५ विकला निकलेंगी । इसी प्रकार शुक्र के श्रीग्रोद्धर का स्थान  $155457890$  भगण, १० राशि, २५ अंश, ६ कला और १९ विकला निकलते हैं ॥

मङ्गल, द्वाहस्पति और शनि के श्रीग्रोद्धर का वही स्थान होगा जो शूर्य भव्य का है वर्णकि उन के भगण तुल्य हैं ॥ अब मन्दोद्धैं को लिखते हैं—

### प्रथम चन्द्र का मन्दोद्धै

अहर्गण को  $459603000$  में गुणा और  $155457890$  पर भाग करने से  $221034832$  भगण २ राशि ११ अंश १८ कला और ८२ विकला निकलेंगी, यही चन्द्र मन्दोद्धै का भव्यस्थान हुया ॥

अब चन्द्रपात लिखते हैं—अहर्गण को २३२, २३८,००० में गुणा करके १, ५१९,६१९, ८२८,००० पर भाग करो तो १०५, १४६, ८२२ भगण ८ राशि ३ अंश ८ कला और ४७ विकला निकलेंगी । इन राशि आदि का १२ राशि में श्रोधने से २ । २२ । ५२ । ३ चन्द्रपात का भव्यस्थान हुआ ॥

शूर्य का मन्दोद्धै निकालने के लिये अहर्गण को ३८७ में गुणा करके १,५१९,

६१५, पृ८८, ८०० पर भाग करो तो १३५ भगण २ राशि २७ अंश १३ फलाद्विकला निकलेंगी। महूल के मन्दोद्धु निकालने के लिये शहरगंग की २४४ में गुणा और, ५९९, ६१३, ८२८, ८०० पर भाग करो। लघु भगणादि ८२। ४। १०। २। ४। १। इनी तरह शृहस्पति के मन्दोद्धु के भगणादि ४०५। ५। २। २। २७ बुध के मन्दोद्धु के १६६। ३। १०। २८। २३ शुक्र के मन्दोद्धु के २४२। २। १०। ५२। ८। और शनि के मन्दोद्धु के १३। ३। २६। ३७। ३४ भगण, राशि, १० अंश, फला और विकला निकलेंगे। महूल का पात निकालने के लिये अहर्गंण की २४४ में गुणा करके १, ५९९, ६१३, ८२८, ८०० पर भाग करो तो ९६। १०। १८। ५६। ५६ यह लघु दुष्ट हुये॥

- राशि आदि को १२ राशि में से शोधो तो १ राशि १० अंश ३ फला और ४ विकला। यह महूल के पात का स्थान हुआ। बुध पात निकालने के लिये अहर्गंण की ४४८ में गुणा करके १, ५९९, ६१३, ८२८, ८०० पर भाग करो तो ८८। १। १०। १८। २२ लघु भगणादि हुये। १२ राशि में शोधने से ०। २। ४४। ३८ बुध पात का स्थान हुआ। शृहस्पति के पात के ८७ भगण ८ राशि १० अंश १६ फला ५६ विकला निकलेंगी। राशि आदि को चक्र में शोधने से २। १६। ४०। १४ यह शृहस्पति के पात का स्थान हुआ। शुक्र के पात के ४३। १०। १। २। ४४ भगणादि निकलेंगे। चक्र में शोधने से १। १८। २। ३९। १६ राशि आदि शुक्र पात का स्थान हुआ। शनि पात के ८८। ८। १०। ३८। १६ भगणादि हुए। चक्र में शोधने से ३। १०। २०। ४१। यह शनि के पात का स्थान हुआ। चन्द्र का पात पहिले निकाल चुके हैं, मूर्य का पात नहीं होता। अब यहों का स्थान एक जगह लिहते हैं:-

|                   |                  |                    |                 |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| मूर्य का सथ स्थान | ३। ०। २। ०       | बुध मन्दोद्धु      | २। १०। २८। २३   |
| मूर्य मन्दोद्धु   | २। १। १३। १३। २३ | बुध शीशोद्धु       | ०। १३। ८। ४५    |
| चन्द्र सथ         | ८। २। २१। ५२। १७ | बुध पात            | ०। २०। ४०। ३८   |
| चन्द्रमन्दोद्धु   | २। १। ११। १८। २२ | शृहस्पति सथ        | ८। २२। ५६। ४३   |
| चन्द्र पात        | २। २। २२। ५०। ३  | शृहस्पति मन्दोद्धु | ५। २१। २२। १७   |
| महूल सथ           | २। ३। ८४। ५२     | शृहस्पति शीशोद्धु  | १। ०। ८८। ०     |
| महूल मन्दोद्धु    | ४। १०। २। ४।     | शृहस्पति पात       | २। १८। ४०। ४    |
| महूल शीशोद्धु     | ३। ०। १। २। ०    | शुक्र सथ           | ३। ०। १०। २८। ० |
| महूल पात          | १। १०। ३। ४      | शुक्र मन्दोद्धु    | २। १६। ५२। २।   |
| बुधकामध्यस्थान    | ३। ०। १। २८। ०   | शुक्र शीशोद्धु     | १०। २५। ६। १०   |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| शुक्रपात                                                 | १। २६। ६८। १६ |
| शनि मध्य                                                 | ३। २०। ५४। ४७ |
| शनि मन्दोच्च                                             | ३। २६। ६७। ३४ |
| शनि शीघ्रोच्च                                            | ३। ०। २८। ०   |
| शनि पात                                                  | ३। १०। २०। ४१ |
| सब ग्रहों की भुक्ति वा मध्यदैनिक गति भी नीचे लिखते हैं:- |               |
| सूर्य की गति कलादि                                       | ५८। ८         |
| सूर्य मन्दोच्च                                           | अत्यन्त अल्प  |
| घन्द्रमा की गति                                          | ६०। ३५        |
| घन्द्रमा मन्दोच्च                                        | ६। ४१         |
| घन्द्र पात                                               | ६। १। ११      |
| मङ्गल                                                    | ३। २६         |
| मङ्गल मन्दोच्च                                           | अत्यन्त अल्प  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| मङ्गल शीघ्रोच्च   | „ ५८। ८      |
| बुध               | „ ५९। ८      |
| बुध मन्दोच्च      | अत्यन्त अल्प |
| बुध शीघ्रोच्च     | २४। ३२       |
| बहस्पति           | ४। ५८        |
| बहस्पति मन्दोच्च  | अत्यन्त अल्प |
| बहस्पति शीघ्रोच्च | ५८। ८        |
| शुक्र             | ५८। ८        |
| शुक्र मन्दोच्च    | अत्यन्त अल्प |
| शुक्र शीघ्रोच्च   | ५८। ८        |
| शनि               | २। ०         |
| शनिमन्दोच्च       | अत्यन्त अल्प |
| शनि शीघ्रोच्च     | ५८। ८        |

मङ्गलादि ग्रहों के पातों की गति अत्यन्त अल्प है—अतः नहीं लिखी। गणित में शून्यही लेते हैं ॥

५५ विवरण—बहस्पति के एक राशि से दूसरी राशि में जाने का काल एक प्रकार का संवत्सर माना जाता है। ऐसे ६० संवत्सर हैं जिन के नाम विजय से आरम्भ होते हैं। कल्प के आदि में विजय संवत्सर या तो इस समय कीन संवत्सर होगा। यह जानने के लिये जितनी राशि कल्प की आदि से बहस्पति ने भोगी हैं उन को ६० पर भाग करो—जो शेष रहे सो उस को विजय से गिन कर संवत्सर का नाम निकाल लो ॥

१ उदाहरण—आवण वदि १ सं १६४६ तक बहस्पति के १६४४, १०१, ०२५ भगण और ८ राशि होती हैं। इस की १, ७५, ८१, ३०८ राशि हुई ६० पर भाग करने से शेष ८ रहे—इस लिये विजय से ८ वां संवत्सर अर्थात् श्वरं संवत्सर हुआ ॥

२ विवरण—त्रितायुग की आदि से सं १६४६ आवण वदि २ की अर्ध-राशि का भर्गण ३८०, ७८१, ६४९ निकलेगा, इस से सूर्यादि ग्रहों के मध्य निकालने से वही निकलेंगे जो कपर लिख आए हैं। यार निकालने के लिये दुधधार से गिनना धाहिये क्योंकि उत के अन्त में मङ्गलवार था ॥

१ याहंसपत्य संवत्सर हमारे १२ सीर वर्ष के समान होता है। अर्थात् शहस्रति यह को मृष्ट को एक परिकल्पना करने में हमारे १२ वर्ष की वराभर समय लगता है और वैदिक समय में ५ वर्ष की १ युग संक्षा थी और ५ वर्ष का एक ही वार् “पञ्चाङ्ग” बनता था। इस कारण शहस्रति का १ युग अर्थात् ५ वर्ष हमारे ६० वर्ष के तुल्य होता है। इस कारण पञ्चाङ्ग बनाने के साथ ६० वर्ष तक की गणना कर लिखते थे और ६० वर्षों का कल्पित नाम रखते थे। यह नाम रखना अपनी इच्छा पर है, इसी कारण भिन्न २ ग्रन्थों में शिष्य २ प्रकार से ६० वर्षों के नाम पाये जाते हैं। वस्तुतः इस से कोई विशेष प्रयोजन नहीं। परन्तु फलित वालों ने इन ६० वर्षों से भी भिन्न शिष्य प्रकार के शुभाशुभ फल की कल्पना करली है॥

शहस्रति के ६० वर्षों के नाम ये हैं—१ विजय २ जय ३ मन्मथ ४ दुर्मुख ५ पृष्ठेमलम्ब ६ विलम्ब ७ विकारी ८ शर्वरी ९ सव १० शुभाकृति ११ शोभन १२ कोधी १३ विष्वावसु १४ पराभव १५ प्रवक्ष १६ कालिक १७ सौम्य १८ साधारण १९ विरोधाकृति २० परिधावी २१ प्रभादी २२ आमन्द २३ राक्षस २४ अनल २५ पिङ्गल २६ कालमुक २७ चिदार्थी २८ रीढ़ २९ दुर्मति ३० दुन्दुभि ३१ रुधि-रोद्गारी ३२ रक्षा ३३ कोधन ३४ क्षय ३५ पराभव ३६ विभव ३७ शुक्र ३८ प्रसोदं ३९ प्रजापति ४० अङ्गिरा ४१ श्रीमुख ४२ भव ४३ भुवन ४४ घाता ४५ इंश्वर ४६ व्यहु-धान्य ४७ प्रभादी ४८ विक्रम ४९ वृषा ५० चित्रभातु ५१ स्वर्णामु ५२ दारुण ५३ पार्विष्व ५४ व्यप्ति ५५ सर्वधारी ५६ विरोधी ५८ विकल ५९ खर ६० नन्दन॥

मकरादी शशाङ्कोद्धृतं तत्पातस्तु तुलादिगः। निरंशत्वं  
गताश्चान्ये नोक्तास्ते भन्द्चारिणः॥ ५८॥ योजनानि  
शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि तु। तद्वर्गतोदशगुणात्पदं  
भूपरिधिर्भवेत्॥ ५९॥ उम्बज्याम्बस्त्रिजीवाप्तः स्फुटोभूप-  
रिधिःस्वकः। तेन देशान्तराभ्यस्ता यहभुक्तिर्विभाजिता  
॥ ६०॥ कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्।  
रेखाप्रतीचीसंस्थाने प्रक्षिपेत्स्युःस्वदेशजाः॥ ६१॥ रा-  
क्षसालयदेवौकःशैलयोर्मध्यसूत्रगाः। रोहीतकमवन्ती च  
यथा सन्निहितं सरः॥ ६२॥

**भाषानुवाद-** उस समय केवल चन्द्रमा का मन्दोद्ध मकर की आदि अर्थात् ६ रात् ८ रा,० शून्य अश में और चन्द्रमा का पात तुला के आरम्भ में अर्थात् ६ राति शून्य अंश में पा । एवं अन्यान्य ग्रहों के गन्दोद्ध और पात, ये सब भी अंशरहित न थे ॥ ५८ ॥ १०७ योजन फो द्विगुण करने से १६०० योजन एथिवी के व्यासका परिमाण होगा । इस को १० से गुणा कर, पुनः इस का वर्ग मूल निकालने से एथिवी की परिप्ति होगी॥५८॥ एथिवी की परिप्ति को अभीष्ट देश के लम्बव्यास से गुणा करो । गुणन फल में त्रिज्या का भाग देने पर भागफल उस अभीष्ट स्थान की स्फुट परिप्ति होगी । देशान्तर को यह की भुक्ति ( गति ) से गुणा कर गुणन फल में इस स्फुट परिप्ति द्वारा भाग दे ॥६१॥ भागफल से कलादि निकलें उन को यह के मध्य स्थान से घटाओ, यदि अभीष्ट देश मध्य रेखा से पूर्व दिशा में हो । परन्तु यदि इस देश मध्य रेखा से पश्चिम दिशा में हो तो भागफल कलादिकों को जोड़ो तो योगफल स्वदेशीय ग्रहों के मध्यस्थान होगे ॥ ६१ ॥ लहड़ा और चुनेरु पर्वत के मध्य सूक्त पर जो रेखा कल्पित हुई है उस का नाम मध्य रेखा है । इस मध्य रेखा पर रोहीतक नगर उज्ज्यिनी एवं कुरुक्षेत्रादि देश अवस्थित हैं ॥ ६२ ॥

**विवरण ५९ । ५८-५९-** ऊपर लिखी गई से लत के अन्त तक अहर्गण लेकर ग्रहों का स्थान निकालने से झोक ५७ और ५८ के कथन का प्रमाण निश्चय हो सकता है । कलान्त का अहर्गण ११३,३३७,६१३,११३ निकलेगा । इस में सब ग्रहों के मध्य ० । ० । ० । ० । ० निकलते हैं । चन्द्रोद्ध १० । ० । ० । ० । ० और चन्द्रपात १ । ० । ० । ० निकलता है, अहर्गण को ३ पर भाग फरने से ३ शेष रहते हैं । इस लिये लत के अन्त में लहड़ालवार निकलता है ॥

**विं५९-६०-** इस से निरक्ष देश पर परिप्ति ५९५९ योजन निकलती है ॥

**विं५०-प्रथम** चित्र में निष्ठमेरि दृत एथिवी का गोल है, म उस का मध्य है, निरक्ष दृत वह यहां दृत है जहा दिन रात्रि सौदैव वरावर होते हैं । निर निरक्ष दृत का तथा एथिवी का व्यास है, ति कोइं नगर है, जैसे रिवाड़ी, भने अर्ध व्यास है, इस को त्रिज्या भी कहते हैं, तरिप्तनु रिवाड़ी का अक्ष है । रिमे रिवाड़ी की भेंसे दूरी है, इस दूरी को उम्म कहते हैं, परिप्ति रिवाड़ी की स्फुट परिप्ति है । परि स्फुट परिप्ति का व्यास है, जरि भेरि धनु की ज्या है, मध्य स्फुट परिप्ति निकालने के लिये यह वैराग्यिक करो । मर वा भने(अद्य व्यास)परः उक्तम् परिप्तिः । जरि परः स्फुटपरिप्ति क्षय होगी

अर्थात् लम्बल्या जरि को मूर्यपरिधि में गुणा करके त्रिव्या पर भाग करो। उदाहरण-रिवाही का लम्ब अर्थात् मेरु से फ़ासला ६१ अंथ ५१ कला है। ज्या और त्रिव्या निकालने की रीति दूसरी अध्याय के शोक १५, १६ में लिखेंगे ६१। ५१ की ज्या ३०३१ है और त्रिव्या ३४३८ होती है। ५४३८ को ३०३१ में गुणा और ३४३८ पर भाग किया तो ४१५८ स्फुट परिधि हुई। लङ्घा और उज्जैन से मेरु के बीच होकर जो छत कल्पित किया जावे उस को मध्य रेखा कहते हैं। जैसे ग्रीनिच अंगरेजों का है। उस रेखा से इट स्थान की दूरी को जो उस की स्फुट परिधि पर मापी जाती है, देशान्तर कहते हैं। यह की भुक्ति किसी स्थानपर उस के स्फुट परिधि के एक परिवर्तन के काल में पूरी होती है। उज्जैन वा लङ्घा में जिस राशि आदि में यह होगा उस के पश्चिम की ओर जितने देश हैं उन में उस का भोग कुछ अधिक होगा, क्योंकि यह की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम देशों में यह पहिले टूटि पड़ेगा और उस के मध्य रेखा तक पहुंचने तक पश्चिम देश में उस का कुछ विशेष भोग हो जायगा। इसी तरह उज्जैन वा लङ्घा से पूर्व में जो देश हैं यहां यह की राशि आदि न्यून होंगी ॥

इस यह का भोग कितना न्यून वा अधिक होगा, सो जानने के लिये यह त्रैताशिक करो। इट देश की स्फुट परिधि परः उक्त यह की भुक्ति :: देशान्तरः यह की विशेष गति क्या होगी ॥

इस लिये भुक्ति को देशान्तर में गुणा करके स्फुट परिधि में भाग करने से यह की विशेष गति निकल आवेगी जिस को मध्य रेखा पर यह के स्थान में जोड़ने या घटाने से इट देश में यह का मध्य स्थान निकल आवेगा ॥

उदाहरण-रिवाही का देशान्तर ११ योजन पूर्व की ओर है। इस लिये यह की मध्य भुक्ति को ११ में गुणा करके ४१५८ पर भाग करने से जो गति न्यूनाधिक फरनी है यह निकल आवेगी ॥

यिह ६१-मूर्य की भुक्ति ४१ ८ है, उस को ११ योजन में गुणा करके ४१५८ पर भाग करें, तो ८ विकला आती हैं। चूंकि रिवाही मध्य रेखा से पूर्व की ओर है इस लिये मूर्य के स्थान से ८ विकला घटाओ, तो रिवाही में मूर्य का स्थान ३ । ० । २८ । ५१ यह हुआ। चन्द्रमा की भुक्ति ३०० । ३५ है इस को ११ में गुणा और ४१५८ में भाग करने से १ । ५७ कलादि उठध हुई उन को चन्द्रमा के स्थान से घटाने से ८ । ३१ । ५७ । ४७ यह रिवाही में

चन्द्रमा का मध्यस्थान हुआ। इसी तरह मङ्गल का ५ विकला, बुध के शीघ्रोच्च का ३६ विकला, बृहस्पति का १ विकला, शुक्र के शीघ्रोच्च का १४ विकला, शनि का ० विकला, चन्द्रमन्दोष का १ विकला और चन्द्रपात का ० विकला देशान्तर फल निकलेगा। इन की ग्रहों के स्थान में से घटाने से निम्न लिखित यह हो जायेगे ॥

सूर्य ३ । ० । २८ । ५१ । चन्द्रमा ९ । २१ । ५७ । ४० । मङ्गल २ । १९ । २४ ।  
४७ बुध शीघ्रोच्च ० । ३ । ८ । ८ । ९ बृहस्पति । २२ । २६ । ४२ शुक्र शीघ्रोच्च १० ।  
२५ । ६ । ५ शनि ३ । २० । ५४ । ४७ चन्द्रमन्दोष २ । ११ । १८ । २१ चन्द्रपात  
२ । २२ । ५० । ३ ॥

विवरण ६२-यहां लङ्घा से वर्तमान लङ्घा देश नहीं समझता धाहिये क्योंकि वह तो निरक्ष से ऊपर है और उज्जीन की सभ्य रेखा से बहुत पूर्व है। लङ्घा कोई टापू या नगर निरक्ष पर वर्तमान लङ्घा देश के दक्षिण पश्चिम कोण में था, अब वहां समुद्र है। कोई नगर या टापू नहीं है। जो वहां धूत पृथिवी के उत्तर दक्षिण में तथा शोहीतक उज्जीन तथा लङ्घा के बीच में होकर कलिपत किया जाये उस को सभ्य रेखा फहते हैं ॥

अतीत्योन्मीलनादिन्दोः पश्चात्तद्गणितागतात् । यदा  
भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं भध्यतो भवेत् ॥६३॥ अग्राप्य  
च भवेत् पश्चादेवं वापि निमीलनात् । तयोरन्तरना-  
डीभिर्हन्याह भूपरिधिं स्फुटम् ॥६४॥ पश्चाय विभज्य लद्वये-  
स्तु योजनैः प्रागथापरैः । स्वदेशपरिधिर्ज्ञैः यः कुर्याद्वेशा-  
न्तरं हि तैः ॥६५॥ वारप्रवृत्तिः प्राग्देशो क्षपाऽद्वृज्यधिके  
भवेत् । तद्वेशान्तरनाडीभिः पश्चाद्गूने विनिर्दिशेत् ॥६६॥

भायानुयाद-इस स्थान पर यदि चन्द्रमा के सर्वपास ग्रहण का जारम्भ यां अन्त गणित से आये हुये काल से पीछे हो तो इस स्थान उक्त मध्यरेखा से पूर्यं दिशा में है, जानना ॥ ६३ ॥ (उन्मीलन से जोक्ष) परन्तु यदि चन्द्रमा के सर्वपास ग्रहण का भारम्भ या अन्त गणित से आये हुये काल से प्रहिने हो तो इस स्थान मध्यरेखा की पश्चिम दिशा में जानना (निमीलन से स्पर्श) गणि-  
तागत काल और ग्रहणदर्शनकाल दोसोंकाल का अन्तर दृश्य, पलादि में निकाल

विधोगकंल जो दश पलादि होगे, उन को स्फुट परिप्ति से गुणा करो ॥६४॥  
उक्त गुणन कल को ६० से भाग करके जो भाग कल हो वह इस स्थान की  
दूरी ( देशान्तर ) मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम कितनी होगी उस की संख्या  
योजन में निकल आवेगी । पूर्वोक्त ६०-६१ स्फुट लिखित नियमानुसार इस  
देशान्तर योजन को कला बनाय यह मध्य में जोड़े या चटाये । इससे ग्रहों के  
मध्यस्थान का निश्चय होगा ॥ ६५ ॥ मध्यरेखा से जिस देश के दण्ड, पलादि  
जितने होगे मध्य रेखा में सूर्योदय के पहिले या पीछे उतने ही दशषपलादि  
में वार का आरम्भ होगा अर्थात् मध्य रेखा के पूर्व देशों में पहिले एवं मध्य  
रेखा से पश्चिम के देशों में पीछे वार का आरम्भ जानना ॥

विवरण—गणित द्वारा लाया हुआ काल मध्य रेखा पर उन्मीलन का समान  
होता है । ६३ । दिन रात ६० घड़ी की होती है । देशान्तर निकालने के लिये  
ग्रीष्मांशिक की किया करनी चाहिये अर्थात् देशान्तर पटिकाओं को स्फुट  
परिप्ति में गुणा कर गुणन फल में ६० का भाग देये । भाग फल देशान्तर की  
योजन सख्त होगी । उदाहरण—रेखाड़ी ( ज़िला है ) में गणितागत  
जीर प्रत्यक्ष सबंध का जोक्ष काल का अन्तर = पल ५२ विपल है और  
स्फुट परिप्ति ४४५९ योजन है । दोनों को गुणा करके ६० घड़ी  $\times ६० \times ६० = २१६०००$   
विपल से भाग दिया तो ११ योजन रेखाड़ी का देशान्तर मिला ॥ ६५ ॥ रि.  
वाड़ी मध्यरेखा के पूर्व है इस लिये वहां आवश्यक कला २ सं० १५४६ को = पल  
५२ विपल उपरान्त सोमवार होगा ॥ ६६ ॥

इष्टनाडीगुणा भुक्तिः पष्ट्या भक्ता कलादिकम् । गते शोध्यं  
युतं गम्ये कृत्वा तात्कालिको भवेत् ॥ ६७ ॥ भचकलि-  
साशीत्यंशपरमं दक्षिणोत्तरम् । विक्षिप्यते स्वपातेन  
स्वक्रान्त्यन्तादनुप्णगुः ॥ ६८ ॥ तत्त्वांशं द्विगुणितं जीव-  
खिगुणितं कुजः । वुधशुक्रार्कजाः पातौर्विक्षिप्यन्ते चतुर्गु-  
णम् ॥ ६९ ॥ एवं त्रिघनरन्नग्रार्करसार्कार्काद्याहताः ।  
चन्द्रादीनां क्रमादुक्ता मध्यविक्षेपलिपिकाः ॥ ७० ॥

इति प्रथमोऽध्यायः ॥

भाषानुवाद-प्रहका स्थान आधी रात से पहिले या बीचे जानता हो तो यह की दैनिक भुक्ति (गति) को इट (जिस समय सर्वस्पद स्थित करना हो) घटियों से गुण कर गुणन फल में ६० का भाग है, भागफल जो कलादि होने उन को यह के स्थान से घटावे। यदि इटकाल आधी रात से पहिले हो तो, एवं यदि इट काल आधी रात से बीचे होतो जोड़ देवे। इस प्रकार करने से पह का तात्कालिक सर्वस्थान निरूपित होगा ॥ ६७ ॥ रवि भाग के जिस स्थान में चन्द्रमा की कान्ति का शेष भिटा है उस स्थान से २६०० कला के ८० वें भाग का एक भाग (२-३१) उत्तर या दक्षिण में पात द्वारा चन्द्रमा चलायमान हो जाता है अर्थात् चन्द्रमा उक्त परिमाण से अपने स्थान से उत्तर या दक्षिण की ओर चला जाता है। इस को चन्द्रमा का विक्षेप कहते हैं उक्त २-३१ चन्द्रमा का परम विक्षेप है ॥ ६८ ॥ चन्द्रमा का जो परम विक्षेप हो, उस को ८ से भाग करके, भाग फल को दो भाग में जितना होगा वही यहस्पति का परम विक्षेप। इसी प्रकार सङ्कल का परम विक्षेप ८० एवं १८ चन्द्रमा के परम विक्षेप का ८० युध, शुक्र और शनि का होगा ॥ ६९ ॥ चन्द्रमा का सर्व परम विक्षेप २३० फला, सङ्कल का ६० फला, युध का १२० फला, यहस्पति का ६० फला, शुक्र का १२० फला, एवं शनि का १२० फला ॥ ७० ॥

विवरण-घरों के सर्वस्थान जो श्लोक ६१ के अर्थ में लिखे हैं वह रिवाही के अर्धरात्रिक हैं। यदि आधी रात के ३ घड़ी ३० पल उपरान्त समय के यह घनाने हों तो ३ घड़ी ३२ पल को घरों की भुक्ति में गुण कर गुणन फल में ६० का भाग देवे और भाग फल को घरों के स्थान में जोड़देवे तो तात्कालिक यह हो जायें। गणित करने से सूर्य के ३ फला २४ विकला, चन्द्रमा के इकला ४८ विं, सङ्कल के ३ फला १६ विकला, युध शीघ्रोद्ध के ३० फला ४२ विं, यहस्पति के फला १५, चन्द्रमा के मन्दोद्ध के फला १० विं ५२ और चन्द्रपात के ८ फला १० विकला २४ दून को घरों के अपने २ स्थान में जोड़ने से आवश्य रूपणा २ की आधी रात से ३ घड़ी ३० पल घीतने पर होंगे ॥ पात में से कलाओं को घटाना चाहिये। सूर्य ३। ०। ३६। १५, चन्द्रमा ८। ८३। २८। २९, महान २। ७। २८। ४३, युध शीघ्रोद्ध ०। ३। ३८। ५१, यहस्पति ८। २२। २३। १९, शुक्रयोद्ध १०। २४। १८। ६, शनि ६। ८०। ४८। २, चन्द्रमा के मन्दोद्ध ५। १। १९। ११, और चन्द्रपात ३। २२। ४८। ४६। ६३ ॥

यह को कक्षा का वृत्त जिस विन्दु में क्रान्ति वृत्त को काट कर उसके उत्तर की ओर चढ़ता है उस विन्दु को “ पात ” कहते हैं। जब यह पात से दूर होता है तो क्रान्ति वृत्त से उस की दूरी को जो दक्षिण या उत्तर में होती है विक्षेप कहते हैं। जब यह पात से ३ राशि आगे वा पीछे होता है तब वह क्रान्ति वृत्त से अत्यन्त दूर हो जाता है। इस अत्यन्त दूरी का नाम “ परम विक्षेप ” है। ३ राशि और भौग कर यह का कक्षा वृत्त पुनः क्रान्ति वृत्त को काट के उस से दक्षिण में जाता है यह दूसरा पात है परन्तु गणित में पहिला ही पात लिया जाता है। घन्द्रभा का परम विक्षेप राशिघक की कलाओं का  $\frac{1}{2}$  है अर्थात् राशि चक्र २६०० कला में २३७ घन्द्रभा का परम विक्षेप होता है।

इति भाषानुवादे प्रथमोऽन्याय-



## अथ द्वितीयोऽध्यायः

—\*—

अदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तयो भगणात्रिताः । शीघ्रम-  
न्दोऽनुपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥ १ ॥ तद्वातरश्मि-  
भिर्द्वास्तैः सव्येतरपाणिभिः । प्रावपश्चादपकृष्यन्ते  
यथासनं स्वदिह्मुखम् ॥ २ ॥ प्रवहाख्यो मरुत् तांस्तु  
स्वोऽनुभिमुखमीरयेत् । पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिं यान्ति  
एथग्रविधाम् ॥ ३ ॥ ग्रहाद् प्राम्भगणार्घस्यः प्राह्मुखं  
कर्पति ग्रहम् । उच्चसंज्ञोऽपरार्थस्यस्तद्वत् पश्चान्मुखं ग्रहम्  
॥ ४ ॥ स्वोऽनुपकृष्टा भगणैः प्राह्मुखं यान्ति धद्यग्रहाः ।  
तत् तेषु धनमित्युक्तमृणं पश्चान्मुखेषु तु ॥५॥ दक्षिणो-  
त्तरतोप्येवं पातोराहुः स्वरंहसा । विक्षिपत्येष विक्षेष-  
श्चन्द्रादीनामपक्रमात् ॥ ६ ॥

नायनुवाद-अदृश्यरूप, शीघ्रोद्ध, नन्दोद्ध, एवं पात काल की भूतिं हैं  
और भगणां के जात्रित हैं । इन्हीं के कारण यहाँ की ( स्पष्ट ) गति होती  
है ॥ १ ॥ वह शीघ्रोद्ध, नन्दोद्ध एवं पात अपने धायुरूप रस्सियों से सब यहाँ  
को धान्य कर जाननी और उंचते हैं । यह ही नन्दोद्धादि अपने दहिने और  
धार्ये रञ्जु को पकड़ कर पूर्ण और परिम फी और आकर्षण करते हैं । जो  
यह इस के धामभाग में हैं उन को धार्ये हाथ से पूर्वं लो इन के दहिने और  
हैं, उन की दहिने हाथ से अपनी ओर लैंचते हैं ॥ २ ॥ मध्यह नामक वायु  
भी सब यहाँ को अपने उच्चकी ओर लैंचता है । इस टिये यहगण पूर्व  
और परिम की ओर आकर्षित होते हैं और इसी कारण यहाँ की अनेक

प्रकार की गति होती है ॥ ३ ॥ ये उच्चादि यदि ग्रहस्थान से पूर्व छः राशि अर्थात् मेयादि छः राशियों में होने, से ग्रहों को पूर्व की ओर एवं दूसरे आधे में अर्थात् तुलादि छः राशियों में रहने से पश्चिम की ओर आकर्षण करते हैं ॥ ४ ॥ यहगण अपने उच्च में आकर्षित होकर जितने अंशादिक पूर्व की ओर जाते हैं उतने अशादि उन के स्थान में जो इन पहुंचता है और इसी प्रकार जितना अशादि पश्चिम में आकर्षित होते हैं उतने अशादि यहमध्यस्थान से घटाना चाहिये ॥ ५ ॥ इसी प्रकार यात ( राहु ) अपनी शीघ्रता से चन्द्रादि यह को रविमार्ग में चन्द्रमा के शेष क्रान्तिस्थान से उत्तर या दक्षिण की ओर ले जाता है । इस प्रकार जिस यह को जितना विसेप करता है उस ग्रह का उत्तरा उत्तर या दक्षिण विसेप होता है ॥ ६ ॥

विवरण-चन्द्रमा की कक्षा जिस स्थान में क्रान्ति वृत्त को काट कर ऊपर चढ़ती है, उस को राहु कहते हैं और इ राशि भी ग कर दूसरे स्थान में पुनः क्रान्ति वृत्त को काट कर दक्षिण की ओर जाती है, उस को केतु कहते हैं ॥ ३ ॥

विः श्लो० १-६ ग्रहों की जो उच्च, यात आदि की गणना का वर्णन है वह केवल गणित की मुगमता के लिये है, वस्तुतः ग्रहों से भिन्न पातादि कोई जीव या यह की नाहूँ अपर यह नहीं हैं, जैसा कि भास्कराचार्य ने लिखा है:-

यहः पूर्वगत्या प्रतिमण्डलेनैव भ्रमति । यदेत-

क्षीचोच्चवृत्तं तत्प्राङ्मूर्गणकैः फलार्थं कलिपतम् ।

( सिंशिरोमणि गोलाध्याय छेद्यकाधिकार )

अर्थात्-वस्तुतः यहगण पूर्व गति से प्रति वृत्त में चमन करते हैं । ये जो नीच एवं उच्च वृत्त हैं, केवल गणकों ने गणित की मुगमता के लिये कल्पना किये हैं । इसी प्रकार व्रहगुप्त ने भी अपने “द्वाष्ट्रिद्वान्त” में लिखा है कि:-

प्रतिपादनार्थमुञ्चाः प्रकलिपताः ।

यहगतेस्तथा पाताः ॥ २६ ॥ गोलाध्याये ।

अर्थात्-ग्रहों की स्पष्ट गति ( True motion ) प्रतिपादन के लिये “उच्च” और “पात” की कल्पना की गई है ॥ १ ॥

उत्तराभिमुखं पातो विक्षिपत्य परार्धगः । ग्रहं प्राग्भगणा-र्धस्यो ग्रहस्यायाम पर्कर्षति ॥ ७ ॥ युधभार्गवयोः शीघ्रा-

तद्वृत्पातो यदा स्थितः । तच्छीघ्राकर्षणात्तौ तु विक्षि-  
प्येते यथोक्तवत् ॥ ८ ॥ महत्वान्मण्डलस्याक्षः स्वल्प-  
मेवापकृष्टते । मण्डलालपतया चन्द्रस्ततो वहूपकृष्टते  
॥ ९ ॥ भौमाद्योऽल्पमूर्तित्वाच्छीघ्रमन्दोऽन्नसंज्ञकैः ।  
दैवतैरपकृष्ट्यन्ते सुदूरमातिवेगिताः ॥ १० ॥ अतोधनर्णं  
सुमहत् तेपां गतिवशाद्विवेत् । आकृष्यमाणास्तैरेवं व्यो-  
ग्निं यान्त्यनिलाहृताः ॥ ११ ॥

भाषानुवाद-यही पात यदि पद्मिन विजागस्थ अर्पात् तुलादि इः राशि के अन्तर्गत होता है तो ग्रहों को उत्तर की ओर विक्षेप करता है । एवं यह पात यदि ग्रहों के पूर्व भागस्थ अर्पात् नेपादि इः राशि के मध्यवर्ती होता है तो यहादिकों को दक्षिण की ओर विक्षेप करता है ॥ ९ ॥ परन्तु उष्ण सुध और शुक्र के पात दृश्य के शीघ्रोद्ध से समान गति और समान अन्तर होता है उस समय उम्र के शीघ्रोद्ध के आकर्षण द्वारा पूर्वोक्त रीति से विक्षेप को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ सूर्य का मण्डल की गुहता के कारण उस के उद्ध का आकर्षण बहुत घोड़ा होता है । एवं चन्द्रमा के मण्डल उपु होने के कारण सूर्य की अपेक्षा इस को उद्ध बहुत आकर्षण करता है । मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि इन पांच ग्रहों के मण्डल छोटे होने से इन के शीघ्रोद्ध और मन्दोद्ध पहुत धैर्य से आकर्षण करते हैं ॥ १० ॥ पूर्वोक्त कारण से ग्रहों के मन्दोद्ध के आकर्षण में जो गति होती है उस का योगफल या विषयोगफल अधिक होता है । इस प्रकार यह गण शीघ्रोद्ध और मन्दोद्ध से आकर्षित हो कर और प्रथम वायु से ताढ़यमान होकर आकाश सारं में खमण करते हैं ॥ ११ ॥

वक्रानुवक्रा कुटिलामन्दा मन्दतरा समा । तथा शी-  
घ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः ॥ १२ ॥ तत्रातिशीघ्रा  
शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा । ऋज्वीति पञ्चुधा ज्ञेया  
या वक्रा सानुवक्रगा ॥ १३ ॥ तत्तद्गतिवशान्तिं यथा  
दुक्तुल्यतां ग्रहाः । मयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटोकरणमा-  
दरात् ॥ १४ ॥

**भाषानुवाद-**यहो की गति ८ प्रकार की है, वका १, अति वका २, विकला ३, मन्दा ४, मन्दतरा ५, समा ६, शीघ्रतरा ७ और शीघ्रा ८ ॥ १२ ॥ पूर्वीक ८ प्रकार की गतियों में से अतिशीघ्रा, शीघ्रा, मन्दा, मन्दतरा और समा ये ५ सरला (सीधी) गति हैं और यका, अतिवका और फुटिला, ये ३ वकगति हैं ॥ १३ ॥ यहगण मतिदिन गमन करते हैं । उन की गति किसी दिन शीघ्र, कभी अति शीघ्र होती है । उत्तरां उन की गति अनेक प्रकार की है। जाया करती है । इस समय यही यहगणों की गति स्थिति निरूपणके लिये स्फुट प्रकरण कहुँगा इस स्फुट करने से जो नियम होगा, वही देखने पर भी जायेगा ॥ १४ ॥

**राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यार्धमुच्यते । तत्तद्वि-  
भक्तलब्धोनमिश्रितं तद्वितीयकम् ॥ १५ ॥ आद्येनैवं  
क्रमात्पिण्डान् भक्तका लब्धोनसंयुताः । खण्डकाः स्यु-  
श्रुतुर्विशज्ज्यार्धपिण्डाः क्रमादमी ॥ १६ ॥ तत्त्वाश्चि-  
नोऽङ्काव्यकृता रूपभूमिधरर्त्तवः । खाङ्काष्टी पञ्चशून्येश  
वाणरूपगुणेन्द्रवः ॥ १७ ॥ शून्यलोचनपञ्चैकाश्चिद्वद्रूप-  
मुनीन्द्रवः । वियञ्चन्द्रातिधृतयो गुणारन्ध्राम्बराश्चिवनः  
॥ १८ ॥ मुनिपड्यमनेत्राणि चन्द्राग्निकृतदख्काः । प-  
ञ्चाष्टविपयाक्षीणि कुञ्चराश्चिवनगाश्चिवनः ॥ १९ ॥ रन्ध्र-  
पञ्चाष्टकयमा वस्वद्रुक्यमास्तथा । कृताष्टशून्यज्वलना  
नगाद्विशशिवह्यः ॥ २० ॥ पट्टपञ्चलोचनगुणाश्चन्द्रने-  
त्राग्निवह्यः । यमाद्विवन्हिज्वलनारन्ध्रशून्यार्णवाग्नयः  
॥ २१ ॥ रूपाग्निसागरगुणावस्वग्निकृतवन्हयः । ग्रोज्-  
भयोत्कमेण व्यासाद्वित्कमज्यार्धपिण्डकाः ॥ २२ ॥**

**भाषानु०-**एक राशि में १०० कला होती हैं, इस के अष्टमभाग में ८८ कला, इसी फो इसराशि का प्रथम ज्याहुँ कहते हैं । इस प्रथम ज्याहुँ ८८ को ८८ से भाग करने पर जो । भाग फल होता है इस १ को प्रथम ज्याहुँ ८८ से

घटाने पर शेष २२४ होगा। इस २२४ को प्रथम ज्याहुं १२५ के साथ जोड़ देने से योगफल ४४९ होगा। यही द्वितीय ज्याहुं है ॥१५॥ उक्त द्वितीय ज्याहुं ४४९ को प्रथम ज्याहुं से भाग करके भागफल २ लेकर यह २ इसके साथ पूर्वद्वितीय ज्याहुं निप्कासन भाग फल से जोड़े जिना है, जोड़ने से ३ होगा। इस ३ को उक्त भाजक १२५ से घटाने पर २२२ बचेगा, इसी २२२ को द्वितीय ज्याहुं ४४९ के साथ जोड़ने से ६७१ होगा, यही तीव्र ज्याहुं है। इसी प्रकार क्रमशः २४ ज्याहुं गणना करनी होगी ॥१६॥ किसी दृत के चतुर्थांश जिस का व्यासाहुं ३४३ उस के ३४ अंश की ज्याहुं निम्नलिखित होंगी ॥

| अंश     | वा  | कला | ज्या | अंश    | वा  | कला | ज्या |
|---------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|
| प्रथम   | कोण | १२५ | १२५  | १३ वां | कोण | ४४९ | २२३  |
| द्वितीय | „   | ४४९ | ४४९  | १४ वां | „   | ४४९ | २२३  |
| तीव्र   | „   | ६७१ | ६७१  | १५ वां | „   | ५६३ | २५८  |
| चतुर्थ  | „   | १२५ | १२५  | १६ वां | „   | ६०  | ३१५० |
| पञ्चम   | „   | १२५ | ११२५ | १७ वां | „   | ६३१ | २४५८ |
| छठा     | „   | २२३ | १३५० | १८ वां | „   | ६३१ | ३६०० |
| सप्तम   | „   | २२३ | १५७५ | १९ वां | „   | ७१३ | ४८४  |
| अष्टम   | „   | १०  | १८०० | २० वां | „   | ७५४ | ३१७७ |
| नवम     | „   | ३३१ | १०२५ | २१ वां | „   | ७८१ | ३३७२ |
| दशम     | „   | ३३१ | १२५० | २२ वां | „   | ८२१ | ४४८८ |
| एकादश   | „   | ४१३ | १४७५ | २३ वां | „   | ८२१ | ५१३५ |
| द्वादश  | „   | ४५  | २७०० | २४ वां | „   | ९०  | ५४०० |

पूर्योक्त ज्याहुं परिमाण सब को उठाटे प्रकार से ३४३ व्यासाहुं से पृथक् प्रथम घटाने पर जो अल्ल घटाने से थर्वेगे उन को उत्कमज्ज्या कहते हैं। प्रति ३४ अंश में इस प्रकार उत्कमज्ज्या हो जाती हैं। १६-२२ होक ताफ ॥

मुनयोरन्ध्रयमला रसपट्कामुनीश्वराः । द्वयष्टैकारूप-  
पद्मदस्ताः सामरार्थहुताशनाः ॥२३॥ खर्तुवेदा नवाद्वयर्था  
दिह्नगास्त्रवर्धकुञ्जराः । नगाम्बरवियज्ञन्द्रारूपभूधरश-

ङ्कराः ॥ २४ ॥ शरार्णवहुताशैका भुजङ्गाक्षिशरेन्द्रवः ।  
नवरूपमहीप्रैका गजैकाङ्क्षिशकराः ॥ २५ ॥ गुणाश्वि-  
रूपनेत्राणि पावकाग्निगुणाश्विनः । वस्वर्णवार्थयम-  
लास्तुरङ्गतुनगाश्विनः ॥ २६ ॥ नवाष्टनवनेत्राणि पाव-  
कैकयमाग्नयः । गजाग्निसागरगुणा उत्कमज्यार्धपि-  
ण्डकाः ॥ २७ ॥

भाषानुवाद—अब ऊम से १ से २४ तक को उत्कमज्या और अपकमज्या  
नीचे लिखी जाती है ॥

| संख्या | उत्कमज्या | अपकमज्या | संख्या | उत्कमज्या | अपकमज्या |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| १      | ७         | ७१       | १३     | ११५१      | १०५०     |
| २      | ८८        | १८२      | १४     | १३४५      | ११०७     |
| ३      | ६६        | २७३      | १५     | १५८८      | ११६२     |
| ४      | ११७       | ३६२      | १६     | १७१९      | १२१०     |
| ५      | १८२       | ४४८      | १७     | १९१८      | १२५३     |
| ६      | २४१       | ५३५      | १८     | २१२३      | १२८१     |
| ७      | ३४४       | ६१८      | १९     | २३३३      | १३८३     |
| ८      | ४६०       | ६९९      | २०     | २५४८      | १३४८     |
| ९      | ५३९       | ७७६      | २१     | २७६७      | १३७७     |
| १०     | ७१०       | ८५०      | २२     | २९६९      | १३८८     |
| ११     | ८४३       | ९९१      | २३     | ३२३३      | १३४५     |
| १२     | १००७      | १८८      | २४     | ३४३८      | १३७७     |

परमापकमज्या तु सप्तरन्त्रगुणेन्द्रवः । तद्गुणा ज्या  
त्रिजीवास्ता सञ्चापं क्रान्तिरुच्यते ॥ २८ ॥ ग्रहं संशोध्य  
मन्दोद्धात् तथा शीघ्राद्विशोध्य च । शेषं केन्द्रपदं तस्माद्  
भुजज्या कोटिरेव च ॥ २९ ॥ गताद् भुजज्या विष्मे  
गम्यात् कोटिः पदे भवेत् । युग्मे तु गम्याद् वाहुज्या को-

टिज्या तु गताद् भवेत् ॥ ३० ॥ लिप्सास्तत्वयमैर्भक्ता  
लब्धं ज्यापिण्डकं गतम् । गतगम्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्,  
तत्त्वलोचनैः ॥ ३१ ॥ तदवाप्रफलं योज्यं ज्यापिण्डेगत-  
संज्ञके । स्यात् क्रमज्याविधिरथमुत्क्रमज्यास्वपि समृतः ॥ ३२ ॥

भाषानुवाद-यहों की परम कान्तिन्या १३५ । जब यहों की मध्यकान्ति  
लानी हो तो अभीष्टज्या को परम कान्तिन्या १३६ से गुणा कर-गुणन फल  
को व्यापाराद्यं ३४३ से भागदेवे । जो भाग फल हो वह पूर्वोक्त जो व्याहुत्संख्या  
के साथ समान, इस व्याहुत्संख्या में धनु होगी वही धनु ग्रह की मध्य कान्ति  
होगी ॥२८॥ यह के मन्दीर से उसी यह का मध्य घटाने से जो शेष रहे उस  
को मन्दकेन्द्र कहते हैं । एवं मन्द केन्द्र और मध्य को शीघ्रोत्तर से घटाने पर  
जो बचे उस को शीघ्र केन्द्र कहते हैं । इसी शीघ्र केन्द्र और मन्द केन्द्र से  
भुजज्या और कोटिन्या निरूपित होंगी । १२ राशि के वृत्त में किसी चतु-  
धांश में यह केन्द्र होता है उस को ( केन्द्र ) जान कर इस केन्द्र की भु-  
जज्या और कोटिन्या स्थिर करे ॥ २९ ॥ १२ राशि के वृत्त के विषम खण्ड में  
(अर्धांत मेष, ईर्ष, मिथुन प्रथम-एवं तुला, शशिक, धनु तृतीय-इन की विषम  
पद संज्ञा है) अर्धांत राशि धक के प्रथम और दृतीय भाग में धनु का जितना  
भाग वीत गया है उस को भुजज्या और गम्य अर्धांत इस खण्ड के पूरा  
होने को जितना भाग अवशिष्ट ( द्वाक्षी ) है उस को कोटिन्या कहते हैं ।  
और सम भागफल ( अर्धांत कर्क, सिंह, कन्या द्वितीय-एवं सकर, कुम्भ, मीन  
चतुर्थ भाग-इन की युग्म वा सम पद संज्ञा है ) अर्धांत द्वितीय, चतुर्थ भाग  
में धनु का गम्य अर्धांत इस खण्ड के पूरा होने में जितने भाग अवशिष्ट हैं  
उस को भुजज्या, एवं इस धनु के जितना भाग पूरा हुआ है उस को कोटि-  
न्या कहते हैं ॥ ३० ॥ अभीष्ट अश को कला बनाकर २२५ से भाग देवे । इस  
भागफल संख्या में पूर्व कथित जो ज्या के साथ समान होगा, उस का नाम  
गतज्या । इस गत ज्या के पीछे जो उपा लिखी है, उस को गम्यउपा कहते  
हैं । इस गत और गम्यज्या को घटाने से जो बचेगा, उस के द्वारा पूर्व भाग  
के अवशिष्टाङ्क से गुणा कर गुणनफल में २२५ का भाग देवे । इस भागफल  
को यह गतज्या के साथ जोड़ देवे । योगफल अभीष्ट ज्या होगी । इसी नियमसे  
अभीष्ट अश की क्रमज्या निकालनी चाहिये । एवं इसी प्रक्रिया से अवशिष्ट

अंश की व्युत्क्रमजया भी निरुपित होगी ॥ ३१ । ३२ ॥

ज्यां प्रोजभ्य शेषं तत्त्वाश्चिवहतं तद्विवरोहधृतम् । सं-  
ख्या तत्त्वाश्चिवसंवर्गे संयोज्य धनुरुच्यते ॥ ३३ ॥ रवे-  
मन्दपरिध्यंशा मनवःशीतगोरदाः । युग्मान्ते विपमान्ते  
च नखलिप्तोनितास्तयोः ॥ ३४ ॥ युग्मान्ताऽर्थाद्रयः खा-  
ग्नी सुराःसूर्या नवार्णवाः । ओजे द्वयगा वसुयमा रुद्रा-  
रुद्रा गजाव्ययः ॥ ३५ ॥ कुजादीनामतः शैघ्रया युग्मान्ते-  
र्धाग्निदत्तकाः । गुणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीणि  
गोग्नयः ॥ ३६ ॥ ओजान्ते द्वित्रियमला द्विविश्वे यमपर्वताः ।  
खन्तुदस्ता वियदवेदाः शीघ्रकर्मणि कीर्तिताः ॥ ३७ ॥

**भाषानुवाद-**जिस ज्या पिण्ड का धनु स्थिर करना हो उस ज्या से पूर्ये  
वर्ती अशुद्ध ज्या को घटावे । जो शेष रहे, उस को २२५ से गुणन करे । पुनः  
उस गुणम फल फो शुद्ध और अशुद्ध दोनों ज्याओं के अन्तर ( घटाने से  
जो हो ) से भाग देवे । पुनः जितनी ज्या अभीष्ट हो उतनी संख्या और २२५  
इन्हीं दोनों के गुणमफल में पूर्वोक्त भागफल जोड़ने से जो हो वही अभीष्ट  
ज्या पिण्ड की धनु होगी ॥ ३३ ॥ युग्म रुद्र में सूर्य की मन्द परिपि १४  
अश और चन्द्रमा की मन्द परिपि ३२ अश । किन्तु विषमरुद्र में पूर्वोक्तदोनों  
मन्द परिपि धीस २ कला न्यून होगी । अर्थात् विषमरुद्र में सूर्य की मन्द  
परिपि ११ अंश ४० कला और चन्द्रमा की मन्द परिपि ३१ अंश ४० कला ॥ ३४ ॥  
युग्म रुद्र में महाल की मन्द परिपि ३५ अश, द्वय की मध्यप ३० अंश, द्वहस्पति  
की म० प० ३३ अंश, शुक्र की म० प० १२ अश और शनि की म० प० ४४ अंश  
और विषम रुद्र में महाल की मन्द परिपि ३२ अंश, द्वय की म० प० ११ अश, एवं शनि की  
म० प० ४४ अश ॥ ३५ ॥ अब इस समय महालादि ग्रहों की शीघ्रपरिपि का परि-  
भाण कहा जाता है । युग्म रुद्र में महाल की शीघ्रपरिपि ३५ अंश, द्वय  
की शी० प० १३० अंश, द्वहस्पति की शी० प० ३० अंश, शुक्र की शीघ्रपरिपि ६२  
अंश, एवं शनि की शीघ्रपरिपि ३९ अंश ॥ ३६ ॥ विषम रुद्र में महाल की

शीघ्रपरिधि २३२ अंश, युध की शीघ्रपरिधि १३२ अंश, शृहस्पति की शी० प० ७२ अंश, शुक्र की शी० प० २६० अंश, एवं शनि की शी० प० ५० अंश ॥ ३९ ॥

ओजयुग्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्धृता ।

युग्मे वृत्ते धनर्णि स्यादोजादूनाधिके स्फुटम् ॥३८॥

तद्गुणे भुजकोटिज्ये भगणांशविभाजिते ।

तद्भुजज्याफलधनमान्दं लिप्सादिकं फलम् ॥३९॥

भाषानुयाद-जित यह की शुहु परिधि लानी होवे-उस यह के पूर्वोल्ल  
युग्मसुषड और विषम की दोनों मन्दपरिधि को आपस में घटाकर उस अन्तर  
फल की अस्त्रीष्ट केन्द्र की भुजज्या से गुणन करे, एवं गुणन फल में उशसुर्द्ध  
से भाग देवे, अनन्तर इस भाग फल को पूर्वोल्ल युग्मसुषड के मन्दपरिधि से  
यदि न्यून हो तो उस को जोड़े, एवं यदि अधिक हो तो घटावे । यही योग  
या विषोग फल उस प्रका की शुहु परिधि होगी ॥३८॥ भान्द्य और शीघ्रकेन्द्र  
की भुजज्या और कोटिज्या को अपने २ स्फुट परिधि से अलगर गुणन करके  
गुणन फल को ३६० से भाग देये, दोनों भागफल, भुजपरिधिफल और कोटि  
फल होगा । पुनः यह देखना चाहिये कि जो ज्या इस भुजफल के समान है  
उसी ज्या की धनु में जितनी कला है, वही मन्दफल है ॥३९॥

शीघ्रयं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मृतम् । संशोध्यं तु

त्रिजीवायां कर्कादौ कोटिर्जं फलम् ॥४०॥ तद्वाहुफल-

वर्गेक्यांमूलं कर्णश्वलाभिधः । त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलं चल-  
कर्णविभाजितम् ॥४१॥ उच्चस्य चापं लिप्सादिफलं शीघ्रय-

मिदं स्मृतम् । एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थं चैव कर्मणि ॥४२॥

मान्दं कर्मेकमर्केन्द्रीभीमादीनामयोच्यते । शीघ्रयमान्दं

पुनर्मान्दं शीघ्रयज्ञत्वार्यनुक्रमाद् ॥४३॥ मध्येशीघ्र फ-

लस्याद्वं मान्दमर्धफलं तथा । मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं

शीघ्रयमेव च ॥४४॥

भाषानुयाद-पूर्वोल्ल प्रक्रियामुकार शीघ्र केन्द्र से शीघ्र कोटि फल स्थिर करने

जे लों अङ्ग होगा वह केन्द्र यदि ३ राशि से न्यून और ६ राशि से अधिक हो तो व्यासाहुं (३५३८) के साथ यह कोटिफल योग करे और यदि केन्द्र ३ राशि से अधिक किंवा ६ राशि से न्यून हो तो यह कोटिफल व्यासाहुं से घटावे (तो स्फुट कंटि निकल आवेगी) ॥४१॥ इस योग वा वियोग फल करे वर्ग की द्वितीय भुजफल के वर्ग के साथ जोड़े, पुनः इस योगफल का वर्ग मूल निकाले। वर्ग मूल संख्या ही शीघ्र कर्ण होगी। तदनन्तर द्वितीय भुज फल के अङ्ग को (झोक ३ में कहा गया है) व्यासाहुं से गुणन कर गुणन फल में उक्त शीघ्र कर्ण की संख्याका भाग देवे ॥४२॥ इस शीघ्र कर्ण में भाग कर जो भाग फल हो, उस उपर के अनुसार उनु स्थिर करनेपर जो हो वही यहाँका कलादि शीघ्र फल होगा। मङ्गलादि ५ ग्रहोंके स्फुट साधन समय प्रथम संस्कार में और उच्चुर्य संस्कार में इन शीघ्र फल की आवश्यकता होती है ॥४३॥ सूर्य और चन्द्रमा का केवल एक ही वार मान्द्य फल संस्कार करने से इन का स्फुट स्थिर होगा, किन्तु मङ्गलादि पांच ग्रहों का पथाकम से शीघ्र फल पीछे मान्द्य फल अनन्तर पुनर्वार मान्द्य फल एवं पुनर्वार शीघ्र फल संस्कार करने से उन का स्फुट होगा ॥४४॥ पहिले ग्रहों के मध्य में शीघ्र फल का अद्वैश संस्कार करना, संस्कार करने पर जो फल मिले उस के साथ मान्द्य फल का अद्वैश संस्कार करना चाहिये अर्थात् जो मान्द्य फल उल्लिखित शीघ्र फलाहुं संस्कृत मध्य से स्थिर हुआ है, वही संस्कार करना होगा, उस के पश्चात् पुनः यहाँ के मध्य में मान्द्य फल का समस्त भाग (जो शीघ्र फलाहुं और मान्द्य फलाहुं संस्कृत मध्य द्वारा जाना गया है) संस्कार किया जायेगा। इसी का नाम मन्द स्पष्ट है, पुनः इस मन्द स्पष्ट होना जो शीघ्र फल स्थिर होगा वही शीघ्र फल का सम्पूर्ण भाग मन्द स्पष्ट में संस्कार करना चाहिये। इस प्रकार संस्कार करने से यहाँ का स्फुट स्थिर होगा ॥४५॥

अजादिकेन्द्रे सर्वेषां शौघ्रघे मान्द्ये च कर्मणि । धनं ग्र-  
हाणां लिप्मादि तुलादावृणमेव च ॥ ४५ ॥ अर्कवाहुफ-  
लाभ्यस्ता: ग्रहभुक्तिर्विभाजिता । भचक्रकलिकाभिस्तु  
लिप्मा कार्या ग्रहेऽर्कवत् ॥ ४६ ॥ स्वमन्दभुक्तिसंशुद्धा  
मध्यभुक्तिर्निशापते: दोजर्यान्तरादिकं कृत्वा भुक्तावृण-

प्रधनं भवेत् ॥ ४७ ॥ ग्रहभुक्तेः फलं कार्यं ग्रहवन्मन्द-  
कर्मणि । दोजर्यान्तरगुणा भुक्तिस्तत्त्वनेत्रोद्घृता पुनः ॥४८

भाषानुवाद—सब ही ग्रहों के शीघ्र केन्द्र वा मन्द केन्द्र सेपादि छ राशि  
के अन्तर्वर्ती होने से उन की कलादि शीघ्र फलाङ्क वा मन्द फलाङ्क घन  
अर्थात् जोहना होगा और तुलादि छ राशि के अन्तर्वर्ती होने से ये ही  
कलादि फल सकल गुण अर्थात् घटाना पड़ेगा ॥ ४५ ॥ \* भुजान्तर स्सकार  
ग्रह के दैनिक स्फुट गति सख्ता को सूर्य के मन्द फल के कलाङ्क से गुणा कर  
गुणनफलके अङ्क को राशि चक्र के २१६०० कला द्वारा भाग करने से जो भाग  
फल मिले उस के कलादि की अङ्क सख्ता जिस प्रकार ग्रह के स्फुट में जोहना या घटाना  
पड़ेगा । इस प्रकार लङ्का के मध्य राशि का स्फुट निर्णीत होगा । ग्रहस्थान  
में जो जोहने वा घटाने का उस्तेस हुआ है उस को लङ्का के मध्य राशि के  
अहर्गण से यह का जो मध्य निरूपित होता है उस से जानना चाहिये ।  
चन्द्रमा की दैनिकगति के अङ्क से चन्द्रमा के मन्दोद्ध के दैनिकगति के अङ्क  
को घटाने से जो अङ्क अवशिष्ट रहे ( वही वचा हुवा द्वारा चन्द्रमा के  
मन्दोद्ध से गति का परिमाण जाना जायेगा ) इस अवशिष्ट अङ्कद्वारा पथात्  
- लिपित निष्पानुसार चन्द्रमा का मन्दफल निरूपण करके चन्द्रमा के दैनिक  
गति के अङ्क साप घटाने वा जोहने से चन्द्रमा की यथार्थ गति निरूपित  
होगी ॥ ४७ ॥ मन्द फल स्सकार में जिसप्रणाली से यह का मन्दफल निर्णीत  
होता है, उसीप्रकार ग्रह की दैनिकगति से यह का मन्दगति फल साधन  
करना चाहिये । ग्रह के मन्दफेन्द्र की ज्या निरूपण करने के समय जो “गत”  
और “गम्य” ज्या निर्णीत हुआ है, वही दोनों ज्या के परस्पर घटाने से  
जोयचे उस के द्वारा यह की दैनिक भुक्ति के अङ्क को गुणाकर गुणनफल को  
२२५ से भाग करे, पुन भाग फल को अपने ८ मन्दपरिचिद्वारा गुणन करे ॥ ४८ ॥

**स्वमन्दपरिधिक्षुपणा भगणांशोद्घृताः कलाः। कर्कदौतु**

\* टिप्पणी—लङ्का में यथार्थ मध्यराशि स्फुट गणना के लिये अहर्गण तिना-  
पण पूर्वक जो ग्रहस्फुट स्थिर किया जाता है उसी ग्रहस्फुट  
में यह भुजान्तर स्सकार करना पड़ता है ॥

धनं तत्र मकरादावृणं स्मृतम् ॥ ४६ ॥ भन्दस्फुटीकृतां  
 भुक्तिं प्रोज्भय शीघ्रोच्चभुक्तिः । तच्छेषं विवरेणाथ  
 हन्यात् त्रिज्यान्त्यकर्णयोः ॥ ५७ ॥ चलकर्णहृतं भुक्तौ कर्णे  
 त्रिज्याधिके धनम् । त्रृणमूनेऽधिके प्रोज्भय शेषं वक्र-  
 गतिर्भवेत् ॥ ५८ ॥ दूरस्थितः स्वशीघ्रोच्चाहु ग्रहः शिथिल-  
 रशिमभिः । सव्येतराकृष्टतनुर्भवेद्वक्रगतिस्तदा ॥ ५९ ॥ कृत-  
 तुं चन्द्रैवेदेन्द्रैः शून्यत्रयैकैर्गणाष्टभिः । शरस्त्रैश्चतुर्थेषु  
 केन्द्रांशैर्भूसुतादयः ॥ ५३ ॥

भाषानुवाद—पूर्वोक्तगुणनफल को ३६० से भाग देखे, भागफल जो फलादि  
 मिले (उसी को भन्दगति फल कहते हैं) उस को ग्रह की दैनिक भव्यगति के  
 अङ्क के साथ जोड़े या पटावे । यदि भन्द केन्द्र फकांदि छः राशि के अन्त-  
 यतीं हो तो जोड़े, एवं भन्दगति छः राशि के अन्तव्यतीं हो तो पटावे तो  
 सूर्य और चन्द्रमा की दैनिकगति और भङ्गलादि अन्यान्य ग्रह की भन्द स्पष्ट  
 गति साधित होगी ॥ ४६ ॥ पूर्वोक्त भन्द स्पष्टगति के अङ्क को दैनिक शीघ्रोच्च  
 गति के अङ्क से घटाकर घबे हुवे अङ्क को छापासाहु और द्वितीय शीघ्र कर्ण-  
 इन दोनों के अन्तराङ्क (घटा कर जो घबे) से गुणा कर गुणन फल को इसी  
 शीघ्र कर्ण की अङ्क सरलया से भाग करे । यदि कर्ण छापासाहु की अपेक्षा अधिक  
 होवे तो उक्त भाग फल को भन्द स्पष्ट गति के अङ्क के साथ जोड़े । एवं कर्ण  
 छपासाहु की अपेक्षा न्यून होने से घटावे, किन्तु यदि भाग फल भन्द स्पष्ट गति  
 की अपेक्षा अधिक हो अर्थात् घट न सके तो भाग फल से भन्द स्पष्ट गति के  
 अङ्क को घटावे, घटाने से जो श्रेष्ठ हो उसी को ग्रह की घक गति कहते हैं ॥ ५७ ॥  
 जिस समय कोई ग्रह अपने शीघ्रोच्च से दूर में अर्थात् ३ राशि अपेक्षा अधिक  
 दूर में हो रहता है, उस समय उस की रशिम शिथिल हो जाने से उच्च आईं  
 या दहनी और उस को आकर्षण करता है अर्थात् ग्रह उस के धार्डे और  
 होने से दक्षिण और को, एवं दहनी ओट होने से उस को धार्डे और  
 खेंधता है । इसी कारण घर्णे की घकगति होती है ॥ ५८ ॥ ग्रहस्फुट गणना  
 समय चतुर्थ संकार का केन्द्रांश १६४ होने से भङ्गल घक गमन आरम्भ

हो जाता है इसी प्रकार १४४ अंश होने से लुप्त, १३७ अंश होने से दृष्टिपति, १६३ अंश होने से शुक्र, एवं ११५ अंश होने से शनि का वक्तव्यमन आरम्भ होता है ॥ ५३ ॥

भवन्ति वक्तिणस्तैस्तु स्वैः स्वैश्चक्षाद्विशोधितैः । अव-  
शिष्टांशतुलयैः स्वैः केन्द्रैरुज्भन्ति वक्ताम् ॥ ५४ ॥ म-  
हत्त्वाच्छीघ्रपरिधेः सप्तमे भृगुभूसुतौ । अष्टमे जीवश-  
शिजौ नवमे तु शनैश्चरः ॥ ५५ ॥ कुजार्किंगुरुपातानां ग्रह-  
वच्छीघ्रजं फलम् । वासं तृतीयकं मान्दं वुधभार्गवयोः  
फलम् ॥ ५६ ॥ स्वपातोनाद्यग्रहाज्जीवाशीघ्राद्भृगुजसौ-  
म्ययोः विक्षेपन्नान्त्यकणास्ता विक्षेपस्त्रिज्ययाविधोः ॥ ५७ ॥  
भाँयामवाद-ठिलिलित सब अंशों को अलग अलग ३६० अंश से पटाने से

विषेष करे, घटाने से जो शेष रहे उस की भुजज्या को उक्त ग्रहों के परम विक्षेप अङ्क से (जो अ० १ स्रोक ३२ में कहा गया है) गुणा कर गुणनफल को चतुर्थ शीप्रकरण के अङ्क से भाग देवे। जो भागफल मिले वही अङ्कल, वह स्पति, शनि, बुध और शुक्र का विक्षेप है, किन्तु चन्द्रमा के विक्षेप साधन काल में चतुर्थ शीप्रकरण स्थल में व्यासादुर्ग से भाग करना होता है। वही भागफल चन्द्रमा का विक्षेप होगा ॥५३॥

विक्षेपापकमैकत्वे क्रान्तिर्विक्षेपसंयुता । दिनभेदे वियु-  
ता स्पष्टा भास्करस्य यथा गता ॥ ५८ ॥ ग्रहोदयप्राण-  
हता खखाएैकोद्धृता गतिः । चक्रासवो लब्धयुताः स्वा-  
होरात्रासवःस्मृतः ॥ ५९ ॥ क्रान्तेः क्रमोत्क्रमज्ये द्वे कृत्वा  
तत्रोत्क्रमज्यया । हीना त्रिज्या दिनव्यासदलं तद्रूपेष-  
णोत्तरम् ॥६०॥ क्रान्तिज्याविष्पुवद्भाष्मी क्षितिज्या द्वाद-  
शोद्धृत्या । त्रिज्यागुणाहोरात्रार्थं कर्णाम्भाचरजासवः ॥६१॥

भाषानुवाद—किसी यह की स्पष्ट कान्ति स्थिर करनी हो तो ( जेष से कन्या तक ६ राशि उत्तर और तुला से भीन तक ६ राशि दक्षिण ) उस ग्रह के विक्षेप और अपक्रम (क्रान्ति) पदि रपिभार्ग के एक दिशा में अवस्थित हो तो उस की मध्य कान्ति के साप विक्षेपाङ्क को जोहे और एक दिशा में अवस्थित न हो तो मध्य कान्ति से विक्षेपाङ्क घटाये। इसी प्रकार योग या विषेष करके जो फल मिले वही उस ग्रह की स्पष्ट कान्ति है। परन्तु सूर्यकी मध्य कान्ति ही उस की स्पष्ट कान्ति है ॥ ५६ ॥ सायन यह जिस राशि में अवस्थित हो उस राशि के छन्नमान के ग्राणाङ्क से उस यह की दैनिक फलादि गति के अङ्क को गुणन करके गुणन फल को १००० से भाग देवे, भागफल को १२ राशि के छन्नमान के ग्राणाङ्क के साप जोहने से जो समादि होगी, वही उस ग्रह के जहोरात्र का प्रतिमाण होगा ॥५७॥ सूर्योक्त भनुसार ग्रह की क्रान्ति का क्रमज्या और उत्क्रमज्या साधन पूर्वक उत्क्रमज्या को व्यासादुर्ग से घटा कर जो वहे वही भहाविष्य रेखा के दक्षिण या उत्तर दैनिक वृत्त का व्यासादुर्ग होगा। इसी को द्युव्या कहते हैं। ऐसे क्रमज्या को ही क्रान्तिज्या कहते हैं ॥ ५८ ॥ उपरोक्त क्रान्तिज्या को विषुव दिन की पलभा से गुणा कर, गुणन फल में १२ का भाग दे। भागफल कुज्या होगी। कुज्या को व्यासादुर्ग से गुणा

फर गुणनफल को पूर्वं कथित द्युञ्जया से भाग देवे । भागफल चरज्या होगी ।  
इस चरज्या की कला आदि धनु ही घराहु का प्राण होगा ॥ ६१ ॥

तत्कार्मुकमद्वक्रान्तौ धनहानी पृथक् स्थिते । स्वाहो-  
रात्रचतुर्भाँगो दिनरात्रिदले स्मृते ॥६२॥ याम्यक्रान्तौ विप-  
र्यस्ते द्विगुणे तु दिनक्षपे । विक्षेपयुक्तोनितया क्रान्त्या  
भानामपि स्वके ॥ ६३ ॥ भभोगोऽष्टशतीलिप्ताः स्वाश्विशै-  
लास्तथातिथे । ग्रहलिप्ता भभोगोप्ता भानि भुक्त्या दि-  
नादिकम् ॥ ६४ ॥ रवीन्दुयोगलिप्ताभ्यो योगाभभोगभा-  
जिताः । गता गम्यात्र पष्ठिन्ना भुक्त्योगाप्तनाडिकाः ॥६५॥

भाषासुवाद-यदि कान्ति उत्तरदिव्यत्तिं नी हो तो भहोरात्र के परिमाण  
के चतुर्धांश की दो भिन्न स्थानों से रसकर एक स्थानस्थ उक्त चरार्थ जोडे  
और अन्य स्थानस्थ अङ्क से पटावे तो यथाक्रम दिनाहुंमान और रात्र्यहुंमान  
निक्षिप्त होगा और यदि यह कान्ति दक्षिणदिव्यत्तिं नी हो तो उक्त चराहु को  
यथाक्रम पटावे और जोडे इस प्रकार-इस प्रकार करने से पूर्ववत् दिनाहुंमान  
और रात्र्यहुंमान स्थिर होयेगा । दिनाहुंमान और रात्र्यहुंमान को द्विगुण फरने  
से दिनभान और रात्रिभान होगा । इस प्रकार नात्तत्रिक दिग के परिमाण  
की जानने ही से यथाक्रम उन २ की कान्ति के अङ्क के साथ उन २ के विक्षेप-  
पाङ्क को जोड़े या पटावे ॥ ६२ । ६३॥ भभोग न्यर्थात् नक्षत्र के परिमाण ८८२  
फला और तिथि या चान्द्रदिन का परिमाण ७२० कला अप्नी ऐ समय के पह  
दफ्ट की रखयादि की कला घनकर पूर्वोक्त भभोग ( ८८२ ) से जाग करने

हुवे अङ्कु को ८०, से घटावे, घटाने से जो मिले उस का नाम "गम्य" है। इन दोनों अङ्कुओं को भिन्न भिन्न ६० से गुणा कर गुणनफल को सूर्य और चन्द्रमा की स्फुट गति की समस्ति से भाग करने से, जो फल हो वह यथाक्रम धर्तं-भान योग के गत एवं गम्य दरडादि होंगे ॥ ६५ ॥

विंवरण-विष्णुम्, प्रीति, आयुधमान्, सीमाग्य, शोभन, अतिगद, सुकर्मा, धृति, शूल, गण्ड, शृद्धि, ध्रुव, व्याधात, हृषण, वज्र, सिद्धि, व्यति-पात, वरीयान्, परिष्य, शिव, सिद्ध, साध्य, रुद्र, शुक्र, ग्रहसा, इन्द्र, वैद्यति, ये ही २७ योग एक आदि क्रम से अद्वितीय आदि नक्षत्रों के योग का नाम है।

**अकर्णनचन्द्रलिप्राभ्यरितथयो भोगभाजिताः । गता ग-  
म्याद्य पष्टिग्ना नाद्योभुत्त्यन्तरोद्धृताः ॥ ६६ ॥** प्रुवानि शकुनिर्नांगं द्रुतीयं तु चतुर्पदम् । किंस्तु त्वं तु चतुर्दश्याः कृप्णायाद्यापरार्थतः ॥ ६७ ॥ ववादीनि ततः सप्त चरा-रव्यकरणानि च । मासेऽष्टकृत्व एकैकं करणानां प्रवर्तते ॥ ६८ ॥ तिथ्यद्विभोगं सर्वपां करणानां प्रकल्पयेत् । एुपा स्फुटगतिः प्रोक्ता सूर्यादीनां खचारिणाम् ॥ ६९ ॥

इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

**भाषानुवाद-** अभीष्ट समय में चन्द्रमा के स्फुट से सूर्य स्फुट घटाने पर जो राशयादि यर्थे उन की फला घना कर तिथि भोग ७० से भाग देये, जो भागफल हो वह गत तिथि का चान्द्र दिन और जो अवशिष्ट रहे, वह धर्तं-भान तिथि के गत (बीता) अंश, एवं इस अवशिष्ट अङ्कु की ७० से घटाने पर जो घरे वही गम्य धीतने घाला । इस गत और गम्य इस दो अङ्कुओं को पृथग् पृथग् ६० से गुणन कर गुणनफल को भिन्न २ दो स्थानों में रखके सदस्तर चन्द्रमा की दैनिक स्फुट गति से सूर्य की दैनिक स्फुट गति घटा कर जो घरे उस से पूर्व स्थापित दोनों अङ्कुओं को यथाक्रम से भाग देये, भागफल यथान्तर से धर्तं-भान तिथि का गत और गम्य दरडादि अयगत हो सकता है ॥ ६६ ॥ रुद्रपक्ष की अमुर्दशी के पराहृ से आरम्भ होकर शुक्रपक्ष की परिवा के पूर्वाहृ तक जामयः शकुनि, नाग, चतुर्पद भीत किंस्तुम्, ये चार त्विर करण होते हैं ॥ ६७ ॥ और यवादि ३ चर नामक करण शुक्रपक्ष की परिवा के पराहृ से यथाक्रम से होते हैं । ये करण प्रत्येक भाष्म में अठ चार परिवर्तित

होते हैं ॥६८॥ तिथिमान का अद्वेष्ट भाग ही प्रथम करण का भोग करत है । सूर्योदि की दर्शनोपयोगी गति आदि का वर्णन किया गया ॥६९॥-

विवरण-किस तिथि के पूर्वाहुं और पराहुं में कौन करण होगा, वह नीचे लिखित चक्र द्वारा भली जाति ज्ञात होगा । चक्रको प्रथम पढ़कि में १ से ३० तिथि अर्थात् शुक्रपक्ष की परिवास से अमावस्या तक लिखा है, द्वितीय और पश्चम पढ़कि में इस २ तिथि के पूर्वाहुं में जो २ करण होंगे उस २ का अद्वेष्ट रखा गया है । और तृतीय और ६ठी पढ़कि में इस २ तिथि के पराहुं में जो २ करण होंगे उस २ का अद्वेष्ट रखा गया है । जैसे-प्रथम पांति के एक के अद्वेष्ट में शुक्र पक्ष की परिवा है । इस तिथि के पूर्वाहुं होने से द्वितीय पांति के प्रथम में “किं” द्वारा किंस्तुम्भ करण, एवं पराहुं होने से तृतीय पांति के १ अद्वेष्ट में घब करण होगा । इस प्रकार ऋगशः गणना करती होंगी । इन सम्पूर्ण करणों का नाम-घब, चतुष्पद, नाग और किंस्तुम्भ है, ये ही चार करण मिल कर ११ करण होंगे । निम्नलिखित चक्र में विटि के बदले में (०) शून्य और शकुनि के बदले में (४०), चतुष्पद के बदले में (८०), नाग के बदले में (नां०), किंस्तुम्भ के बदले में (किं०), ये सब लिये हैं ॥

करणों के नाम-शकुनि, चतुष्पद, नाग, किंस्तुम्भ, ये चार ग्रुब करण हैं और घब, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज् विटि; ये सात चरकरण हैं ॥

### तिथियों के अनुसार करण ज्ञापकचक्र ॥

| तिथियों के अद्वेष्ट                           | १  | २  | ३  | ४  | ५  | ६  | ७  | ८  | ९  | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | फृणपक्ष   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| तिथियों के पूर्वाहुं में जो करण होते हैं      | कि | २  | ४  | ६  | १  | ३  | ५  | ०  | २  | ४  | ६  | १  | ३  | ५  | ०  |           |
| तिथियों के पराहुं में जो करण होते हैं         | १  | ३  | ५  | ०  | २  | ४  | ६  | १  | ३  | ५  | ०  | २  | ४  | ६  | १  |           |
| तिथियों के अद्वेष्ट                           | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | शुक्रपक्ष |
| तिथियों के पूर्वाहुं में जो अद्वेष्ट होते हैं | २  | ४  | ६  | १  | ३  | ५  | ०  | २  | ४  | ६  | १  | ३  | ५  | ०  | ८० |           |
| तिथियों के पराहुं में जो करण होते हैं         | ३  | ५  | ०  | २  | ४  | ६  | १  | ३  | ५  | ०  | २  | ४  | ६  | १  | ८० |           |

करण के लो भिन्न २ नाम हैं वह ऊलित ज्योतिष का विषय है और “करण” संज्ञा भी प्राचीन ग्रन्थों में अर्थात् गृहासूत्र और महाभारत आदि में नहीं पाई जाती परन्तु इस उपय “पश्चात्” के ५ अङ्गों में से करण एक अङ्ग माना जाता है और ऊलित जी महाराज इस से भी नाना प्रकार के शुभाशुभ फल की कल्पना करते हैं। देखो सूमिका ॥

इति भाषानुवादे द्वितीयोध्यायः ॥ २ ॥



## अथ तृतीयोऽध्यायः

विप्रशनाथिकारः

शिलातलेऽम्बुसंशुद्धे वज्रलेपेऽपि वा समे । तत्र शट्काहु-  
लैरिष्टैः समं मण्डलमालिखेत् ॥ १ ॥ तन्मध्ये स्थापये-  
च्छकुं कल्पनाद्वादशाहुलम् । तच्छायाग्रं सर्वशेद्वत्र  
वृत्ते पूर्वापराधर्योः ॥ २ ॥ तत्र विन्दू विधायोभौ वृत्ते  
पूर्वापराभिधी । तन्मध्ये तिमिना रेखा कर्त्तव्या दक्षि-  
योत्तरा ॥ ३ ॥ याम्योत्तरदिशोर्मध्ये तिमिना पूर्वपश्चिमा ।  
दिह्मध्यमत्स्यैः संसाध्या विदिशस्तद्वदेव हि ॥ ४ ॥

भाषानुवाद—जाल की नाफ़ यराघर पत्थर पर या फठिन समझौते में इष्टभहुली  
के परिमाण का समवृत्त रखना करो। उस में १२ भहुल का शट्कु (काठ का दराढ उत्तम  
घना हुया) स्थापन करे उस के आगे वृत्त को पूर्वान्हया अपरान्ह में जिस जगह  
एउ वहाँ दो पूर्वापर (पूर्वान्तिक और अपरान्हिक) विन्दु (चिन्ह) लिखे। तिमि  
रेखा (दो वृत्त के छेद में उत्पन्न छली की नाई स्थान का नाम “तिमि”  
है) द्वारा उन दोनों विन्दु के बीच दक्षिणोत्तर रेखा ऐचे, दक्षिणोत्तर के दो  
विन्दुओं को केन्द्रकारक (मान कर) व्यासार्द्ध परिमाण से वृत्त ऐचे, वही  
तिमि होगी, उस से पूर्व और पश्चिम रेखा बनती है, दिशा के मध्य उत्त  
तिमि द्वारा ईशानादि (ईशान, अग्नि, नैऋत्य, धायठप, इन घार विदिशाओं  
का निश्चय करो) विदिशा की रेखा होगी ॥३॥ ४॥

चतुरसं वहिः कुर्यात्सूत्रैर्मध्याद्विनिर्गतैः । भुजसूत्राहुलै-  
सत्र दत्तैरिष्टप्रभा स्मृता ॥ ५ ॥ प्रावपश्चिमाश्रिता रेखा  
ग्रोच्यते सममण्डलम् । उन्मण्डलम् विपुवन्मण्डलं परि

कीर्त्यते ॥ ६ ॥ रेखा प्राच्यपरा साध्या विपुवद्वाग्रगा  
तथा । इष्टच्छायाविपुवतोर्मध्यमग्राभिधीयते ॥ ७ ॥  
शङ्कुच्छाया कृतियुतेमूलं कर्णोऽस्य वर्गतः । प्रोजभय  
शङ्कुकृतिं मूलं छायाशङ्कुर्विपर्ययात् ॥ ८ ॥

भाषानुवाद—जमीट स्थान से दिक् सम्पात्रहृप रेखा से निकली हुई आठों दिशाओं की रेखा द्वारा जो केन्द्र के दृश्य से बाहर है, छाया के परिभाषा से दृश्य सेंचकर पूर्व पश्चिम की रेखा से दृश्य के बाहर एक सम चतुष्कोण क्षेत्र सेंचे, वृत्त में छाया के अनुसार भुज ( शङ्कु के आगे की छाया की दूरता के परिमाण की भुज कहते हैं ) पूर्व में या पश्चिम में उत्तर में या दक्षिण में सेंचकर भुजापर के साथ जहाँ केन्द्र का संयोग हुआ है, वहाँ इष्ट छाया दिशा छात हो जावेगी ॥ ५ ॥ पूर्वापर रेखा का नाम समभएहल रेखा विपुवन्भएहल रेखा और उन्मभएहल रेखा, ये तीनों नाम है ॥ ६ ॥ उक्त सम चतुष्कोण में विपुव छाया के परिमाण पूर्वापर रेखा से दूर उत्तर भाग में एक सम रेखा साधन करो। विपुवहृप रेखा से इष्ट छाया रेखा के अन्तरको “अया” कहते हैं ॥ ७ ॥ शङ्कु छायाका वर्ग फरे और इस शङ्कुवर्ग में शब्दवर्ग को जोड़े। पुनः उस योगफल का वर्ग मूल निकालने से छाया करण होता है। छायां कर्णों का वर्ग करे, इस को शङ्कु वर्ग से घटावे । पुमः शेष अङ्कु का वर्ग मूल निकालने से छाया होगी। और उस के विपरीत करने से अर्धात् छाया कर्णों के वर्ग से छाया वर्ग घटाने से शेष फल शङ्कु वर्ग होगा ॥ ८ ॥

\* त्रिंशत्कृत्यो युगेभानां चक्रं प्राक्परिलम्बते । तद्गुणाद्  
भूदिनैर्भक्ताद्दुगणाद्वद्वाप्यते ॥ ६ ॥ तद्विस्तिव्वाद-  
शासांशा विज्ञेया अयनाभिधाः । तत्संस्कृताद्यग्रहाक्का-  
न्तिच्छायाचरदलादिकम् ॥ स्फुटं द्वयतुल्यतां गच्छेदयने  
विपुवद्वये ॥ १० ॥ प्राक्चक्रं चलितं हीने छायाकात्क-  
रणागते । अन्तरांशैरथावृत्य पश्चाच्छेषैस्तथाधिके ॥ ११ ॥

\* इस के टीकाकार में रङ्गालय ने लिखा है कि यह पाठ ( त्रिंशत् इत्यादि) प्रामादिक है। सोमसिद्धान्त पन्थ में ऐसा पाठ हिंकि—“युगे षट्थत एखो हि भानं प्राग्विलम्बते” ॥

एवं विषुवती छाया स्वदेशे या दिनार्धजा । दक्षिणो-  
स्तरेखायां सा तत्र विषुवत्प्रभा ॥ १२ ॥

भाषानुवाद-एक महायुग में भूर्बं और पश्चिम दिया में ६०० वार चलता है अपरोत् राशिचक विषुव रेखा से पश्चिम ओर २३ अंश घल कर पुनः अपनी विषुव रेखा पर (अपने स्थान पर) किर आता है और उस स्थान से पूर्व की ओर इसी प्रकार २१ अंश जाकर पुनः अपनी विषुवरेखा पर वापिस आजाता है । इस प्रकार एक महायुग में ६०० वार जाता और आता है, इस लिये एक कल्प में ६००००० वार जाता और आता है । इसी को “अयन” कहते हैं । एवं इसी के अंश को अयनांश कहते हैं । इस ६०० को भागेणसे गुणा कर गुणनफल को युगके साधनदिन से भाग देवे । भागफल भगणादि ( भगण, राशि, कला, विकला ) होगे । इस भागफल में से भगण को छोड़ देवे और राशि, कला, विकला जो हो उस का भुज घनावे (पूर्वोक्त दीति से ) उस भुजांश को तीन से गुणा कर गुणनफल में १० से भाग देवे । भागफल अयनांश होगा । यहाँ का अयन संस्कार करने से यहाँ की कान्ति, उद्या, चर आदि स्थिर होते हैं । दोनों विषुव दिन में ( दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन की सम्भि ) उक्त नियमों का अनायास निवाप होता है ॥ १ ॥ १० ॥ छाया द्वारा जाना हुआ सूर्य से गणित द्वारा लाया हुआ स्पष्ट सूर्य पदि न्यून हो तो चक ( कान्तिवृत्त ) पूर्वधारी है और छायागत सूर्य से गणितागत स्पष्ट सूर्य अधिक हो तो चक ( कान्तिवृत्त ) परिमाणाभी होगा । अन्तरांश द्वारा कान्तिवृत्त चलता है ॥ ११ ॥ अपने अपनी देश में इष्ट प्रकार से विषुव दिन के मध्यान्ह की छाया दक्षिणोस्तर रेखा में दिखाई देती है वही यहाँ की विषुव छाया है ॥ १२ ॥

शङ्कुच्छायाहते त्रिज्ये विषुवत्कर्णभाजिते । लम्बाक्षज्ये-  
तयोश्चापे लम्बाक्षौ दक्षिणौ सदा ॥ १३ ॥ मध्यच्छाया-  
भुजस्तेन गुणिता त्रिभमौर्विका । स्वकर्णाप्ता धनुर्लिप्ता  
नंतास्ता दक्षिणे भुजे ॥ १४ ॥ उत्तराश्चोक्तरे याम्यास्ताः  
सूर्यकान्तिलिप्तिकाः । दिग्भेदे मित्रिताः साम्ये विशिल-

एषाक्षाक्षलिपिकाः ॥१५॥ ताम्योऽक्षज्या च तद्वर्गं प्रोजम्य  
त्रिज्याकृते पदम् । उम्बज्यार्कगुणाक्षज्या विषुवद्वाथ  
लम्बयथा ॥१६॥ स्वाक्षार्कनतभागानां दिवसाम्येऽन्तरम-  
न्यथा । दिग्भेदेऽपक्रमः शेषस्तस्य ज्या त्रिज्यया हता ॥१७॥

भाषानुवाद—दो स्थानों में रक्खी हुई त्रिज्या को अलग २ शब्दकु अर्थात् १५ से गुण कर गुणनफल को विषुवच्छाया कर्ण से भाग देवे, भागफल पहिले स्थान में रक्खी हुई त्रिज्या की लम्बज्या होगी और दूसरे स्थान में रक्खी हुई त्रिज्या की अक्षज्या होगी और उम्बज्या का धनु घनाने से लम्ब होगा और अक्षज्या का धनु घनाने से अक्ष होगा ॥ १३ ॥ इटदिन के मध्यान्ह की ठाया का नाम “भुज” है, उस को त्रिज्या से गुण कर गुणनफल को मध्यान्ह ठायाकर्ण से भाग देवे, भागफल का धनु घनावे, वही “गति” होगी, यह भत्तकला मध्यान्ह ठाया (भुज) पदि पूर्वापर रेखा से दक्षिण में हो तो उत्तर नत कला होगी और यदि पूर्वापर रेखा से उक्त भुज उत्तर में हो तो दक्षिण भत्तकला होगी । उक्त नत कला और सूर्यकान्ति यदि एक दिशा में हों तो दोनों को एकत्र जोड़े और यदि दोनों भिन्न दिशा में हों तो एक में से दूसरे को घटाये तो योगफल या यियोगफल स्वीय अक्ष होगा ॥ १४ ॥ १५ ॥ उक्त अक्ष कलाओं से अक्षज्या होती है, अक्षज्या का वर्ग करे, पूर्व इस को त्रिज्या वर्ग से घटाये, शेष अङ्ग का सूल निकाले, वही उम्बज्या होगी । अक्षज्या को १५ से गुण कर गुणनफल में लम्बज्या का भाग देवे, भागफल विषुवच्छाया होगी ॥ १६ ॥ स्वदेश के अक्ष और इट दिन के मध्यान्ह सूर्यन-तांश् एक दिशा में हों तो दोनों के अन्तर (घटाने से) करने से शेष फल सूर्यकान्ति होगी, एवं यदि दोनों भिन्न दिशा में हों तो दोनों को योग करने से योगफल सूर्यकान्ति होगी । इस सूर्यकान्तिज्या को त्रिज्या से गुणन करे ॥१७॥

परमापक्रमज्यास्मा चापं मेषादिग्मोरविः । कर्कादौ प्रो-  
जक्षुध चक्रार्धात् तुलादौ भार्धसंयुतात् ॥ १८ ॥ मृगादौ  
प्रोजक्षुध भगणान्मध्यान्हेऽर्कः स्फुटोभवेत् । तन्मान्दम-  
सकृद्यामं फलं मध्योदिवाकरः ॥ १९ ॥ स्वाक्षार्काप-

क्रमयुतिदिक्साम्येऽन्तरमन्वया । शेषं नतांशाः सूर्यस्य  
तद्वाहुज्या च कोटिजा ॥ २० ॥ शङ्खमानाहुलाभ्यस्ते  
भुजत्रिज्ये यथाक्रमम् । कोटिज्यया विभज्यामि लाया  
कर्णावहर्दले ॥ २१ ॥ क्रान्तिज्या विपुवत्कर्णगुणाम्पा शङ्ख-  
जीवया । अर्काग्रा स्वेष्टकर्णद्वी मध्यकर्णद्विधृता स्वका  
॥ २२ ॥ विपुवद्भायुतार्काग्रा याम्ये स्यादुत्तरो भुजः ।  
विपुवत्यां विशोध्योदग्नीले स्याद्वाहुरुत्तरः ॥ २३ ॥

**भाषानुवाद-** उक्त गुणमफल में परम ज्ञानिज्या ( ११७ ) का भाग देखे,  
भागफल की ज्या धनाधे तो मेषादि ( मेष, वृष, मिथुन ) राशियोंसे सायन  
रवि स्पष्ट होगा और उक्त भागफल ज्या फक्टादि ( कर्क सिंह कन्या )  
राशियों में घकार्दु से ( ६ राशि से ) घटाने पर शेष फल मध्यान्ह काल में  
स्फुट सूर्य होगा और तुलादि ( तुला, वृश्चिक, धनु ) राशियों में उँ राशि  
योग करने से सायन रवि स्पष्ट होगा और भकरादि ( भकर, कुम्भ, झीन )  
राशि में १२ राशि से वियोग करने पर सायन रवि स्पष्ट होगा । सूर्य स्पष्ट  
से जान्द्यफल निणंय करके उलटी रीति से अनेक धार संस्कार करने से सूर्य  
मध्य होगा अपर्णत् सूर्य स्पष्ट को सूर्य मध्य की नाइ गणित कर मन्दोच्चादि  
संस्कार द्वारा जान्द्यफल लाभ होकर उलटी रीति से संस्कार करने से स्पूल  
सूर्य होगा । उस को मध्य ज्ञान कर सान्द्यफल पुनः उक्त रीति से सूर्य स्पष्ट  
में गिरावीत भाष्य से संस्कार करे ॥ १५ । १६ । १७ ॥ अब तेज जा वर्ताय और

कर्ण से गुणा कर गुणनफल में त्रिजया का भाग देवे, भागफल स्वकर्ण की अद्या होगी ॥ २२ ॥ दक्षिण जोल में विषुवच्छाया से सूर्य के अभीष्ट कालिक कर्ण की अद्या को जोहे तो उत्तरभुज होगा और उत्तरगोल में विषुवच्छाया से सूर्य के अभीष्ट कालिक कर्ण की अद्या को घटावेतो शेष फल उत्तरभुज होगा ॥२३॥

**विपर्ययाद्भुजो याम्योभवेत् प्राच्यपरान्तरे । माध्या-**  
**न्हिकोभुजोनितयं छायामाध्यान्हिकी स्मृता ॥ २४ ॥ लम्बा-**  
**क्षजीवे विषुवच्छायाद्वादशसंगुणे । क्रान्तिज्यास्ते तु**  
**तौ कर्णो सममण्डलगे रवौ ॥ २५ ॥ सौम्याक्षोना यदा क्रा-**  
**न्तिः स्यात्तदा द्युदलश्रवः । विषुवच्छाययाम्यस्तः कर्णो**  
**मध्याग्रयोदाधृतः ॥ २६ ॥ स्वक्रान्तिज्या त्रिजीवाद्वी ल-**  
**म्बज्यामाग्रामीर्विका । स्वेष्टकर्णहता भक्ता त्रिज्ययाग्रा-**  
**द्वुलादिका ॥ २७ ॥**

भाषानुयाद—यदि सूर्य से अभीष्ट कालिक कर्ण की अद्या विषुवच्छाया न घट सके तो विषुव छाया को अभीष्ट कालिक सूर्य के कर्ण की अद्या को घटावे, शीयफल दक्षिण भुज होगा । पूर्वोपर रेखा के मध्य में दक्षिण, और उत्तरभुज होता है और मध्यान्ह कालिक छाया का नाम भुज है ॥ २४ ॥ ल-म्बज्या को विषुव छाया से गुणा कर गुणनफल में क्रान्तिज्या का भाग देवे, भागफल पदि सम गणदलस्य सूर्य हो तो “छाया” होगी । पुनः अक्षज्या को १२ से गुणा कर गुणनफल में क्रान्तिज्या का भाग देवे । भागफल पदि सम दृसस्य सूर्य हो तो छाया कर्ण होगा ॥ २५ ॥ यदि उत्तर क्रान्ति अक्ष से न्यून है तो समदृतस्य सूर्य की साधित क्रान्ति मध्याह्न कर्ण की विषुवछाया से गुणा कर गुणनफल में मध्याह्न कर्ण की अद्या का भाग देवे, भागफल सम मण्डलस्य यह का छाया कर्ण होगा ॥ २६ ॥ इष्ट कालिक क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा कर गुणनफल को लम्बज्या से भाग देवे, भागफल अद्या होगी, उस को अपने इष्ट कर्ण से गुणा कर गुणनफल में त्रिज्या से भाग देवे, भागफल अहुलादिक होंगे ॥ २७ ॥

**त्रिज्यावर्गार्थतोऽग्रज्या वर्गीनाद द्वादशाहतात् । पुनर्द्वा-**

दशनिद्वाज्ञ लभ्यते यत् फलं युधैः ॥ २८ ॥ शङ्कुवर्गार्द्धसं-  
युक्तविषुवद्वर्गभाजितात्। तदेव करणी नाम तां पृथक्  
स्यापयेद्वुधः ॥ २९ ॥ अर्कघनी विषुच्छायाग्रज्यया गुणि-  
ता तथा । भक्ता फलाख्यतद्वर्गसंयुक्तकरणीपदम् ॥ ३० ॥  
फलेन हीनसंयुक्तं दक्षिणोन्तरगोलयोः। याम्ययोर्विदिशोः  
शङ्कुरेवं याम्योत्तरे रवौ ॥ ३१ ॥ परिभ्रमति शङ्कोत्तु शङ्क-  
रुत्तरयोस्तु सः। तत्त्रिज्यावर्गविश्लेषान्मूलं द्वग्रज्याभि-  
धीयते ॥ ३२ ॥ स्वशङ्कुना विभज्यास्ते द्वकूत्रिज्ये द्वादशाहते ।  
छायाकर्णीं तु कोणेषु यथास्वं देशकालयोः ॥ ३३ ॥

भाषानुवाद-त्रिव्या वर्ग के जापे से (५९९८८८) पूर्व प्रकार लाया हुआ  
तात्कालिक अयन्या वर्ग को घटाकर विषोगफल को १४४ से गुणा कर गुणन  
फल को विषुवलाया में ३२ निला कर वर्ग करे, इस वर्ग से उक्त गुणनफल में  
भाग देवे, भागफल "करणी" होगी । इस को अलग एक स्थान में रख लोडे  
॥ २८ ॥ २९ ॥ विषुवलाया को १२ से गुणा करे गुणनफल को अयन्या से गुणा कर  
गुणनफल को ३२ निला कर विषुवलाया के यांसे भाग देवे, भागफल "फल"  
होगा । इस फल के वर्ग और करणी को एकत्र जोड़े, पुनः इस का यर्गमूल  
निकाले, इस वर्गमूल को दक्षिण गोल में "फल" से घटावे और उत्तर गोल  
में "फल" में जोड़े तो योग या विषोग फल कोण शङ्कु होगा । 'सूर्यं दक्षिण  
में हो तो कोणशङ्कु दक्षिणदिशा के दो कोणों में (आनन्द, नैऋत्य=विदिशा)  
और सूर्य उत्तर गोल में हो तो कोण शङ्कु उत्तर के दो कोणों (ईशान,  
धायड्य=विदिशा) में ॥ ३० ॥ ३१ ॥ उस का वर्ग और त्रिज्या वर्ग का अन्तर  
( याकी घटाने पर ) का यर्गमूल निकालने से दृश्या होगी । दृश्या को १२  
से गुणा कर गुणनफल को और त्रिज्या को १२ से गुणा कर गुणनफल को  
कम से कोण कटाइकू से भाग देने से भागफल इष्ट स्थान में इष्ट स्थान की  
उपा ( पहिला फल ) होगी और फणं होण ( दूसरे का फल ) ॥ ३२ ॥ उत्तर  
दिशा में सूर्यं होने पर त्रिज्या से चरण्या को योग करे, योगफल "अन्यासे  
होगी । दक्षिणगोल में सूर्यं हो तो त्रिज्या से चरण्या को घटावे । यैष फल

“अन्त्या” होगी। जप्याम्ह से इष्ट काल घटाने पर विषेग फल का अशादि (अश, फल) घटाने से “नत” होगा, नत के अनुसार उत्क्रमज्या अन्त्य से पटाकर विषेगफल को अपने जाहोरात्मार्थ व्याप से गुणा करे ॥ ३३ ॥

**त्रिजयोदक्षचरजायुक्ता यास्यायां तद्विवर्जिता । अन्त्या नतोत्क्रमज्योना स्वाहोरात्मार्थसंगुणा ॥३४॥** त्रिजयाभक्ता-भवेच्छेदो लम्बज्याग्नोऽथभाजितः । त्रिभज्ययाभवेच्छहु-स्तद्वर्गं परिशोधयेत् ॥ ३५ ॥ त्रिजयावर्गात्पदं दृग्ज्या छायाकर्णो तु पूर्ववत् । अभीष्टच्छाययाभ्यस्ता त्रिजया तत्कर्णभाजिता ॥ ३६ ॥ दृग्ज्या तद्वर्गसंशुद्धात् त्रिजया वर्गाज्ञ यत्पदम् । शङ्क.सत्रिभजीवाग्नः स्वलम्बज्यावि-भाजिताः ॥ ३७ ॥ छेद. सत्रिजययाभ्यस्तः स्नाहोरा-त्राद्वभाजितः । उक्तज्या तया हीना स्वान्त्या शेषस्य कार्मुकम् ॥ ३८ ॥

**भाषानुवाद-** उक्त गुणनफल को त्रिजया ( ३५३८ ) से भाग देवे, भागफल छेद होगा। छेद को लम्बज्या से गुणा कर, गुणन फल को त्रिजया से भाग देवे, भागफल इष्ट काल का शहूक होगा । त्रिजया वर्ग ( ११८१८८४४ ) से उस शहूक वर्ग ( १४४ ) को घटाने से शेष फल का वर्गमूल निकाले तो दृग्ज्या होती है । इस से छाया और कर्ण पूर्वोक्त रीति से स्थिर होता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अभीष्ट कालिक छाया को त्रिजया से गुणा कर, गुणनफल को छाया कर्वे से भाग देवे, भागफल दृग्ज्या होगी । इस के वर्ग को त्रिजया वर्ग से घटावे और शेष अङ्क का वर्ग मूल निकालने से शहूक होगा । उस शहूक को त्रिजया से गुणा कर गुणनफल को अपनी लम्बज्या से भाग करे, भागफल “छेद” होगा । उस छेद को त्रिजया से गुणाकर गुणनफल को स्वाहोरात्राद्व से भाग करे, भागफल को स्वीय “अन्त्य” से घटाने पर शेष “उक्ततन्त्रा” होगी, उस का घनु करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

**उक्तमज्याभिरेवं स्युः प्राकृपश्चार्धनतासवः ॥३८ ॥** इष्टा-ग्राग्नी तु लम्बज्या स्वकर्णाहुलभाजिता । क्रान्तिज्या सा

त्रिजीवाद्धी परमापक्रमोदधृता । तज्जापं भादिकं क्षेत्रं  
पदैस्तत्र भवोरविः ॥३६॥ इष्टेऽह्नि मध्ये प्राक् पश्चाद्धृते  
धाहुत्रयान्तरे । भत्स्यद्वयान्तरयुते खिसपृक्सूत्रेण भा-  
भ्रमः ॥४०॥ त्रिभद्रुकर्णार्धंगुणाः स्वाहोरात्रार्धंभाजिताः ।  
क्रमादेकट्टित्रिभज्यास्तज्जापानि पृथक् पृथक् । स्वा-  
धीधः परिशोध्याथ मेपाल्लुडोदयासवः ॥४१॥ स्वागाएयो-  
अर्थंगोऽग्नैकाः शरन्यद्वहिमांशवः ॥

भापानुवाद- उत्तर ज्या के परिसाम से धनु वनाने पर पूर्वाह्नि और  
अपराह्नि नति प्राण स्थिर होगा ॥ ३६ ॥ इस अया से सम्बन्धा को गुणा कर  
गुणमकल को अपनी कणार्हगुल संख्या से भाग देवे, भागमकल सूर्य की कान्ति-  
उया होगी, उस को त्रिज्या से गुणा कर गुणम कल में परमापक्रमज्या से  
भाग करे, भागमकल ज्या का धनु (राश्यादि) करने से (यदि यह वात  
जालूम हो कि चक्र के विषमपद या समपद में) सायन सूर्य स्फुट होगा ॥३६॥  
अभीष्ट दिन को पूर्वापर सूत्र के भव्यस्थान से ३ चिन्ह करके नस्यद्वय गत  
रेता के संयोग स्थान से तीन चिन्ह को स्पर्श करता हुआ तीन वृत्त खेंचने  
से छाया शेष का भ्रमण मार्ग निर्णीत होगा ॥४०॥ एक दो और तीन राशि  
की ज्या को क्रमशः तीन राशि के द्युज्या (१३७) द्वारा गुणा करके स्वर  
राशि के अहोरात्राह्नि ज्या द्वारा भागकर धनु निर्दय करे । ग्रयम द्विराशि के  
फल से प्रथम विषोग और त्रिराशि फल से द्विराशि फल घटाकर फला मेषादि  
का लङ्कोदय प्राण होगा । प्राण संख्या मेय १६७, व्यप १७७, नियुन १८५ ॥४१॥

स्वदेशचरखण्डोना भवन्तीष्टोदयासवः ॥ ४२ ॥ व्यस्ता  
व्यस्तैर्धुताः स्वैः स्वैः कर्कटाद्वास्ततस्यः ॥४३॥ उत्क्रमेण  
पठेवैते भवन्तीष्टा तुलादयः ॥ ४४॥ गतभोग्यासवः का-  
र्याभास्करादिष्टकालिकात् । स्वोदयासुहता भुक्तभी-  
ग्याभक्ताः स्वव्हिभिः ॥४५॥ अभीष्टघटिकासुभ्यो भी-

यासूनप्रविशोधयेत् । तद्वत्तदेष्यलग्नासूनेवं यातांस्त-  
थोत्क्रमाद् ॥ ४६ ॥ शीषंचेत्त्रिंशताभ्यस्तमशुद्धेन विभा-  
जितम् । भागहीनं च युक्तं च तद्वग्नं क्षितिजे तदा ॥ ४७ ॥

भाषानुवाद-उस से स्वदेश चरणहाथियोग करने से हट देश का उदय  
प्राण होगा ॥४२॥ पश्चिम से कम से लहौदय प्राण के साथ पश्चिम से चरणहाथ  
योग करने से कर्कादि उदय प्राण होगा ॥ ४३ ॥ मेषादि छः राशि के उदय  
प्राण पश्चिम से तुलादि के उदयप्राण होंगे ॥ ४४ ॥ उदय मान द्वारा सातका-  
लिक (सायन) रथिस्पष्ट के गत और भोग्य प्राण होगे ॥४५॥ स्वाभीष्ट घटिका  
के प्राण से भोग्य घटावे । किर अम २ से पिठली पिठली राशियों के प्राण  
जब तक घट न सकें इसी प्रकार करता जावे ॥ ४६ ॥ शेष को ३० से गुणा कर-  
गुणन फल में शोध्य राशि की प्राणसंख्या से भाग देने से जो अंशादि हो  
उस को गहरा राशिकी संख्या में जोड़ने से ( सायन ) लग्न स्पष्ट होगा ॥४७॥

प्राकृपश्चान्तनाडीभिस्तस्मात्पङ्कोदयासुभिः।भानीक्षय-  
धने कृत्वा मध्यलग्नं तदा भवेत् ॥ ४८ ॥ भोग्यासूनूनकस्याथ  
भुक्तासूनधिकस्य च । संपिण्ड्यान्तरलग्नासूनेवं स्थाव-  
कालसाधनम् ॥ ४९ ॥ सूर्याद्वने निशाशेषे लग्नेऽकर्दद्धिके  
दिवा । भचक्रार्धयुताद्वानोरधिकेस्तमयात्परम् ॥ ५० ॥

इति द्वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

भाषानुवाद-उक्त प्रकार से पदात् तत प्राण लहौदय प्राण खण्डा लेकर  
रविस्फुट में प्राण और योग करने से सभ्य वा दृश्य लग्न स्थिर होगा ॥४८॥  
लग्न और रवि स्पष्ट के सभ्य में न्यून का भोग्य कीर अन्यका भुक्त एवं इन दोनों  
के सभ्य स्थित राशि गण के प्राण उल्पा को एकप्र करने से जो प्राण संख्या  
होगी,उस से काल साधित होगा ॥ ४९ ॥ लग्नस्पष्ट सूर्यस्फुट से न्यून होने से  
निशा शेष और अधिक होने से दिन में और छः राशि युक्त सूर्य से लग्न अधिक  
हो सो सन्ध्या के पीछे होगा ॥ ५० ॥

इति भाषानुवादे द्वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ओ३३८

## अथ चतुर्थोऽध्यायः

अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः

साधानि पट्सहस्राणि योजनानि विवरतः । विष्क-  
म्भो मण्डलस्येन्दोः सहाशीत्या चतुःशतम् ॥१॥ स्फुट-  
स्वभुक्तया गुणितौ मध्यभुक्तोऽद्यृतौ स्फुटौ । रवे: स्व-  
भग्णाभ्यस्तः शशाङ्कभग्णोऽद्यृतः ॥ २ ॥ शशाङ्ककक्षा-  
गुणितो भाजितो वार्ककक्षया । विष्कम्भम्बन्द्रकक्षायां  
तिथ्याप्रामानुलिमिकाः ॥ ३ ॥ स्फुटेन्दुभुक्तिर्भूव्यासगु-  
णिता मध्ययोऽद्यृता । उदधं सूचीमहीव्याससफुटार्कम्ब्रव-  
णान्तरम् ॥४॥ मध्येन्दुव्यासगुणितं मध्यार्कव्यासभाजि-  
तम् । विशेष्य उदधं सूच्या तु तमोलिप्रास्तु पर्ववत् ॥५॥

भापालुवाद-भूर्यमण्डल अर्थात् सूर्य के विष्व व्यास का परिमाण ६५००  
योजन और चन्द्रमा के विष्व व्यास का परिमाण ४०० योजन है, इन को  
केवल सूर्य के विष्व व्यास को सूर्य की स्पष्ट गति से गुणा कर, गुणनफल  
में सूर्य की मध्य गति से भाग दे, भागफल सूर्य के स्फुट विष्व व्यास का परि-  
माण होगा । इसी मकार चन्द्रमा के विष्व व्यास को चन्द्रमा की स्पष्टगति से  
गुणा कर गुणनफल में चन्द्रमा की मध्य गति का भाग दे, भागफल चन्द्रमा के  
स्फुट व्यास का परिमाण होगा ॥१॥ सूर्य के स्पष्ट व्यास को अपने भग्ण (८०८०)  
पे गुणा कर, गुणनफल में चन्द्रमा के भग्ण का भाग दे, या चन्द्रमा की कक्षा  
योजन रांख्या से गुणा कर, गुणनफल में सूर्य की कक्षा योजन संख्या का भाग  
दे, भागफल चन्द्रमा की कक्षा में अर्थात् चन्द्राधिष्ठित आकाश नील में सूर्य  
स्पष्ट व्यास का परिमाण होगा । इस के पश्चात् सूर्य स्पष्ट विष्व व्यास की  
योजन मरम्या को १५ से भाग दे, भागफल सूर्य के विष्व व्यास की कछाही होगी ।

उस चन्द्रमा के स्पष्ट विम्ब ध्यास योजन संख्या को १५ से भाग दे, भागफल चन्द्रमा के स्पष्ट विम्ब ध्यास की कला होगी ॥ २ । ३ ॥ चन्द्रमा की स्पष्ट गति को पृथिवी के ध्यास (१६००) से गुणा कर गुणनफल में चन्द्रमा की मध्य गति का भाग दे, भागफल "सूची" होगी । पृथिवी के स्पष्ट ध्यास की सूर्य के स्पष्ट विम्ब ध्यास से घटावे, जो अवशिष्ट हो, उस को चन्द्रमा के मध्य ध्यास (४८०) से गुणा कर, गुणनफल में सूर्य के मध्य ध्यास योजन संख्या का भाग दे, भागफल को उक्त "सूची" से घटाने पर शेष अङ्क "तमध्यास" संख्या होगी । इस को पहिले की नार्थ १५ से भाग दे, भागफल तभ मध्यास की कला होगी ॥ ४ । ५ ॥

भानोर्भार्धे महीच्छाया तत्तुल्येऽर्कसमेऽपि वा । शशाङ्क-  
पाते ग्रहणं कियद्भागाधिकोनके ॥६॥ तुल्यौ राश्यादि-  
भिः स्यातामभावास्यान्तकालिकौ । सूर्यन्दू पौर्णमास्यन्ते  
भार्धे भागादिकी समौ ॥ ७ ॥ गतैष्यपर्वनाडीनां स्वफ-  
लेनोनसंयुतौ । समलिप्तौ भवेतां तौ पातस्तास्कालिको  
उन्यथा ॥ ८ ॥ छादको भास्करस्येन्दुरघःस्योधनवहूभ-  
वित् । भूच्छायां प्राहुमुखश्चन्द्रो विशत्यस्य भवेदसौ ॥ ९ ॥  
तात्कालिकेन्दुविक्षेपं छादच्छादकभानयोः । योगार्धात्  
प्रोज्भक्य यच्छेपं त्रावच्छुत्तं तदुच्यते ॥ १० ॥ ,

भाषानुयाद-सूर्ये में ६ राशि दूर अर्धात् १०० अंश पर पृथिवी की छाया स्थित है । चन्द्रपात या छाया (भूछाया) सूर्य के बराबर राशि अश में यदि अवस्थित हो तो यहण का सम्भव होगा । उक्त परिमाण से चूम या अधिक होने पर भी यहण होगा ॥ ६ ॥ अमावास्या के अन्त काल में सूर्य और चन्द्रमा की राशि अश कलादि बराबर होती है और पूर्णमासी के अन्त में सूर्य और चन्द्रमा में १०७ अश (६ राशि) का अन्तर (फरक) हो जाता है अर्धात् अमावास्या को सूर्य के अधोभाग में चन्द्रमा आजाता है और पूर्णमासीको चन्द्रमा और पृथिवी की छाया समसूत्रस्थ हो जाती है और सूर्य १०० अंश रप रहता है ॥ ७ ॥ मध्य राश्रिक स्पष्ट (अ० १ । ६७ शोक) राश्यादि (राशि,

तदग्राह्यमधिके तस्मिन्सकलं न्यूनमन्यथा। योगार्धादधि-  
के न स्याद्विक्षेपे ग्राससम्भवः ॥ ११ ॥ ग्राह्यग्राहकसंयोग-  
वियोगौ दलितौ पृथक् । विक्षेपवर्गहीनाभ्यां तदवर्गाभ्या-  
मुभेषदे ॥ १२ ॥ पष्ठ्या संगुण्य सूर्येन्द्रोभुञ्ज्यन्तरविभा-  
जिते । स्यातां स्थितिविमर्दार्थं नाडिकादिफले तयोः  
॥ १३ ॥ स्थित्यर्थनाडिकाभ्यस्ता गतयः पष्ठिभाजिताः ।  
लिप्तादिप्रग्रहे शोध्यं मोक्षे देयं पुनःपुनः ॥ १४ ॥ तद्विक्षेपैः  
स्थितिदलं विमर्दार्थं तथा सकृत् । संसाध्यमन्यथा पाते  
तल्लिप्तादिफलं स्वकम् ॥ १५ ॥

भाषानुवाद—जो यात्त्वमान यहविष्य से “छक्षमान” अधिक हो तो  
“घण्टास” वा सम्पूर्ण यहण होगा (सर्वयात्त) और यात्त्वमान से “छक्षमान”  
न्यून हो तो, न्यून यहण किया जावेगा । और यात्त्व और याहकमान को  
जोड़ कर, आधा करने पर यदि यह आधा विक्षेप से न्यून हो तो, यहण  
नहीं होगा । यहण दो प्रकार का है एक नवयात्त्व वर सम्पूर्ण यहण, और  
दूसरा आशिक वा उपर्युक्त यहण होता है ॥ १ ॥ यात्त्वमान और याहकमान  
को एकत्र जोड़े, पुनः उस जोड़े हुए अद्वा को आधा कर एक स्थान में रखें  
और यात्त्वमान से याहकमान को घटावें, जो शेष अद्वा हो उस फो दूसरे  
स्थान में रखें । एवं पहिले रखें हुये योगार्दुं का वर्ग करे, इसी प्रकार दूसरे  
स्थान में रखें हुए वियोगार्दुं का वर्ग करे, और योगार्दुं वर्ग से विक्षेप वर्ग  
को घटावें, इसी प्रकार वियोगार्दुं वर्ग से विक्षेप वर्ग को घटावें, और दोनों  
घटा हुए वर्ग का मिल वर्ग सूल निकाले, युनः उन दो वर्ग सूलों को मिलर  
६० से गुणा करे, गुणनफल में सूर्य की स्पष्टगति से चन्द्रमा की स्पष्टगति को  
घटावें, घटाने से जो फल हो, उस के दोनों मिल २ स्थापित गुणनफल में  
भाग दे, भागफल कम से भोगार्दुं का फल स्थूलस्थित्यर्दुं दशडादि और वि-  
योगार्दुं का फल स्थूल विषद्धं दशडादि होगे ॥ १२ ॥ १३ ॥ सूर्य चन्द्रमा और  
पात (राहु) की गति को स्थित्यर्दुं दशड से गुणा कर, गुणनफल में ६० का  
भाग देवें, भागफल कलादि स्पर्श में सूर्य और चन्द्रमा के घटावे और मोक्ष

में सूर्य और चन्द्रमा में जोड़े, और पात में उस के विपरीत करे अर्थात् भोक्त  
में पात से घटावे और स्पर्श में पात में जोड़े उस से अर्थात् वास्तकालिक  
चन्द्रमा और उस के पात द्वारा लाई हुई शर कला से स्थित्यर्हु निर्णय करे  
जबतक निश्चय न हो यारम्बार इसी प्रजार करता जावे ॥१४॥१५॥

स्फुटतिथ्यवसाने तु मध्यग्रहणमादिशेत् । स्थित्यर्थना-  
डिकाहीने ग्रासीमोक्षस्तु संयुते ॥१६॥ तद्वदेव विमर्दार्थ-  
नाडिकाहीनसंयुते । निमीलनोन्मीलनाख्ये भवेतां सकल-  
ग्रहणे ॥१७॥ इष्टुनाडीविहीनेन स्थित्यर्थनार्कचन्द्रयोः ।  
भुक्त्यन्तरं समाहन्यात् पठ्याम्नाः कोटिलिप्तिकाः ॥१८॥  
भानोर्ग्रहे कोटिलिप्ता मध्यास्थित्यर्थसङ्घणाः स्फुटस्थित्यर्थ  
सम्भक्ताः स्फुटाः कोटिकलाः स्मृताः ॥१९॥ क्षेयोभुज-  
स्तयोर्वर्गयुतेमूलं श्रवस्तु तत् । भानयोगार्थतः प्रोजभय  
ग्रासस्तात्कालिको भवेत् ॥२०॥

भाषणगुद्याद्-स्पष्ट तिथि के अन्त में मध्यग्रहण होता है । उस से मूल्य  
स्थित्यर्हु दरह घटाने पर स्पर्श ( यास ) काल होता है और स्पष्ट तिथि के  
अन्त में मूल्य स्थित्यर्हु दरह जोड़ने से भोक्त काल होता है ॥१६॥ इसी प्रकार  
सम्पूर्ण ग्रहण में (१६ सोक में जैसा कषा है ) मूल्य विनिर्दार्थ घटिका मध्यग्रहण  
समय से घटावे तो निमीलन काल होगा और मध्यग्रहण समय में मूल्य विनिर्दार्थ  
दरह जोड़े तो उन्मीलन काल होगा । सम्पूर्ण ग्रहण में “स्पर्श” को “निमीलन”  
और “ भोक्त ” को “उन्मीलन” कहते हैं ॥१७॥ मूर्य और चन्द्रमा की गति  
के ( परस्पर घटा कर ) अन्तर कला से ग्रहणारम्भ से इष्टुदग्धादि घटाकर  
शेष अङ्कु को स्थित्यर्हु से गुणा करे, गुणन कल में ६० का भाग दें भाग कल कोटि  
कला होगी ॥१८॥ मूर्य ग्रहण में पूर्वोक्त प्रकार से लाई हुई कोटि कला को स्थित्यर्थ  
से गुणा करे, गुणन कल में स्फुट स्थित्यर्हु का भाग देवे, भाग कल स्फुट कोटि  
कला होगी ॥१९॥ विसेप के बर्ग और कोटि कल के बर्ग को एकत्र जोड़े, मुनः  
उस का बर्गमूल निकाले, वही मूल कारण होगा । चन्द्रमा और मूर्य के भाग

को एकत्र लोह कर इस का आधा करे । इस आधे से कणं को घटावे । शेष अङ्क तात्कालिक होगा ॥ २० ॥

मध्यग्रहणतश्चोर्ध्वमिष्टनाडीर्विशोधयेत् । स्थित्यर्धान्मौ-  
क्षिकाच्छेपं प्राग्वच्छेपं तु मौक्षिके ॥२१॥ ग्राह्यग्राहकयो-  
गार्धाच्छोध्याः स्वच्छन्नलिप्तिकाः । तद्वर्गात् प्रोजभ्य  
तत्कालविक्षेपस्य कृतिस्पदम् ॥ २२ ॥ कोटिलिप्तारवेः  
स्पष्टस्थित्यर्धनाहताहताः । मध्येन लिप्तस्तन्नाड्यः स्थिति-  
वह्यासनांडिकाः ॥२३॥ नतज्याक्षज्ययाभ्यस्ता त्रिज्यासा-  
तस्य कार्मुकम् । वलनांशाः सौम्ययाम्याः पूर्वापरकपा-  
लयोः ॥२४॥ राशित्रययुताद् ग्राह्यात् क्रान्त्यर्दिवसमै-  
र्युताः । भेदेऽन्तराज्ययावलनासप्त्यहुलभाजिता ॥ २५ ॥  
सोन्नतं दिनमध्यर्ध दिनार्धाम्पं फलेन तु । छिन्दाद्विक्षेप-  
मानानि तान्येपामहुलानि तु ॥२६॥

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

भाषानुयाद-मध्य ग्रहण के जननतर भौतिक स्थित्यहुं से इस नाडी घटा  
कर कोटि स्थिर करे और शेष किया पूर्वोङ्क ( होक १० में जैसा कहा है )  
रीति से करे ॥ २१ ॥ यात्ता और याहक के भान को एकत्र लोहे और योग  
फल की आधा करे । उस आधे से अभीष्ट यात्त की कला को घटावे, शेष अङ्क  
को बगं करे । बगं फल से अभीष्ट यात्त कालिक विक्षेप के बगं को घटावे,  
शेष अङ्क का पर्णमूल निकाले बही कोटि कला होगी ॥ २२ ॥ यरन्तु सूर्यग्रहण  
में कोटि कला स्पष्ट स्थित्यहुं से गुणा कर गुणन फल में मध्य स्थित्यहुं से  
भाग करे, भाग फल कोटि कला होगी । उस से जिस प्रकार “स्थिति”  
का साधन किया जाता है, अर्थात् जिन नियमों से स्थिति का निश्चय करते  
हैं, उसी प्रकार यात्त नाडी को स्थिर करना चाहिये ॥२३॥ जिस काल का  
घटन हितर करना हो उस काल के नव का निर्णय करे । चन्द्रग्रहण में  
चन्द्रमा का एव सूर्य ग्रहण में सूर्य का नव स्थिर करे । स्वदिनाद्वारान्तरं

दरहं पूर्वं नत दण्ड एवं स्वदिनाहुं से न्यून दण्ड पद्धिमं नत दण्ड होता है। उस नत को ३७ से गुणा कर गुणन फल में स्वदिनाहुं से भाग दे, भाग फल नतांशं होगा, उस की ज्या, नत ज्या होती है, उस को अभीष्ट अक्षज्या से गुणा कर, गुणन फल में त्रिज्या से भाग दे, भाग फल ज्या को धनु घनाये-यह-घलनांशं होगा, उस को ६० से भाग देवे, भागफल क्रम से पूर्वांपर कपाल के पूर्वांपर नत का पूर्वं का उत्तर घलनांशं एवं पद्धिम का उत्तर घलनांशं होगा ॥ २४ ॥ जिस काल का घलनांश लाना हो उस काल की ३ राशियुक्त ग्रात्मा से यह स्फुट की क्रान्ति निर्देश करे। घलनांशं और यदि एक दिशा में हो तो योग करे, और यदि भिन्न दिशा में हो तो घटाये तो स्फुट घलन होगा। स्फुट घलन ज्या को ३७ अहुल से भाग दे, भागफल अहुलादिक घलन प्रस्त ग्रह का होगा ॥ २५ ॥ १८ मास में स्त्रीय अहुं और अभीष्ट काल की उक्त घटिका के साथ योग करे, योगफल को दिनाहुं से भाग दे, जो भाग फल हो उस से फलात्मक विक्षेप ग्रात्मा और ग्राहक विम्ब्यमान प्रभृति को भाग करने से भाग फल, अहुलादि होंगे ॥ २६ ॥

इति भापानुवादे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥



जोश्

## अथ पञ्चमोऽध्यायः

अथ सूर्यग्रहणाधिकारः

भृधंलग्नसमे भानौ हरिजस्य न सम्भवः । अक्षीदह्म-  
ध्यमक्रान्तिसाम्येनावनतेरपि ॥ १ ॥ देशकालविशेषेण  
यथा बनतिसम्भवः । लग्नस्यापि पूर्वान्यदिवशाङ्ग  
तथोच्यते ॥ २ ॥ लग्नं पर्वान्तनाडीनां कुर्यात्स्वैरुदयासु-  
भिः । तत्त्वान्त्यापक्रमज्याद्वी लग्नज्याप्तोदयाभिधा ॥ ३ ॥  
तदा उड्ढोदयैर्लग्नं मध्यसंज्ञं यथोदितम् । तत्क्रान्त्यज्ञां-  
शसंयोगो दिवसाम्येऽन्तरमन्यथा ॥ ४ ॥ शेषं नतांशस्त-  
न्मौर्विं मध्यज्या साभिधीयते ।

भाषानुयाद-अमावास्या के अन्त काल में यदि सूर्य स्फुट और सभ्य  
छान ( अ० ३ । ४८ ) तुल्य हो तो लग्न का सम्भव नहीं होता है अर्थात्  
उस समय लग्न नहीं होता । उत्तर अक्षांश और दशम छान की क्रान्ति समान  
हो तो अवनति ( नति ) की भी सम्भावना नहीं होती, अर्थात् उस समय  
नति नहीं होती है ॥ १ ॥ देश और काल की विशेषता से जो गोल स्थित  
द्वारा जिस प्रकार नति की सम्भावना था उत्पत्ति होती है और सभ्य देशके  
पूर्व या पश्चिम में होने के कारण जो लग्न होता है सो इस समय कहा  
जाता है ॥ २ ॥ स्वदेशीय उदय माण से खांन्त (अमावास्या या पूर्णमासी)  
काल की ( सायन ) स्थिर करे । उस की भुजज्या को परमापकमज्या ( १३९ )  
से गुणा कर, गुणनफल में स्वदेशीय उद्यज्या का भाग दे, ग्राहफल को  
"उदय" कहते हैं ॥ ३ ॥ पर्वान्त काल में उड्ढा के उदय माण से ( सायन )  
सभ्य छान साधन करे । सभ्यलग्न की क्रान्ति और अक्षांश एक दिशा में हो  
ती योग करे और यदि भिन्न दिशा में हो तो घटावे, शेष अङ्ग नतांश होता  
है । उस की उगा करने से सभ्यज्या होती है ॥ ४ ॥

मध्योदयज्ययाभ्यस्ता त्रिज्याप्ता वर्गितं फलम् ॥ ५ ॥  
 मध्यज्या वर्गविश्लेषणः दृक्क्षेपः शेषतः पदम् । तत्त्वि-  
 ज्यावर्गविश्लेषान्मूलं शङ्खः स दृग्गतिः ॥ ६ ॥ नतांश-  
 वाहुकोटिज्ये स्फुटे दृक्क्षेपदृग्गती । एकज्यावर्गतश्छेष-  
 दो लब्धं दृग्गतिजीवया ॥ ७ ॥ मध्यलग्नार्कविश्लेषज्या  
 देदेन विभाजिता । रवीन्द्रोर्लम्बनं ज्ञेयं प्रावपन्नाद  
 घटिकादिकम् ॥ ८ ॥ मध्यलग्नाधिके भानौ तिथ्यन्तात्  
 प्रविशीधयेत् । धनमूनेऽसकृत्कर्म यावत्सर्वं स्थिरीभ-  
 वेत् ॥ ९ ॥ दृक्क्षेपः शीततिग्मांशोर्मध्यभुक्त्यन्तराहतः।  
 तिथिद्विज्यया भक्तो लब्धं सावनतिर्भवेत् ॥ १० ॥ दृक्-  
 क्षेपात् सप्ततिहताद्विद्वावनतिः फलम् । अथवा त्रि-  
 ज्यया भक्तात्सप्तसप्तकसहृणात् ॥ ११ ॥

भाषानुवाद- पूर्वोक्त भथ्यज्या को पूर्वोनीत उदयज्या से गुणा करे, गुणन  
 फल को त्रिज्या से भाग दे, भागफल को वर्ग करे । वर्गफल की भथ्यज्या के  
 वर्ग से घटाये शेष अङ्क का वर्ग मूल निकाले, वही मूल दृक्क्षेप होगा । इस  
 दृक्क्षेप वर्ग से त्रिज्या वर्ग घटाकर शेष अङ्क का मूल निकाले, वही मूल दृग्ग-  
 गति होगी ॥ ५ । ६ ॥ स्थूल पक्ष में दशम लग्न के नताश की भुजज्या को  
 दृक्क्षेप कहते हैं और काटिज्या को दृग्गति कहते हैं ॥ ७ ॥ एक राशि के  
 ज्या के वर्ग को दृग्गति (पूर्वोक्त ज्या) से भाग करे, भागफल “छेड़” होगा ।  
 भथ्यलग्न से उस काल के सूर्य को घटाकर उस की ज्या यादि, इस ज्या  
 में उद का भाग दे, भागफल दण्डादि भथ्यलग्न से पूर्व और पश्चिम निवाय कर  
 सूर्य से चन्द्रमा के उम्बर दण्डादि स्थिर होगे ॥ ८ ॥ भथ्यलग्न से सूर्य अधिक  
 हो तो सिथ्यन्त से काल उम्बर घटाये और यदि न्यून हो तो जोड़े । पुनः  
 उम्बर साधन करके तिथ्यन्त में संस्कार करे । जब तक स्थिर न हो तब तक  
 ऐसा ही करता जाये ॥ ९ ॥ दृक्क्षेप (पूर्वोनीत) को सूर्य की गति से चन्द्रमा की  
 भुक्ति घटाकर, शेष अङ्क से गुणा कर गुणनफल में १५ शुणित त्रिज्या से (त्रिज्या १०

ओ३म्

## अथ षष्ठोऽध्यायः

परिलेखाधिकारः ॥

न छेदकमृते यस्माद्भेदा ग्रहणयोः स्फुटाः । ज्ञायन्ते  
तत्प्रवक्ष्यामि छेदकज्ञानसुत्तमम् ॥ १ ॥ सुसाधिताया-  
मवनौ विन्दुं कृत्वा ततो लिखेत् । सम्बवगांहुलेनादौ  
मण्डलं बलनाश्रितम् ॥ २ ॥ ग्राह्यग्राहकयोगार्थसम्मि-  
तेन द्वितीयकम् । मण्डलं तत्समासाख्यं ग्राह्यार्थं न दृती-  
यकम् ॥ ३ ॥ याम्योत्तराप्राच्यपरासाधनं पूर्ववद्विशाम् ।  
प्रागिन्दीर्घ्यहणं पश्चान्मोक्षोऽर्कस्य विपर्ययात् ॥ ४ ॥ यथा-  
दिशं प्राग्ग्रहणं बलनं हिमदीधितेः । मौक्षिकं तु विप-  
र्यस्तं विपरीतमिदं रवेः ॥ ५ ॥

भाषानुवाद-छेदक (गोल स्थिति को दिखलाने के लिये कल्पित प्रकार) के  
विना सूर्यग्रहण और उस की स्पर्श और नीक्ष दिशा और परिमाण का स्पष्ट  
ज्ञान नहीं होता अर्थात् सूर्य और चन्द्रग्रहण में विस्त्र चण्डल के किसु  
और से ग्रहण आरम्भ हो कर किस ओर उमास होगा और कितना भाग  
चण्डल का आच्छादित (ग्रहण) होगा, यह विषय विना छेदक के भली  
भाति नहीं ज्ञात होगा । इस लिये उत्तम ज्ञानसाधक छेदक को कहता हूँ  
॥ १ ॥ जल की नांद वराधर की हुई सूर्मि (अभीष्ट स्थान) में दृत मध्य विन्दु  
अर्थात् केन्द्र ज्ञापक चिह्न (point) करे, पुनः उस विन्दु से ४८ अङ्गुल परि-  
मित व्यासार्द्धे से, “बलन” देने के लिये एक दृश लिखे ॥ २ ॥ यात्त और ग्राहक  
के विस्त्रमान की अङ्गुलियों के आधे परिमित, व्यासार्द्धे से दूसरा दृश लिखे ।  
इस का ज्ञान समाप्त दृश गोगा । और यात्त के विस्त्रमान के अङ्गुलियों  
के अर्धे परिमित व्यासार्द्धे से तीसरा दृश लिखे ॥ ३ ॥ पूर्ववद (अ० ३ । स० ०१ ४

वाक्) आठ दिशाओं में से पास्पोत्तर एवं पूर्वोपर रेखा अर्थात् दक्षिण उत्तर रेखा एवं पूर्व और पश्चिम को गहरे रेखा को साधन करे। चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा के विन्द्वमण्डल की पूर्व और स्पर्श (ग्रहण आरम्भ) एवं पश्चिम और भोक्ष (ग्रहण समाप्ति) होता है और सूर्यग्रहण में इस के विपरीत होता है अर्थात् सूर्यमण्डल के पश्चिम भाग में स्पर्श एवं पूर्व भाग में भोक्ष होता है ॥४॥

**विवरण-**शीघ्रगतमी चन्द्रमा सूर्यसे छः राशि (१० अश्व) उन्तर में पूर्यं की ओर उल्टारपृथिवी की ढाया में आजाता है इस कारण चन्द्रग्रहण में पहिले पूर्व दिशा से (मण्डल के) मलान होता है। एवं पश्चिम दिशा में भोक्ष होता है। और सूर्यग्रहण में चन्द्रमा सूर्य को पीछे आकर टक लेता है इस लिये सूर्य के पश्चिम दिशा में स्पर्श और पूर्वभाग में भोक्ष होता है ॥५॥

चन्द्रमा के यात्य स्पार्शिक घलन को पूर्यं चिन्ह से दक्षिण हो तो दक्षिण में, उत्तर हो तो उत्तराभिमुख देवे। पूर्यं और पश्चिम सूत्र (रेखा) अर्द्धज्या की नांदै घलनाश्रित दृष्टि में घलन देवे, (इस लिये उस दृष्टि की घलनाश्रित दृष्टि संज्ञा है) चन्द्रमा के सीधे कालिक घलन को विपरीत भाव से पश्चिम चिन्ह से पूर्वोपर सूत्र से अर्द्ध ज्या की नांदै दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख, उत्तर हो तो दक्षिणाभिमुख घलन देवे। सूर्यग्रहण में चन्द्रग्रहण की अवेक्षा उलटे प्रकार से घलनदाम होगा। भोक्ष कालिक घलन पूर्यं चिन्ह से पूर्वोपर सूत्र से अर्द्ध ज्या की नांदै दक्षिण हो सो दक्षिणाभिमुख, उत्तर हो तो उत्तराभिमुख देना। स्पर्श कालिक घलन, पश्चिम चिन्ह से पूर्वोपर सूत्र (रेखा) अर्द्ध ज्या की नांदै दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख, उत्तर हो तो दक्षिणाभिमुख देना ॥५॥

वलनाग्रान्तयेन्मध्यं सूत्रं यद्वत्र संस्पृशीत् । तत्समासे  
ततो देव्यौ विक्षेपौ यात्समोक्षिकौ ॥ ६ ॥ विक्षेपाग्राद्  
पुनःसूत्रं मध्यविन्दुं प्रवेशयेत् । तद्वग्राह्यविन्दुसंस्प-  
र्शाद्ग्रासमोक्षी विनिर्दिशेत् ॥६॥ नित्यशोऽर्कस्य विक्षे-  
पाः परिलेखे यथादिशम् । विपरीताः शशाङ्कस्य तद्व-  
शाद्धथ मध्यमम् ॥ ८ ॥ घलनं प्रादूमुखं देयं तद्विक्षेपै-  
कता यदि । भेदे पश्चान्मुखं देयमिन्दोर्भानोर्विपर्ययात्

॥ ६ ॥ वलनाग्रात्पुनः सूत्रं मध्यविन्दुं प्रवंशयेत् । मध्य  
सूत्रेण विक्षेपं वलनामिमुखं नयेत् ॥ १० ॥

भाषानुवाद-वलनाम (प्रथम घृत्त में जहां स्पार्शिंक वलनाम और जहा  
मीक्षिक वलनाम जाना गया है) से मध्यविन्दु (केन्द्रप्रप्त) तक सूत्र (रेखा)  
रचना करे । इस रेखा को समाप्त नामक द्वितीय घृत्त में जिस प्रदेश में स्पर्श  
(छुए) करे, उस रेखा से समाप्त घृत्त में अर्हु ज्या की नाड़े, स्पर्श और मोक्ष  
का विक्षेप यथायोग्य देना ॥ ६ ॥ समाप्त घृत्त में विक्षेपाय से जिस स्थान में  
यात्त्वघृत को स्पर्श किया है, वहां से रेखा को द्वितीय घार वलनाम से रेखा  
में मध्य केन्द्रसक उसी प्रकार विक्षेपाय से मध्य विन्दु तक रेखा प्रवेश करे ।  
उस रेखा से यात्त्व विन्द्र के घृत्त और परिधि के संयोग स्थान से यास और  
मोक्ष दिखलावे, स्पार्शिंक शरायरेखा को यात्त्वघृत्त में जहां पर निला हुआ  
है वहां स्पर्श और मीक्षिक शरायरेखा को यात्त्व घृत्त में जहां संयोग हुआ  
है, वहां मोक्ष कहे ॥ १० ॥ सूर्यग्रहण के परिलेख (ग्रहण को दिखलाने के लिये  
कल्पित प्रकार) में नित्य ही चन्द्रमा के विक्षेप अपनी ठोक दिशा में होते  
हैं । और चन्द्रग्रहण में चन्द्र विक्षेप यदि विपरीत दिशा में हों तो अर्थात्  
दक्षिण में हों तो उत्तर और उत्तर में हों तो दक्षिण विक्षेप होते हैं । इसी  
के अनुसार स्पार्शिंक और मीक्षिक विक्षेप देखे, (यह उदाहरण विपरीत दिशा  
का दिया गया है) तत्पश्यात् मध्य ग्रहण कालिक दिशा के साथ सूर्यग्रहण  
में मध्य ग्रहण कालिक स्पष्ट विक्षेप दिक् चिन्ह से और चन्द्रग्रहण में मध्य  
कालिक विपरीत दिक् चिन्ह से, यदि उस विक्षेप को एकता हो तो वलन  
विक्षेप मध्यग्रहण कालिक विक्षेप है । आशय यह है कि इन दोनों की  
एक दिशा होनी । (यहां चन्द्र विक्षेप दिशा का यथा दिक् स्थित होना ही  
विपरीत दिशा जानना)

विक्षेपाग्राह्याद्वृत्तं ग्राहकार्धेन तेन यत् । ग्राह्यवृत्तं  
समाक्रान्तं तद्य ग्रस्तं तमसा भवेत् ॥ ११ ॥ छेदकं लि-  
खता भूमौ फलके वा विपश्चिता । विपर्ययो दिशां कार्यः  
पूर्वापरकपालयोः ॥ १२ ॥ स्वच्छत्वाद् द्वादशांशोऽपि  
ग्रस्तश्चन्द्रस्य दृश्यते । लिपान्त्रयमपि ग्रस्तं तीक्ष्णत्वान्न वि-

वस्तुतः ॥१३॥ स्वसंज्ञितास्त्वयः कार्यां विक्षेपाद्येषु विन्दवः।  
तत्र प्राहूमध्ययोर्मध्ये तथा मौक्षिकमध्ययोः ॥ १४ ॥

भाषानुवाद—सध्यकालिक बलनाथ से मध्यविन्दु तक रेखा रचना करे । इस रेखा पर मध्यविन्दु से पुनः बलनाभिमुख विक्षेप का चिन्ह करे । ग्राहक की भाजन की आधा करे । उस आधे परिमाण को ड्यासाढ़ु के साथ विक्षेपाद्य के घारों और वृत्त कहना करने से भी वृत्त होगा वह वृत्त ग्राह्य वृत्त में जितना ड्यास हो वही तमसावृत अर्थात् उतना भाग भशहल का ग्राहक से आछादित होकर अभ्यकार से घिर जावेगा ॥ १० : ११ ॥ समलल भूमि में या फलक ( काठ की पट्टी ) पर छेद्यक लिख कर पूर्वोपर कपाल छीट पौट करे अर्थात् पूर्व कपाल में बाईं ओर से पश्चिम लिखना और पश्चिम कपाल में बाईं ओर से पूर्वे लिखना, यह ती ढीक कर से हुआ । परन्तु इस को बदल कर करना कि पूर्व के स्थान में पश्चिम और पश्चिम के स्थान में पूर्व लिखना ॥ १२ ॥ चन्द्रमा की स्वरूपता के कारण चन्द्रमरहल के १२ अंश यहण होने पर भी हम लोग देखते हैं । परन्तु सूर्य की किरणों की प्रखरता से ३ कला का सूर्य यहण भी हम लागतें को नहीं दिखलाई देता ॥ १३ ॥ विक्षेपायों में स्पार्शिक विक्षेप मौक्षिक विक्षेप एवं नाथ विक्षेपों का पहिले अपने अपने स्थान में स्पर्श भोक्ष और मध्ययहण जानने के लिये अद्यिन भाग में अपने २ नाम का साङ्केतिक ३ विन्दु लिखे । जैसे—स्पर्श शर के अग्रभाग में स्पर्श चिन्हाङ्कित विन्दु, भोक्ष शर के आगे सो० चिं० विन्दु, एवं भद्रेश्वर के आगे च० चिं० विन्दु लिखे । इस प्रकार तीनों विन्दुओं को स्थापन करे ॥१४॥

लिखेन्मत्स्यौ तयोर्मध्यान्मुखपुच्छविनिः सृतम् । प्रसार्य  
सूत्रद्वितयं तथोर्यत्र युतिर्भवेत् ॥ १५ ॥ तत्र सूत्रेण विलि-  
खेन्द्रापं विन्दुत्रयस्पृशास पन्था ग्राहकस्योक्तो येनासौ  
सम्प्रयास्यति ॥ १६ ॥ ग्राह्यग्राहकयोगार्धात् ग्रोजभयेषु  
ग्रासमागतम् । अवशिष्टाहुलसमां शलकां मध्यविन्दुतः  
॥१७ ॥ तयोर्मार्गोन्मुखोददाहुग्रासतः प्राग्ग्रहाश्रिताम् ।  
विमुञ्जतो भोक्षदिशि ग्राहकाच्चानभेद सा ॥१८॥ स्पृशे-

दत्र ततोवृत्तं ग्राहकार्थेन संलिखेत् । तेन ग्राह्याददा  
क्रान्तं तत्तमोग्रस्तमादिशेत् ॥१६॥

भाषानुवाद—स्पर्शं और मध्यविन्दु के द्वारा ( अ७ ३ श्लोक २ । ३ ) और भोक्त एवं मध्यविन्दु द्वारा दो महस्य अद्वित करे और दोनों महस्य रेखाओं के बीच से उन के मुख और पुच्छ से निकलती हुई दो रेखा सैंचे । जहां इन दो रेखाओं का संयोग हो उस को केन्द्र भान कर उक्त तीन विन्दुओं को छूता हुआ एक घनुप् बनावे । वह घनुप् ही ग्राहक का भार्ग होगा । अर्थात् जिस भार्ग से ग्राहक ग्रास्य विम्ब को आच्छादन के लिये जावेगा ॥ १५ । १६ ॥ ग्रास्य और ग्राहक भान को एकप्र जोड़े, पुनः इस के भाषे से इष्ट ग्रास चटा कर जो बचे, उस परिमाण से मध्यविन्दु से रेखा उसी भार्ग की ओर खेचे । मध्य-ग्रहण के पूर्व होने पर स्पर्श दिशा में और मध्यघ्रहण के पश्चिम दिशा में होने पर भोक्ताभिमुख एक रेखा लावे । रेखान्त विन्दु को केन्द्र भान कर ग्राहक भान के भाषे परिमाण से सम्प्रक्षया एक वृत्त रथना करे, वह वृत्त और ग्रास्य वृत्त दोनोंके अधिकत अंश ही तत्कालीन आच्छादित अंश हैं ॥१७।१८॥

मानान्तरार्थेन मितां शलाकां ग्रासदिङ्गमुखीम् । निमी-  
लनाख्यां दद्यात् सा तन्मार्गं यत्र संस्पर्शेत् ॥२०॥ ततो-  
ग्राहकखण्डेन प्राग्वन्मण्डलभालिखेत् । तदुग्राह्यम-  
ण्डलयुतिर्यत्र तत्र निमीलनम् ॥ २१ ॥ एवमुन्मीलने  
मोक्षदिङ्गमुखीं सम्प्रसारयेत् । विलिखेन्मण्डलं प्राग्व-  
दुन्मीलनमथोक्तवत् ॥२२॥ अर्धाद्वूने सधूमं स्यात्कृपा-  
मर्धार्थिकं भवेत् । विमुञ्जतः कृष्णताम्बं कपिलं सकलग्रहे  
॥ २३ ॥ रहस्यमेतद्वेवानां न देयं यस्य कस्य चित् ।  
सुपरीक्षितशिष्याय देयं वत्सरवासिने ॥ २४ ॥

इति पष्ठोऽध्यायः ॥६॥

भाषानुवाद—भाषानुवाद—ग्रास भान से ग्राहकभान की पटावे, शेष फल के भाषे परिमाण की एक शलाका ग्रास दिशा में उस भार्ग पर स्थापन करे और उस

के अप्रभाग को केन्द्र कर ग्राहकमान के परिणाम का वृत्त खेंचे । उस वृत्त में जहा पर वह मरहल को लुबे उसी दिशा में निमीलन आरम्भ होगा ॥२२ । २१ ॥ इस प्रकार से जोक्ष दिशा की ओर उक्त शखाका को स्थापन करके पूर्व-वृत्त अर्थात् जहां पर मरहल रूपर्थ करे “यही उन्मीलन” दिशा होगी ॥२२॥ चन्द्रग्रहण में भास आधे से न्यून होने पर पूर्वधर्ण, आधे से अधिक होने पर काला रङ्ग, जब भरहल का तीन हिस्सा तो काला और छाल मिला हुआ रङ्ग, और संपूर्ण भास होने पर भरहल कपिलधर्ण ( ज़र्दे रङ्ग ) होगा । एवं जोक्ष काल में छाल काला मिला हुआ रङ्ग होता है ॥ २३ ॥

विवरण-भूमि की ढाया में कोई प्रकाश नहीं, इस कारण चन्द्रमाकी आज्ञादिका होने पर चन्द्रग्रहण में अनेक प्रकार के रङ्ग दीखते हैं और चन्द्रमा जलस्थरूप सूर्य का आज्ञादक होता है । इसकारण सूर्यग्रहण में सदा काला रङ्ग होता है, दूसरा रङ्ग नहीं होता । इस कारण यहां सूर्य ग्रहणका रङ्ग नहीं कहा गया ॥ २३ ॥

यह छेदक ज्ञान का तत्त्व विद्वानों के लिये रहस्य है, इस लिये जिस किसी अपरोक्षित ( जिस की भलीभांति ज्योतिष विद्या में तीक्ष्ण दुष्टि न पाए जाये) सर्वभाग्यारण व्यक्ति को इस का उपदेश न करना चाहिये । किन्तु एक वर्ष तक जिस विद्यार्थी की परोक्षा ले ली है, उसी शिष्य को इस का उपदेश करना चाहिये ॥ २४ ॥

इति भाषानुवादे पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

जीवन्

## अथ सप्तमोऽध्यायः

तारा ग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्धसमागमौ । समागमः  
शशाङ्केन सूर्येणास्तमनं सह ॥१॥ शीघ्रे मन्दाधिकेऽतीतः  
संयोगोभवितान्यथा । द्वयोः प्राग्यायिनोरेवं वक्रिणी-  
स्तुविपर्ययात् ॥२॥ प्राग्यायिन्याधिकेऽतीतोवक्रिएवेष्यः  
समागमः । ग्रहान्तरकलाःस्वस्वभुक्तिलिप्ता समाहताः  
॥३॥ भक्तव्यत्तरेण विभजेदनुलोमविलोमयोः । द्वयो-  
र्वक्रिण्यथैकस्मिन् भुक्तियोगेन भाजयेत् ॥४॥ उद्धं  
लिप्तादिकं श्रीधर्यं गते देयं भविष्यति । विपर्ययाद्वक्र-  
गत्योरेकस्मिंस्तु धनव्ययौ ॥५॥

भाषानुवाद-तारा और पाप पहों अर्थात् भङ्गल, दुष्ट इहस्पति, शुक्र/  
और शनि के परस्पर योग ( एक के साथ दूसरे का मिलना ) का नाम  
“युद्ध” और “समागम” कहते हैं। चन्द्रमा के साथ उक्त पाचों पहों में से किसी  
एक पह के योग का नाम “समागम” और भूर्यं के साथ उक्त पाचों पहों में  
से किसी एक पह के योग का नाम “अस्तमन” है ॥१॥ जिन दो पहों का  
“योग” जानना ही उन में से यदि शीघ्रगामी पह मन्दगामी पह की अपेक्षा  
अधिक हो तो “योग” यत् (हो गया अप्स्त्रेष्ट काल से पहिले) और मन्दगामी  
पह शीघ्रगामी पह की अपेक्षा अधिक होते। “योग” भावी (इष्ट काल के पीछे  
होगा) जानना । पह नियम दो पूर्वगामी पहों के लिये है और उक्तगामी  
पहों का तो उच्च के उलटा होता है, अर्थात् उक्ती मन्दगामी पह की अपेक्षा ।  
उक्ती शीघ्रगामी पह अधिक हो तो “योग” भावी और उक्ती शीघ्रगामी पह  
की अपेक्षा उक्ती मन्दगामी पह अधिक हो तो “योग” गत जानना और दोनों  
पहों में से एक उक्ती, एवं दूसरा पूर्वगामी पह हो तो उक्ती उक्ती पह से यूर्वगामी

प्रह अधिक हो तो "योग" गत और पूर्वं गामीयह से मन्दगामी यह अधिक हो तो तो "योग" भावी जानना ॥ २ ॥ दो (किन का योग) इष्टकालिक यहों की अन्तर कला को (एक की कला की दूसरे की कला से घटा कर) भलग भलग अपनी २ गति कला द्वारा गुणा कर, गुणजफल में दोनों सरलगामी या वक्तगामी हों उन की स्फुटगति के अन्तर कला (घटाकर) का भाग होते हैं। अब इस में विशेषता यह है कि यदि दोनों यहों में से एक वक्ती हो तो दोनों के गति कला के योग से भाग होते हैं और अपने २ भागफल कलादिको योग गत हो तो जोड़े और भावी हो तो घटाये। दोनों यह में से एक यह वक्ती हो तो दोनों सरलगामी एवं वक्तगामी यहों के अपने २ कलात्मक फलाङ्क को योग और वियोग करे, अर्थात् योग गत होने पर सरलगामी यह से कल को घटाये और वक्तीयह में कल को जोड़े और यदि योग भावी हो तो वक्ती यह से कल को घटाये, एवं सरलगामी यह में जोड़े ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

समलिप्ती भवेतां तौ ग्रही भगणसंस्थितौ । विवरं तद्व-  
दुहृत्य दिनादि फलमिष्यते ॥६॥ कृत्वा दिनक्षपामानं  
तथा विक्षेपलिप्तिकाः । नतोन्नतं साधयित्वा स्वकाल्प-  
मनवशास्तयोः ॥ ७ ॥ विपुवच्छाययाभ्यस्ता द्विक्षेपाद  
द्वादशोद्धृतात् । फलं स्वनतनाडीन्नं स्वदिनार्धविभा-  
जितम् ॥ ८ ॥ उदयं प्राच्यामृणं सौम्याद्विक्षेपात्पश्चिमे  
घनम् । दक्षिणे प्राक्षपाले स्वं पश्चिमे तु तथा क्षयः ॥ ९ ॥  
सत्रिभग्रहजक्तान्तिभागद्वाः क्षेपलिप्तिकाः । विकलाः  
स्वमृणं क्रान्तिक्षेपयोर्भिन्नतुल्ययोः ॥ १० ॥

भाषानुवाद-उत्त किया पर दोनों यहों की राधि चक्र में संहिति (न्ते-  
काम ) अर्थात् राधि, अंश, कला समान होंगी। "योग" छाड़ इन्होंने ही  
सी दोनों यहों की अन्तर कला को पूर्वोक्त हारक द्वारा ज्ञात करने से उत्तर-

फल जो दिनादि होया वह समकला काल से इट काल के अन्तर दिनादि होगा ॥६॥ दीनो समकलाकालीन ग्रहों का दिनमान, रात्रिमान और विशेष फलों का निष्ठय करके, प्रहस्यानगत छान से नत और उच्चत फल निष्ठय करो ॥

**विवरण-अ७ ३।** होक धृष्ट के अनुसार ग्रहों के दिनगत, रात्रिगत का निष्ठय करे । दिन में जो भाग वीत गथा, तथा वीतने वाला है उसके अर्थात् गत और गम्य के अलए भाग का नाम "उत्तर" और दिन और रात्रि से न्यून अर्थात् दिन के आधे पा रात्रि के आधे की गह का "नत" होता है । जिस अश में गह स्थित है उस के उदय (छान) का समय स्थिर करके उस से गह का मध्योदय काल गह का दिनाह्नमान योग करने से निकल आता है । मध्योदय काल निष्ठत हो जाने पर इटदण्ड की एषकृता से भतोक्तत अभायास ज्ञात हो जाते हैं ॥ ७ ॥

विशेष को विपुवच्छापा से गुणा कर, गुणनफल को १२ से भाग करे, भाग फल को अपने नतदण्ड से गुणा कर, गुणनफल में दिनाह्न (रात्रि में रात्र्यहुई से) का भाग देये, भागफल अक्षट्रूग्र गह होगा । इस फल को उत्तर विशेष होने से पूर्व कपाल में अक्षट्रूग्र गह स्पष्ट से घटावे और परिमकपाल में जोड़े और यदि दक्षिण विशेष हो तो उत्तर भागफल, को पूर्व कपाल में योग और परिमकपाल में पटावे ॥ ८ ॥ तीस राशि जिले हुवे गह स्पष्ट के अनुसार छाये हुवे कान्ति के अंश से विशेष फला को गुणा करे । गुणनफल विफला (आयन हृक्षर्म की) होगी । पूर्वोक्त कान्ति और विशेष यदि जिल २ दिशा में हो तो गह में योग करे और यदि दोनों एक दिशा में हो तो गह में घटावे ॥ ९ ॥

नक्षत्रग्रहयोगेषु ग्रहास्तोदयसाधने । शृङ्गोन्ततीतु चन्द्र-  
स्य दृक्कर्मादाविदं स्मृतम् ॥ ११ ॥ तात्कालिकौ पुनः कार्या  
विशेषौ च तथोस्ततः । दिवतुल्ये त्वन्तरं भेदे योगः शिष्टं  
ग्रहान्तरम् ॥ १२ ॥ कुजाकिञ्जामरेज्यानां त्रिंशदर्धार्ध-  
वर्धिताः । विष्कम्भाश्चन्द्रकक्षायां भृगोः पश्चिरुदाहृताः  
॥ १३ ॥ त्रिचतुष्कर्णयुक्तयास्ते द्विग्नाखिज्यया हताः ।  
स्फटाः स्वकर्णास्तिथ्यास्ता भवेयुर्मानलिप्तिकाः ॥ १४ ॥

भाषानुवाद- नक्षत्र और यह के योग जानने के लिये ग्रहों के उदयास से के निमित्त चन्द्रमा की शङ्खोलति के निमित्त नक्षत्रों के उदयास से निमित्त पूर्व-यत् पहिले आकृत्यै एवं आयन दृक्कर्म करे । ( यहां नक्षत्रों का आयन दृक्कर्म है युक्ता है । इस लिये नक्षत्रों का आयन दृक्कर्म न करे ) ॥११॥ पुनः उसी प्रकार ( श्लोक २ । ३ । ६ ) मध्य और स्पष्टादि क्रिया द्वारा दोनों की तात्कालिक करे, इन के विक्षेप को भी तात्कालिक करे, यदि इस से भी दोनों यह समकलाकालीन न हों तो अनेक बार इसी प्रकार करसा जाये, जब स्थिर हो जाये तो यदि विक्षेप एक दिशा में हो तो वियोग करे और भिन्न दिशा में हो तो योग करने पर यहान्तर अयोत् दोनों ग्रहों के विम्ब्य और केन्द्र का उत्तर, एवं दक्षिण सिद्धु होगा ॥१२॥ चन्द्रमा की कक्षा में मङ्गल का विम्ब्य व्यास ३०, शनि का विम्ब्य व्यास ३२<sup>१</sup>, युधका विम्ब्य व्यास ४५, शुहस्पति का विम्ब्य व्यास ५२<sup>२</sup>, शुक्र का ६० विम्ब्य व्यास है । इन विम्ब्य व्यासों को ठिगुणित त्रिजया से गुणा कर गुणनफल में त्रिजया और चतुर्थं कर्म में शीघ्र कर्णे में जीव कर योगफल से भाग देवे, भागफल स्वस्पष्ट विम्ब्य व्यास होगा । इस स्पष्ट व्यास को १५ में भाग करे, भागफल कलादिसान होगा ॥१३॥ १४॥

छायाभूमौ विपर्यस्ते स्वच्छायाग्रे तु दर्शयेत् । ग्रहः  
स्वदर्पणान्तस्यः शद्व्यये सम्प्रदृश्यते ॥ १५ ॥ पञ्चहस्तो-  
च्छ्रुतौ शद्व्यू यथादिग्रभमसंस्थितौ । ग्रहान्तरेण वि-  
क्षिप्तावधोहस्तनिखातगौ ॥ १६ ॥ छायाकर्णौ ततो द-  
दाच्छायाग्राच्छुभूर्धगौ । छायाकर्णं ग्रसंयोगे संस्थि-  
तस्य प्रदर्शयेत् ॥ १७ ॥ स्वशुभूर्धगौ व्योम्निं ग्रहौ दृक्-  
तुल्यतामितौ । उल्लेखं तारकास्पेर्याद्विदे भेदः प्रकीर्त्यते  
युहमंशुविमर्दस्यमंशुयोगे परस्परम् ॥ १८ ॥ अंशाद्व-  
नेऽपसव्यास्यं युहमेकोऽन्नं चेहुगुणः । समागमोऽशाद-  
धिके भवतश्चेद्वलान्वितौ ॥ १९ ॥

भाषानुवाद- छाया देने के लिये बराबर कियी हुई भूमि में शङ्कु स्था-  
पन करके पह के दूसरी दिशा में दूरज्या से छायाय दिखलावे । छायाय में  
दर्पण ( आदाना ) रखने से दर्पणान्तर स्थित पह और शङ्कु के आगे सम  
सूत्र में दिखाई देगा ॥ १५ ॥ पांच २ हाथ की लम्बी ( २४ अङ्गुल का एक  
हाथ) दो शङ्कु (काष्ठ का सकोमल बनाया हुआ दण्ड) को युति काल में दोनों  
यह अपने स्थान से जिधर को हों उसी और दक्षिण और उत्तर रेखा के  
घीच एक अङ्गुल अन्तर में भूमि में एक हाथ गहरा करके गढ़ देवे । जिस से  
दोनों शङ्कु चार हाथ ऊपर को खड़ी रहें । छायाय से शङ्कु के ऊर्ध्वांश तक  
दो छाया निरंय करे । छाया और कर्णांश रेखा में स्थित नुट्ट्य को यह  
दिखलावे, वह भी शङ्कु के आगे यह को देखेगा ॥ १६ ॥ १७ ॥ भौमादि (मङ्गल  
शुभ, शृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर ) पांच यहों के परस्पर योग में यहस्पर्श  
से विद्यनेनि स्पर्शमात्र का नाम "उल्लेख" युहु है । दोनों यहों के भान के  
एक खण्ड के तुल्य दक्षिण और उत्तर में भङ्गल भेद होने से "भेद" नामक  
युहु होता है । परस्पर दोनों की किरणें यदि निलजावें तो " अंगुष्ठिमद्दे " नामक  
युहु होता है । दोनों के दक्षिण उत्तर अंश से ६० कलात्मक से एक  
अंश भी न्यून पार्श्व दोनों पर " अपसठ्य " नामक युहु होता है । इस  
अपसठ्य युहु में दोनों ताराओं में से यदि एक तारा छोटी है तो प्रकाशयुहु  
होता है और दोनों यदि समान हों तो अप्रकाश युहु होता है । दक्षिण  
और उत्तर अन्तर में ६० भाग में से एक भाग अधिक होने पर " समागम "  
होता है, परन्तु यदि दोनों पह बलयान् ( सूल भरणल तथा सूल विद्य-  
याले ) हों तो समागम प्रकाश होगा और यदि ऐसा न हो तो समागम  
अप्रकाश होगा ॥ १८ ॥ १९ ॥

अपस्व्ये जितो युहु पिहितोऽणुरदीप्तिमान् । रक्षोवि-  
वर्णो विध्वस्तो विजितो दक्षिणाश्रितः ॥ २० ॥ उद-  
प्स्योदीप्तिमान्स्युलो जयोयाम्येऽपि योवली ॥ २१ ॥ आ-  
सन्नावप्युभौ दीप्ती भवतश्चेत्समागमः । स्वरूपौ द्वा-  
घपि विध्वस्तौ भवेतां कूटविग्रहौ ॥ २२ ॥ उदप्स्यो दक्षि-  
णस्यो वा भार्गवः प्रायशोजयी । शशाङ्कैवमेतेषां

कुर्यात्संयोगसाधनम् ॥ २३ ॥ भावाभावाय लीकानां  
कल्पनेयं प्रदर्शिता । स्वमार्गमाः प्रवान्त्येते दूरमन्यो-  
न्यमार्गिताः ॥ २४ ॥

इति सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥

भाषानुवाद-दोनों ग्रहों में भे एक दूसरे से विष्वस्त होजावे उस को  
पराजित जानना । अपसब्द युद्ध में घोड़ी प्रभावाला ढका हुवा छोटे विष्व  
वाला यह पराजित होता है । यह यह रुखा, विवरण, प्रभारहित और दक्षिणस्थ  
होता है ॥ २३ ॥ अन्य यह की अपेक्षा । उत्तर दिक्ष्य यह प्रकाशयुक्त स्थूल-  
विम्ब और जयी होता है । दक्षिण दिशा में घलवान् हीने पर यह जयी  
होता है ॥ २१ ॥ दोनों यह दीसिमान् होकर तिकट एक भाग में आजायं तो  
“समागम” युद्ध होता है । जो दोनों ही घोड़ी दीसि थाले और विष्वस्त-  
विष्व हों तो “कूटविप्रह” (कूट और विप्रह) नामक युद्ध होता है ॥ २२ ॥  
उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में हो, शुक्र प्रायः इतर ग्रहों की अपेक्षा दोनों  
ही दिशाओं में जयी होता है । नम्भलादि पांच ग्रहों का चन्द्रमा के साथ  
संयोग करल मूर्खों रीति से साधन करे ॥ २३ ॥ अहगण परस्पर दूरस्थित  
अपनी २ कक्षा में चलते हैं । वे कक्षी २ इकहे चलते दीरुपहृते हैं । इस  
फारण मनुष्यों के ज्ञान के लिये उन ग्रहों के युतिविपयक नियन दिखलाये  
गये ॥ २४ ॥

इति भाषानुवादे सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥



## अथाष्टमोऽध्यायः

प्रोच्यन्ते लिप्तिकाभानां स्वभोगोथ दशाहतः । भवन्त्य-  
तीतधिप्पयानां भोगलिप्तियुता ध्रुवाः ॥ १ ॥ अष्टार्णवाः  
शून्यकृताः पञ्चपृष्ठिर्नगेपवः । आष्टार्था अवध्योऽष्टागा  
अङ्गागा मनवस्तथा ॥ २ ॥ कृतेपवो युगरसाः शून्यवाणा  
वियद्रसाः । खवेदाः सागरनगा गजागाः सागरर्तवः ॥ ३ ॥  
मनवोऽथ रसा वेदा वैश्वमाप्यार्थभोगगम् आप्यस्यैवा-  
भिजित्प्रान्ते वैश्वान्ते अवणस्यिति ॥ ४ ॥ त्रिचंतुःपादयोः  
संधौ अविष्टा अवणस्य तु स्वभोगतो वियन्तागाः पद्म-  
तिर्यमलाश्विनः ॥ ५ ॥ रन्नादयः क्रमादेपां विक्षेपास्त्वाः पद-  
क्रमात् । दिह्मासविपयाः सौम्ये याम्ये पञ्च दिशोनवय  
॥ ६ ॥ सौम्ये रसाः खं याम्ये गाः सौम्ये खार्कास्त्वयोदश ।  
दक्षिणे रुद्रयमलाः सप्तत्रिंशदयोन्तरे ॥ ७ ॥ याम्येऽध्य-  
र्धत्रिककृता नवसार्धशरेपवः । उत्तरस्यां तथा पष्टिस्त्रिं-  
शत्पट्टत्रिंशदेव हि ॥ ८ ॥ दक्षिणेत्वर्धभागस्तु चतुर्विंश-  
तिरुत्तरे । भागाः पद्मविंशतिः खंच दस्तादीनां यथाक्र-  
मम् ॥ ९ ॥

शास्त्रानुयाद-उत्तरापादा, अभिजित, अवण और धनिष्ठा, इन चार भक्त-  
श्रों को छोड़ कर अन्यान्य नक्षत्रों की कला संरूपा कही जाती है। प्रत्येक नक्षत्र  
के घट्यमाण भोगाङ्क को १० से गुणा कर, शुणनकल में अश्विन्यादि गत  
नक्षत्रों की भोग कला की समष्टिसंरूपा को जोड़े अर्थात् प्रतिनक्षत्र भोग  
८०० कला के अनुसार अस्तीष्ट नक्षत्र (जिस नक्षत्र का ध्रुव जानता हो) प-  
र्यन्त जितने नक्षत्र हों उन की समष्टि (योग) जोड़े, पुनः जोड़ने से जो योग  
कल हो वही नक्षत्रों का अपना २ ध्रुव (द्रापिमा) होगा ॥ १ ॥

शास्त्रानु०-२-९ छोकतक अर्थ निष्ठालिखित चक्रद्वारा लिखागया है:-

सूर्यमहान्त भाषानुवाद

| अनुक्रम संख्या | नक्षत्रों का नाम | स्वभोग | ध्रुव |      |     | विक्षेप |       |        |                                               |
|----------------|------------------|--------|-------|------|-----|---------|-------|--------|-----------------------------------------------|
|                |                  |        | फला   | शिला | उमा | कुषा    | अंकुर | दिशा   |                                               |
| २३             | प्रणिष्ठा        | ०      | ९     | २३   | ०   | ३६      |       | उत्तर  | अवधार के दृतीय एवं<br>चतुर्थ पादकी सम्बिमेहै॥ |
| २४             | शतभिष्यक्        | ८०     | १०    | २०   | ०   | ११      |       | दृष्टि |                                               |
| २५             | पूर्वाभाद्रपदा   | ३५     | १०    | २६   | ०   | ५४      |       | दृष्टि |                                               |
| २६             | उत्तराभाद्रपदा   | २२     | ११    | ३३   | ०   | २६      |       | "      |                                               |
| २७             | रेत्वती          | ५९     | ११    | २८   | ५०  | ०       |       |        | ठोक कान्ति वृत्त रेत्वा<br>पर है यिं शून्य॥   |

नक्षत्र योग तारा का कदम्बाभिसुख भोग

नक्षत्र योग तारा का कदम्बाभिसुख श:

| अनुक्रम<br>संख्या | ग्रहण          | भोग     |      | शरदिशा |       | शर      |     |  |
|-------------------|----------------|---------|------|--------|-------|---------|-----|--|
|                   |                | ज्येष्ठ | कुष  | शुक्र  | कुष   | ज्येष्ठ | कुष |  |
| १                 | अश्वियनी       |         | ११५० |        | उत्तर | ९       | ११  |  |
| २                 | भरणी           | २४      | ३५   | उत्तर  | १२    | ६       |     |  |
| ३                 | कृत्तिका       | ३५      | ८    | उत्तर  | ४     | ४४      |     |  |
| ४                 | रोहिणी         | ४८      | ८    | दक्षिण | ४     | १७      |     |  |
| ५                 | मृगशीर्ष       | ६५      | ३    | दक्षिण | ३     | ५५      |     |  |
| ६                 | आर्द्रां       | ६५      | ५०   | दक्षिण | ८     | ५३      |     |  |
| ७                 | पुनर्वंशु      | ८५      | ५२   | उत्तर  | ८     | ०       |     |  |
| ८                 | पुष्य          | १०६     | ०    | उत्तर  | ०     | ०       |     |  |
| ९                 | भाष्ट्रेष्या   | १०५     | ५९   | दक्षिण | ६     | ५३      |     |  |
| १०                | मधा            | १२५     | ०    | उत्तर  | ०     | ०       |     |  |
| ११                | दूर्योक्तलगुणी | १३५     | ५८   | उत्तर  | ११    | १९      |     |  |
| १२                | उत्तराकलगुणी   | १५०     | १०   | उत्तर  | १२    | ५       |     |  |
| १३                | हस्त           | १७४     | २२   | दक्षिण | १०    | ६       |     |  |
| १४                | विश्रा         | १८८     | ५८   | दक्षिण | १     | ५०      |     |  |
| १५                | स्थाति         | १८८     | ८    | उत्तर  | ५३    | ५०      |     |  |
| १६                | विशारदा        | २१३     | ३१   | दक्षिण | १     | २५      |     |  |
| १७                | अमुराधा        | २२४     | ४४   | दक्षिण | २     | ५२      |     |  |

| अनुक्रम<br>संख्या | नक्षत्र        | भौग     |     | शरदिशा  |     | शर      |     |
|-------------------|----------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                   |                | ज्येष्ठ | कला | ज्येष्ठ | कला | ज्येष्ठ | कला |
| १६                | ज्येष्ठा       | २३०     | ७   | दक्षिण  | ३   | ५३      |     |
| १९                | द्वूल          | २४४     | २   | दक्षिण  | ८   | ४८      |     |
| २०                | पूर्वांशुधा    | २५४     | ३८  | दक्षिण  | ५   | २८      |     |
| २१                | उत्तराधार्दा   | २६६     | २३  | दक्षिण  | ४   | ४८      |     |
|                   | अभिजित्        | २६४     | १०  | उत्तर   | ५८  | ५८      |     |
| २२                | अवण            | २८८     | २९  | ०       | ८८  | ५४      |     |
| २३                | चनिष्ठा        | २९६     | ५   | उत्तर   | ३५  | ३३      |     |
| २४                | शतभिष्यक्      | ३१९     | ५०  | दक्षिण  | ०   | २८      |     |
| २५                | पूर्वाभाद्रपदा | ३३४     | २५  | उत्तर   | २२  | ३०      |     |
| २६                | उत्तराभाद्रपदा | ३३७     | १६  | उत्तर   | १४  | १       |     |
| २७                | रेष्टी         | ३५८     | ५३  | दक्षिण  | ०   | ८       |     |

अशीतिभागैर्याम्यायामगस्त्योमिथुनान्तगः । विंशे च  
मिथुनस्यांशे मृगव्याधो व्यवस्थितः ॥ १० ॥ विक्षेपो-  
दक्षिणे भागैः स्वार्णवैः स्वादपक्रमात् । हुतभुग्नत्सहदयौ  
वृपे द्वाविंशभागग्नौ ॥ ११ ॥ अष्टाभिस्त्रिंशता चैव वि-  
क्षिप्तावुत्तरेण तौ । गोलं वद्धवा परीक्षेत विक्षेपं ध्रुवसं-  
रक्षुटम् ॥ १२ ॥ वृपे सप्तदशे भागे यस्य याम्योऽशक-  
द्वयात् । विक्षेपोऽम्यविकोमिन्द्याद्रोहिण्याः शकटं तु  
सः ॥ १३ ॥ ग्रहवद्दृढुनिशेभानां कुर्यादृक्कर्म पूर्ववत् ।  
ग्रहमेलकवच्छेपं ग्रहभुक्त्वा दिनानि च ॥ १४ ॥

शास्त्रार्थ-शोक १० । ११२ तक का-

| नक्षत्र      | भ्रुप |     |     | विक्षेप |     |     | दिशा   |
|--------------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|--------|
|              | राशि  | अंश | कला | राशि    | अंश | कला |        |
| १ अगस्त्य    | ३     | ०   | ०   | ०       | ८५  | ०   | दक्षिण |
| २ सुग्रव्याध | २     | २०  | ०   | ०       | ४२  | ०   | दक्षिण |
| ३ अभिनि      | १     | २२  | ०   | ०       | ८   | ०   | उत्तर  |
| ४ अस्त्रिय   | १     | २२  | ०   | ०       | ३६  | ०   | उत्तर  |

घटप्रमाण गोल घांस आदि की शलाका से वाध फर अर्थात् एक गोल यन्त्र तैयार कर भलीभांति नक्षत्रों के प्रूप तथा विक्षेप की परीक्षा करने से अब विषय स्पष्टतया ज्ञात हो जावेगा ॥ १२ ॥ रोहिणी नक्षत्र का आकार शक्ट की नार्दे है । जो यह वृष राशि के १३ अंश में अवस्थित, ऐसे जिस का दक्षिण विक्षेप ३ अंश से अधिक होगा, यह पह रोहिणी के शक्टाकार संनिवेश में प्रवेश करेगा, अर्थात् शक्टाकृति को काट देगा । भेदक यह का विक्षेप रोहिणी के विक्षेप से न्यून होना चाहिये, क्योंकि दक्षिण विक्षेप रोहिणी के विक्षेप से अधिक होने से शक्टभेद नहीं होगा । यह रा० २ । अं० १३ वि० ८० वैष द्वारा देख कर सिद्ध किया है ॥ १३ ॥ नक्षत्र के साथ यह योग जानने के लिये अध्याय १ । २ लिखित नियमानुसार नात्तिक आहोरात्र का परिमाण ठीक कर नक्षत्र की द्राघिमा में जात्स दृक्षमे (स्त्रमार) करे, तदन्तर पहिले जो अहो के विषय में जिस प्रकार कहा गया है, उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये । अनन्तर अभीष्ट काल में यहों की दैनिक भुक्ति ( गति ) से पूर्व रीत्यनुसार “गत” और “गम्य” दिन मिथ्य करे ॥ १४ ॥

एष्यो हीने ग्रहे योगो ध्रुवकादधिके गतः । विर्ष-  
र्यादृक्गते ग्रहे ज्ञेयः समागमः ॥ १५ ॥ फलगुन्योर्भाद्र-  
पदयोस्तथैवापाढ्योर्द्वयोः । विशाखाश्विनिसौम्यानां  
भोगतारोत्तरा स्मृता ॥ १६ ॥ पश्चिमोत्तरताराया द्वितीया  
पश्चिमे स्थिता । हस्तस्य योगतारा सा ऋविष्टायाम्  
पश्चिमा ॥ १७ ॥ ज्येष्ठाश्रवणमैत्राणां वार्हस्पत्यस्य म-  
ध्यमा । भरण्याग्नेयपित्र्याणां रेवत्याश्चैव दक्षिणा ॥ १८ ॥  
रोहिण्यादित्यमूलानां प्राची सार्पस्य चैव हि । यथा  
प्रत्यव शेषाणां स्थूला स्याद्योगतारका ॥ १९ ॥

भाषार्थ-आक्षदृक्षमे स्त्रमार नक्षत्र प्रूप से आयनदृक्षमेस्त्रमार ग्रह का प्रूप न्यून होने से नक्षत्र और यह का योग अभीष्ट काल से पीछे होगा और अधिक हो तो नक्षत्रयोग गत ( होगया ) जानना । परन्तु यक्षगति यह का चक्र नियम से विपरीत होता है, अर्थात् यह का भ्रुव न्यून हो से नक्षत्रयोग

## अथ नवमोध्यायः

अथोदयास्तमययोः परिज्ञानं प्रकीर्त्यते । दिवाकरकरा-  
क्रान्तभूर्तीनामल्पतेजसाम् ॥ १ ॥ सूर्यादभ्यधिकाः  
पश्चादस्तं जीवकुजार्कजाः । ऊनाः प्रागुदयं यान्ति शु-  
क्रज्ञौ बक्रिणौ तथा ॥ २ ॥ ऊना विवस्वतः प्राच्यामस्तं  
.चन्द्रज्ञभार्गवाः । व्रजन्त्यभ्यधिकाः पश्चादुदयं शीघ्रया-  
यिनः ॥ ३ ॥ सूर्यास्तकालिकौ पश्चात् प्राच्यामुदय-  
कालिकौ । दिवा चार्कग्रहौ कुर्याद् दृक्षर्मार्थं ग्रहस्य तु  
॥ ४ ॥ ततोलग्नान्तरप्राणाः कालांशाः पष्टिभाजिताः ।  
प्रतीच्यां पद्मभव्युतयोरतद्वलग्नान्तरासवः ॥ ५ ॥

भाषानुवाद- अथ उदय (योड़े तेजवाले यह, उपग्रह, नक्षत्रादिक सूर्य से अलग होने पर जितने समय में पहिली बार दीखपड़े ) और अस्त ( सूर्य से 'दूर होने पर जितने काल में जो यह पहिली बार दीखपड़े' ) का परिज्ञान (सूर्य रीति से) कहा जाता है । पहिले कहा जा सका है कि जितने सस्थ पदार्थ अर्थात् ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रादिक हैं प्रायः सूर्य के किरणों से प्रकाशित होते हैं । इन में बहुत से योड़े तेजवाले और कलिपय एक की अवेक्षा अधिक तेज वाले हैं । यहां चन्द्रमा, चान्द्रल, शुध, शृहस्पति, शुक्र, शनि और नक्षत्रों का उदयास्त कहा जावेगा ॥ १ ॥ सूर्य स्पष्ट की राश्यादि से ( राशि, अंश, कलादि ) शृहस्पति, चान्द्रल, शनि एवं यक्षों शुध और शुक्र इन पांच यहों की स्पष्ट राश्यादि अधिक होने से इन का अस्त पश्चिम दिशा में होता है । और सूर्य स्पष्ट की राश्यादि से चाह पांपों यहों की स्पष्ट राश्यादि न्यून होने से इन का उदय पूर्व दिशा में होता है ॥ २ ॥ शीघ्र चलने वाले चन्द्र, शुध और शुक्र की स्पष्ट राश्यादि सूर्य की स्पष्ट राश्यादि से न्यून होने से, इन का अस्त पूर्वदिशा में होता है और यहों की स्पष्ट राश्यादि सूर्य की स्पष्ट

राश्यादि से अधिक होने से इन का उदयपश्चिम दिशा में होता है ॥ ३ ॥ यदि पश्चिम दिशा में ग्रहों का अस्तोदय ज्ञान करना हो तो अभीष्ट दिन के सूर्य और ग्रह का अस्तकालिक अर्थात् उस समय सूर्य तथा ग्रह किस राशि, अश कालादि को भीग करते हैं, गणित द्वारा निश्चय करे । एवं यदि पूर्व दिशा में ग्रहों का अस्तोदय ज्ञान करना हो तो उसी प्रकार सूर्य तथा ग्रह को अभीष्ट दिन के उदयकालिक करके पीछे आकृत्वकृ करें ॥ ४ ॥ तब पूर्व कपाल में सूर्य और दृग् ग्रह (विष से देखा हुआ ग्रह) के स्फुट से घटाने पर जो लग्न प्राण हो उस को ६० से भागदेवे, भागफल कालांश होने और पश्चिम कपाल में ६ राशि जाह कर सूर्य और दृग्ग्रह के स्पष्ट लग्नान्तरप्राण स्थिर करे ॥ ५ ॥

एकादशामरेज्यस्य तिथिसंख्यार्कजस्य च । अस्तांशा-  
भूमिपुन्नस्य दशसप्ताधिकस्ततः ॥ ६ ॥ पश्चादस्तम-  
योष्टाभिसूदयः प्राह्महत्तया । प्रागस्तमुदयः पश्चादल्प-  
त्वादूशभिर्भृगोः ॥ ७ ॥ एवं बुधो द्वादशभिन्नतुर्दशभि-  
रंशकैः । वक्त्रीशीघ्रगतिश्चार्कात्करोत्यस्तमयोदयौ ॥ ८ ॥  
एम्योऽधिकैः कालभागैर्दृश्यान्यूनैरदर्शनाः भवन्ति लोके  
खचरा भानुभागस्तमूर्त्यः ॥ ९ ॥ तत्कालांशान्तरकला  
भत्त्यन्तरविभाजिताः । दिनादि तत्फलं लब्धं भुक्तियो-  
ग्नैः वक्त्रिणः ॥ १० ॥

झरणगुबाद-सूर्य के स्पष्ट राश्यादि से छहस्पति का स्फुट ११ अश से अधिक वा न्यून होने से उक्त दिशा में (देखो इलोक ३) छहस्पति का अस्त वा उदय निश्चय करना चाहिये । १५ अंश अधिक वा न्यून होने में शनि का, एवं १७ अंश अधिक वा न्यून होने से उक्त अस्तोदय के निश्चिपित दिशा में गड्ढल का अस्त वा उदय होगा । सूर्य के स्पष्ट से चन्द्रमा का स्पष्ट १२ अश अधिक होने से पश्चिमदिशा में चन्द्रमा दिखाई देगा । सूर्य के स्पष्ट से १२ अंश न्यून होने से चन्द्रमा पूर्वदिशा में अस्तित होगा (नहीं दीखेगा) । यदि यक्षी शुक्र का स्पष्ट सूर्य के स्पष्ट से ८ अंश अधिक हो तो शुक्र पश्चिम

दिशा में अस्तमित, ६ एवं ८ अंश न्यून होने से पूर्यं दिशा में उदित होगा और वक्तारहित शुक्र जय शीघ्रगामी होगा तथा यदि मूर्य के स्पष्ट से शुक्र का स्पष्ट १० अंश न्यून हो तो पूर्वदिशा में अस्तमित होगा, एवं १० अंश अधिक होने में उक्त शुक्र पश्चिम दिशा में उदित होगा। इसी प्रकार यदि वक्ती शुभ का स्फुट सूर्य के स्फुट से १२ अंश अधिक हो तो पश्चिम दिशा में अस्त, एवं १२ अंश न्यून होने से पूर्वांदिशा में उदित होगा। वक्तगति रहित शुभ का स्फुट राश्यादि सूर्य के स्फुट राश्यादि से १४ अंश न्यून होने से पूर्वांदिशा में शुभ का अस्त, एवं १४ अंश अधिक होने से पश्चिम दिशा में शुभ का उदय होगा ॥ ६ । ९ । ८ ॥ पूर्वोक्त (६ । ३ । ८ श्लोकोक्त) कालांश से अधिक होने पर इष्टकाल में यह दृश्य होते हैं । एवं न्यून होने से सूर्य के मिकट होने के कारण सूर्य की प्रसर फिरों से यहों के विन्द्य घिर कर लोगों का नहीं दीखते ॥ ९ ॥ यहों के पूर्वोक्त अपने २ कालांश से इष्टकालांश घटाएँ कर फला बनावे पुनः उस को सूर्य और यह की दैनिकभुक्ति की जो घटाएँ हुई कला उस से भाग दे, भागफल दिनादि होगा, परन्तु यक्तो यह की भुक्ति छोड़ कर भागदेने से भागफल दिनादि होगा ॥ १० ॥

विवरण-मूल सू० सिं० के अनुसार चन्द्रमा १२ अंश, महाल १३ अंश, शुभ १३ अंश, शुहस्पति ११ अंश शुक्र ८ अंश और शनि १५ अंश में। आपेक्षाह ने भी ऐसा ही लिखा है । एवं आधुनिक पाश्चात्य पश्चिमों ने भी ऐसा ही अनुभव किया है । केवल शुक्र का अंगेभौं ने ८ अंश लिखा है याकी सब एक हैं । श्लोक ६-८ ॥

तत्पूर्णासुहते भुक्तीअष्टादशशतोद्धृते । स्वातां कालगती ताम्यां दिनादिगतगम्ययोः ॥ ११ ॥ स्वात्यगस्त्यमृगव्याधचित्राज्येष्टाः पुनर्वसुः । अभिजिद्व्रह्महृदयं त्रयोः दशभिरंशकैः ॥ १२ ॥ हस्तश्वरणफलगुन्यः ऋविष्टरोहिणीमधाः । चतुर्दशांशकैर्द्वयाविशाखाश्विनिदैवतम् ॥ १३ ॥ कृत्तिकामैत्रमूलानि सार्पं रौद्रक्षमेव च । दृश्यन्ते पञ्चदशभिरापादाद्वितयं तथा ॥ १४ ॥ भरणीतिष्यसौम्यानि सौक्ष्म्यात्त्रिः सप्तकांशकैः । शोपाणि सप्त-

**दशभिर्दृश्यादृश्यानि भानि तु ॥ १५ ॥**

भाषानुवाद-सूर्य और प्रह्लुकि को उस लग्न प्राण से गुणन कर गुणनफल में १०० का भाग देवे भागफल सूर्य और प्रह के कालांश के तुल्य काल गति होगी, उन दोनों गतियों से गत और गम्यादि पूर्वप्रक्रियानुसार निश्चय करे ॥ ११ ॥ स्वाति, अगस्त्य, मृगश्याध, चित्रा, ज्येष्ठा, पुनर्वंस, अभिजित, व्रस्त-हृदय, इन नक्षत्रों का कालांश १३ अंश है अर्थात् ये नक्षत्र १३ अंश में दृश्य होते हैं। इस से न्यून होने से अदृश्य होते हैं ॥ १२ ॥ हस्त, श्रवण, उत्तराफलगुनी, पूर्वापलगुनी, खनिष्ठा, रोहिणी, नघा, विशारदा, अश्विनी, इन का कालांश १५ अंश है अर्थात् ये नक्षत्र १५ अंश में दीरु पड़ते हैं इस से न्यून होने से अदृश्य होते हैं ॥ १३ ॥ कर्तिका, अनुराधा, मृष्ठा, आश्लेषा, भाद्रा, पूर्वार्पादा और उत्तरार्पादा इन के १५ कालांश हैं अर्थात् ये नक्षत्र १५ अंश में दृश्य होते हैं इस से न्यून होने से अदृश्य होजाते हैं ॥ १४ ॥ भरणी, पुष्य और मृगशिरा ये अत्यन्त छोटे हैं अर्थात् इन के विस्त्र यहुत छोटे हैं इस कारण २१ अंश दीरु पड़ते हैं न्यून होने से अदृश्य होते हैं और शेष नक्षत्र शतमित्र, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्र-पदा, रेती, अग्नि, प्रजापति, अपांवत्स और आष, इन का कालांश १७ अंश है, ये नक्षत्र १७ अंश दीरु पड़ते हैं, इस से न्यून होने से अदृश्य होते हैं ॥ १५ ॥

**अष्टादशशतान्यस्ता दृश्यांशाः स्वोदयासुभिः । विभज्य उवधाः क्षेत्रांशास्त्वैर्दृश्यादृश्यताथवा ॥ १६ ॥** प्रागेषामु-  
दयः पश्चादस्तो दृक्कर्म पूर्ववत् । गतैर्घ्यदिवसप्राप्ति-  
भानुभुक्त्या सदैव हि ॥ १७ ॥ अभिजिह्वहृदयं स्वाति-  
वैष्णववासवाः ॥ अहिर्वुच्यमुद्दक्ष्यत्वान्त लुप्यन्तेऽकं-  
रश्चिमभिः ॥ १८ ॥

**इति नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥**

भाषानुवाद-कालांश को १०० से गुणन कर गुणनफल की लग्न प्राण

से भाग देखे, भागफल क्रान्तियत्तस्य अंश होगा अर्थात् उसी अंश से दूरम  
और अदृश्य होता है ॥ १६ ॥ इन नक्षत्रों का उदय पूर्वदिशा में एवं अला  
पश्चिम दिशा में होता है। और इन का आकृत्क कर्म पूर्ववत् करना चा-  
हिये एवं सर्वदा सूर्य की गति से ( १० श्लोकोऽनि यम ) दिन आदि निर्णय  
करे ॥१७॥ अभिजित, अस्मद्दय, स्वाति, अवण, धनिष्ठा, वत्तराभाद्रपदा, इन  
नक्षत्रों का उत्तर विसेप अधिक होता है इस करण सूर्य की किरणों से कभी  
छुप नहीं होते अर्थात् इन का कभी अस्त नहीं होता ॥ १८ ॥

इति भापानुवादे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥



## अथ दशमोऽध्यायः

उदयास्तविधिः प्राग्वत् कर्तव्यः शीतगोरपि । भाग्निर्द्वा-  
दशभिः पश्चाद्दृश्यः प्राग्यात्यदृश्यताम् ॥१॥ रवीन्द्रोः  
पह्मयुतयोः प्राग्वल्लग्नान्तरासवः । एकराशौ रवीन्द्रो-  
रज्ज कार्या विवरलिप्तिकाः ॥ २ ॥ तज्जाडिकाहते भुक्ती  
रवीन्द्रोः प्रष्टिभाजिते । तत्फलान्वितयोर्भूयः कर्तव्या  
विवरासवः ॥ ३ ॥ एवं यावत्स्थिरोभूता रवीन्द्रोरन्तरास-  
वः । तैः प्राणैरस्तमेतीन्दुः शुक्रेऽर्कास्तमयात्परम् ॥ ४ ॥  
भगणार्दुः रवेर्दत्त्वा कार्यास्तद्विवरासवः । तैः प्राणैः कृ-  
ष्णपक्षे तु शीतांशुरुदयं ब्रजेत् ॥ ५ ॥

आपानुवाद-पूर्वोक्त प्रकार से (पूर्वोचिकारोक्त) चन्द्रमा का श्री उदयास्त  
शापन करे । इस अंश दूर होने पर चन्द्रमा पद्मिम दिशा में दिखा और पूर्व  
दिशा में १२ अंश दूर होने पर अदृश्य होता है ॥१॥ शुक्रपक्ष के अस्तीति दिन के  
सायंकाल में सूर्य और चन्द्रमा का जापन दृक्कर्म और आकृकृकर्म करे, पुनः  
दृक्कर्म संस्कृत सूर्य और चन्द्रमा में छः राशियोग करे । पूर्वोक्त रीति से (अ॒३३०४४५)  
खग्नान्तर प्राणनिश्चय करे और छः राशि मिलाने पर शुद्धि सूर्य और चन्द्र-  
मा एक राशि में हों सो छः राशियुक्त सूर्य और चन्द्रमा की अन्तर कला  
करे । एवं प्राण और कला की प्रटिका से प्राण को ३६० से शाय देवे, जाग-  
फल घटिका कला उदय प्राण से गुणन कर गुणनफल प्राण में पुनः प्रकराणि  
की कला से प्राण देने पर प्राण हो उस की १६० से शाय देवे भागफल घटिका  
होगी । उस से सूर्य और चन्द्रमा की दैतिककृतात्मक गति से गुणन कर गुणन  
फल में ६० का प्राण देवे जिसका फल को लगानेर छः राशियुक्त सूर्य और चन्द्र-  
मा में जोड़कर पुनः पूर्ववत् अन्तर प्राप्त करे, एवं उस प्रटिका से सूर्यास्त  
कालिक छः राशियुक्त संस्कृत सूर्य और चन्द्रमा को चलाकर तबठक भ्रत्यतर

प्राण स्थिर न हो इसी प्रकार करता जावे । सूर्यस्त के पीछे उक्त प्राणसंरूपा काल के बीतने पर चन्द्रमा का अस्त होगा ॥ २ । ३ । ४ ॥ फृणपक्ष में सूर्य स्पष्ट में उ राशि भिलाकर चन्द्रमा में अन्तर प्राण का निश्चय करे उन्हीं प्राण संरूपाकाल के पीछे फृणपक्ष में चन्द्रोदय का काल है ॥ ५ ॥

**अर्केन्द्रीः** क्रान्तिविश्लेषोदिक्साम्ये युतिरन्यथा । त-  
ज्ज्येन्दुरकार्ददत्रासौ विज्ञेया दक्षिणोत्तरा ॥ ६ ॥ मध्या-  
हैन्दुप्रभाकर्णसहृणा यदि सोत्तरा । तदार्कद्वाक्षजीवायं  
शोध्या योज्या च दक्षिणा ॥ ७ ॥ शेषं लम्बज्यया भक्तं  
लद्धो वाहुः स्वदिद्वमुखः । कोटिशहुस्तयोर्वर्गयुतेमूलं  
श्रुतिर्भवेत् ॥८॥ सूर्योनशीतगोर्लिप्ताः शुल्कं नवशतो-  
द्वधृताः । चन्द्रविम्बाहुलाभ्यस्तहतंद्वादशभिः स्फुटम् ॥९॥

**भाषागुणाद-**यदि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्या एक दिशा में हो तो इन का अन्तर करे (घटाकर) और यदि दोनों भिन्न दिशा में हो तो योग करे । सूर्य से चन्द्रमा की संस्थिति (रहना) दक्षिण या उत्तर हों उसी के अनुसार क्रान्तिज्या भी (दक्षिण या उत्तर) होगी ॥ ६ ॥ उस काल की स-  
मय रेखागत चन्द्रमा की छाया कर्ण को ऊपर कहे हुवे फल से गुणन करे गुणनफल यदि दक्षिण होतो १२ से गुणन कियी हुई अक्षज्या में योग, यदि गुणनफल उत्तर हो तो वियोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ यह ग्रेष उठथ लम्ब-  
ज्या से भाग करे, भागफल स्वदिक् सूचक वाहु होगा । चन्द्रमा के शहूक  
को (१२ अहुल की कोटि) कोटि जानकर भुज और कोटि के बर्ग का योग करे, कर्णफल शूल निकालने से कर्ण होगा ॥ ८ ॥ चन्द्रमा से सूर्यघटाकरकला करे, इस कला में १० का भाग देवे, भागफल शुल्काश होगा । चन्द्रमा के वि-  
म्बाहुल से (चन्द्रप्रहणाधिकारोक्त रीति से) गुणा करे, गुणनफल को १२ से भाग देवे, भागफल रुक्त शुल्क होगा ॥ ९ ॥

दत्त्वार्कसञ्ज्ञातं विन्दुं ततो वाहुं स्वदिद्वमुखम् । ततः  
— परच्चान्मुखीं कोटिं कर्णं कोट्यग्रमध्यगम् ॥ १० ॥ कोटि-

कर्णयुताद्विन्दोर्बिम्बं तात्कालिकं लिखेत् । कर्णसूत्रेण  
दिक्सिद्धिं प्रथमं परिकल्पयेत् ॥ ११ ॥ शुल्कं कर्णन् त-  
द्विम्बयोगादन्तमुखं नयेत् । शुल्काग्रयाम्बोत्तरयो-  
मध्ये मत्स्यौ प्रसाधयेत् ॥ १२ ॥ तन्मध्यसूत्रसंयोगा-  
द्विन्दुनिष्टुगिलखेद्दुनुः । प्राञ्यिम्बं चाहुगेवस्यात्ताहुकृतत्र  
दिने शशी ॥ १३ ॥ कोठ्या दिक्साधनात् तिर्यक्सूत्रान्ते  
शृङ्गमुन्नतम् । दर्शयेदुन्नतां कोटि॑ कृत्वा चन्द्रस्य साकृ-  
तिः ॥ १४ ॥ कृष्णे पड्भयुतं सूर्यं विशोध्येन्दोर्स्तपा सि-  
तम् । दद्वाद्वामं भुजं तत्र परिचमं मण्डलं विधोः ॥ १५ ॥

इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

भाषानुवाद-वरावर की हुई भूमि में ( अभीष्टस्थान में ) दिक्षापूर्वक करके पूर्वपवित्र रेखा और दक्षिण उत्तर रेखा खेंचे । उक्त खेंचे हुए रेखास्थान में आकंसंशक विन्दु ( चिन्ह ) लिये । उस विन्दु से अपनी दिशा के अनुसार ( दक्षिण या उत्तर ) भुज अहुल गिनकर ( पूर्वसाधित ) उत्त के अनुसार रेखा खेंचे । उस भुज रेखा के अग्रभाग से पवित्रमुखामी कोटि ( १२अष्ट-शुण्ड ) के परिमाण से रेखा खेंचे । कोटि के आगे से मध्यविन्दु तक की रेखा ही कर्ण होगी । कोटि और कर्ण रेखा के संयोगस्थान में मध्यविन्दु लिखकर तात्कालिक साधित चन्द्रमण्डल रखें । इस धिम्बगण्डहल में पहिले कर्ण रेखा द्वारा दिक्षिद्धि ( राष्ट्र ) दिखाये । चन्द्रमण्डल में जहां कर्ण रेखा लगी है वही चन्द्रघृत में पूर्वदिशा, कर्णरेखा को छपने मार्ग से चन्द्रघृत परिधि में आगे निकाल कर जहांपर कर्ण रेखा परभाग में लगी है वही पश्चिम दिशा, उन दोनों भास्त्रद्वारा चन्द्रघृत में जहां दक्षिण उत्तर रेखा लगी है वही दक्षिण उत्तर दिशा है । शुल्क ( पूर्य साधित ) को कर्ण मार्ग द्वारा कर्ण रेखा और चन्द्रमण्डल की परिधि के संयोग स्थान से घृत के केन्द्र की ओर रेखा खेंचे । चन्द्रघृत के भीतर कर्ण रेखा पर पवित्र से शुल्क की अड्डगुलि लिन कर चिन्ह करे और चन्द्रघृतमें जहां शस्त्राग्र का चिन्ह है और चन्द्र

यत् परिच्छ में जहां दक्षिण उत्तर का चिन्ह है इन दोनों के बीच से दो भल्ली की आकृतिकीरेखा यथा वै । शुल्काय और दक्षिण चिन्हद्वारा एक भल्ली, एवं शुल्काय और उत्तर चिन्हद्वारा दूसरी भल्ली बनाये । इन दोनों भल्लियों के मुख और पूँछ से निकली हुई रेखा के संयोग ( चन्द्रमस्थल से भीतर या बाहर के शुल्काय पश्चिम होतो पूर्वमें "संयोग" और शुल्काय पूर्व में होतो पश्चिम में "संयोग" से अपने २ मार्ग से फैली हुई रेखा के सम्पात स्थान से ) स्थान को केन्द्र करके त्रिविन्दुस्तृक् ( शुल्काय विन्दु, दक्षिण विन्दु उत्तर विन्दु, इन सीन विन्दु को खूता हुआ ) धनु रेखा हैंचे । पूर्वकाल में लिखित घन्द्रधिम्ब जिस प्रकार होगा एवं लिखित धनु द्वारा जैसा पद्धिम काल में होगा उसी प्रकार उस दिन ( श्वीकृति के गणित के लिये अभ्यष्ट दिन सध्यासमय ) भी चन्द्रमा जाकाश में दिखाई देगा ॥ १० । ११ । १२ । १३ ॥ कोटि रेखा द्वारा धन्द्रवत्त में कर्णे रेखा के समान दिक्षाधन से परिलेख में शुल्क धनु के कोटि अयभागात्मक कथा देख कर दक्षिण उत्तर रेखा के अन्त में उद्यम्भ दिखलाये, यही आकृति ( परिलेख सिद्ध ) आकाशस्थ चन्द्रमा का आकार होगो ॥१४॥ रुद्धपक्ष में चन्द्रमा के स्पष्ट से छः राशि-शुल्क सूर्य घटावे और शुल्क की नाई ( पूर्वोक्तप्रकार ) अस्ति ( कालायन ) निर्णय करे और रुद्ध परिलेख में पूर्वोक्त भुज को विपरीत दिखलाये अर्थात् शुर्व चिन्ह से उत्तरभुज को दक्षिण से दिखलाये एवं सूर्यचिन्ह से दक्षिणभुज को उत्तर से दिखलाये और चन्द्रमस्थल की पद्धिम ओर अस्ति दिखलाये ॥१५॥

इति भाषानुवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



## अथैकादशोऽध्यायः

एकायनगतौ स्थातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा । तद्गुती म-  
ण्डलेक्रान्त्योस्तुल्यत्वे वैधृताभिधः ॥ १ ॥ विपरीता-  
यनगती चन्द्राकौं क्रान्तिलिप्तिकाः । समास्तद्वा व्यतीपा-  
तो भगणार्थं तयोर्युती ॥ २ ॥ तुल्यांशुजालसंपर्कान्त-  
योस्तु प्रवहावृतः । तदृढक्रोधभवो वह्निर्लोकाभावाय  
जायते ॥ ३ ॥ विनाशयति पातोऽस्मिंश्चोकानामसकृद्यतः ।  
व्यतीपातःप्रसिद्धोऽयं संज्ञाभेदेन वैधृतिः ॥ ४ ॥ सकृष्णो  
दारुणवपर्लोहिताक्षोमहीदरः । सर्वानिष्टकरोरौद्रो भू-  
योभूयः प्रजायते ॥ ५ ॥

भाषानुधाद—सूर्य और चन्द्रमा जब एक अयन (चाहे दक्षिणायन या उत्त-  
रायण ) में होते हैं और जब दोनों की स्पष्ट राश्यादिक जोड़ने से १२ राशि  
के परिमाण की होती हैं, एवं दोनों की क्रान्ति समान होती हैं, तब “वैधृ-  
तिःनामक पात होता है ॥ १ ॥ परन्तु जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्न २ अयन  
में रहते, एवं उन की क्रान्ति कला समान होती हैं और दोनों की स्पष्ट रा-  
श्यादि जोड़ने से ६ राशि के वराधर हो तो “ठपतीपात” नामक पात होता  
है ॥ २ ॥ सूर्य और चन्द्रमा के किरणों का परस्पर मिलने से दृग्घृण कोष से  
उत्पन्न अग्नि प्रवह वायु से प्रज्वलित होता हुआ लोगों को अशुभ कल  
देने वाला होता है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त पात रूप अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा की  
क्रान्ति समान होने पर अनेकवार होता है और लोगों का नाश करता है,  
इस लिये इस को “ठपतीपात” और “वैधृति” कहते हैं ॥ ४ ॥ ५ सूर्य और

६ सूक्त ३ । ४ । ५ का विशेष विवरण देखो, इसी अध्याय की अन्तिम  
द्यास्या ॥

चन्द्रमा की कान्ति समान होने पर जां। उक्त दोनों नाम का पात होता है, उस फा यर्ण(रंग)फाला, कठिन शरीर, लाल नेत्र, महोदर (बड़ा घेट) सब छोगों को हानि पहुंचाने वाला, एव नाशकारक वारंवार होता है ॥ ५ ॥

भास्करेन्द्रोर्भव्यंक्रान्तश्चक्रार्थावधिसंस्ययोः । दृवतुल्य-  
साधितांशादियुक्तयोः रवावपक्रमौ ॥ ६ ॥ अथौजपदग-  
स्येन्दोः क्रान्तिर्विक्षेपसंस्कृता । यदि स्यादधिका भानोः  
क्रान्तेः पातो गतस्तदा ॥ ७ ॥ ऊना चेत्स्यात्तदा भावी वामं  
युग्मपदस्य च । पदान्यत्वं विधोः क्रान्तिर्विक्षेपाञ्चेद्वि-  
शुध्यति ॥ ८ ॥ क्रान्त्योजर्यं त्रिज्यया भिन्ने परक्रान्तिज्य-  
योहृष्टते । तत्त्वापान्तरमर्थं वा योज्यं भाविनि शीतगौ ॥ ९ ॥  
शोध्यं चन्द्रादुगते पाते तत्सूर्यगतिताडितम् । चन्द्रभु-  
त्त्वा हृतं भानो लिप्तादि शशिवरफलम् ॥ १० ॥

भाषणनुवाद—पूर्वोलं रीति से ( अ० १० स्थोक ११ ) दृक्तुल्य साधित अं-  
शादि युक्त सस्कृत चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट राश्यादि को जोड़ने से जब १२  
राशि में या उः प्रश्नि के विकट हो ती उस समय के सूर्य की कान्ति एव चन्द्रमा की  
विक्षेप संस्कृत क्रान्ति निश्चय करे ॥ ६ ॥ औजपद (देखो अ० २ स्थोक ३४) में स्थित  
चन्द्रमा की विक्षेप सस्कृत स्पष्ट क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से अधिक हो ती  
“पात” गत (साधित क्रान्ति काल से पहिले हो गया) जाने और यदि चन्द्रमा  
की स्पष्ट क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से न्यून हो तो “पात” भावी (साधित क्रान्ति  
काल से पीछे हो गा) जाने और युग्म पदस्य (देखो अ० २ । स्थोक ३४)  
चन्द्रमा के होने से उक्त रीति से विपरीत होता है, अर्थात् जब “पात” गत  
कहा गया है, उस समय “पात” भावी और जब “पात” भावी कहा गया है,  
उस समय “पात” गत जानना। जब चन्द्रमा से विक्षेप क्रान्ति पटाना होती  
(चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति लाने में) चन्द्रमा अन्य पदस्य हो जाता है (विषम  
पदस्य हो युग्म पदस्य हो जायेगा) ॥ ७ ॥ पा। सूर्य और चन्द्रमा की साधित  
क्रान्तिज्या की त्रिज्या से गुणा कर गुणनफल में परम क्रान्तिज्यर का दोनों  
में भाग दे, भागफल ज्या को अलग २ धनु बनावे । उस धनु का अन्तर वा-

अन्तराधं (जब अन्तर घोड़ा हो तो "अन्तर" और जब अन्तर अधिक हो तो उस का आधा करे) जब पात भावी हो तो चन्द्रमा की राश्यादि में जोहे और जब पात गत हो तो चन्द्रमा की राश्यादि से घटावे। उस चन्द्रमा के साधन में जो संस्कार किया गया है उस फल को सूर्य की स्पष्ट गति से गुणा कर गुणनफल में चन्द्रमा की स्पष्ट गति से भाग देवे, भागफल चन्द्रमा की नाईं कलादि होगा। पुनः इस को (चन्द्रमा में जीसा योग या वियोग किया गया है) सूर्य में योग वा वियोग करे, फल स्पष्ट सूर्य होगा ॥ ९ ॥ १० ॥

तद्वच्छशाङ्कपातस्य फलं देयं विपर्ययात् । कर्मतदसकृ-  
तावद्यावत्क्रान्तो समे तयोः ॥ ११ ॥ क्रान्तयोः समत्वे पा-  
तोऽथ प्रक्षिप्तांशोनिते विधौ । हीनेऽर्धरात्रिकादातो  
भावी तात्कालिकेऽधिके ॥ १२ ॥ स्थिरीकृतार्धरात्रेन्द्रोद्व-  
योर्विवरलिम्निकाः । पष्टिप्राश्वन्द्रभुक्त्यामाः पातकालस्य  
नाडिकाः ॥ १३ ॥ रवीन्द्रुमानयोगार्धं पष्टया सहुण्य  
भाजयेत् । तयोर्भुक्त्यन्तरेणाम् स्थित्यर्थं नाडिकादि तत्  
॥ १४ ॥ पातकालः स्फुटोमध्यः सोऽपि स्थित्यर्थवर्जितः ।  
तस्य सम्भवकालः स्यात्तत्संयत्कोऽन्त्यसंज्ञितः ॥ १५ ॥

भाषानुवाद-चन्द्रमा के फल फलादि को उक्त प्रकार चन्द्रफल की पात की गति से गुणा कर, गुणनफल में चन्द्रमा की स्पष्ट गति से भाग देवे, भागफल की जिस प्रकार चन्द्रमा में योग वा वियोग (पहिले कहा जा चुका है) किया गया है उस के उलटे प्रकार से अर्थात् जहाँ चन्द्रमा में योग कहा गया है वहाँ पात में वियोग और जहाँ चन्द्रमा में वियोग कहा गया है, वहाँ पात में योग करना ॥ १ ॥ सूर्य और चन्द्रमा की कान्ति जब समान हो तो स्पष्ट पात होता है। प्रक्षिप्तांश संस्कृत चन्द्रमा मध्यरात्रिक चन्द्रमा से पठाने पर मध्यरात्रि में पात गत और तात्कालिक चन्द्रमा अधिक ही तो पात भावी होता है ॥ २ ॥ कान्तिसाम्यगत चन्द्रमा और मध्यरात्रिक चन्द्रमा की अन्तर कला को ६० से गुणा कर गुणनफल में अद्वितीय चन्द्रमा की स्पष्ट कलात्मक गति से भाग देवे, भागफल पात काल के स्पष्ट की अन्तर नाहीं

होगी ॥ १३ ॥ सूर्य और चन्द्रमा के मान को एकत्र जोड़ें पुन इस का आपा करे, इस आधे को ६० से गुणा कर गुणनफल में सूर्य की स्पष्ट गति से चन्द्रमा की स्पष्ट गति को घटाकर शेष अङ्क से भाग देवें, भागफल स्थित्यर्ह दण्ड होगा ॥ १४ ॥ १३ शोकद्वारा लाया हुआ पात का सभ्य काल है। उसे स्थित्यर्ह वियोग करने पर फल पात का "सम्भव" (आरम्भ) काल है। ऐसे स्थित्यर्ह योग करने पर फल पात का "अन्त्यकाल" है ॥ १५ ॥

**आद्यन्तकालयोर्मध्यः कालोऽन्तीयोऽतिदारुणः । प्रज्वल-**  
**उज्ज्वलनाकारः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥ १६ ॥** एकायनगतं या-  
 वदर्केन्द्रोर्मण्डलान्तरम् । सम्भवस्तावदेवास्य सर्वकर्म-  
 विनाशकृत् ॥ १७ ॥ स्नानदानजपश्चाद्व्रतहोमादिक-  
 र्मभिः । प्राप्यते सुभहच्छ्रेयस्तत्कालज्ञानतस्तथा ॥ १८ ॥  
 रवोन्द्रोस्तुत्यता क्रान्त्योर्विपुवत्सञ्चिधौ यदा । द्विर्भवेद्  
 द्विस्तदा पातः स्यादभावो विपर्ययात् ॥ १९ ॥

आयानुवाद-पात के आरम्भ और समाप्ति के बीच का काल अत्यन्त कठिन, देवीप्यमान अग्निस्वरूप सब शुभ कर्मों में वर्जित है ॥ १६ ॥ # जितने काल तक सूर्य और चन्द्रमा के मखल का कोई अश एकस्यान (एकमाण) में हो तो उस समय पात का आरम्भ सब शुभ कर्मों का नाशकारी होता है ॥ १७ ॥ पातकाल को जानकर स्नान, दान, जप, आदि, ब्रतादि कार्य करने से बहा कल्याणकारक होता है ॥ १८ ॥ जय विपुवत के निकट चन्द्रमा और सूर्य की क्रान्ति समान होती है तो उस समय क्रान्ति के अभाव से दो वैधुति और व्यतीपात नामक पात होते हैं जीर, यज्ञ, सूर्य, और चन्द्रमा की क्रान्ति, तुल्य न हो तो दोनों में से कोई भी पात नहीं होता ॥ १९ ॥

**शशाङ्कर्क्युतेर्लिप्ताभ्योगेन विभाजिता । लव्यं सप्तद-**  
**शान्तोऽन्यो व्यतीपातरद्वतीयकः ॥ २० ॥** सार्यन्द्रपौष्ण-  
 धिपण्यानामन्त्याः पादा भसन्यमः । तदग्रभेष्वाद्यपादो

# छोटे १६, १७, १८ के लिये देखो इसी अध्याय की अन्तिम छारुण्या ॥

गण्डान्तं नाम कीर्त्यते ना २१ ॥ व्यतीपातत्रयं घोरं  
गण्डान्तत्रितयं तथा । एतद्वसन्ध्यत्रितयं सर्वकर्मसु  
वर्जयेत् ॥ २२ ॥ इत्येतत्परमं पुण्यं ज्योतिपां चरितं  
हितम् । रहस्यं महदाख्यातं किमन्यच्छ्रीतुमिच्छसि॥२३॥

\* इति पूर्वखण्डम् \*

इत्येकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

भाषासुधाद-अपनाश संस्कृत चन्द्रमा और मूर्य की कला को झोड़कर  
योगकल में ८०७ का भाग देखे, जागकल अन्त में होने पर व्यतीपात नाम  
तीव्रता पाव होता है ॥ २० ॥ आष्टेषा, उषेषा, रेवती, इन नक्षत्रों का चौथा  
चरण “भसन्धि” होता है । पृथ अश्विनी, मधा और मूल इन नक्षत्रों का  
पहिला चरण “गण्डान्त” होता है ॥ २१ ॥ तीन व्यतीपात ( दो कालितास्य  
वाले एवं विपुलत निकट का ) तीन श्येषान्त, तीन नक्षत्र सन्धि, मे सब शुभ  
कर्मों मे अतिशूषित होने से त्याज्य हैं ॥ २२ ॥ यह परम पवित्र यह नक्ष-  
त्रादिको की गति आदि का गणितरूप शाम परम हितकर रहस्य कहा ।  
अब आगे क्या हुनने की इच्छा है ॥ २३ ॥

\* यह पूर्वखण्ड समाप्तहुवा \*

विद्यरण-पात या योग वस को कहते हैं जब चन्द्रमा और मूर्य की  
गति का योग १३-२० होता है उसने काल मे एक “ योग ” होता है । ये  
योग अश्विनी आदि २३ नक्षत्र में २१ योग होते हैं । लटित वाटी ने २१ योगों  
के भिन्न २ नाम रख कर उन से शुभाशुभ कल की कल्पना कियी है, उसी  
फलित ज्योतिप के अनुसार यहां भी ३ । ४ । ५ । १६ । १७ । १८ और २१  
१ श्लोक किसी ने निलाये हैं । इस विद्यार से कि “ मूर्यसिद्धान्त ” मायीन  
प्रत्य है । इस कारण “ योगकल ” कहना इस के अनुसार मायीनिक होगा ।  
जब हम आर्यमह एव वराहमिहिरकृत सिद्धान्त का प्रमाण देते हैं जिस  
से स्पष्ट सिद्ध होगा कि उपरोक्त श्लोक भवश्य किसी ने निलाये हैं—  
रविशशिमक्षवगणा, सन्धिमात्र व्यतीपातः ॥ २ ॥

( जार्यभट्ट काल किया याद )

अर्थात् मूर्य और चन्द्रमा के नक्षत्र भाग का योग जब समान हो तो  
“व्यतीपात” योग होता है ॥

अर्कमे व्यतीपाता द्युग्मे पञ्चाम्बरहुतार्थः ॥ ४ ॥

(पञ्चसिद्धान्तिका अ० १२)

अर्थात् जब युगीय गत व्यतीपात योग जानना हो तो अहरण की १२  
से गुणा कर गुणनफल में ३५ का भाग दे, भागफल युग के आरम्भ से वीते  
हुवे व्यतीपात की संख्या होगी। इस के अतिरिक्त व्यतीपात जनित द्युम्भाशुभ  
फल का वर्णन कुछ भी उक्त दोनों प्राचीन घन्यों में नहीं है। विद्यकम्भ,  
प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, शोभन, जतिगण्ड, कुक्षा, धृति, शूल, गण्ड,  
दृष्टि, द्विध, व्याधात, हर्षण, यज्ञ, सिद्धि, व्यतीपात, वरीपान्, परिच, शिव,  
सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्र, ब्रह्मा, इन्द्र, वैष्णवि ये २७ योग हैं ॥

इति भाषानुवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥



## अथोत्तरखण्डे द्वादशोध्यायः

अथाकांशसमुद्भूतं प्रणिपत्य कृताङ्गुलिः । भक्त्या पर-  
मयाभ्यर्थ्यं पग्रच्छेदं मयासुरः ॥ १ ॥ भगवन्निकम्प्रमाणा-  
भूः किमाकारा किमाश्रया । किंविभागा कथञ्जात्रं  
सप्त पातालज्ञमयः ॥२॥ अहोरात्रव्यवस्थां च विदधाति  
कथं रविः । कथं पर्यति वसुधां भुवनानि विभावयन्  
॥ ३ ॥ देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात् । कि-  
मर्थं तत्कथं वा स्याद्वानोर्भगणपूरणात् ॥४॥ पित्र्यं मा-  
सेन भवति नाढीपष्टवा तु मानुपम् । तदेव किल सर्वत्र  
न भवेत्केन हेतुना ॥ ५ ॥ दिनावद्मासहोराणामधिष्ठा-  
न समाः कुतः । कथं पर्यति भगणः सग्रहीयं किमाश्रयः  
॥६॥ भूमेरुपर्युपर्युधर्वाः किमुत्सेधाः किमन्तराः । ग्रहक्ष-  
कक्षाः किम्मात्राः स्थिताः केन क्रमेण ताः ॥७॥ ग्रीष्मे  
त्रीव्रकरोभानुर्न हेमन्ते तथाविधः । कियती तत्करप्रा-  
प्तिर्मानानि कस्ति किञ्चुतैः ॥ ८ ॥

भाषानुयाद-तदनन्तर नयनाभक असुर ने शूर्य के अंश से उत्पत्त पुरुष  
को हाथ लौह, परम भक्ति से मणास कर यह पूछा कि ॥ १ ॥ हे भगवन् ।  
इस पृथिवी का परिमाण क्या है (कितनी परिधि, क्या दयास तम) भाकार  
कैसा है ? ( गोल, चियटी, दर्घणोदराकार इत्यादि ) किस के आश्रय से उहरी  
है ? ( शेष नाग पर बैल पर इत्यादि ) इसके क्या विज्ञान हैं ? ( कितने भागों  
में बटी है ) और किस प्रकार से इस में सातों पाताल की संस्था हैं ? ( ३  
पाताल किस क्रम से ऊपर नीचे हैं ) ॥ २ ॥ शूर्य किस प्रकार से दिन रात्रि

की व्यवस्था करता है ? और इस पृथिवी तथा अन्यान्य भुवनों को प्रकाश करता हुआ किस प्रकार अपनी धुरी पर भ्रमण करता है ? ॥ ३ ॥ उत्तर मेह नियासी और दक्षिण मेह नियासियों को दिन रात्रि विपर्यय से क्यों होता है ? और क्यों उन का अहोरात्र सूर्य के १२ रात्रियों के भ्रमण के समान है ? ॥ ४ ॥ चन्द्रलोक नियासी का हमारे एक महीने के वरावर एक अहोरात्र, मनुष्यों का ६० घण्ठी का अहोरात्र होता है। इन प्रत्येक के दिन रात्रि एक से क्यों नहीं होते भिन्न २ क्यों हैं ? ॥ ५ ॥ दिन, वर्ष, मास और “होरा” इन के अधिपति भिन्न २ क्यों हैं? यहगण किस के आश्रय से ठहरे हुवे अपने २ भग्नणों को पूरा करते हैं ? ॥ ६ ॥ पृथिवी से यह, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रका को कक्षायें कितनी दूर ऊपर की हैं ? इन में एक कक्षा से दूसरी कक्षा का अन्तर (फासला) क्या है ? परिमाण क्या है ? (परिधि, व्यास आदि) और ये किस प्रकार स्थित हैं ? (पहिले कौन यह, तदनन्तर कौन इत्यादि ऋम ) ॥ ७ ॥ ग्रीष्मऋतु में सूर्य की किरणों की प्रखरता, हेमन्त में किरणों की मन्दता, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं सब ऋतुओं में सूर्य की किरणें समान होतीं ? सूर्य की किरणों की प्रखरता, मन्दता आदि जानने के क्या २ नियम हैं ? और मान (साधन नाक्षत्र आदि अ० १ में जो कहे गये हैं) कितने और ये कौन कौन से हैं, उन प्रत्येक का क्या २ छवीजन है ? ॥ ८ ॥

एतं भे संशयं छिद्धि भगवन्भूतभावन । अन्योन त्वामृते  
 छेत्ता विद्यते सर्वदर्शिवान् ॥ ९ ॥ इति भक्त्योदितं श्रुत्वा  
 मयोक्तं वाक्यमस्यहि । रहस्यं परमाध्यायं ततः प्राह पुनः  
 स तम् ॥ १० ॥ शृणु पैकमनाभूत्वा गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।  
 प्रवद्याम्यतिभक्तानां नादेयं विद्यते मम ॥ ११ ॥ वासु-  
 देवः परं ब्रह्म तन्मूर्त्तिः पुरुषः परः । अव्यक्तो निर्गणः  
 शान्तः पञ्चविंशात्परोऽव्ययः ॥ १२ ॥ ग्रन्थ्यन्तर्गतो  
 देवो वहिरन्तरश्च सर्वगः । सङ्करणोऽयं सृष्ट्यादौ तासु  
 वीर्यमवास्तजत् ॥ १३ ॥ तदण्डमभवद्वैम् सर्वत्र तमसा  
 चृतम् । तत्रानिरुद्धुः प्रथमं व्यक्तीभूतः सनातनः ॥ १४ ॥

भाषानुवाद-हे भगवन् ! आप मेरे पूर्वोक्त सन्देहों को दूर कीजिये । आप ज्योतिष शास्त्र के सब विषयों को जानते हैं और आप को सब विषय उपस्थित ( याद ) हैं । इस घारण मेरे लिये आप के अतिरिक्त दूसरा संशय का दूर करने याला नहीं है ॥ ८ ॥ इस प्रकार भक्ति भाव से कहे हुये गयासुर के वचनों को सुनकर सूर्योंश पुरुष पुनः १२ धां अध्याय परम रहस्य कहने लगा ॥ १० ॥ अचला तो परम रहस्य अध्यात्मज्ञान कहता हूं एकाग्र चित्त ही सुनो । ऐसा कोई पदार्थ नेरे पास नहीं जो मैं तुम्हारे सदृश अपने अतिभक्त को न कह सकूँ वा न देकूँ ॥ ११ ॥ वाष्पदेव ( जिस में सम्पूर्ण घराघर जगत् नियात करता है ) परमप्रह्ल उस ही का भाष्मान्तर, परम पुरुष, अठयक्ष, निर्गुण, शास्त्र, अठवय और ६५ प्रकृत्यादि ( १ प्रकृति, २ महत्, ३ अहङ्कार, ४ रूप, ५ रस, ६ गन्ध, ७ स्पर्श, ८ शब्द, ९ ब्राह्म, १० पाणि, ११ पाद, १२ गुदा, १३ उपस्थ, १४ नेत्र, १५ जिहा, १६ नाक, १७ ल्पचा, १८ कान, १९ मन, २० एथियो, २१ जल, २२ तेज, २३ वायु, २४ आकाश, २५ जीव ) से भिन्न है ॥ १२ ॥ जगत् के उपादानरूप ग्रन्थि के बाहर और भीतर अर्थात् सर्वत्र व्यापक सङ्कूर्पण ( द्वंश्वर ) ने सृष्टि की आदि ( कल्प की आदि में, क्योंकि सृष्टि तो प्रवाह से अनादि है ) पहिले जल का रथा और उस में अपनी शक्ति विशेष को निष्ठेप किया ॥ १३ ॥ यह जल शक्ति विशेष में निलकर अन्यकार से घिरा हुया सोने के अङ्गे की नाई होगया । उस में प्रथम स्नावन अनिरुद्ध ( विराद् ) प्रकट हुये ॥ १४ ॥

हिरण्यगर्भाभगवानेपञ्चतन्दसि पठते । आदित्यो ह्यां-  
दिभूतत्वात्प्रसूत्या सूर्यउच्यते ॥ १५ ॥ परं ज्योतिस्त्वम्-  
पारे सूर्योऽयं सवित्तेति च । पर्यति भुवनान्येप भाव-  
यन्मूतभावनः ॥ १६ ॥ म्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्येप  
विश्रुतः । ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्युक्ता मूर्त्तिर्यजूंपि  
च ॥ १७ ॥ त्रयीमयोऽयं भगवान्कालात्मा कालकृद्विभुः ।  
सर्वात्मा सर्वगः सूक्ष्मः सर्वमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ १८ ॥

रथे विश्वमये चक्रं कृत्वा संवत्सरात्मकम् । उन्द्रोऽस्यश्वाः  
सप्त युक्ताः पर्यटत्येप सर्वदा ॥ १६ ॥

भाषानुवाद-वेद में उक्त परमेश्वर के नाम हिरण्यगम्भीर, सृष्टि की आदिमें  
प्रकट होने से आदित्य और सृष्टि के निमित्त सूत्तम व्रह्मस्वरूप से स्थूल (वि-  
राटस्वरूप) होने के कारण सूर्य कहे गये हैं ॥ १५ ॥ उक्तगुणविशिष्ट अग्निरुद्ध  
ही परम ज्योतिष्मान् सविता अर्थात् समस्त सूर्यादि प्रकाशकों का भी प्रकाशक  
है और अन्यकार को नाश कर (प्रलयावस्थाकृपी अन्यकार) भूतज्ञावन ज्यो-  
तिःस्वरूप परमात्मा सब भुयनों ( व्रह्माण्डों ) में व्यापक हो रहे हैं ॥ १६ ॥  
प्रकाशस्वरूप तिमिरनाशक महान् इत्यादि नामों से वह जगदीश्वर प्रसिद्ध है ।  
उस प्रकाशस्वरूप ईश्वर का ऋग्वेद भगवालहूप है, सामवेद किरण हूप है और  
यजुर्वेद भानो उस की मूर्ति है, इस प्रकार वेदत्रयात्मक वह भगवान् काल  
स्वरूप, काल का कर्ता, अणिमादि गुण युक्त, सर्वात्मा, सर्वंग, और सूहम होने  
पर भी इस में सब जगत् अस्तित्व है ॥ १७ । १८ ॥ वह कालात्मा परमेश्वर,  
व्रह्माण्डकृपी रूप पर, वर्पंरूपीं चक्र द्वारा, वेद के ३ उन्द्र स्वरूप ( गायत्री,  
वर्णिकू, अनुष्टुप्, वृहती, पञ्चि, त्रिष्टुप्, जगतीं, ये सात उन्द्र हैं ) घोड़ों  
को बनाकर, निरन्तर व्यापक हो रहा है ( सब लोक लोकान्तरों को छला  
रहा है ) ॥ १९ ॥

त्रिपादममृतं गुह्यं पादोऽयं प्रकटोऽभवत् । सोऽहंकारं  
जगत्सृष्टौ व्रह्माणमसृजत्प्रभुः ॥ २० ॥ तस्मै वेदान्वरान्  
दत्त्वा सर्वलोकपितामहम् । प्रतिष्ठाप्यागडमध्येऽथ स्वयं  
पर्यंति भावयन् ॥ २१ ॥ अथ सृष्टयां मनश्चक्रे व्रह्माह-  
कारमूर्तिभृत् । मनसश्चन्द्रमा जड़ी सूर्योऽक्षणोस्तेजसां  
निधिः ॥ २२ ॥ मनसः खंततोवायुरग्निरापोधरा क्रमात् ।  
गुणैकवृद्धा पञ्चैव महाभूतानि जड़िरे ॥ २३ ॥ । अग्नी-  
पोमौ भानुचन्द्रौ चतस्त्वङ्गारकादयः । तेजोभूखाम्बु-  
वातेभ्यः क्रमशः पञ्च जड़िरे ॥ २४ ॥ । पुनर्द्वादशधात्मानं  
विभजद्राशिसंज्ञकम् । नक्षत्रस्त्रियः सप्तविंशत्यात्मकं

वर्णी ॥ २५ ॥ ततप्रस्तुराचरं विश्वं निर्ममे देवपूर्वकम् ।  
जर्जर्वमध्याधरेभ्योऽथ स्त्रोतोभ्यः प्रकृतीः सृजन् ॥ २६ ॥ गुण-  
कर्मविभागेन सृष्टा प्राग्वदनुक्रमात् । विभागं कल्पया-  
मास यथास्वं वेददर्शनात् ॥ २७ ॥

भाषानुवाद- वेदात्मा परमात्मा के तीन पाद स्वैर्व छिपे रहते हैं, अतुर्धं पाद में ही यह जगत् प्रकट है, उस अनिहृद ने अपना स्थूल स्वरूप, सृष्टि का ने के सभय ब्रह्मा नामधारी होकर वेदानुकूल स्त्रीषु फरने के लिये प्रथम अहङ्कार स्वरूप (ब्रह्मा की) उत्पत्ति की । और स्थूल स्वरूप से येद के अनु-कूल सृष्टि करने लगा, और सम्पूर्ण जगत् के रचयिता हैं ने से पितामह नाम से प्रसिद्ध होकर ब्रह्माण्ड में व्यापक हो रहा है ॥ २० ॥ २१ ॥ तथ अह-ङ्काररूप ब्रह्मा के मन से चन्द्रमा और नेत्र से तेजोनिधि सूर्य को उत्पन्न किया ॥ २२ ॥ पुनः मन से आकाश, पुनः वायु, अग्नि, जल और पृथिवी एक पृक गुण की ब्रह्मिका पांचों महाभूतों को उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ प्रकाशात्मा होने से सूर्य अग्नि स्वरूप, चन्द्रमा जलरूप को रच कर पुनः तेज से महूल, पृथिवी से शुध, आकाश से द्विष्टपति, जल से शुक्र, और वायु से शनि इन पांच ग्रहों को उत्पन्न किया ॥ २४ ॥ पुनः वर्णी (ब्रह्मा) ने अपनी इच्छा से १२ विभागत्वक राशि चक्र और २७ नक्षत्रादिक की सृष्टि कियी ॥ २५ ॥ तदनन्तर उत्तम, मध्यम, निकट ग्रिगुणात्मक क्रम से देव, मनुष्य, असुर और घराचर विश्व को निर्माण किया ॥ २६ ॥ पुनः ब्रह्मा ने गुण (सत्, रज्, तम्) और कर्म (पूर्व जन्मार्जित ) के अनुसार वेदोऽस्त्रीति से सृष्टि करके विभाग किया व जगत् का विभाग किया ॥ २७ ॥

ग्रहनक्षत्रताराणां भूमेर्विश्वस्य वा विभुः । देवासुरमनु-  
प्याणां सिद्धानां च यथाक्रमम् ॥ २८ ॥ ब्रह्माण्डमेत-  
सुपिरं तत्रेदं भूर्भुवादिकम् ! कटाहद्वितयस्येव सम्पुटं  
गोलकाकृति ॥ २९ ॥ ब्रह्माण्डमध्ये परिधिव्योमकक्ष-  
भिधीयते । तन्मध्ये भ्रमणं भानामधोऽथः क्रमशस्तथा

॥ ३० ।/ मन्दामरेज्यभूपत्रसूर्यशुक्रेन्दुजन्दवः । परिभ्रम-  
न्त्यधोऽधस्थाः सिद्धविद्याधरा घनाः॥३१॥ मध्ये समन्ता-  
दगडस्य भूगोलोव्योन्नितिष्ठति । विभाणः परमां शक्तिं  
ब्रह्मणो धारणात्मिकाम्॥३२॥ तदन्तरपुटाः सप्तनागासुर  
समाप्तयाः । दिव्योपरिसीपेता रम्याः पातालभूमयः ३३

भाषानुवाद—यह, नक्षत्र, तारा, पृथिवी, देय, अमुर, मनुष्य, मिठु इन के  
स्थानों का विभाग किया अर्थात् इन प्रत्येक की संस्था को क्रम से विभाग  
किया ॥ २८ ॥ पूर्वोक्त ब्रह्मारण में भूर्भुवादि ( भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जन-  
लोक, महलोक, सत्यलोक, तपोलोक) लोक अवस्थित हैं : यह ब्रह्मारण दी  
कटाह जोडने से जैसा गोलाकार होता है, इस प्रकार का है अर्थात् गो-  
खाकार है ॥ २९ ॥ ब्रह्मारण में परिधि का नाम आकाश कक्षा है । उस में  
सब से कूपर राशि चक्र, उस के नीचे शनि, उस के नीचे दृहस्पति, उस के  
नीचे मङ्गल, उस के नीचे सूर्य, उस के नीचे शुक्र, उस के नीचे शुध, उस के  
नीचे चन्द्रमा भ्रमण करता है । उस के नीचे सिद्ध विद्याधरगण के घूमने  
का मार्ग भन्नरिष्ट है और सब से नीचे मेघ भरहल है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ब्रह्म  
की धारणात्मिका परमाशक्ति के कूपर यह भूगोल अरण (ब्रह्मारण) के दीर्घ,  
आकाश में भ्रमण करता हुआ अवस्थित है ॥ ३२ ॥ उस भूगोल के भीतर नाग  
और अमुर आदि मनुष्य विशेष के निवास को ३ पाताल है ( अतल, वितल,  
कुतल, तल, तथातल, रसातल, पाताल) जिन में अनेक प्रकार स्वप्रकाशयुक्त  
रमणीक ओषधि हैं ॥ ३३ ॥

अनेकरत्ननिचयो जाम्बूनदमयोगिरिः । भूगोलमध्यगो  
मेरुभयत्र विनिर्गतः ॥ ३४ ॥ उपरिष्टात्मित्यतास्तस्य  
सेन्द्रा देवा महर्षयः । अधस्तादसुरास्तद्वहद्विपन्तोऽन्यो-  
न्यमाप्तिताः ॥ ३५ ॥ ततः समन्तात्परिधिः क्रमेणायं महा-  
र्णवः । मेरुलेव स्थितोधात्र्या देवासुरविभागकृत् ॥ ३६ ॥  
समन्तान्मेरुमध्यात्तुतुल्यभागोपुतोयधेः । द्वीपेषु दिक्षु

पूर्वादिनगर्यो देवनिर्मिताः ॥३७॥ भूवृत्तपादे पूर्वस्यां  
यमकोटीति विश्रुता । भद्राश्ववर्पं नगरी स्वर्णप्राकार-  
तोरणा ॥३८॥ याम्यायां भारते वर्षे लङ्घा तस्मिन्महापुरो ।  
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकस्या प्रकीर्तिता ॥ ३९ ॥

भाषानुवाद-भूगोल के बीच और दीनों उत्तर दक्षिण से मेरु के बीच स्थानमय नामा प्रकार के रूपों से भरा हुआ मेरु नामक पर्वत है ॥३४॥ उत्तर मेरु के पास इन्द्रादि देवता और महर्यिगण वास करते हैं, एवं दक्षिण मेरु के निकट अषुरगण अवस्थित हैं । परस्पर को नीचस्थ समाजते हुवे दूसरी दिशा में ठहरे हुवे हैं ॥३५॥ उस दखाकार मेरु दरड की ओर से और यह नहा समुद्र है, जो कम से भूगोल में भेलाला की नाईं ग्रस्ता ने देवता और अमुरों के स्थानों के विभाग करने वाला पदार्थ रखा है । उस समुद्र के उत्तर भूगोल का आधा भाग भारतवर्षल्पी देवभूमि है ( आयों के रहने का स्थान ) और उस समुद्र के दक्षिण भूगोल के आधे भाग में छः द्वीप और छः समुद्र अमुरों के रहने का स्थान हैं ॥३६॥ दयालाकार मेरु के मध्य प्रदेश से घेरा रूप समुद्र की ओर दिशाओं में समविभागात्मक देवनिर्मित धार पुरी है ॥ ३७ ॥ भूवृत्त ( ५५८ योजन ) चतुर्धाश परिमाण व्यवधान में पूर्व की ओर भद्राश्व वर्ष है । उस में यमकोटि नामक पुरी है, जो सौने की भीत और तोरणों से ढेरी हुई है और भूवृत्त के चतुर्धाश योजन परिमाण व्यवधान में दक्षिण में ज्ञारतवर्ष है । उस के भध्य में लङ्घा नामक भहापुरी है और भूवृत्त के चतुर्धाश योजन परिमाण व्यवधान में पश्चिम में केतुमाल वर्ष है । उस में री-भक्त नामक नगरी है ॥ ३८ ॥

उदकसिद्धपुरी नाम कुहवर्षे प्रकीर्तिता । तस्यां सिद्धा  
महात्मानो निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ४० ॥ भूवृत्तपादवि-  
वरास्ताश्वान्योन्यं प्रतिष्ठिताः । ताभ्यश्वोत्तरगो मेरुस्ता-  
वानेव सुराश्वयः ॥४१॥ तासामुपरिगोयातिविष्ववत्स्यो  
दिवाकरः । न तासु विष्ववच्छाया नाक्षस्योद्वतिरिष्यते  
॥४२॥ मेरोरुभयतो मध्ये ध्रुवतारे नभःस्थिते । निरक्ष-

दशसंस्थानामुभये क्षितिजात्रये ॥४३॥ अतो नाक्षोच्छ्रय-  
स्तासु प्रुवयोः क्षितिजस्थयोः । नवतिर्लम्बकांशास्तु मेरा-  
वक्षांशकास्तथा ॥४४॥ मे पादौ देवभागस्थे देवानां याति  
दर्शनम् । असुराणां तुलादौ तु सूर्यस्तद्भागसञ्चुरः ॥४५॥

भाषानुवाद-उत्तरभाग में कुरुवर्ष में सिद्ध पुरी नामक नगरी है, वहाँ  
सिद्ध महात्मा लोग सब फटों से रहित होकर सुरपूर्यंक वास करते हैं ॥४६॥  
पूर्वोक्त नगरी सब परस्पर भूवत के चतुर्थ अंश के योजन परिमित अन्तर पर  
अवस्थित हैं। एवं इन नगरियों के समान अन्तर पर उत्तर मेरु है। जहाँ के  
निवासियों की देवसज्जा है ॥४७॥ पूर्वोक्त नगरियों के ऊपर जब सूर्य दीखता है  
वही विषुवत् दृष्ट है। जब सूर्य विषुवदृतस्य होता है तौ वहाँ विषुवच्छाया  
(पलभा) और अक्षोक्ति (अक्षप्रुव की) नहीं होती ॥४८॥ दोनों मेरु  
के भव्य आकाश में प्रुवतारा अवस्थित हैं। निरक्षदेशस्य (पूर्वोक्त नगर  
स्थित) मनुष्यों की उत्तर और दक्षिण क्षितिज दृष्ट में दोनों प्रुवतारा हैं  
॥४९॥ इस लिये दोनों (प्रुवतारा) क्षितिज दृष्ट में प्रुवीच्छय (उक्ति)  
नहीं है। दोनों प्रुव त्रितिज दृष्ट में हैं। इस कारण वहाँ का लम्बकांश ९०  
और मेरु का अक्षांश ९० है ॥५०॥ जब सूर्य निवासियों (मेरु, दृष्ट, निषुन, कर्कट,  
चिंह, कन्या इन छः राशियों की उत्तर गोलाहुं संज्ञा है) अर्धात् उत्तरमेरु  
प्रदेश में दीखता है तौ उत्तर मेरुनिवासियों को छः भास पर्वत दृश्य होता  
है और जब तुलादि (तुला, वृश्चिक, धनु, चक्र, कुम्भ, मीन इन छः राशियों  
की दक्षिण गोलाहुं संज्ञा है) राशियों में सूर्य दीखता है तौ दक्षिण मेरुवा-  
सियों को छः भास तक सूर्य दृश्य होता है ॥५१॥

विवरण-यद्यपि सिद्धान्त प्रथमें भूगोल का विशेष वर्णन करना प्रकरण  
विरहु है, तथापि जितने अश से गणित का अस्वभ्य है उतने का वर्णन क-  
रना आवश्यक है। हमारे संस्कृत चन्दों में प्रायः “सप्तद्वीपा षष्ठ्यमती”  
चत्पादि लिखा है। अर्धात् चात्र द्वीप और जब उत्तर । परन्तु द्वीप शब्द से  
लोग “आइस्लैण्ड” (Island) समझते हैं, सो ठीक नहीं। क्योंकि यदि हमारे  
ऋग्वियों को द्वीप शब्द से आइस्लैण्ड अभीष्ट होता सो भारतवर्ष की द्वीप में  
गणना न करते। इस से द्वीपशब्द से पेनेन्सिला (Peninsula) अर्धात् जिसके

दो और पानी हो । (द्वयोः आपांयस्य) इस से भाषुनिक सात विभाग से टीक  
मिलता है । दो अमेरिका, युरोप, एशिया, आफ्रिका, ओशिनीआ और  
आस्ट्रेलिया ये सात विभाग हैं ॥

संस्कृत-१ जन्मद्वीप, २ यक्षद्वीप, ३ श लमलीद्वीप, ४ कुशद्वीप, ५ कौश-  
द्वीप, ६ शाकद्वीप, ७ पुष्करद्वीप । अब जन्मद्वीप के नव स्तर हैं ॥

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| १ नाभि वर्ष ( भारतवर्ष ) समुद्र के | ४ इलावृत्त वर्ष |
| उत्तर और हिमालय के दक्षिण "आ-      | ५ रम्यक वर्ष    |
| र्याधर्म" देश है । जो राजा भरत के  | ६ हिरण्यक वर्ष  |
| समय से भारतवर्ष कहलाया ॥           | ७ कुरुवर्ष      |
| २ किम्पुरुष वर्ष                   | ८ भद्राश्ववर्ष  |
| ३ हरिवर्ष                          | ९ केतुमालवर्ष   |

"अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्मे तीव्रकरा रवेः । देवभागे सु-  
राणां तु हेमन्ते मन्दतान्यथा ॥ ४६ ॥ देवासुरा विपुवाति  
क्षिदिजस्यं दिवाकरम् । पश्यन्त्यन्योन्यमेतेपां वामसव्ये  
दिनक्षपे ॥ ४७ ॥ मेपादावुदितः सूर्यखीन्दीशीनुद-  
गुत्तरम् । सञ्चुरन्प्रागहर्मध्यं पूरयेन्मेरुवासिनाम् ॥ ४८ ॥  
कर्कादीन्सञ्चुरस्तद्वद्वः पश्चार्धमेव सः । तुलादीखीन्मृ-  
गादीश्च तद्वदेव सुरद्विपाम् ॥ ४९ ॥ अतोदिनक्षपे तेपा-  
मन्योन्यं हि विपर्ययात् । अहोरात्रप्रमाणं च भानोर्भ-  
गणपूरणात् ॥ ५० ॥ दिनक्षपार्धमेतेपामयनान्ते विप-  
र्ययात् । उपर्यात्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः ॥ ५१ ॥

भाषानुवाद-इसी कारण ( पूर्वोक्त म्रकार गूर्ष के उत्तरायण, दक्षिणायन  
होने से ) सूर्य जब ग्रीष्मऋतु में देवभाग में निकटतर ( दूसरे की अपेक्षा )  
होता है तो वहाँ इस की किरणों की प्रत्यक्षता से गरमी अधिक होती और  
उस समय अमुरमाण ( दक्षिणमेल ) में गरमी की न्यूनता और शीत की वृद्धि  
होती है । एवं हेमन्त ऋतु में सूर्य देवभाग से दूर और अमुरमाण के निकटतर

## मूर्यसिद्धान्त भाषानुवाद

११०

होता है तो उस समय देवभाग में सूर्य की किरणों की मन्दता और शीत की घट्टि होती है और असुरभाग में सूर्य की किरणों की प्रवरत्ता और शीत की मन्दता होती है ॥ ४६ ॥ जिस समय सूर्ये विपुष्ट रेखा पर होता है उस समय उत्तर मेरुनिवासी एव दक्षिण मेरुनिवासी सूर्ये की दक्षिण रेखा में देखते हैं । इस प्रकार सूर्ये के उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण परस्पर देव और असुरों के दिन राशि विपर्यय से ( यर झङ्कस ) होते हैं । अर्थात् सूर्ये जब उत्तरायण होता है तो देवों का दिन और उस समय असुरों की रात्रि, एवं सूर्ये जब दक्षिणायन होता है तो देवों की रात्रि और असुरों का दिन होता है ॥ ४७ ॥ उत्तर मेरुनिवासियों के भाग में जब सूर्ये सेष, विषुव राशिस्थ होता है तो इन का पूर्वार्ध दिन (प्रातःकाल से ज्याहू तक) होता और उस समय असुरों की आधीरात ( सायद्वाल से आधीरात तक ) होती और जब कर्क, सिंह, कन्या इन तीन राशियों में होता है तो देवभाग में अपराह्न ( दिन का पिछला आधा ) होता और उस समय असुरभाग में विछली आधीरात (आधी रात से भीर के पहिले तक) होती है । इसी प्रकार जब सूर्ये तुला, वृश्चिक, धनु इन तीन राशियों में होता है तो असुरभाग में दिन का पूर्वार्ध और देवभाग में आधीरात होती है और जब सूर्ये मकर, कुम्भ, मीन इन तीन राशियों में होता है तो असुरभाग में अपराह्न और देवभाग में पिछली आधी रात होती है ॥४८॥ यूर्वोक्तकारण से देव और असुरों का परस्पर अहोरात्र ( दिन रात ) विपर्यय से होता है । सूर्ये के भग्नकाल का पूरा होना ही इन दोनों का एक अहोरात्र होता है ॥ ४९ ॥ सूर्ये के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण देवता और असुरों का दिवाहूँ और रात्र्यद्वं विपर्यय से होता है अर्थात् जब देवों का दिनाहूँ तथा असुरों की आधीरात होती है । देव और असुरगण निज २ स्थान को एक दूसरे की अपेक्षा क्षेत्र समांसे हैं, अर्थात् देवगण असुरों को अपने से नीचस्थ और इसी प्रकार असुरगण देवों को अपने से नीचस्थ समझते हैं ॥ ५१ ॥

**अन्येऽपि समसूत्रस्था मन्यन्तेऽधः परस्परम् । भद्राश्व-  
केतुमालस्था लङ्कासिद्धपुराश्रिताः ॥ ५२ ॥ सर्वत्रैव मही-  
गोले स्वस्थानमुपरि स्थितम् । मन्यन्ते खे यतो गोलस्त-**

स्य क्वोऽर्थं क्ववाप्यधः ॥ ५३ ॥ अल्पकायतया लोकाः  
 स्यस्थानात्सर्वतोमुखम् । पश्यन्ति वृत्तामप्येतां चक्रा-  
 कारां वसुन्धराम् ॥ ५४ ॥ सर्वं भग्निं देवानामपसंवयं  
 सुरद्विपाम् । उपरिष्ठाहभगोलोऽर्थं व्यक्ते पश्चान्मुखाः स-  
 दा॥५५॥ अतस्तत्र दिनं त्रिशत्रादिकं शर्वरो तथा । हानि-  
 वृद्धी सदा वामं सुरासुरविभागयोः ॥ ५६ ॥ मेषादौ तु  
 सदा वृद्धरुदगुच्छरतोऽधिका । देवांशे च क्षपाहानिर्वि-  
 परीतं तथासुरे ॥ ५७ ॥ तुलादौ द्युनिशोर्वामं क्षयवृद्धी  
 तयोरुभे । देशक्रान्तिवशान्तित्यं तद्विज्ञानं परोदितम् ॥ ५८ ॥

यद्हि होती है ॥ ५६ ॥ सूर्यं जब मेपादि अर्थात् भेष, शृण, निशुन, कर्क, सिंह, कन्या इन छः राशियों में उत्तरायण में होता है तो उत्तर भेषप्रदेश में दिन की यद्हि और रात्रि की यद्हि होती है। और उस अनुरभाग में इस के विपरीत होता है अर्थात् दिन का ह्रास और रात्रि की यद्हि होती है। इसी प्रकार जब सूर्यं तुलादि अर्थात् तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन इन छः राशियों में होता है तब अनुरभाग में दिन की यद्हि और रात्रि की हानि होती है और देवभाग में दिन की हानि एवं रात्रि की यद्हि होती है। क्षय और यद्हि ( दिन+रात्रि की ) सूर्यं की क्रान्ति के कारण होती है जिस के विषय में अथ २ में कहा जा चुका है ॥ ५७ । ५८ ॥

भूवृत्तं क्रान्तिभागद्वं भगणांशविभाजितम् । अवाप्त-  
योजनैरकोद्यक्षाद्यात्युपरिस्थितः ॥ ५८ ॥ परमापकमा-  
देवं योजनानि विशेषध्येत् । भूवृत्तपादाच्छेषाणि या-  
नि स्युर्योजनानि तैः ॥ ५९ ॥ अयनान्ते विलोमेन देवा-  
सुरविभागयोः । नाडीपष्ट्या सकृदहर्निशाप्यस्मिन्सकृ-  
त्तथा ॥ ६० ॥ तदन्तरेऽपि पष्ट्यन्ते क्षयवृद्धी अहर्निं-  
शोः । परतो विपरीतोऽयुः भगोलः परिवर्तते ॥ ६१ ॥ ऊने  
भूवृत्तपादे तु द्विज्यापक्रमयोजनैः । धनुर्मृगस्थः सविता  
देवभागे न दृश्यते ॥ ६२ ॥ तथा चाऽसुरभागे तु मिथुने  
कर्कटे स्थितः । नष्टच्छायामहीवृत्तपादे दर्शनमादिशेत्वद् ॥

भाषानुवाद-भूवृत्त ( ५८-५९ ) को सूर्यं की क्रान्ति से गुणा कर गुणनकल को ३६० से भाग दे, भागफल योजन संख्या निरक्ष देश से उत्तरे योजन दूर स्थित स्थान में सूर्यं भव्याहू के समय स्थानकोपरि होगा ॥ ५८ ॥ सूर्यं की परम क्रान्ति ( २४ अंश परिमित ) के योजन को भूवृत्त ( ५७-५८ ) के चौथे भागसे घटाने पर शेष योजन संख्या रहती है। निरक्षदेश से उत्तरे दूर दक्षिण और उत्तरप्रदेश में विपरीत भाष्य से ६० घड़ी का दिन और रात होता है अर्थात् अपनान्त। जब मकरराशिस्थ सूर्यं उत्तरभाग में होता है उस समय देव-

भाग में ६० घड़ी की रात एवं अमुरभाग में ६० घड़ी का दिन होता है और जब कई राशिस्थ सूर्य होता है तब निरक्ष देश से उत्तर उतने योजनान्तरित देश में ६० घड़ी का दिन एवं दक्षिणभाग में ६० घड़ी की रात्रि होती है ॥६०॥ ६१॥ निरक्ष देश में पूर्वोक्त रीति से जितनी दूर उत्तर और दक्षिण प्रदेश में ६० घड़ी में हानि और वृद्धि कही गयी हैं उस के अनुसार वहां दिन रात होते हैं परन्तु निरक्ष के दक्षिण और उत्तर उक्त अवधि से आगे के देशों में यह भूगोल गणित के बिन्हु भ्रमण करता है इस लिये उस से परे के देशों में दिन रात्रि की हास वृद्धि नहीं कही गई ॥ ६२॥ दो राशि की ज्या के कान्ति के अंश के भूष्यत् (५४५) से घटाये शेष कल योजन निरक्ष देश से उत्तर उतने दूर प्रदेश में, धनु और भक्त राशि का सूर्य देशों को नहीं दीखता अर्थात् उन की रात्रि रहती और निरक्षदेश से दक्षिण प्रदेश में उक्त योजन दूर पर निषुन और कई राशि का सूर्य अमुरों को नहीं दीखता अर्थात् उन की रात्रि रहती है। जिस स्थान में एविवी की छाया नहीं है वहां सूर्य का दर्शन होता अर्थात् दिन होता है और एविवी के दृष्टि के चतुर्थांश में सौदेव सूर्य दर्शन कहना चाहिये ॥ ६३॥ ६४॥

एकज्यापकमानीतैर्यीजनैः परिवर्जितैः । भूमिकक्षा  
चतुर्थांशी व्यक्षाच्छेष्यैस्तु योजनैः ॥ ६५॥ धनुर्मृगालिकु-  
म्भेषु सांस्यितोऽर्को न दृश्यते । देवभागेऽसुराणां तु वृथाद्ये  
भचतुष्टये ॥ ६६॥ मेरौ मेपादिचक्रार्धे देवाः पश्यन्ति  
भास्तकरम् । सङ्कदेवोदितं तद्वद्वासुराश्च तुलादिगम् ॥६७॥  
भूमण्डलात्पञ्चदशे भागे दैवेऽथवासुरे । उपरिष्टात्  
व्रजत्यर्कः सौम्ययाम्यायनान्तरः ॥ ६८॥ तदन्तररात्-  
योश्चाया याम्योदक् सम्भवत्यपि । मेरोरभिमुखं  
याति परतः स्वविभागयोः ॥ ६९॥ भद्राश्वीपरिगः कु-  
र्याद् भास्ते तूदयं रविः । रात्र्यर्धं केतुमाले तु कुरावस्त-  
मयं तदा ॥७०॥ भारतादिषु वर्षेषु तद्वदेव परिभ्रमन् ।  
मध्योदयार्धरात्र्यस्तकालात्कुर्यात्प्रदक्षिणम् ॥ ७१॥

भाषानुवाद—एक राशि की व्या के क्रान्ति अंश के योजन से भूवृत्त के चतुर्यांश योजन के घटाने पर शेष योजन संरक्षा होगी । उत्तरी दूर निरक्ष देश के उत्तर भाग में वृद्धिक, धनु, मकर, कुम्भ, राशि स्थित सूर्य तत्रत्य लोगों (देवताओं) को नहीं दीखता । और निरक्षदेश से दक्षिणभाग में उत्तर योजन अन्तर में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशिस्थ सूर्य असुरों को नहीं दीखता । और उत्तर मेह निवासियों को वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह इन राशियों में स्थित सूर्य देवों को दीखता है । एवं वृद्धिक, धनु, मकर, कुम्भ राशि में अवरिधत सूर्य असुरों को दीखता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ उत्तर मेह निवासियों को भेषादि (भेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या) चक्रार्धगत सूर्य एक वार उदय हुआ छः महीने तक दूरश्य होता है और दक्षिण मेरु निवासियों को तु-८ लादि (तुला, वृद्धिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन) अपर चक्रार्धगत सूर्य एक वार उदय हुआ छः मास तक दीखता है ॥ ६७ ॥ निरक्ष देश से भूवृत्त के १५ भाग (अंश) दूर उत्तर प्रदेश में— (उत्तर योजन परिमित अन्तर पर) उत्तरायण में देवभाग में सूर्य मस्तकोपरि दीखता है और १५ अंश परिमित योजन अन्तर पर दक्षिणायनसूर्य असुरभाग में मस्तक के ऊपर दीखता है ॥ ६८ ॥ निरक्ष देश से १५ अंश योजन परिमित अन्तर उत्तर और दक्षिण प्रदेश की अभीष्ट कालिक छाया दक्षिण या उत्तर होती है अर्थात् निरक्ष देश से १५ अंश योजन परिमित अन्तर में उत्तर देश में मध्याह्न नतांश दक्षिण रहने पर छाया उत्तर रहती है । नतांश उत्तर रहने पर छाया दक्षिण होती है । इसी प्रकार निरक्ष देश से १५ अंश योजन परिमित अन्तरदेश में सूर्य के उत्तरस्थ होने पर छाया दक्षिण और सूर्य के दक्षिणस्थ होने पर छाया उत्तर होगी और निरक्ष देश से १५ अंश योजन परिमित उत्तर और दक्षिण प्रदेश से जागे उत्तर और दक्षिण मेरु के सम्मुख छाया पड़ती है ॥ ६९ ॥ भारतवर्ष में जय सूर्य मस्तक के ऊपर होता है तो भारतवर्ष में मध्याह्न, केतुमाल में सूर्योदय, कुरुवर्ष में आधीरात और भद्राश्व वर्षमें सायंकाल होता है । जब केतुमालवर्ष में सूर्य मस्तक के ऊपर होता है तो केतुमाल में मध्याह्न, कुरुवर्ष में सूर्योदय, भद्राश्व वर्ष में आधीरात और भारतवर्ष में सायंकाल होता है और जब कुरुवर्ष में सूर्य मस्तक के ऊपर होता है तो कुरुवर्ष में मध्याह्न, भद्राश्ववर्ष में सूर्योदय, भारतवर्ष में आधीरात और केतुमाल वर्ष में सूर्यास्त

और शुक्र मध्य की कक्षा ४३३१५०० योजन है अर्थात् इस तीनों की कक्षा का परिमाण एक ही है ॥८३॥ चन्द्रल की कक्षा ८११६०० योजन, चन्द्रोत्तु की कक्षा ५३३८४४ योजन है ॥८४॥ वृहस्पति की कक्षा ५१३५५६४ योजन, चन्द्रमा के पात (राहु) की कक्षा ८०५७८८४ योजन है ॥८५॥ शनि की कक्षा १२७६६८५५ योजन । भवकक्षा २४८८००२ योजन है ॥ ८६ ॥ व्रह्मारथ की कक्षा १८५१२८०८८५००००० योजन है, इन का नव्य मूर्य की किरणों का विस्तार है ॥ ८७ ॥

**विवरण—**आकाश कक्षा जो लिखी है यह वास्तविक आकाश कक्षा नहीं, किन्तु यह कक्षा जानने के लिये आकाशकक्षा भान छर एक प्रकार की सहाया भान ली गई है । भास्कराचार्य ने भी ऐसा ही लिखा है -

**ग्रहापडमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योज-  
नानि । यावन्ति पूर्वैरिह तत्प्रमाणं प्रोक्तं खकक्षारथ्य-  
मिदं भतं नः ॥ ३ ॥ (सिं शिं कक्षाध्याय)**

अर्थात्-व्रह्मारथ की इतनी ही कक्षा है, यह ढीक नहीं । परन्तु पूर्यांचार्यां ने इस सहाया से प्रहारि कक्षा का परिमाण निश्चय किया है । पुनः -  
“कोटिद्वैर्नखनन्दपट्टकनखभू भूभृद्भुजहेन्दुभिज्योतिः  
शास्त्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः ।  
तदुव्रह्माप्णकटाहसम्पट्टतटे केचिजजग्वर्वष्टुनं, केचित्  
प्रोचुरदृश्यदृश्यकगिरिं पौराणिकाः सूरयः ॥ ६७ ॥

अर्थात्-उपोतिपथाच्चवित् परिवृत्तगण कहते हैं कि जाकाश की कक्षा की योजन सहाया १८७१२०८८८०००००००० । इस को कोई २ व्रह्मारथ कटाह के सम्पुटस्य वेष्टन समझते हैं । एव किसी २ पौराणिक का जनुभान है कि यह लोकालोक पर्वत का वेष्टन ( घेरा ) भाव है ॥ ६७ ॥

**इति भाषानुवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥**

## अथ त्रयोदशोऽध्यायः

अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नातः शुचिरलडूकृतः । सम्पूज्य  
भास्करं भक्त्वा यहान्भान्यथ गुह्यकान् ॥ १ ॥ पारम्प-  
र्योपदेशेन यथाज्ञानं गुरोर्मुखात् । आचार्यः शिष्यवी-  
धार्थं सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् ॥ २ ॥ भूभगोलस्य रचनां कुर्या-  
दाश्चर्यकारिणीम् । अभीष्टं पृथिवीगोलं कारयित्वा तु  
दारवम् ॥ ३ ॥ दण्डं तन्नध्यगं मेरोहभयत्र विनिर्ग-  
तम् । आधारकक्षाद्वितयं कक्षा वैपुवतो तथा ॥ ४ ॥ भग-  
णांशाङ्कुलैः कार्यादलितैस्तिस्त एव ताः । स्वाहोरात्रार्धक-  
र्णश्च तत्प्रमाणानुमानतः ॥ ५ ॥ क्रान्तिविक्षेपभागैश्च  
दलितैर्दक्षिणोत्तरैः । स्वैःस्वैरप्रकर्मस्ततो मे पादीनामप  
क्रमात् ॥ ६ ॥ कक्षाः प्रकल्पयेत्ताश्च कर्कादीनां विपर्ययात् ।  
तद्वत्तिस्तस्तुलादीनां मृगादीना विलोभतः ॥ ७ ॥

भाषानुवाद-एकान्त पवित्र (साङ्ग) स्थान में स्नानादि नित्यक्रिया कर  
धुम्रम होकर आचार्य (मूर्यांशपुहप) बखादिक पहनकर जूर्य और यहापि-  
ष्ठित नारायण को प्रणाम कर, शिष्य (नयासुर) को मुगमतया धोध के लिये  
प्रत्यक्ष करके जिस प्रकार गुहसुर से एवं परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया था, ज्योतिष के  
सब विषयों को मय को दिखलाया ॥ १ ॥ २ ॥ शिष्य को जलीजांति भूगोल  
एवं भगांल विषयक (पूर्वोक्त) ज्ञान हो । गणक को चाहिये कि किसी गोल  
विद्यावित् शिल्पस्त से अभीष्ट काठ का आदर्यकारी भूगोल और जगोल यन-  
वाये, उस भूगोल में दोनों ओर (दक्षिण उत्तर) निकला हुया भेल दण्ड  
आधार की दो कक्षा और दो विपुवदृष्टत की कक्षा बनाये ॥ ३ ॥ ४ ॥ स्वाहो-  
राश्राङ्कं फैर्ण परिमाण से उपास विभिष्ट तीम घृतों को रैंचे और प्रत्येक घृत

मेरी जस्ती साठ २ भाग चिह्न करे, कान्ति विक्षेपाश अद्वित दक्षिणी तर रेखा मेरी मेपादि के अपक्रम के अनुसार अपक्रमाश में उक्त तीनों वृत्तों को संयोग करावे, वे ही विपरीत भाष्य ( घर अवस ) से कफांदि की कक्षा होंगी। उसी प्रकार दक्षिण और भी तुलादि की तीन कक्षाओं को संयुक्त करे, वे ही विलोम ( उलटे क्रम ) से मकरादि की कक्षा होंगी ॥ ५ । ६ । ७ ॥

**याम्यगोलाश्रिताः कार्याः कक्षाधारादद्वयोरपि । याम्यो-**  
**दग्मोलसंस्थानां भानामभिजितस्तथा ॥ ८ ॥ सम्पर्णिणा-**  
**मगस्त्यस्य ब्रह्मादीनां च कल्पयेत् । भृत्ये वै पुवती कक्षा**  
**सर्वेषामेव सुंस्थिता ॥ ९ ॥ तदाधारयुतेऽर्थमध्यने वि-**  
**पुवदद्वयम् । विपुवत्स्थानतो भागैः स्फुटैर्भग्णसञ्चारात् ॥ १० ॥**  
**क्षेत्राण्येवमजादीनां तिर्यग्जयाभिः प्रकल्पयेत् । अय-**  
**नादयनं चैव कक्षा तिर्यक् तथापरा । ऋग्निसंज्ञा त-**  
**या सूर्यः सदा पर्यन्ति भासयन् ॥ ११ ॥ चन्द्राद्वाश्र्य स्वकैः**  
**पातैरपमण्डलमाश्रितैः । ततोऽपकृष्टादृश्यन्ते विक्षेपा-**  
**न्ते एव पक्रमात् ॥ १२ ॥ उद्यक्षितिजे लग्नमस्तं गच्छज्ञ त-**  
**द्वशात् । लङ्कोदयैर्यथा सिद्धुं स्वभूयोपरि मध्यमम् ॥ १३ ॥**

भाषानुवाद-उत्तर, दक्षिण गोलस्थित, अभिजित आदि नक्षत्रगण की कक्षा सब को आधारकक्षा के ऊपर संयुक्त करे। इसी प्रकार सम्पर्णि, अगस्त्य, ब्रह्मण्डपादि की कक्षा होंगी। सब के वीच के भाग में विपुवतीकक्षा रहेगी ॥ ८ । ९ ॥ विपुवती और भाषार कक्षा के संयोगस्थान से ऊपर के प्रदेश में दो अयन और दो विपुव का चिह्न करे, उस के बाद विपुव रेखा से राशि अन्तर में मेपादि १२ सेत्र तिर्यक निकृपण करे। एक अयन से दूसरा अयन तक तिर्यक कक्षा को “कान्तिकक्षा” कहते हैं। इसी कक्षा में सूर्य स्वमण फरते दीखता है। चन्द्रादि अपने पात से आकृष्ट होकर अन्य वृत्त में स्वमण करता है। उसी प्रकार आकृष्ट होकर अपने अपक्रम से विक्षेपात्र में दूश्य होता है। उद्यप वित्तिजसूत्र में उन के अश ही उद्य लाभ है। एव अला में भस्त लगत है ॥ १०-१३ ॥

मध्यक्षितिज्योर्मध्ये वा ज्यो सान्त्याभिधीयते । इन्या  
चरदलज्या च विषुवत्क्षेत्रिजान्तरम् ॥ १४ ॥ कृत्योपरि  
स्वक स्थानं मध्ये क्षितिजमण्डलम् ॥ १५ ॥ वस्तुच्छन्तं  
वहिश्चापि लोकालोकेन विष्टितम् । अमृतसावयोगेन  
कालभ्रमणसांधनेम् ॥ १६ ॥ तुङ्गवीजसमायुक्तं गोलय-  
न्त्रं प्रसाधयेत् । गोप्यमेतत्प्रकाशोक्तं सर्वगम्यं भवेदिह  
॥ १७ ॥ तस्माद्गुरुर्घटदेशेन रचयेदगोलमुत्तमम् । युगेयुगे  
समुच्छिन्ना रचनेयं विवस्तः ॥ १८ ॥ प्रसादात्कस्यचि-  
दभूयः ग्रादुर्भवति कामतः । कालसंसाधनार्थाय तथा  
यन्त्राणि साधयेत् । एकाकी योजयेदवीजं यन्त्रे विस्मय-  
कारिणि ॥ १९ ॥

ज्ञायोनुवाद- मध्य और क्षितिज के मध्य में जो ज्या है वही “अन्त्या”  
है । विषुवत् और क्षितिज के अन्तर को “ चरदलज्या” कहते हैं ॥१४॥ काल  
के अन्तर्ये हुवे चक्र भूगोल में अपने स्थान को सब से ऊपर के मध्य में क्षि-  
तिज भण्डले स्थिर करे ॥ १५ ॥ दूषान्त गोल के क्षितिज के बाहर वर्षे से  
ढक कर वस्तु के ऊपर छूतों को अड्डन करके जलमवाह से कालसाधन करे  
॥ १६ ॥ गणक को चाहिये कि पारे के साथ गोलयन्त्र को सिंह करे जिस में  
६० नात्रिक घटिकाओं से दूषान्त गोल भ्रमण करजावे । यह विषम विषय  
भली भालि प्रत्यक्षतया दिखलाने और स्पष्टतया कहने से तो सब को  
समझ में आयेगा ॥१७॥ इस लिये गुह के उपदेश से गणक दृष्टम गोल यन्त्रावे ।  
यह ( सावित्रविद्या ) युग २ में छुप्तमाय हो जाती है, परन्तु दैवत की रूपा  
से पुनः किन्हीं ऋषिद्वारा प्रकट होती है ॥ १८ ॥ कालसाधन के लिये स्थान  
इस यन्त्र के अविरिक्त अन्यान्य यन्त्र भी अच्छे शिलपज्ञ द्वारा यन्त्रावे और  
केवल एक पारा आवर्णकारी यन्त्रों में सिलवावे ॥ १९ ॥

शहूयप्रिधनुश्चकैश्चायायन्त्रैरनेकधा । गुरुर्घटदेशाद्विजेयं  
कालज्ञानमृतनिन्द्रितः ॥ २० ॥ तोययन्त्रकपालादौर्मयूर-

नरवानरैः। ससूत्ररेणुगर्भैश्च सम्यक्कालं प्रसाधयेत्॥२१॥  
 पारदाशाम्बुसूत्राणि शुल्वतैलजलानि च। वीजानि पांस-  
 वस्तेपु प्रयोगात्तेऽपि दुर्लभाः ॥ २२ ॥ तास्पात्रमध-  
 शिछद्रं न्यस्तं कुन्देऽमलाम्भसि । पष्टिर्मज्जत्यहोरात्रे  
 स्फुटं यन्त्रं कपालकम् ॥२३॥ नरयन्त्रं तथा साधु दिवा  
 च विमले रवौ । छायासंसाधनैः प्रोक्तं कालसाधनमुत्त-  
 मम् ॥ २४ ॥ ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्त्वतः ।  
 ग्रहलोकमवाप्नोति पर्यायेणात्मवाद्वरः ॥ २५ ॥

इति ज्योतिपोपनिपदध्यायख्योदशः ॥ १३ ॥

भाषानुवाद-निष्पक्षण तथा खमरहित गुह के उपदेश से गणक को चा-  
 हिये कि शहू, यटि, धनु, चक्र और अनेक प्रकार के छायायन्त्र द्वारा काल-  
 साधन करे अर्थात् कालज्ञान करे ॥ २० ॥ कपालादि जलयन्त्र, मधूर नामक  
 स्वयंबहू यन्त्र, शकुनामक नर या छायायन्त्र, या नरनामक स्वयंबहू यन्त्र  
 अनाये और मधूरनामक स्वयंबहू यन्त्र में इस प्रकार निपुणता से बालु भरे  
 जिस में कम २ से ६० घड़ी में सब बालु गिरजाये ॥२१॥ पूर्वोक्त यन्त्र तथा पारे  
 ते मिलाहुवा जलयन्त्र, मूत्र, गिल्प का निपुणता, तेल मिलाहुवा जल, पारा,  
 बालू इम सब का प्रयोग करना (सर्वसाधारण के लिये) ध्वनि कर्तिन है ॥२२॥  
 निमेल बछु भरे हुये माटी के घड़े में एक तामे का बना हुवा कटोरा जिस  
 के नीचे छेद हो, रखें, यह कपालकनामकयन्त्र अहंरात्र में साठ बार झल में  
 छवेगा ॥ २३ ॥ दिन में जब बादलरहित भाकाश स्वच्छ हो उस समय सूर्य  
 के आतप में छायाद्वारा काल जानने के लिये नरयन्त्र (१२ अगुल ) साधन  
 करे ॥ २४ ॥ यह नक्षत्रादि चरित (स्थित्यादि) भूगोल और खगोल को भली  
 प्रांति जानकर मनुष्य यहादि लोकों को यथावत् जानलेता है और आत्म-  
 ज्ञानी होजाता है (जिस से सोक होता है) ॥ २५ ॥

इति भाषानुवादे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

## अथ चतुर्दशोऽध्यायः

ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्रं प्राजापत्यं गुरोस्तथा । सौर-  
ज्ञ सावनञ्चान्द्रसाक्षे मानानि वै नव ॥ १ ॥ चतुर्भिर्वर्य-  
वहारोऽत्र सौरचान्द्रकर्त्ससावनैः । वार्हस्पत्येन पष्ठव्यं  
ज्ञेयं नान्यैस्तु नित्यशः ॥ २ ॥ सौरेण द्युनिशीर्मानं पठ-  
शीतिसुखानि च । अयनं विषुवज्ञैव संक्रान्तेः पुण्यका-  
लता ॥ ३ ॥ तुलादिपठशीत्यहां पठशीतिसुखं क्रमात् ।  
तच्चतुष्टयमेव स्याद् द्विस्वभावेषु राशिषु ॥ ४ ॥ पठविंशे  
धनुषो भागे द्वाविंशे निमिपस्य च । मिथनाष्टादशे भागे  
कन्यायास्तु चतुर्दशः ॥ ५ ॥ ततः शेषाणि कन्याया या-  
न्यहानि तु पोडश । क्रतुभिस्तानि तुल्यानि पितॄणां  
दत्तमक्षयम् ॥ ६ ॥

भाषानुवाद-कालनान नी प्रकार के हैं-ब्राह्म, दैव, पित्र, प्राजापत्य,  
बाहंस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र और नाशन जान हैं ॥ १ ॥ उन में से लोक में  
प्रायः चार भानों का नित्य प्रयोजन पड़ता है ये ये हैं-सौर, चान्द्र, नाशनिक  
और भावन । ६० वर्ष के ज्ञान के लिये वृहस्पतिमान का प्रयोजन है ता है ।  
एवं शेष ब्राह्म, दैव, पित्र, प्राजापत्य इन का प्रयोजन नहीं होता, परन्तु  
फभी २ होता है ॥ २ ॥ अहोरात्र का यज्ञमाल, यज्ञशीति सुख आदि, ( सं-  
क्रान्ति विशेष ) अयन, ( उत्तराशण, दक्षिणाशण ) विषुवत् और सक्रान्ति की  
पुण्यकालता ये सब सीरमान से निर्णात होते हैं ॥ ३ ॥ तुलादि राशि के  
जाम्भ से ८६ सौर दिन में यज्ञशीति सुख नाम की संक्रान्ति होती है । यह  
फन से चार द्विस्वभाव वाली राशियों में होती है ॥ ४ ॥ पृथम यज्ञशीति सुख  
भनुराशि के दूसरे अंश में, दूसरा सीनराशि के २२ अंश में, तीसरा मिथुनराशि  
के १२ अंश में, चौथा कन्याराशि के १५ अंश में होता है ॥ ५ ॥ फन्याराशि के  
अष्टमि १६ अंश ( अर्धात् १४ अंश तो यज्ञशीतिसुख शेष १६ अंश ) यज्ञकार्य  
के लिये अच्छा है । इस समय पितॄगण के लिये दिव्य हुया अस्त्र इहता है ॥ ६ ॥

विवरण-शा० ६ इस सनय के दान की प्रथं सापरक खवन की उपरात्त  
समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा लिहा है जीर न यह सिद्धान्त ज्ञानिर-  
का विषय है । पञ्चसिद्धान्तिका की टीका में भी महामहोपाध्याय य० सुधाकर

ि, वेदी जी उसी विषय पर लिखते हैं कि “तुला आदियंसा सातुलादि कन्या नसा पहशीतिसुरेषु ये दिवसा योहशायशेषा । सन्ति ते पितृदिवसास्त्रं पि-  
णा दत्तमक्षय सादित्पत्रं प्राचीनयचनान्येव प्रभाणानीति” अधांस् उक्त पितृ-  
दिवस में दान देने से अक्षय होता है इस की कोई उत्पत्ति नहीं इस में  
प्राचीन वचन ही प्रभाण है ॥

भचक्ननाभौ विपुवद्वितयंसभसूत्रगम् । अयनद्वितयं चैव  
चतस्रः प्रथितास्तु ताः ॥ ७ ॥ तदन्तरेषु संक्रान्तिद्वितयं  
द्वितयं पुनः । नैरन्तर्यात्तु संक्रान्तेऽर्जयं विष्णुपदोद्वयम्  
॥ ८ ॥ भानोर्मकरसंक्रान्तेः पण्मासा उत्तरायणम् । क-  
र्कादेश्तु तथैव स्यात्पण्मासा दक्षिणायनम् ॥ ९ ॥ द्वि-  
राशिनाथात्रृतवस्ततोऽपि शिशिराद्यः । मेषादयोद्वा-  
दशैते मासास्तैरेव बत्सरः ॥ १० ॥ अर्कमानकलाः पञ्चाणा  
गुणिताभुक्तिभाजिताः । तदर्घनाद्यः संक्रान्तेरर्वाक्पु-  
रयं तथापरे ॥ ११ ॥ अर्काद्विनिःसृतः प्राचीं यद्यात्य-  
हरह शशी । तच्चान्द्रमानमंशैस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथिः ॥

भाषानुवाद—नक्षत्रचक्र की जाति ( बीच ) में दो विपुवत ( मेष और  
तुला ) विन्दु ( चिह्न ) चन्द्रमूत्रग ( बराबर ) हैं और उसी प्रकार दो अयन  
( मकर अयनान्त कफट अयनान्त ) भी हैं । ये चार विभिन्न चादा मसिद्ध हैं ॥ ७ ॥  
पूर्वोक्त दोनों विपुव अयन में निरन्तर दो सक्रान्ति होती हैं और जो चार  
सक्रान्ति उन के पीछे होती हैं उन को विष्णुपदो कहते हैं ॥ ८ ॥ ( शेष स-  
क्रान्ति का नाम पहशीति है ) भूर्ये के मकर ( मकर, कुम्भ, भीन, सेष, शूष्य,  
मिषुन ये छ राशि ) सक्रान्ति के पीछे छ सौर मास की उत्तरायण सज्जा है  
और कर्कट की सक्रान्ति ( कर्कट सिंह कन्या, तुला, वृद्धिक, धन, छ राशि )  
के पीछे छ सौरमास की दक्षिणायन सज्जा है ॥ ९ ॥ मकर सक्रान्ति के पीछे सूर्य  
के दो इश्य भग काल की शिशिरादि ऋतुसज्जा होती है और इस प्रकार  
१२ महीनों का वय होता है ॥ १० ॥ शूष्यमिष्यमास की कला को ६० मे गुणा  
फर गुणन फल मे सूर्य की दैनिकमुक्ति से भाग देवे भागफल कलादि का  
आपार परिमित समय सक्रान्तिकाल में पटाने वा जोड़ने से जो विषोगफल  
और योगफल दृष्टि से समय होगे उस का अन्तर ( मध्य ) अतिप्रयगद होता है  
॥ ११ ॥ शूष्ये का साथ जोड़ फर प्रतिदिन चन्द्रमा पूर्वदिधा में जाता है, उस

के लिये सूर्य से १२ अश जाने को जितना समय लगता है उतने समय की एक तिथि जड़ा है ॥ १२ ॥

**तिथिः करणमुद्वाहः क्षौरं सर्वक्रियास्तथा । ब्रतोपवा-**  
**सयात्राणां क्रिया चान्द्रेण गृह्यते ॥ १३ ॥ त्रिंशता तिथि-**  
**भिर्मासश्चान्द्रः पित्र्यमहः स्मृतम् । निशा च मासपक्षा-**  
**न्ती तयोर्मध्ये विभागतः ॥ १४ ॥ भचक्रभ्रमणं नित्यं ना-**  
**क्षत्रं दिनमुच्यते । नक्षत्रनान्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्त-**  
**योगतः ॥ १५ ॥ कार्त्तिक्यादिपु संयोगे कृत्तिकादिद्वयं**  
**द्वयम् । अन्त्योपान्त्यौ पञ्चमश्च त्रिधा मासत्रयं स्मृतम्**  
**॥ १६ ॥ वैशाखादिपु कृष्णे च योगः पञ्चदशे तिथौ ।**  
**कार्त्तिकादीनि वर्षाणि गुरोरस्तोदयात्तथा ॥ १७ ॥ उद-**  
**यादुदयं भानोः सावनं तत्प्रकीर्तितम् । सावनानि स्युरे-**  
**तेन यज्ञकालविधिस्त तैः ॥ १८ ॥**

भाषानुवाद-तिथि, करणे (अ० २ देखो) यिवाह क्षौरादि (चौल क्षमे) ब्रत, उपवास (किसी यज्ञ या वैदिक स्वस्कार तित्ति) यात्रा (कही जाना, उस की तारीख मालूम करना) ये सब चान्द्रमास होता हैं ॥ १३ ॥ १० चान्द्र दिन का एक चान्द्रमास होता है । एव इसी को पित्र्य अहोरात्र भी कहते हैं । चान्द्रमास दो प्रकार का होता है । एक अमावास्या से अ भावास्यर तक । दूसरा पूर्णमासी से पूर्णमासी तक । पहिले को अमान्त और दूसरे को पूर्णिमान्त चान्द्रमास कहते हैं । चान्द्रमास से १५ दिन का पित्र्य दिन और १५ दिन की पित्र्य रात्रि होती है ॥ १४ ॥ वैनिक नक्षत्रब्रक के अष्टमफाल का नात्तिक अहोरात्र होता है, और पूर्णमासी के अन्त में ज्यो मक्षत्र होता है उसी के नाम से भहीने का नाम होता है ॥ १५ ॥ कार्त्तिकादि चाच की पूर्णमासी से दो २ नक्षत्रों में एक एक चाच होता है, परन्तु आरिवन, भाद्रपद और फालगुन इन तीन मासों में तीन २ नक्षत्र होते हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार वैशाखादि मास में पूर्णमासी की तिथि के नक्षत्र से नाम से भहीने का नाम होता है, उसी प्रकार दृहस्पति के अस्त और उद्य समय लहजपत्र की अमावास्या तिथि के नक्षत्र के नाम से घर्ष का नाम होता है ॥ १७ ॥ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के मध्यरातीं काल को 'सावन' दिन कहते हैं । इसी सायन मास से यज्ञकाल विधि निर्णीत होता है ॥ १८ ॥

सूतकादिपरिच्छेदो दिनभासाव्दपास्तथा । मध्यमा  
ग्रहभुक्तिस्तु सावनेनैव गृह्णते ॥१८॥ सुरासुराणामन्योन्य-  
महोरात्रं विपर्ययात् । यत्प्रोक्तं तद्भवेद्विव्यं भानीर्भ-  
गणपूरणात् ॥२०॥ मन्वन्तरव्यवस्था च प्राजापत्यमु-  
दाहतम् । न तत्र द्युनिशोर्भेदो ब्राह्मं कल्पः प्रकोत्ति-  
तम् ॥२१॥ एतत्ते परमास्व्यातं रहस्यं परमाद्भुतम् ।  
ब्रह्मैतत्परमं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥२२॥ दिव्यं  
चाक्षी ग्रहाणां च दर्शितं ज्ञानमुत्तमम् । विज्ञायाकांदि-  
लोकेषु स्थानं प्राप्नोति शास्त्रतम् ॥२३॥

भाषानुवाद-सूतक ( जन्म भरण सम्बन्धी ) जादि ( वैश्यकशास्त्र द्वारा  
रोगियों को उपचार कराने की, विधि चान्द्रायण ग्रन्त ) आशीष, दिन, भास  
और वर्ष के अधिपति (अ० २ देशो) यहाँ को दैनिक वा वार्षिक गति इन  
सभ का गणित सावनमास से होता है ॥१८॥ उत्तर मेह निवासी और दक्षिण  
मेह निवासियों का अहोरात्र विपरीतभाव से होता है (देशो अ० १२) और सूर्योंके  
भगण (१२रात्रि) पूर्ण कालकाही दिव्यदिनहोताहै ॥२०॥ मन्वन्तरकोठियवस्था पहिले  
कही जा चुकीहै (देशो अ०१) वही "प्रजापत्यमान" है इस में अन्यान्य जान की तरह  
दिनरात्रि का भेद नहीं और कल्प ही "ब्राह्म नान" है ॥२१॥ हे यथ । यह परम  
रहस्य ज्योतिष शास्त्र मेने कहा । खगोल विद्या होने से अन्यान्य विद्याओं  
से यह अद्भुत है । ज्योतिषसम्बन्धी अविद्यारूपी पापों का नाश करने वाला  
अतिपित्रि है, सानो ब्रह्म ही है । ( चुषिष्ठवन्धी यथावत् ज्ञान होने से  
ब्रह्म की प्राप्ति होती है) ॥२२॥ यह और नक्षत्रादिक आकाशस्य पदार्थसम्बन्धी  
उत्तम ज्ञान मेने तुम से फहा है । उप का यथावत् ज्ञानने से असुरतम सुख  
प्राप्त होता है । एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ॥२३॥

यहाँ न३ विं च आगे निष्ठालिखित २१ श्लोक किसी २ पुस्तक में पाये जाते  
हैं, जिन को रक्षानाय टीकाकार ने लिखा है कि मे श्लोक किसी घट ने प्रक्षिप्त  
किये हैं । हन भी भूषणात्र यापे देते हैं । यथा-

"यपा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्वेदाह्न-  
शास्त्राणां गणितं मृद्धनि स्थितम् ॥ ३ ॥ न वेयं तत् रुतभाय

वेदविष्णायकाय च । अर्थलुच्याय मूर्खाय साहंडकाराय पापिने ॥ २ ॥ एवंविधाय पुत्रायाप्यनेयं सहजाय च । इत्तन वेदमार्गेष्य समुद्घेदः कृतो भवेत् ॥ ३ ॥ ब्रजतामन्धतामिस्त्रं गुरुशिष्यौ सुदारुणम् । ततः शान्ताय शुचये व्राद्याणायैव दापयेत् ॥ ४ ॥ चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशाजः स्फुटः । कालेन दृक्समो न स्यात् ततो वीजक्षियोऽव्यते ॥ ५ ॥ राद्यादिरिन्दुरङ्गां भक्तो नक्षत्रहक्षया । शोषं नक्षत्रकथायास्त्वपञ्चेष्ठपक्योस्तयुः ॥ ६ ॥ यदत्पं तद्वजेन्द्रानां कक्षया तिथिनिष्टया । वीजं भागादिकं तत् स्यात् कारयेत् तद्वनं न्वौ ॥ ७ ॥ त्रिगुणं शोषयेदिन्दौ जिनश्च भूमिजे क्षिपेत् । द्वयमग्नामृणं जोड्ये खरामश्च गुरावृणम् ॥ ८ ॥ ऋणं व्योमनवश्च स्याद्वानवेज्याचलोऽशके । धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोऽव्यते ॥ ९ ॥ युग्मान्तोक्ताः परिधयो ये ते नित्यं परिष्फुटाः । ओजान्तोकास्तु तेजेयाः परवीजेन संस्कृताः ॥ १० ॥ विस निर्वीजकानोजपदान्ते वृत्तभागकान् । सूर्येन्द्रोमनवो दन्ता धृतितत्त्वकलोनिताः ॥ ११ ॥ वाणतर्का महीजस्य सौम्यस्या चलवाहवः । वाक्पतेरष्टनेत्राणि व्योमशीतांशावोभूगोः ॥ १२ ॥ शूर्यत्वोऽर्कपुत्रस्य वीजमेतेषु कारयेत् । वीजं खारन्यद्वृतं शोष्यं परिधयंशोषु भास्यतः ॥ १३ ॥ इनाप्तं योजयदिन्दौः कुजस्यादवहतं क्षिपेत् । विदश्वद्वहेतं याज्यं सूरेरिन्द्रहतं धनम् ॥ १४ ॥ धनं भूगोभूवा निष्टं रविष्ट शाधयेच्छुनः । एवं मान्दाः परिधयंशाःस्फुटाः स्युर्वदिस शोष्यकान् ॥ १५ ॥ भौमस्याधगुणाक्षीणि वुधस्याडिध-  
गुणेन्दवः । वाणाक्षा देवपूज्यस्य भार्गवस्यन्दुपद्यमाः ॥ १६ ॥ शनेऽचन्द्रावधयः शोष्या ओजान्ते वीजवर्जिताः । हिमं स्वं कुल-  
भगेषु वीजं द्विष्टमृणं विदः ॥ १७ ॥ भर्त्यपिष्टं पनं सूरेरिन्दुष्टं

शोधयेत् कवेः । चन्द्रमसृणमार्कस्य स्थुरेभिर्क्समा ग्रहाः ॥१८॥  
 एतद्वीजं मया ख्यातं प्रीत्यो परमयात्ततः । गोपनीयमिदं नित्यं  
 नोपदेश्यं यतस्ततः ॥ १९ ॥ परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय  
 साधवे । देवं विप्राय नान्यस्मै प्रतिकर्त्तुककारिणे ॥ २० ॥  
 वीजं निःशेषतिज्ञानतरहस्यं परमं स्फुटम् । यात्रापाणिग्रहादीना  
 कार्याणां शुभतिज्ञिदम् ॥ २१ ॥

इत्युक्त्वा मयमामन्त्र्य सम्यक् तेनांभिपूजितः । दिवमा-  
 चक्रमेऽर्कांशःप्रविवेश स्वमण्डलम् ॥ २४ ॥ मयोऽथ दिव्यं  
 तज्ज्ञानं ज्ञात्वा साक्षाद्विवस्वतः । कृतकृत्यमिवात्मानं  
 मेने निर्धूतकलमपम् ॥ २५ ॥ ज्ञात्वा तमृपयश्चाथ सूर्य-  
 लब्ध्यवरं मयम् । परिवन्नरुपेत्याथो ज्ञानं प्रच्छुराद-  
 रात् ॥ २६॥ स तेभ्यः प्रददौ प्रीतो ग्रहाणां चरितं महत् ।  
 अत्यद्भुततमं लोके रहस्यं ब्रह्मसम्मितम् ॥ २७ ॥

इति सूर्यसिद्धान्ते मानांध्यायश्रुतुर्दशः ॥ १४ ॥

**भाषानुवाद-**इस प्रकार भयासुर को सूर्यांश पुरुष अच्छे प्रकार उपोतिष  
 फा उपदेश कर अपने स्वर्गतुल्य सूर्यमण्डल में प्रवेश कर गया ॥२४॥ सूर्यांश  
 पुरुष के अन्तर्द्वान होने पर भयासुर ने सूर्यांश पुरुष से ज्ञान पाने पर भी  
 अपने को साक्षात् सूर्य ही से ज्ञान पाया जाना । इस विचार से पापरहित और  
 छतकार्य समझने लगा ॥ २५ ॥ सूर्य के वरदान से उपोतिष फा ज्ञानं भयासुर  
 को प्राप्त हुआ । ऐसी जनश्रुति सुन कर मुनिगण उस के पास आकर आदर-  
 सहित उपोतिषप्रसन्न होकर उन को उपोतिष फा ज्ञान ग्रहादिकों की स्थित्यादि  
 अंतिभ्रुत और रहस्य भानो मोक्षथारूपशक्तिपं का उपदेश किया ॥ २६ ॥

इति सूर्यसिद्धान्ते भाषानुवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥  
 समाप्तश्च सूर्यसिद्धान्तः ॥

## विशेष ध्यान देने वो बय बात

एष ६३ की ३३ वी पक्षि से २४वे एष्ट की प्रथम पक्षि तक जो विवरण लिहा गया है, उस की भव भावश्यकता नहीं रही, कारण यह है कि यन्त्र उपने के धूर्व मह विचार या कि अनुवाद के साथ उदाहरण और चित्र भी दिये जावें परन्तु अनेक कारणों से इस भावृत्ति में चित्र नहीं दिये गये द्वितीय भावृत्ति में भावश्यक चित्र और उदाहरण और ग्रन्तुदाहरण भी दिये जावेंगे।